



श्रीमद् बुद्धिसागरजी ग्रन्थमाला ग्रन्थांक ८

योगनिष्ठ मुनिराज श्री बुद्धिसागरजी कृत.

श्री परमरत्न दर्शन

जिज्ञासु सद्ग्रहस्थोनी सहायथी

छपावी प्रसिद्ध करनार,

श्रीअध्यात्मज्ञानप्रसारकमंजु.

श्री " लक्ष्मी " प्रिन्टिंग प्रेस—अमदावाद.

वीर सं. २४३६ सने १९१०

किम्मत ०-१२-०

बे बोल.

“ ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष ” ए मोक्षमार्गनुं दृष्टिबिंदु छे तथापि घणा जैनो तेना खरा रहस्यने नहि जाणतां एक तरफ वधु बल-णतो बीजा तरफ न्युन एटलुंज नहि पण अपेक्षा समजवाना ज्ञाननी स्वामीए घणी वखत डाबो हाथ जमणाने दबावे छे तेवी स्थिति जोवाय छे. आनुं कारण पूर्वाचार्योए द्रव्य गुण पर्याय आदीनुं जे सुक्ष्मज्ञान प्रकास्युं छे ते ज्ञानने समय अनुसारनां मनुष्यो समजी शके तेवी उत्तम शैलीथी सरळ भाषामां ग्रंथो तैयार करी जनसमाज आगळ जोइता प्रमाणमां रजु नहि थवानुं छे.

अमाहं चोकस मानवुं छे के जैनधर्मनां सिद्धांतो प्रमाण अने युक्तिओथी एवां तो प्रबळ अने न्याययुक्त छे के जेम जेम ते तत्वो वधु फेलावो पामशे तेम तेम प्राचिन दृष्टि वधु खीली नीकळशे, अने जैनधर्मनुं क्षेत्र बहोळं थशे.

आ माटे मात्र जैनोज नहि पण सर्वे लोकोना बोधार्थे जैनध-र्मनां पुस्तको रचाववाथी अने सारी रीते वंचाववाथी अन्य लोको पण जैनतत्वनो लाभ मेळवशे केमके जैनधर्म मात्र जैनो माटेज नथी. गमे ते ज्ञाति होय पण तेनां सिद्धांतो अनुसार वर्चन राखनार जैन होइ शके छे. आवी भाव उपकारनी दृष्टि ध्यानमां राखी, काळने अनुसरी, तथाप्रकारनो प्रयत्न करी परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद् बुद्धिसागरजीए आवा तत्वमय ग्रंथो रच्या छे जे पैकीनो आ “ परमात्मदर्शन ” ग्रंथ छे.

आ ग्रंथ अमे उपर जणाव्युं तेवा प्रकारनी स्वामीने दुर कर-नार छे, एम कहीए तो अतिस्योक्ति नहि कहेवाय.

आ ग्रंथमां बीजा अनेक विषयो साथे ज्ञान अने क्रिया बंनेनी प्रथास्थित साबीती करी बतावा छ केमके बंनेना संमेलन विना आत्मकल्याण दुर छे. षटद्रव्य, षटकारक, पंचसमवाय, नय निषेपा बीगेरेथी द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावने, अनुसरीने आ ग्रंथ लखायो

२

छे, जे अभ्यासीओने माटे आशिर्वादरूप छे. बलके आत्माभीमुख लड़ जनार छे. आखो ग्रंथ वांचनार पोतेज कबूल करशे के गुह्वर्य श्रीमद् बुद्धिसागरजीए आ प्रकारना प्रयासे करी जैनसमाज उपर महान उपकार कीधोछे. तेओनो आ रीते जैनकोम उपरज उपकार थाय छे, एम नहि पण तेओना ग्रंथोनी लेखन, अने काव्य शैली, एवी तो प्रेम उपजावनारी छे के सर्वे दर्शनवाळाओ तेओश्री रचीत ग्रंथो होंसथी वांचे छे एम अनुभव कडी आपे छे. एटहुंज नहि पण तेओश्रीनां भजनपदो तो तेओश्री ज्यां ज्यां विचर्या छे, त्यां त्यां कोइपण रीतना तफावत बिना हमेशना माटे गवातांज रहे छे. आथी अन्य दर्शनीओ पण जैनधर्मने जाणता अने प्रीति करता थया छे. आ थुं जनसमाज उपर जेवो तेवो उपकार छे ?

तेआश्री तरफना अंकुशना आधिने तेओश्री विषे हमारे जणाववुं जोइए छे ते जणावी शकता नथी, पण समाज तो कबूल करती जोवाय छे के, भेदाभेद अने मारामारीनी कोइपण चर्चांमां न उतरतां पोते अने अन्य जीवा पोताना आत्मानुं कल्याण कइ रीते करी शके तेज मार्ग तरफ तेओश्रीनुं प्रयाण छे अने ते दिवसे दिवसे चढतुं अने वधतुं जाय छे.

तेओश्रीना ग्रंथो संबंधी वधु विवेचनमां नथी उतरी शकता कारण तेओश्रीनुं मानवुं एम छे के दुनियां दर्पणरूपे वस्तुने वस्तुरूपे केम नहि जोइ शके ? (वेशक गुणानुं रागनी दृष्टि तेमां मुख्य भाग भजवे छे.) तेथी अमो तेवा प्रकारनी तजवीजमां न उतरतां तेओश्रीनी कृतिना ग्रंथो जेम बने तेम समाज आगळ सारा स्वरूपमां (ओडी किंमते) रजु करवा एज कर्त्तव्य सतजी आगळ वधीए छीए अने गुरु कृपाथी मंडळ पोताना नामे १ वर्षमां ११ पुस्तको बहार पाडी शक्युं छे.

आ रीते मंडळ आगळ वधवामां जे फतेह पाम्युं छे तेमां गुरुश्री उपरान्त मंडळने पुस्तको प्रगट करवाने द्रव्यनीमद्द करनारा गृहस्थोनोपण हिस्सोछे. जे अमो जणाववा चुकी जवुं योग्यधारतानथी.

अगाऊना ग्रंथोना सहायकोना नामो तेते ग्रंथो साथे मुंद्रित

3

थयेल छे. जेओ उररांत मजकुर “ परमात्मदर्शन ” ग्रंथने प्रगट करवामां नीचे मुजब सहाय मळी छे.

- १५०) शेट मोतीजी जेताजी पुनावाला नी विधवा बाइ नाजुबाइ
 ७५) शेट मोहनलाल ताराचंद. विजापुरवाळा.
 ५०) शेट रायचंद्रभाइ रवचंद. साणंदवाळा.
 ५०) शेट वाडीलाल मगनलाल. अमदावाद.
 ५१) शेट अमृतलाल केशवलाल वाढीसद्गत भाइ अमृत-
 लालना स्मणार्थे तेमनी मातुश्री चंचळ बहेने अमदावाद.
 ५०) बाइ हरकोरबहेन श्री अमदावाद.
 ३१) वकील मोहनलाल हेमचंद तेओना ची. भाइ सवाइ
 ना पुण्यार्थे. श्रीपादरा.
 २५) शेट हाथीभाइ मुलचंद. श्री माणसा.
 ३०) शेट माधवलाल अमथालाल. श्री माणसा.
 ३१) शेट मोहनलाल करमचंद अमदावाद.

आवी रीते सहाय करनाराओनो तथा बीजा मददगार ग्रह-
 स्थोनो मंडळ आभार माने छे. अने तेओने पोताना द्रव्यनो आ
 रीते सदुपयोग करवा माटे धन्यवाद आपे छे.

मंडळनो उद्देश उपर जणाव्युं तेम जनसमाजमां तेओश्री रचित
 पुस्तको वधु वंचाय ते माटे सस्ती किंमते प्रगट करवानो छे, ते
 बजावे जाय छे. ते समाज पण जोइ शकी छे के बीजी कोइपण
 संस्थाओ करतां मंडळ पुस्तकोनी घणीज ओळी किंमत राखे छे,
 ते पण बीजां पुस्तको प्रगट थवाने उपयोगार्थे तेमज थोडीपण किंमत
 आपी पुस्तक खरीदतां ते उपर बहु भाव रहे छे ते अर्थे.

मंडळ आशा राखे छे के गुरुवर्य पुस्तको तैयार करता रहे छे
 तेज प्रकारे प्रगट कराववाने सहायको वधता जशे.

छेवटमां ध्यान खेंचवाने रजा लइए छीए के मंडळ मारफते
 आ रीते पुस्तक प्रगट कराववाने जरूर विचारशो.

मुंभाइ चंपागली
 वीर संवत् २४३६
 पौस सुदी १०. गुरु

} ली.
 श्री अध्यात्मज्ञान प्रसारक मंडळ.

परमात्मदर्शनग्रंथः प्रस्तावना.

जगत्मां प्रत्येक मनुष्यो धर्मनुं आराधन करे छे. प्रत्येक मनुष्यो धर्मना माटे इच्छा राखे छे. प्रत्येक मनुष्योने अनंत सुख प्राप्त करवानी तीव्र जिज्ञासा वर्ते छे. जन्म, जरा, मरणना दुःख-मांथी बचाव थाय ते माटे प्रत्येक मनुष्यो बुद्धयनुसार उपायो शोधे छे. अमर थवुं ते माटे अनेक प्रकारनी शोधो करे छे, आवी अमूल्य शोध करवानी कोने जिज्ञासा नहि होय ? अलबत सर्वने होय छे. आवी शोध माटे ज्ञानदृष्टिनी जरूर छे अने ते पण सर्वज्ञ दृष्टि होवी जोइए. आवी सर्वज्ञ दृष्टिवाळा तीर्थकरो प्रथम थइ गया छे. आ क्षेत्रमां चरम तीर्थकर त्रिशलातनय श्री महावीरस्वामी २४३६ वर्ष उपर थइ गया छे. तेमणे केवलज्ञानथी सर्व पदार्थो जाण्या तथा देख्या. मनुष्यो नित्य सुख प्राप्त करे तथा जन्म जरा अने मृत्युना दुःखमांथी छूटे ते माटे तेओश्रीए आत्मज्ञान बताव्युं छे. सर्व प्रकारना जीव अने अजीव पदार्थोनुं स्वरूप बताव्युं छे. ज्ञानदर्शन अने चारित्ररूप मोक्ष मार्ग बताव्यो छे. नात जातनो भेद राख्या विना आत्मतत्त्वनी शक्तियो खीलववाना उपायो बताव्या छे. साधु धर्म अने गृहस्थ धर्म एम बे प्रकारना धर्म बताव्या छे. अमर थवाने माटे आत्मधर्मनुं यथार्थ स्वरूप बताव्युं छे. सम-वसरणमां बेसी देशनादेइ चतुर्विध संघनी स्थापना करी छे तेमना गणधरोए द्वादशांगीनी रचना करी, पश्चात् स्थविरोए उपांगनी रचना करी. तेमनी पाटे जे जे आचार्यो थया. गीतार्थो थया. तेओए प्रकरणो ग्रंथो आदिनी रचना करी. प्रत्येक आचार्योनी मुख्य उदेश जमानाने अनुसरी गमे ते भाषामां सहेलाइथी मनुष्यो तत्त्व मार्ग समजी शके तेवा ग्रंथो अने तेवा प्रकारनो उपदेक्ष आ-

(૫)

પશાનો હતો, તે રીતિને અનુસરી ઉમાસ્વાતિ વાચક, સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ, હરિભદ્રસૂરિ, શ્રી હેમચંદ્ર આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરિ, યશોવિજય ઉપાધ્યાય, આદિ ધર્મધુરંધર આચાર્યોં. અનેક મનુષ્યોના ઉપકારાર્થે. સંસ્કૃત ભાષામાં તથા માગધી પ્રાકૃતાદિ ભાષામાં ઉપદેશ દીધો છે તથા તેવા ગ્રંથો બનાવ્યા છે. પૂર્વોક્ત આચાર્યોના ગ્રંથો સૂત્રોની પેઠે માનનીય પૂજનીય ગણાય છે. શ્રી હેમચંદ્ર પશ્ચાત્ લોકોની સ્થિતિ વિદ્યા સંબંધી ઘટવા લાગી. લોકો માગધી અને સંસ્કૃતમાં પણ અલ્પ સમજવા લાગ્યા. ત્યારે આચાર્યોં જમાનાને અનુસરી ચાલતી ગુર્જર ભાષા આદિમાં રાસો વગેરે બનાવવા લાગ્યા સં ૧૩૨૭ ની સાલમાં સાત ક્ષેત્રનો રાસ બન્યો છે. આ સાત ક્ષેત્રનો ગુર્જર ભાષાનો રાસ છપાવી સિદ્ધ કર્યું છે કે જૈનોમાંથી ગુર્જર ભાષા મુખ્યતાં પ્રકાશી છે આ રાસ ભજન સંગ્રહ ચોથા ભાગમાં છપાવ્યો છે. તે પહેલાં પણ ગુર્જર ભાષામાં જૈનાચાર્યોં કાવ્ય લખ્યાં હોય એમ સંભવ થાય છે અને તે માટે શોધ ચાલે છે. પ્રથમ તો ગુર્જર ભાષામાં પદ્ય તરીકે રચના કરી ઉપદેશ આપ્યો પશ્ચાત્ ગદ્યમાં પણ ગ્રંથ બનાવી ઉપદેશ દેવા પ્રારંભ કર્યો. શ્રીવીરે મરુપેલાં તત્ત્વોનો સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, માગધી, ગુજરાતી, હિંદુસ્થાની વગેરે અનેક ભાષામાં હાલ અવતાર થઈને અનુભવાય છે. શ્રી વીરમધુ મુક્તિમાં ગયા તો પણ મંગાના પ્રવાહની પેઠે તેમની પાછળ તેમનો ઉપદેશો તત્ત્વમાર્ગ પુરુષ પરંપરા અલંકાર વહેવા લાગ્યો. હાલ પણ તે પ્રમાણે જોવામાં આવે છે.

સંસ્કૃત ભાષામાં તથા માગધી ભાષામાં હાલ ગ્રંથો બનાવવામાં આવે તો પ્રાયઃ દશ હજારમાં પાંચ માણસ પણ ભાગ્યેજ સમજી શકે. સંસ્કૃત તથા માગધીમાં બનાવેલા ગ્રંથોને પણ ગુર્જર ભાષામાં સમજાવવામાં આવે ત્યારેજ લોકોના સમજવામાં આવે ત્યારે ગુર્જર ભાષામાં ગ્રંથો બનાવવામાં આવે તો ઘણા લોકો સમજી શકે પ્રમ.

(૬)

કહેવું નિર્વિવાદ છે. ગુજરાતમાં રહેનાર પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ મહે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરે. ઇંગ્લીશ ભાષાનો અભ્યાસ કરે તોપણ ૨૪ કલાકો પૈકી સર્વ કલાકોમાં ગુર્જર ભાષામાં બોલીનેજ સર્વને પોતાનું કાર્ય કરવું પડે છે. માતૃભાષામાં જે ઉપદેશ આપવામાં આવે છે તે સહેજે સમજાય છે. આમ કહેવાથી કંઈ સંસ્કૃત અને માગધી ભાષાની હલકાઈ દેખાડવામાં આવતી નથી. કહેવાનું તાત્પર્યાર્થ એ છે કે ગુજરાતીઓને માટે ગુર્જર ભાષામાં લેખ લખી સમજાવવામાં આવે તો વિશેષ ઉપકાર થાય. આ ન્યાયને અનુસરી ગુર્જર ભાષામાં લેખ લખવો છે.

આત્મતત્ત્વ સંબંધી માન્યતા દરેક દર્શનવાળાઓની ભિન્ન ભિન્ન છે. આર્યભૂમિમાં જૈન, વેદ અને બૌદ્ધ આ ત્રણનાં પુસ્તકો વિશેષ જોવામાં આવે છે. મુસલમાન અને સ્ત્રીસ્તિ લોકોતો ડ્યારે આ દેશમાં આવ્યા ત્યારે તેમના ધર્મના પંથોનાં પુસ્તકો લેઈ આવ્યા. દરેક દર્શનવાળા ઈશ્વર, કર્મ અને આત્માદિ તત્ત્વો સંબંધી ભિન્ન ભિન્ન મત જણાવે છે. અને તે માટે પોતપોતાની યુક્તિયો જણાવે છે.

ષડ્દર્શનમાંથી કયું તત્ત્વ સ્વરૂપ છે. તે યુક્તિ અને પ્રમાણથી સમજી શકાય છે. શ્રી વીરપ્રભુએ આત્મ તત્ત્વ એવું સરસ બતાવ્યું છે કે તે માધ્યસ્થ અને જ્ઞાન દૃષ્ટિવાળાને સ્વચ્છા વિના રહે નહિ. દેવગુરુ અને ધર્મ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ દૃષ્ટિથી બતાવ્યું છે. આ ગ્રંથમાં શ્રીવીરપ્રભુએ કહેલું આત્મતત્ત્વ સૂત્રાનુસારે લખ્યું છે. જિનાગમોનું દોહન કરી દેવગુરુ ધર્મ તત્ત્વાદિનું યથાર્થ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમ આગ્રમાં સદ્ગુરુનું મંગલાચરણ કર્યું છે. પશ્ચાત્ ગુરુની કેવી શક્તિ છે તે જણાવવા પ્રદેશી રાજા અને કેશી કુમારનો સંવાદ દેખાડી આત્માની અસ્તિતા સિદ્ધ કરી છે. પશ્ચાત્ જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સંવાદ પ્રસંગાનુસારે જણાવ્યો છે. પશ્ચાત્ યોગ્ય અયોગ્ય શ્રોતાનાં લક્ષણ જણાવ્યાં છે. પશ્ચાત્ ૬૮ મા પાનાથી ષડ્દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. પશ્ચાત્ આત્મધર્મ મહત્તા દર્શાવી છે. પશ્ચાત્ આત્મ

(૭)

ધર્મની મહત્તા માટે ક્ષમા નિષ્કપટપણું આદિ સદ્ગુણોની જરૂરીયાત બતાવી છે. પશ્ચાત્ પત્ર ૧૨૩ માથી આત્માની શોધ કોઈ વિસ્તાર કરે છે તે સંબંધી એક વાદશાહ અને ફકીરની વાર્તા આપી. વાગનું દૃષ્ટાંત જણાવ્યું છે. પશ્ચાત્ પત્ર ૧૪૬ માથી મતિશ્રુત આદિ પંચજ્ઞાનનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે.

પશ્ચાત્ સાધુની આત્મધ્યાનાદિ ક્રિયા દર્શાવી છે. પશ્ચાત્ આત્મ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. પશ્ચાત્ અનુક્રમે પત્ર ૧૯૦ માથી ભવ્યાત્માદેશ દશ પ્રશ્ન સંબંધી વિચાર કરવો જોઈએ. તેનાં નામ જણાવી અનુક્રમે વર્ણન કર્યું છે. તે પ્રશ્નોના સાતમા પ્રશ્નના વિષયમાંજ પત્ર ૧૭૫ માથી કર્મરાજા અને ધર્મરાજાનું યુદ્ધ વર્ણન કર્યું છે. તે સ્થિર ચિત્તથી વાંચવાની જરૂર છે. પત્ર ૨૦૩ થી આઠમા પ્રશ્નનો વિષય શરૂ થાય છે તેનું પૂર્ણપ્રેમે મનન કરવું જોઈએ. પત્ર ૨૧૫ માથી નવમા પ્રશ્નનો વિષય શરૂ થાય છે. પત્ર ૨૩૧ માથી આત્મા, કર્મનો તથા ભોક્તા કેવી રીતે છે તેનું વર્ણન કર્યું છે. પશ્ચાત્ સિદ્ધસ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. પશ્ચાત્ પત્ર ૨૫૭ થી ईશ્વર જગત્ કર્તા નથી. તેમ સંબંધીનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. પશ્ચાત્ ષટ્સ્થાનકની સિદ્ધિ કરી બતાવી છે. આત્મસિદ્ધિ કરવામાં અનેક જિનાગમોના અનુસારે યુક્તિયો દર્શાવી છે. તે યુક્તિયોને જો મુખે કરવામાં આવે તો જૈન ધર્મ તત્ત્વોની પૂર્ણ શ્રદ્ધા થાય. આત્મા કર્મનો નાશ કરી અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરી અમર થાય છે તેજ મુખ્ય મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખી તેના ઉપાયો દર્શાવ્યા છે તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યોનું આ ગ્રંથ વાંચતાં કલ્યાણ થાય. એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. પરમાત્મદર્શન ગ્રંથ વાંચનાર અવશ્ય જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પામી મુક્તિમાર્ગ પામે છે. જે ભવ્ય જીવો હોય ત્તેને આ ગ્રંથમાં લખેલાં તત્ત્વોની શ્રદ્ધા થાય છે.

આ ગ્રંથના પ્રત્યેક પાનાના મુખપર મુખ્ય હેડીંગ છે તેથી વાંચનારને પ્રત્યેક વિષયની સરલતા થશે. આ ગ્રંથમાં છેલ્લા દુહા તથા ચોપાઈયોનો અર્થ લખ્યો નથી. પણ કોઈ ભક્ત પંડિત ગુરુષ્

(८)

अवशेष दुहा तथा चोपाइयो उपर अर्थ पुरशे तो धर्मलाभ प्राप्त करशे. समयना अभावे अवशेष दुहा आदि उपर विवेचन थयुं नथी. ते दुहाओ वगेरे सद्गुरुना पासे जे वांचशे ते विशेषतः अर्थ प्राप्त करी शकशे. जडवादियोनी सामे रक्षण तरीके आ ग्रन्थ उपयोगी थशे. आ ग्रन्थने माध्यस्थ दृष्टिची वांचशे. ते सद्गुण रागथी तेनो यथार्थ तत्त्व रहस्य मेळवी शकशे.

आ ग्रंथ मूळ तरीके-श्री लोदरा गाममां आरंभ्यो हतो त्यांथी मेसाणे जई त्यां सं. १९६० नुं चोमासु कर्युं. त्यां अशाड सुदी ५ ना रोज आ ग्रंथ पूर्ण कर्यो. पश्चात् तेज चोमासामां विवेचन जेटळुं लखायुं छे तेटळुं अत्र दाखल कर्युं छे: बाकीना दुहानुं विवेचन, कोई भक्त शिष्य पूर्ण करशे.

आ ग्रन्थमां जे कंड जिनाज्ञा विरुद्ध लखायुं होय ते संबंधी मिथ्यादुष्कृत हो. सज्जन दृष्टिची जे कोई आ ग्रन्थ वांचशे त्हेने अत्यंत लाभ प्राप्त थशे. ज्ञानिने आश्रवनां कारण ते संवररूपे परिणमेछे, अने अज्ञानिने संवरनां कारण ते आश्रवरूपे परिणमेछे तेम योग्य जीवने आ ग्रन्थ सम्यग्पणे परिणमशे. अने अयोग्य कुपात्र मत्सरी दुर्गुणग्राहीने आ ग्रन्थनुं वांचन, विपरीतपणे परिणमशे. तेमां तेनी दृष्टि तेज मुख्य कारणछे.

प्रत्येक भव्यजीवो आ ग्रन्थ वांची अध्यात्मस्वरूपमां रमणता करी परमात्म स्वरूप प्राप्त करो. परमार्थ प्रति सर्वनी रुचि थाओ. परमानंदने सर्व जीवो प्राप्त करो. सर्व जीवो मंगलमाला प्राप्त करो. एजथुभात्री:

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

मुकाम-अमदावाद-ज्ञवेरीवाडो.

संवत् १९६६ कार्तिक वदी ८

लि. शुनि. बुद्धिसागर.

आंबली पोळनो उपाश्रय.

॥ अथ परमात्मदर्शन ॥

पंचशती प्रारभ्यते.

श्री संखेश्वरपार्श्वनाथाय नमः

मंगलम्.

गुरु स्तुति, दुहा.

सुरतरु जंगम तीर्थरूप, सद्गुरु साचा देव;
त्रिकरण योगे तेहनी, जावे कीजे सेव. १

श्री सद्गुरुनी स्तुति कराय छे. अनादि काळथी जीव अज्ञान (अविद्या) थी बहिर् वस्तुमां आत्मपणाथी बुद्धि धारण करी अनंतशः दुःखराशि भोक्ता थयो अने बहिरात्मभावे परवस्तुने पोतानी मानी स्वस्वरूप भूल्यो एवा मूढ आ जीवने शुद्ध स्वरूप ओळखावनार श्री गुरुमहाराज सत्य देवरूपे छे. मिथ्यात्व अने समयकत्व स्वरूप समजावी शुद्ध मोक्षमार्ग योजक श्रीगुरुना समान बीजा देव नथी. मुक्ति रूप फळ देवामां श्रीगुरु कल्पवृक्ष छे. अन्य कल्पवृक्षो पौद्गळिक मुखदाता छे. अने गुरुरूप कल्पवृक्ष तो अनंत आत्मिक शाश्वत सुख समर्पे छे. जो के उपादान कारणरूप गुरु महाराज नथी तो पण उपादान कारणनी शुद्धिकारक तथा सहायभूत निमित्त कारणरूप श्रीगुरुराज छे, ए कल्पवृक्षनी प्राप्ति महा पुण्योदये थाय छे. गुरु जंगम तीर्थ छे, अन्यत्र के ज्यां श्री तीर्थकरादिनां कल्याणक थयां छे, ते तीर्थ स्थावर तरीके कहैजाय

(૨)

કેવી અને પ્રવેશીનો સંવાદ.

છે, તે તીર્થોની યાત્રા સેવા ભક્તિ કરવાથી સમ્યક્ત્વ નિર્મલ થાય છે. કિંતુ તે સ્થાવર તીર્થની શ્રદ્ધા ઓઢાલાણકારક પૃથ્વીતઢ ગમનકર્તા શ્રી સદ્ગુરુ પ્રત્યક્ષ મહાઉપકારી છે. યેનાલંબનેનજીવો । ભવાંભોધિંતરતીતિ તીર્થઃ જેના આલંબને જીવ સંસાર સમુદ્રને તરે છે તે તીર્થછે, શ્રી ગુરુ મહારાજના આલંબને જીવ સંસાર સમુદ્ર તરે છે, માટે ગુરુ તેજ તીર્થ છે, ગુરુરૂપ તીર્થની સેવાભક્તિ ઘટિતિ પ્રત્યક્ષ ફલદા છે. શ્રી ગુરુની વાણીરૂપ ગંગામાં જે સ્નાન કરે છે તે પોતે ઉપાર્જનકૃત કલમ્ષોને ગમાવે છે. ચક્રુનો વિશ્વમાનતાૃ પળ અન્ય પદાર્થોના નિરીક્ષણમાં સૂર્ય ચંદ્ર દીપકની જહર પડે છે. તેમ ભવ્યાત્માઓને પોતાનું આત્મિક શુદ્ધસ્વરૂપ અવલોકનાર્થે ગુરુ સૂર્ય સમાન છે તેથી તેની જહર પડે છે, વિશેષ ૃ છે કે, સૂર્ય અંતરનો પ્રકાશ કરી શકતો નથી. અને ગુરુ મહારાજ અંતરના પ્રકાશકારક છે. માટે આ સૂર્ય કરતાં પળ વિલક્ષણ અલૌકિક ગુરુરૂપ સૂર્ય છે, સૂર્યોક્ત સદ્ગુરુની ત્રિકરણયોગે અત્યંત ભાવે સેવા કરવી, સેવા કીર્તીૃ ૃ કહેવાથી ૃમ સૂચવ્યું કે જેને મુક્તિ પદની ઇચ્છા હોય તેને સદ્ગુરુનો બહુમાનથી વિનય કરવો. કારણ કે ધર્મનું મૂઢ વિનય છે. અને વિનય વિના ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને ધર્મની પ્રાપ્તિ ગુરુ વિના થાય નહીં માટે શ્રદ્ધા ભક્તિ બહુમાન પૂર્વક ગુરુરાજનો વિનય કરવો.

સુરતરુની ઉપમાથી સમજવું કે-ગુરુ અનંત આત્મધર્મના દાની છે.

આત્મધર્મનું દાન તે ભાવ અભયદાન છે. પંચધાદાન છે. ૧ અભયદાન, ૨ સુપાત્રદાન, ૩ અનુકંપાદાન, ૪ ઉચિતદાન, ૫ કીર્તિદાન, ૆ પાંચમાં મહાઉપકારક અભયદાન મુખ્ય છે, દ્વિધા અભયદાનં દ્રવ્યતો ભાવતશ્ચ. અભયદાન બે પ્રકારે છે. ૧ દ્રવ્ય અભયદાન. ૨ ભાવ અભયદાન. ૆કેંદ્રિયાદિથી તે પંચેન્દ્રિય પર્યંત જી-

परमात्मदर्शन.

(३)

बोना प्राणोनुं रक्षण करवुं तेमनो कोइ घात करतुं होय तो बचाववा तेने द्रव्य अभयदान कहे छे, दरेक जीवने जीववुं मिय लागे छे. कोइने मरण शरण थवुं मिय लागतुं नथी. कबुं छे के. मरण समो नाथि भयं; मरण समान कोइ भय नथी, माटे प्राणीओने कोइ मारतुं होय तो अनेकरित्या तेमनुं रक्षण करवुं. जीवनी दयायी जीव तीर्थकरनामकर्म उपार्जन करे छे, नरस्वर्गादि सुखसंपत्तिनो भोक्ता थाय छे. एक राजानी अणमानीती स्त्रीए चोरने फांसीनी शिक्षा थती अटकावी अने अन्य राणीओए लक्ष रुपैया खरची तेने मिष्टान्न जमाड्यां, किंतु चोरे अणमानीती स्त्रीनो अत्यंत उपकार मान्यो. अने तेणीए छोडाव्यो त्यारे सुखी थयो, श्री ज्ञान्तिनाथना जीवें पूर्व भवमां एक पारेवानो जीव बचाव्यो तेथी अत्यंत पुण्य उपार्जन कर्युं, तेम भव्यत्माओए प्रत्येक जीवोनी दया करवी, कोइ जीवनी हिंसा करवी नहीं, मिथ्यात्वे पाप बुद्धिरूप पिशाचिकाना प्रेर्या केटलाक जीवो मत्स्य अज पशुपंखीनां मांस भक्षण करे छे, मांस बेचे छे, मांस भक्षकनी अनुमोदना करे छे ते जीवो घोरकर्म ग्रही अति दारुण दुःखालय अधोगतिभाक् थाय छे अने आ भवमां पण कर्मोदये दुःखनी ज्ञाळमां फसाय छे, माटे मन बचन कायाए करी जीवनी हिंसा वर्जवी.

२ भावअभयदान—भव्य जीवात्माओने तेना शुद्ध गुणोनुं दान आपवुं तेने भाव अभयदान कहे छे तद्द्विविधं=भाव अभयदान बे प्रकारे छे. १. स्वभाव अभयदान २. परजीवधर्म अभयदान. पोतानो आत्मा असंख्यातप्रदेशी छे अने ते प्रदशो अरूपी छे, कोइ काले पण उत्पन्न थया नथी माटे अज छे, वर्तमान, भूत अने भविष्यत् कालमां प्रदशो जेवा छे तेवा ने तेवा रहे छे, माटे शाश्वता छे, ए असंख्यात आत्माना प्रदशो वाक्यस्य ब्रह्मा

(૭)

કેશી અને પ્રદેશીનો સંવાદ.

નથી, ગાઝ્યા ગઝતા નથી, એક પ્રદેશે આત્મા કહેવાય નહીં, બે પ્રદેશે આત્મા કહેવાય નહીં, અસંખ્યાત પ્રદેશમયી આત્મા કહેવાય છે, જટરૂપ પુદ્ગલ્યકી આત્માનું સ્વરૂપ ન્યારું છે, અનંતજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, इत्यादि આત્માના અનંત ગુણો છે, આત્માના એકેક પ્રદેશમાં અનંત ધર્મ રહ્યા છે, આત્મામાં અનંત સુખ અસ્તિભાવે રહ્યું છે.

કિંતુ અનાદિ કાલથી જીવ પોતાનાસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી પરવસ્તુમાં અર્હભાવ ધારણ કરી, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગથી પુદ્ગલ સ્કંધોને અષ્ટકર્મની વર્ગણા તરીકે પરિણમાવી વિચિત્ર શરીરોને ધારણ કરે છે, જીવની અનાદિકાલ મૂલ વસતિ નિગોદ છે, નિગોદના જીવ બે પ્રકારે છે. ૧ સૂક્ષ્મનિગોદ ૨ બાદરનિગોદ. અનંત જીવો વન્ને એક શરીર હોય છે અને ચતુર્દશ રજ્વાત્મક (ચંદ્રરાજ) લોકોને કાજલની કુંપલીની પેરે વ્યાપીને રહ્યા છે, તેને સૂક્ષ્મ નિગોદીયા જીવ કહે છે.

એ સૂક્ષ્મ નિગોદીયા જીવને મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને યોગ રહ્યા છે. સદાકાલ તે દુઃખના ભોક્તા છે. જળ પ્રકારનાં જે અજ્ઞાન છે, તેમાંથી એક પળ અજ્ઞાન ટલ્યું નથી, તેનામાં સમજવાની કંઈ પળ શક્તિ નથી. એ સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવોમાં કેટલાક ભવ્ય જીવો અને કેટલાક અભવ્યજીવો છે. સાધારણ વનસ્પતિનાં જીવોને બાદર નિગોદીયા જીવ જાણવા, દ્વિપ્રકારે નિગોદમાં અનંતજ્ઞાન, જન્મ મૃત્યુના ચક્રવેગે જીવ ભમ્યો, ત્યાંથી અધિતવ્યતાયોગે પૃથિવી, જલ, જ્વલન, વાયુ, પ્રત્યેક વનસ્પતિનાં શરીરો ધારણ કરી અવધ્રમણ કર્યું, પણ આત્મસ્વરૂપનો અવબોધ થયો નહીં. દાન એ જીવ વસ્તુ છે તેટલું પણ જાણવામાં આવ્યું નહીં અને તે કર્યું નહીં.

परमात्मदर्शन.

(५)

प्रश्न—जल सरोवरमां भर्युं होय छे त्यारे हजारो पशु पंखी मनुष्यादि तेमांथी जलपान करे छे, त्यारे जले पोतानुं दान बीजाना अर्थे थुं कर्तुं ना कहेवाय ?

उत्तर—अन्य जीवो जलपान करे छे ते पोतानी सत्ताथी करे छे, जलपान अन्य जीवो करे तेमां जलना जीवो राजी नथी, जलपान करवाथी जलना जीवोनो नाश्च थाय छे तेमां पोते राजी नथी, माटे ते दान कहेवाय नहीं. द्वीन्द्रियथी ते चतुरिन्द्रिय पर्यंत जीवो अभयदान पोते करी शकता नथी. पंचेन्द्रियना चार प्रकार छे. १ देवता. २ मनुष्य. ३ तिर्यक. अने ४ नारकी. भुवनपति, अंतर, ज्योतिष्क अने वैमानिक ए चार प्रकारना देवो द्रव्य तथा भाव अभयदान करी शके छे. सम्यक्त्वधारकदेवो समकितनी अपेक्षाए भाव अभयदान करी शके छे, कारणके समकित पामेला देवताओ पोताना आत्मानुं स्वरूप समजे छे, पोताना आत्माने पोताना समकित गुणनुं दान आपे छे तथा अन्यदेवो तथा मनुष्योने धर्मनी श्रद्धा करावे छे, माटे बीजाने भाव अभयदान अर्थे छे. सर्व जातना देवताओनो मिथ्यात्व गुणस्थानकथी ते समकित गुणस्थानकनी अंदरमां समावेश थाय छे. बहु देवताओ धर्मश्रेष्ठोने धर्ममां स्थिर करे छे, पण देवताओना करतां मनुष्यो अभयदानमां विशेष छे. कारणवे मनुष्यने वज्र (चतुर्दश) गुण स्थानक छे, जे दान पामवाथी आत्माने कोइनो भय रहे नहीं एवं भाव-अभयदान संपूर्ण मनुष्य पामेछे, अज्ञानी जीवने सत्यासत्यनी समजण पडती नथी तेने सद्गुरु त्रिजगद् दुःख दावानक भेष संपान धर्म देवनाथी आत्मस्वरूप समजावे छे, जड वस्तुनुं स्वरूप समजावे छे, देवगुरु धर्मनुं स्वरूप समजावे छे, नवतत्त्वनुं विशेष-सत्या स्वरूप समजावे छे, अने अज्ञानी जीवने समजावे छे के-

(૬).

કેશી અને પ્રદેશીનો સંવાદ.

અરે પુદ્ગલઝેંઠના બિશુક તારી ખૂંચ પુદ્ગલઝેંઠથી કદી ભાગવાની નથી, તું પરવસ્તુનું ગ્રહણ કરી સુખી થવાનો નથી. પોતાના ઘરમાં અનંત ધન છતાં કેમ પરગૃહે ખીંકા માગે છે. તારું ઘર ઓઢાંચ, તારો અલ્પ સ્વજાનો તારાથી દૂર નથી, પર પુદ્ગલ ચુંચતાં તને લજ્જા શું નથી આવતી ? તારી ઋદ્ધિ તારી અન્તર ભરી છે. અને તેના અજ્ઞાને તું દરિદ્રી થયો છો અનંત દુઃખને પામે છે, માટે તું તારા આત્માને તારી ઋદ્ધિનું દાન આપ, પરમાં કેમ ફાંફાં મારે છે ? હે પામર પ્રાણી ! તેં અસત્ વસ્તુને સત્ તરીકે જાણી, અને સત્ વસ્તુને અસત્ તરીકે જાણી તેથી ભ્રાંત થયો માટે હવે કાયા માયાથી તું ભિન્ન છે. તારું કોઈ નથી. કોઈનો તું નથી, તું સર્વથી ન્યારો છે એમ અવબોધ, જ્યાં કોઈનો સંચાર નથી એવો તું આત્મા છે જો તું તારા સ્વરૂપે રમે તો તૃષ્ણા, કામ, ક્રોધ, મોહ સ્વતઃ નાશ પામે. મલીન જલમાં જેમ ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ બરાબર પડતું નથી તેમ તારું મનરૂપ જલ જ્યાં સુધી વિકલ્પ અને સંકલ્પ વડે મલીન છે તાવતૂ તેમાં આત્મરૂપી ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ બરાબર પડી શકતું નથી, તું અજ્ઞાને પોતાને બિશુક માને છે, પણ હે આત્મા તું તો ત્રિશુવનપતિ છો. હે પામર પ્રાણી ! તારામાં ત્રણ રત્ન છે તે પ્રાપ્ત કર અને જો તે આત્માને મળ્યાં તો તું સર્વોત્કૃષ્ટ બને. જોને સિદ્ધ પરમાત્માઓ, તેમને સમયે સમયે અનંત સુખ છે તાદૃશ અનંત સુખ તારામાં છે તેનું દાન તું તારા આત્માને આપ કે જેથી કોઈનો ભય રહે નહીં. એમ સદ્ગુરુ મહારાજ પામર પ્રાણીને ઉપદેશદ્વારા ભાવ અભયદાન અર્પે છે. એ દાન પામ્યથી કોઈવાર જન્મ જરા મરણ પ્રાપ્ત થતુ નથી. શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદની લહેરીયો આત્મામાં પ્રગટ છે. એ ભાવદાન પામેલા જીવો અનંત સુખને પામ્યા, પામે છે, અને પામશે, અહો ! સદ્ગુરુના સમાન જગત્માં મોટા કોઈ દાનેશ્વરી નથી.

परमात्म दर्शन.

(७)

जेणे मिथ्यात्वनो नाश करी सम्यक्त्वनुं दान आप्युं. एवा सद्गुरु-
नो कदापि काल उपकार वाळवा कोइ समर्थ नथी, धर्मनी श्रद्धा
करावनार धर्मगुरुए अनंत जन्म मरणनां दुःख टाळ्यां, तेमनो
उपकार क्षण पण वीसराय तेम नथी.

श्री प्रदेशी राजाने प्रतिबोधक केशी गणधर सहस्र सद्गुरु
जाणवा. प्रदेशी राजा बिलकुल नास्तिक हतो तेनुं वृत्तांत कथेछे.

श्वेतांबिका नाम्नी नगरीमां प्रदेशीराजा राज्य करतो हतो ते
नगरीना मृगवन नामना उद्यानमां केशीकुमार साधु परिवारे परि-
वर्या, समवसर्या, धार्मिक नागरिक जनो भगवान्ने बंदनार्थे आ-
ववा लाग्या, गुरुए देशना आरंभी, ते अवसरे कांबोज देशथी
अश्वो आव्या छे तेनी परीक्षाने माटे चित्र सारथीए राजाने वि-
नव्यो, चित्रे रथ जोड्यो, लांबा वखत सुधी अश्वो दोडाव्या.
अश्वो थाक्या त्यारे सगयसूचक चित्रे राजाने विनव्युं के स्वामिन्
अश्वोने विश्रांति माटे वृक्षनी छायामां बेसाडवा जोइए एम कही
राजा सह चित्रसारथि मृगवनमां आव्यो, त्यां आचार्यदेशना देता
हता त्यां जेम आचार्यनी शब्दध्वनि संभळाय तेम आसन मुकाम
कर्यो. प्रदेशी राजाए भव्य जनोने उपदेश देता एवा केशी
गणधरने दीठा.

राजाए मनमां चिंतव्युं के अरे आ मूढ शुं बोलतो हसे, अने
अग्रस्थित एवा मूढ मनुष्यो शुं सांभळता हसे अहो खरेखर वक्ता
अने श्रोताओ जड छे, एम मनमां विचारी राजाए चित्रसारथी
प्रति कथुं-

प्रदेशी-अरे सारथी! आ जगत्थी विचित्र वेपथारक कोण हसे?
अने ते शुं बके छे ?

(८)

केली अने प्रदेशीनो संवाद

चित्र—हे महाराज श्री पार्श्वनाथ नामना त्रेवीशमा तीर्थकरना परंपरागत शिष्यो छे अने ते देहथी जीव पृथक् कहे छे.

प्रदेशी—हे चित्र ! ते केवा प्रकारनी युक्तिओथी शरीरथी भिन्न जीवनी अस्तित्ता कथे छे ?

चित्र—हे नरपते ! एनी मने मालुम नथी तेमनी पासे गमन करी श्रवण करीए तो मालुम पडे.

राजाए कथुं “ चालो त्यारे तेमनी पासे, एम कही आचार्य पासे जइ स्थाणुनी पेटे विनयरहीत नास्तिक शिरोमणि बेठो.

प्रदेशी—तमो कइ कइ युक्तिओथी शरीरथी भिन्न आत्मा मानो छो?

केशी गणधर—हे राजन् ! ए प्रमाणे प्रश्न पुछवाने इच्छा राखे छे तो केम विनयनो भंग करे छे ?

प्रदेशी—शुं में असमंजस कर्युं ?

केशीसूरि—दूरस्थ एवा तें अमोने देखी मनमां एतुं चिंतव्युं के आ मूढो मूर्खाओनी आगळ शुं असत्य बकेछे तें मनमां विकल्प कर्यो ते सत्य के असत्य ए प्रमाणे सूरिनुं बचन सांभळी राजा चमत्कार पाय्यो.

प्रदेशी—पराभिप्रायने तमोए शाथी जाण्यो ?

सूरी—पांच ज्ञानमांथी मारा विषे चार ज्ञान छे. तत्र प्रथमं मतिज्ञानं इंद्रियप्रणोदनोद्भूतं, । द्वितीयं श्रुतज्ञानं तच्च श्रवणगृहीत पदवाक्यैरर्थावबोधरूपं । तृतीयं अवधिज्ञानं तच्चेन्द्रियकज्ञानव्यतिरिक्तमात्मनैव प्रत्यक्षकृतं रूपि द्रव्यगोचरं । चतुर्थमनःपर्यायज्ञानं तच्च मनुष्यलोकवर्तिनां संज्ञिजीवानां ये मनः

पर्यायान् विचित्रमनोऽवस्थाः ताश्चात्मनैव प्रत्यक्षीकृत्य ततोर्थापत्यातश्चितितज्ञानं । एतानि चत्वारि ज्ञानानि मम संति तेन परमनोविकल्पितं अहंजानामि । यत्तु पंचमं केवलज्ञानं तत्र सर्वाण्येतानि चत्वारि ज्ञानानि लीयंते सूर्यप्रकाशदन्यताराप्रकाशवत् तच्च ज्ञानं मम नास्ति ॥

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, अने मनः पर्यायज्ञान ए चार मने वर्से छे. तेथी मनः पर्यवज्ञाने अन्य जनोना अभिमायने हुं जाणुं छुं.

प्रदेशी-पोताना मनमां विचार करवा लाग्यो के अहो आ महा-पुरुष छे, ज्ञानी छे, तेमनी साथे संभाषण लाभार्थे छे एम चिंती बेसवानी इच्छावाळा राजाए सूरिने कहुं, हे स्वामिन् तमारी आज्ञा होय तो हुं वेसुं. सूरिए कहुं, तमारी पृथ्वी छे जेम सुख थाय तेम करवुं.

राजा बेसी बोल्यो-देह अने जीवतुं भिन्नत्व तमो कथो छो ते घटतुं नथी. आत्माने सुख दुःखनी अवस्थाना भेदो माटे पुण्य पापनी कल्पना करवी अने पश्चात् पुण्य पाप भोगार्थ प्रति परलोक गत्यागतिनी कल्पना करवी ते प्रत्यक्ष प्रमाणथी विरुद्ध छे. कारण के-मारो पितामह अत्यंत पापी हतो, तेनो मारा उपर अत्यंत स्नेह हतो, जो ते कहेवा प्रमाणे नरकमां गयो होय तो तेणे अत्र आवी केम पापनो निषेध कर्यो नहीं ? कारण के त्यां अत्यंत दुःख मारे भोगवतुं पडे माटे, हे पुत्र तुं पाप मां कर हुं तो पापार्जनथी दुःखी थयो छुं एवो

(१०)

केशी अने प्रदेशीयो संवाद.

जवाप नरकमांथी आवी मारा पिताए केम कह्यो नही ? माटे एवा व्यतिकरना अभावे हुं एम स्त्रीकारं छुं के जीव देहनुं अक्य छे, कोइनुं पण परलोकगमन नथी.

केशी गणधर—हे राजन् ! जो कोइ पुरुष तारी राणीने भोगवे अने ते तें जाण्युं तो तुं तेने कोइक दंड आपे वा नहीं ?

प्रदेशी—तेने हुं घणी विडंबनाओ करी मारुं.

केशी०—ते पुरुष जो एम कहे के मने क्षणवार मूको तो हुं मारा कुटुंबने शिक्षा आपी आवुं के हुं अकृत्य करवाथी अत्यंत दुःखी थयो छुं माटे तमारे कोइए अकृत्य करवुं नहीं तो तुं तेनु वचन अंगीकार करे ?

प्र०—कदी तेनुं वचन मानी छोडुं नहीं.

केशी०—त्यारे ए प्रमाजे तमारा पितामह पण नरव. आवी शके नहीं, ए प्रथम प्रश्नोत्तर.

प्रदेशी—मारा पितामह कदापि आवी शके नहीं तेथी मारी प्रतिज्ञा असत्य ठरती नथी; मारी पितामही तमारा शासननी अनुरागिणी हती ने धर्म कर्ममां सदा आसक्त हती तो ते तमारी युक्तिए देवलोकमां गइ तेनो मारा उपर अत्यंत स्नेहहतो तो तेणीए अत्रे आवीने केम प्रतिबोध कर्यो नहीं ! अरे पौत्र तुं धर्म आचर, हुं धर्म प्रसादथी स्वर्गमां गइ छुं, अने तारा पितामहे तो पापना संचयथी नरक गति पामी एम तेणीए केम कह्युं नहीं, तेने तो अहीं आवतां कोइ अटकावी शकतुं नथी, तो तेना व्यतिकरना अभावे मारी प्रतिज्ञा सत्यज छे. देहथी जीव भिन्न नथी. एतादृशी प्रतिज्ञा मम सत्या.

केशीगणधर—ज्यारे तें स्नान करी सुगंधिद्रव्यनुं शरीरे विलेपन

परमात्मदर्शन.

(११)

कर्युं होय अने अलंकार वस्त्रोथी शरीर अलंकर्युं होय ते वस्त्रेते
चंडाल आवीने कहे के स्वामिन् मारा विष्टाना घरमां क्षणवार
आवी बेसो. एम कहे त्यारे तेनुं वचन तुं स्वीकारे के नहीं ?
प्रदेशी—त्यां जवुं तो दूर रहुं पण तेनो संबंध पण हुं करुं नहीं ?
केशी—देवताओ निर्मल पवित्र वैक्रियशरीर धारण करी अत्यंत-
सुख भोगवे छे, मनुष्यो सात धातुथी निष्पन्न औदारिक श-
रीरने धारण करनारा छे, मनुष्य लोकनो गंध पंचशत
योजन उर्ध्व उच्छे छे, मरक्यादि अभावे चतुःशत योजन
दुर्गंध प्रसरे छे. यतः

चत्वारिपंच जोयण सयाइं ! गंधोय मणुय लोयस्स ॥
उद्धं वच्चइ जेणं । नहु देवा तेण आवंति ॥ १ ॥
संकंति दिव्वपेमा । विसय पसत्ता समत्तकत्तव्वा ॥
अणहीण मणुअकज्जा । नरभवमसुहं न इंति सुरा ॥१॥

इत्यादि विचारी जोतां तारी पितामहीनुं आवागमन असंभ-
वित छे, मनुष्यभव संबंधी मोहना अभावे अने दुर्गधिस्थान-
पणाथी तेनुं आवागमन थतुं नथी.

प्रदेशी—मारी पितामहीनुं अनागम हेतु तमोए बुद्धिथी सिद्ध कर्युं
किंतु में जीव देहनी अकृपता घणी युक्तिथी साधी छे. माटे
मारो पक्ष सत्य छे, में एक जीवता चोरने निःछिद्र कोठीमां
घाली उपर ढांकणुं दीधुं. पुनर् मृत्तिकादि द्रव्योथी लिपी.
केटलाक दिन पश्चात् ते उघाडी मृत चोर देखयो, किंतु तेना
जीवने निस्सरवानो निर्गमन मार्ग कोइए देखयो नहीं, त्यारे
में जाण्युं आनी चैतन्य शक्ति आ देहमां लय पामी अने जो

(१३)

केशी अने प्रदेशीनो संवाद

विलय ना पामी होय तो जीव अन्यत्र जात, तो तेनो नीकळवानो मार्ग पण थएलो जणात, तेना जीवने नीकळवाना मार्गना अभावे मारी प्रतिज्ञा सत्य छे.

केशी—हे राजन् कश्चित् दुंदुभिवादक भूमीगृह (भोंयरा) मां प्रवेशे अने पश्चात् भोंयरानुं मुख बंध करे, जरा पण छिद्र रहेवा दे नहीं, त्यां दुंदुभि वगाडे तो तेनो शब्द बाहिरना लोको सांभळे के नहीं ?

प्रदेशी—बाहिरना लोकोथी शब्द संभळाय.

केशी—ए दुंदुभिना शब्दने निस्सरवानो क्यांय मार्ग जणाय छे ?

प्रदेशी—कोइ स्थाने जणातो नथी.

केशी—श्रोत्रथी ग्रहण थाय एवां शब्द पुद्गलोने निःसरवानो मार्ग जणातो नथी तो आकाशनी इव अरूपी आत्मानुं निर्गमनद्वार कथंरीत्या पामी शक्याय ? गमे त्यां थइ आत्मा अरूपी माटे नीकळी शके छे. ते स्थूलदृष्टिथी अवलोकाय नहीं. इति तृतीय प्रश्नोत्तर.

प्रदेशी—हे भगवन् ! आपनी बुद्धिनी युक्तिथी ए वात साधी पण निश्चयसाध्य थती नथी. चोरना कलेवरमां कुमीयो उत्पन्न थया ते जीवो अछिद्रवाळी कुंभीना क्या द्वारथी प्रवेश्या ? चोरने कइ छिद्र नहोतां तेथी प्रतिज्ञा करुं छुं के विकारवाळं चोरनुं शरीर तद्रूपताने पाम्युं माटे मारी प्रतिज्ञा सत्यज छे.

केशी—हे राजन् भृशं वन्हितप्तायोगोलकमां वन्हि प्रवेश छे के नहीं ?

प्रदेशी—अयोगोलकमां वन्हि प्रवेशे छे.

केशी—त्यां छिद्रना अभावे अयोगोलकमां वन्हि प्रवेशनी उपलब्धि छे तद्वत् जीव पण द्वार विना पेसतो छतो केम अश्रद्धेयक

थाय ? किंतु द्वार विना पण अरुही आत्मानो प्रवेश थाय छे एम सहहवुं जोइए. (इति चतुर्थ प्रश्नोत्तरं)

प्रदेशी—हे भगवन् तमारी युक्ति प्रमाणे तो सपलक्षणयुक्त सर्व जीवो छे ते घटतुं नथी लक्षणनी साम्यताए सर्वमां सरखुं बल होवुं जोइए ? ते प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध छे जे कारण माटे बालके छोडेलो बाण नजीक पडे छे, अने तरुणे छोडेलो बाण दूर पडे छे. ए सर्व जीव देहनी ऐक्यताए घटे छे, लघु शरीरे लघुबल, मोटा शरीरे बल पण महत् माटे सर्व जीवो-मां लक्षण साम्यताए सपबलत्व अयुक्त छे माटे मारी प्रतिज्ञा सत्या समजवी.

केशी—कोइ बलवान् तरुण पुरुष प्रत्यंचा चढावी बाण फेंके ते ज्यां सुधी भूमि उल्लंघे. ते ज धनुष्य चढावी बालक बाण फेंके ते युवान पुरुषे फेंकेला बाणे जेटली भूमि उल्लंघन करी छे तेटली भूमि आ उल्लंघन करे के नही ?

प्रदेशी—ते बाण आसन्न भूमीमां पडे पण पूर्वोक्त पुरुषे फेंकेलुं बाण तेना जेटली भूमी अवगाही शके नही ?

केशी—भला तेमां शो हेतु ?

प्रदेशी—साधन वैकल्य तेमां हेतु छे.

केशी—बालनुं शरीर निर्बल साधन छे धातुओना अपुष्टपणाथी, पृष्ट शरीर सबल साधन छे ते माटे सर्व जीवोमां लक्षणनी साम्यता अंगीकार कर. (इति पंचम प्रश्नोत्तरं)

प्रदेशी—तमोए जीवोमां सपलक्षणपणुं कहुं ते असन् छे, कारण के युवान अने बालकनी शक्तिनी (पराक्रम) भिन्नता छे. बालकनी शक्ति अल्प छे, युवाननी विशेष छे, जो जीव एक

(१४)

केशी अने प्रदेशीनो संबाद.

सरखो होय तो पराक्रम पण एक सरखुं होवुं जोइए, परा-
क्रममां भिन्नता छे माटे समलक्षणयुक्त जीवो कहेवाय नहीं
अने ते विरोध प्राप्त थतां शरीरथी जीव भिन्न सिद्ध थतो नथी.
केशीकुमार—एक पुष्ट अने मोटुं पंखी होय ते जेटला भारनुं
उद्वहन करे तेटलो भार दुर्बल नाना पंखीथी उपडातो नथी.
त्यां शरीर शक्तिरूप साधननो अभाव हेतु छे. मोटा पंखीमां
शरीरशक्ति विशेष, नाना पंखीमां शरीरशक्ति अल्प तेथी
तेना जेटलो भार उपाडी शकातो नथी. किंतु जीवो तो सर्व
समलक्षणवंत छे, माटे समलक्षण जीवोनुं छे एम हे राजन्
तुं जाण.

प्रदेशी—हे भगवन् में जीवता चोरने तुलामां जोख्यो, पश्चात् गळे
पाशथी मारी नाख्यो, मरेलाने पश्चात् तुलामां अ:रोही जो-
ख्यो तो पण प्रथम जेटला भारनो हतो तेटलो ज रह्यो, टंक
प्रमाण पण हीन थयो नहीं, तेथी में विचार्युं के जो देहथी
जीव भिन्न होय तो जीवनो अपगम थतां मृतक चोर शरीर
करी हीन थवुं जोइए पण थयुं नहीं, तेथी सिद्ध ठर्युं के—जीव
देहनी ऐक्यता छे.

केशी—चामडानी धमणमां वायु पुरीने जोखवी, अने पश्चात् वायु
काढी नांखी जोखवी, वायु पुरीने जोखेली धमण करतां
वायु काढी नांखी जोखेली धमणमां वारु भारनी न्यूनता
थाय छे ?

प्रदेशी—हे भगवन् ना भारमां कंड न्यूनता थती नथी.

केशी—जो त्यां भार वधतो नथी तेम घटतो नथी तो अमूर्त्त आ-
त्मानो देहमां शो भार होय ? के जेथी जीव नीकळ्या पश्चात्

परमात्मदशन.

(१५)

चोरनुं शरीर भारमां घटे ? वायुरूपी छे, शरीरी छे, आत्मा अरूपी, अशरीरी छे, अन्यत्र गतिमां गमनकर्ता आत्मा सूक्ष्म शरीरी जाणवो. (इति षष्ठं प्रश्नोत्तरं).

प्रदेशी—एक चोरने में ककडे ककडा करीने जोयो, त्वचादि सप्त धातुओनुं निरीक्षण कर्तुं मल मूत्र पण अवलोक्युं पण क्यांय जीव देखायो नहीं, माटे जीव देहनी ऐक्यता सिद्ध ठरी.

केशी—हे राजन् वनोपजीवि जनवत् तुं मूढ छे.

प्रदेशी—कोण ते वनोपजीवि. दृष्टान्त.

केशी—जे काष्ठ छेदन विक्रयथी स्वआजीविका निर्वहे छे, ते वनो-पजीवि पुरुषो कुहाडी करवतादि उपकरणो लेइ तथा पका-ववानां अन्न लेइ वनमां गदा, त्यां तेओए एक पुरुषने कहुं के अमो काष्ठार्थे आगळ जइथुं, तुं आ सुकुं अरणिनुं काष्ठ अने आकडानुं काष्ठ बेमांथी अग्नि उत्पन्न करी रसोइ पका-वजे, एम कही ते वनमां गया, पेलो पुरुष केटलोक वखत निद्राधीन थइ पश्चात् अरणीना काष्ठना खंडोखंड करी अग्नि जोयो पण देखायो नहीं, तेम आकडाना लाकडाना खंडो-खंड करी जोयुं पण अग्नि दीठो नहीं, तेथी विलखो थयो, चरम प्रहरे ते पुरुषो आव्या, अने आने कहेवा लाग्या के-रसोइ तइयार थइ छे ? त्यारे मूढ पुरुषे कहुं के अग्नि विना शी रीते रसोइ करूं ? त्यारे तेओए कहुं आ अरणि अने आकडाना लाकडामां अने अग्नि छे तेम कहुं हतुं. तेनु केम ? त्यारे तेने कहुं के—बन्ने जातिना काष्ठना खंडोखंड करी जोयुं पण अग्नि दीठो नहीं, त्यारे तेओए जाण्युं के, आ महा मूर्ख छे, पश्चात् तेओए अरणिकना काष्ठने नीचे मूकी, उपर सुकूं छाणुं मूकी आकडाना काष्ठथी मथन करी अग्नि उत्पन्न

(૧૬)

કશી અને પ્રદેશીનો સંવાદ.

કરી તે વડે રસોડ પકાવી. સર્વેખેં સ્વાધું, પશ્ચાત્ સર્વે પોતાને ઘેર ગયા, આ દૃષ્ટાંતની પેઠે હે રાજન્ ! તું પણ મૂર્ખ છે.

પ્રદેશી—તમો નિપુણ, બહુવિદ્ છો તો સભા સમક્ષ તું મૂર્ખ છે એમ કેમ મને કહ્યું ? એ કેહેવું તમને અનુચિત છે.

કેશી—મનુષ્ય લોકમાં હે રાજન્ કેટલી સભાઓ છે ?

પ્રદેશી—રાજસભા, ગાથાપતિ સભા, બ્રાહ્મણ સભા, અને ચોથી રૂપિસભા જાણવી.

કેશી—તે સભાઓમાં અપરાધ કરે તેને દંડ શો આપવો ?

પ્રદેશી—રાજસભા, ગાથાપતિ સભા, અને બ્રાહ્મણ સભામાં અપરાધ કરનારને અનુક્રમે મોટી લઘુ શિક્ષા કરવામાં આવે છે અને ઋપિસભામાં અપરાધ કરનારને વાળીવડે તર્જના કરાય છે.

કેશી—હે રાજન્ ! તું જાણતો છતો મને કેમ ઉપાલંભ આપે છે કારણ કે તું કુયુક્તિવડે વારંવાર મારી પ્રતિજ્ઞા સત્ય છે એમ કહી વક્રપણું ધારણ કરે છે. માટે તું અપરાધી અમારો કરેલો દંડ યુક્ત છે (ઇતિ સપ્તમ પ્રશ્નોત્તરં).

“ વૃક્ષની શાખાઓ કંપવા લાંગી તે દેખીને સૂરિ કહે છે.

કેશી—આ વૃક્ષનાં પાંદડાં ડાઢીઓ કોણ હલાવતું હશે ?

પ્રદેશી—વાયુ હલાવે છે, ત્યાં શો સંદેહ છે ?

કેશી—હે રાજન્ તું વાયુ દેખે છે ?

પ્રદેશી—ના કિંતુ વાયુ સ્પર્શ વડે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે પણ ચક્ષુથી દેખાતો નથી.

કશી—વાયુ જેમ ત્વાય પ્રત્યક્ષ છે, તેમ જ્ઞાન ગુણવાન્ જીવ માનસ પ્રત્યક્ષ છે, એમ નિશ્ચય જાણ.

परमात्मदर्शन.

(१७)

प्रदेशी—कुंथुओमां अने हस्तिमां शी रीते समपरिणामी जीव होय? शी रीते ते साचुं मानवुं, लघु स्थानमां लघुं वस्तुनुं अवस्थान युक्त छे, मोटी वस्तुनुं मोटा स्थानमां अवस्थान युक्त छे

केशी—हे आयुष्मन्—प्रदीप प्रभानो दृष्टांत अत्र जण, दीपक मोटी शाळांमां मूक्यो छतां तेटली सर्व शाळाने तेनो प्रकाश व्यापीने रहे छे, तेम-कुंभमां मूक्यो छतां ते कुंभनो ज उद्योत करेछे, तेम आत्मा जेवडा शरीरने अत्रगाही रह्यो होय छे तेटला शरीरनेज चेतना गुणवडे द्योतन करे छे त्यां जरा पण संसय नथी. इति.

प्रदेशी—हे भगवन् आपे अनादि कालथी लागेली एवी मिथ्या-टेव मारी आज टाळी आपना सद्ज्ञानरूप सूर्यथी मिथ्यात्व अंधकार दूर टळ्युं. हे भगवन् मारो उद्धार करनार आप छो, इत्यादि स्तुति करी व्रत ग्रही पोताना घेर गयो. बीजा दिवसे अत्यंत आडंबर सहीत भाव अभयदानरूप समकित दाता गुरूने वंदन कर्तुं, विशेष अधिकार रायपसेगी सूत्रमां छे. श्री महावीर प्रभुए श्रेणिकराजाने भाव अभयदान अर्प्युं, श्री नेमिनाथप्रभुए श्री कृष्णमहाराजने भाव अभयदान अर्प्युं, तेना जेवो अन्य कोइ जगत्मां उपकार नथी, माटे सद्गुरू भाव कल्पवृक्ष दृष्टांतने सार्थक छे, सुरनरनी उपमाथी. दान-गुण सर्वमां श्रेष्ठ छे, अने तेथी धर्मोत्पत्ति छे, एम जगत्गुं-गुरूश्रीरूप जंगम तीर्थनी प्राप्ति दुर्लभ छे, ग्रामानुग्राम विचरंता सद्गुरूनी प्राप्ति दुर्लभ छे, स्थावर तीर्थ पण भूत तीर्थकरादिनुं स्मरण करावे छे, स्थावर तीर्थ उपर जेवी भाव भक्ति श्रद्धा होय छे तादृशी श्रद्धा भाव भक्ति जो सद्गुरू

(૧૯)

ગુરુતીર્થ.

ઉપર થાય તો આત્મા શિષ્ય પરમાત્મપદ પામે, ભાવ તીર્થ પોતાનો આત્મા સમજવો, અનંત ગુણ તેમાં ભર્યા છે, જો તેની યાત્રા કોઈ મુમુક્ષુ ધારે તો અવશ્ય મુક્તિ પદ પામે. આત્મારૂપ પ્રભુના દર્શનાર્થમ્ જતાં પ્રથમ ચતુર્દશ પગથીયારૂપ ચૌદ ગુણ સ્થાનક ઉલ્લંઘતાં ક્ષપક શ્રેણિરૂપ દોરી જ્ઞાલી આગઠ્ઠ ચઢતાં બારમા ગુણઠાગે ચારઘાતીયાં કર્મના સંક્ષયથી આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશરૂપ મહેલમાં જવાય છે, અને તેમાં વિરાજિત પરમાત્માનાં સાક્ષાત્ કૈવલ્યચતુર્થી દર્શન થાય છે, પશ્ચાત્ આત્મા પરમાત્મપ્રભુનાં દર્શન કરે છે, ત્યારે અઠૌકિક સ્વરૂપવાળો બને છે, અને ત્યાંને ત્યાં રહે છે. પશ્ચાત્ અઘાતિક કર્મ ક્ષપણથી પરમાત્મસ્વરૂપ બની સ્વયંભેવ પ્રકાશે છે. યાવત્ ભાવતીર્થની યાત્રા થઈ નથી તાવત્ સાંસારિક ભ્રમણપવંચમૂલભૂતરાગદ્વેષની ગ્રંથિ છેડાની નથી માટે તેની પ્રાપ્તિનાં હેતુ સ્થાવરતીર્થ અને જંગમતીર્થ છે. જંગમતીર્થની સેવા ભક્તિ શ્રદ્ધા, નમન, સ્તુત્યાદિદ્વારા ભાવતીર્થ દર્શન થાય છે, યા પોતાનો આકાર જેવો હોય તેવો આદર્શમાં જોવાથી માણે છે તથા જંગમતીર્થ સ્વરૂપગુરુમહારાજના આલંબનથી યાદૃક્ આત્માનું સ્વરૂપ હોય તાદૃક્ દેખાય છે. આત્માનો પ્રકાશ સૂર્ય તથા ચંદ્રથી થતો નથી, કિંતુ સ્વીય આત્માનો પ્રકાશ સદ્ગુરુદ્વારા થાય છે, પરપુદ્ગઠ્ઠસંગી આત્મા પરભાવી થઈ ભવભ્રમણામાં મૂલ્યો, મોહ માયામાં શૂલ્યો, આત્માની અનંત ઋદ્ધિ ઢૂલ્યો, પગ ગુરુની યાત્રા કરતાં પોતાનું સ્વરૂપ સમજાયું, માટે ગુરુ સમાન અન્ય તીર્થ સ્વાત્મ નિર્મલકારક નથી, ગુરુ તેજ પરમ જંગમતીર્થ છે, ગુરુની સેવા તેજ ગંગા નદી જાળવી, ગુરુની કૃપાદૃષ્ટિ તેજ મારી

परमात्मदर्शन.

(१९)

शुभ गति છે, ए प्रमाणे गुरु महाराज तीर्थरूप जाणवा, तीर्थ बे प्रकारनां છે. १ लौकिक तीर्थ, २ लोकोत्तर तीर्थ. वळी लोकोत्तर तीर्थ द्विधा છે, वळी तीर्थ बे भेदे છે, स्वतीर्थ अने परतीर्थ, वळी तीर्थ बे प्रकारनुं છે, द्रव्यतीर्थ अने भावतीर्थ. वळी शुद्ध अने अशुद्ध, ए बे प्रकारे तीर्थ છે. स्थावरतीर्थ करतां पण सद्गुरु विषे अधिक श्रद्धा भक्तिभाव जागशे, त्यारे नक्की समजुं, के आत्मानुं कल्याण थशे, धर्म-प्रद धर्मगुरुनी स्तुति पोताना आत्माने निर्मल करे છે, गुरुનો राग, भवभ्रमण त्याग करावे છે, गुरुने तीर्थनी उपमा आपवानो हेतु ए છે के गुरुराज संसार समुद्रमांथी भव्य जीवने तारे છે, एवा धर्म गुरुराजनुं शरण मन वचन अने कायावडे याओ, गुरुराजने सत्य देवनी उपमा आपवामां आवे છે, गुरु रूप देव तो पुण्य अने पापकृत्य स्वरूपने अवबोधे છે, अने भव्यात्माओ उपर गुरु देव सदा काल कृपादृष्टि फेंके છે, अज्ञानरूप अंधकार कोइनाथी नाश पामे नहीं तेवा मिथ्यात्व अंधकारनो नाश गुरुमहाराज उपदेशद्वारा करे છે, गुरु तेज देव છે, श्री गौतम स्वामीना मनमां विद्यानो अहंकार हतो अने आत्मा છે के नहीं तेनी शंका हती, तेमनुं पण श्री महावीर गुरुए शंका टाळी चारित्र अर्पी हित कर्तुं, देवताओ पण पंचमहाव्रत धारी ध्याननिष्ठ महापुनि गुरुने नमस्कार करी स्तवे છે, माटे गुरु तेज सापेक्षतः देव जाणवा, आत्मानી सिद्धि गुरुथी थाय છે सर्व शाश्वत सुखरूप मांगल्यप्रद गुरुराज છે, माटे आद्यमां स्तुतिरूप गुरुनुं मंगल कर्तुं, आत्मा पोताने स्वयमेव जाणे છે ते दर्शावे છે.

(૨૦)

આત્મા પોતાને જાણે છે.

“ દુહા. ”

તેને તેહિજ ઓઢલે, અવર મ જ્ઞાતા કોય,
જ્ઞાતા તેહિજ આતમા, નિત્યપણે જગ જોય. ૨

ભાવાર્થ—આત્મા પોતે પોતાને ઓઢલે છે, આત્મા વિના અન્ય કોઈ આત્માનો જ્ઞાતા નથી, સર્વ પદાર્થ જ્ઞાનવડે જે જ્ઞાતા છે, તે આત્મા જાણવો, આત્માનું સ્વરૂપ અન્યથા થતું નથી, એજ અદ્ભૂત આશ્ચર્ય છે. જગત્-અવસ્થિતસર્વ પદાર્થો જ્ઞાનથી જગાય છે, અને સ્વકીય શુદ્ધ સ્વરૂપ પણ જ્ઞાનથી જગાય છે, સ્વ પરને જ્ઞાનમાં વિષયભૂત કરનાર તેજ આત્મા છે, આત્માથી ભિન્ન જડ વસ્તુ-માં જ્ઞાન ગુણ નથી, જ્ઞાન ગુણ શક્તિ અલૌકિક છે, નિર્ગોદીયા જીવોને પણ આત્માના આઠ રુચક પ્રદેશ નિર્મલા છે, જ્ઞાન ત્યાં ચેતન અને ચેતન ત્યાં જ્ઞાન સદા રહું છે, નિમિત્તના યોગે આત્મા પોતાને સાયમેવ અનાયાસે જ્ઞાનથી નિહાળે છે, કોઈ સિંહનું બચ્ચું નાનું ધાવણું કોઈ ભરવાડ પકડી લાવ્યો. પેલું સિંહનું બચ્ચું બકરાના ટોઢા ખેતું રમવા ફરવા લાગ્યું, અને મનમાં સમજે છે કે હું પણ બકરાના જેવું છું, મારી જાતિ અને બકરાની જાતિ જુદી નથી, એમ સમજું હતું, પ્રતિદિન તે સિંહવાલ મોટું થવા લાગ્યું, એક દિવસ બકરાં સહિત વાડામાં તે બચ્ચું બેટું હતું ત્યારે એક સિંહ આવ્યો, પેલું સિંહનું બચ્ચું મનમાં વિચારવા લાગ્યું કે—અહો આ સામું પ્રાણી દેખાય છે તે વિચિત્ર છે, તેનું શરીર અને માંસ શરીર મઢતું આવે છે હું જે ટોઢામાં રહું છું તેના શરીરનાં લક્ષણ અને મારા શરીરનાં લક્ષણ ભિન્ન ભિન્ન છે, આ સામું જે પ્રાણી દેખાય છે તેના સરખો હું છું, એમ જ્ઞાન થતાં એકદમ વાડામાંથી વહાર નીકળી ગયો અને સિંહ સમુદાયમાં ભઘ્યો, તેમ આત્મા પોતાનું

परमात्मदर्शन.

(२१)

स्वरूप स्वयमेव आलंबन योगे पामी परमात्मस्वरूपमय बने छे कथं छे के—

अज कुल गति केसरी लहरे, निज पद सिंह निहाळ;
तिम प्रभुभक्तें भवि लहरे, आतमशक्ति संभाळ.अजित.

परमात्म स्वरूप ओळखी तेनुं ध्यान करतां पोतानो आत्मा पण परमात्म रूप भासे छे, परमात्मा अने मारामां भेदभाव नथी, मलीन सुवर्ग समान संसारी भव्यात्माओनी स्थिति छे, अने शुद्ध कंचन समान सिद्धात्मानी दशा छे, मलीनतानो अपगम ध्यान-योगे थतां परमात्मरूप बनी त्रिभुवन पदार्थ गुग पर्याय ज्ञाता बने छे, ज्ञातृत्वशक्ति आत्माभां रही छे, जडमां ज्ञातृत्वशक्ति नथी, जड पदार्थ ज्ञेय छे, जेठला ज्ञेय पदार्थ तेठुं ज्ञान समनहुं, ज्ञेय पदार्थ अनंत छे, तेथी ज्ञान पण अनंत कहेवाय छे, अने ते प्रमाणे अनुभवमां आवे छे, ज्ञातृशक्तिनो आधार चेतन (आत्मा) छे, आत्मानो कही नाश थतो नथी, माटे नित्य छे, यद्यपि अविद्याना योगे अनेक शरीरो धारण करे छे तो पण पोताना स्वरूपने त्यजतो नथी, अज्ञानी जीव एम जो कहेवा लागे के आत्मा नथी पण तेना वचनथीज सिद्ध थाय छे के आत्मानी अस्तित्ता छे तो ते जीव नास्ति एम कहे छे, अविद्यानो नाश थतां अवश्य यथातथ्य सहेजे आत्मतत्त्व भासे छे, आत्मा अनंत सुखनो धर्मी छे, सुख दुःखनी चेष्टा आत्मानी प्रेरणाए थाय छे, इष्टानिष्ट ज्ञाता आत्मा छे, जो ए आत्मतत्त्व सम्यक् रीत्या ओळखाय अने तेनुं ज्ञान थाय तो स्वप्नानी पेठे सर्व जगत् देखाय, आत्माभां जे चित्तवृत्ति राखी चिंतवन करे छे ते पुरुषो आत्माने सहेजे ओळखे छे अने अखंड सुख भोक्ता बने छे,

(૨૨)

આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં સમાય છે.

“ દુહા. ”

સમાય તું તારા વિષે, તારુ તાહરી પાસ;
મારુ મારુ ક્યાં કરે, ધરતો પરની આશ. ૩

હે આત્મા તું તારા સ્વરૂપમાં સમાય છે, તારી ગતિ સર્વના કરતાં ન્યારી અને અનંત આનંદ આપનારી છે, તું કોઈ અન્ય પદાર્થમાં રહેતો નથી, પ્રકાશથી તમઃ સમૂહ યથા સર્વથા ન્યારું છે, તેમ અનંત શક્તિધારક ચેતનથી સાંસારિક સ્વરૂપ સર્વથા ન્યારું છે. અવલી પરિણતિયોગે પરવસ્તુને પોતાની માની મમતાના પાસમાં પડે છે પણ સહજાનંદી આત્મા વિવેકથી તું વિચાર કે-સ્વપ્નામાં ખાસેલું જગત્ જેમ મિથ્યા છે, તેમ બાહ્યવસ્તુ પણ તારી નથી, ચેતન તારી ઋદ્ધિ તારાથી જરા માત્ર ભિન્ન નથી, જેમ મૃગથી કસ્તુરી ભિન્ન નથી તેની ટુંટીમાંજ રહેલી છે, તેમ આત્માની ઋદ્ધિ પોતાનામાં ભરી છે, પરબ્રાત્મપદ આત્મામાં છે, આચાર્યપણું પણ આત્મામાં છે, તેમ ઉપાધ્યાય, સાધુપણું પણ આત્મામાં છે, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ વીર્ય આદિ ગુણો પણ આત્મામાં રહ્યા છે, અનંત સુખ પણ આત્મામાં છે, તો બહિરાત્મભાવે હે ચેતન પરની આશાથી મૂઠ બની મારુ મારુ એમ શું ચિંતવે છે? પરવસ્તુ તારી કડી થવાની નથી. એમ નિશ્ચય જાણ, તારી ઋદ્ધિ તારાથી ન્યારી નથી, સ્વોજે સો પાવે. આ કહેવત આત્મામાં યોજવી, અનાદિ કાલથી ચેતન મિથ્યાત્વયોગે સ્વસ્વરૂપના અનુપયોગે પરવસ્તુને પોતાની માની જન્મ જરા મરણ ઉપાધિ પામી, કિંતુ હવે નિર્ણયપૂર્વક જાણવામાં આવ્યું કે-પરવસ્તુ અચેતન જડ વિશિષ્ટ છે, હું એનો નથી, એ મારુ નથી, હું મારા સ્વરૂપે સમાયો છું, હું જે જે વસ્તુઓ ચક્ષુથી देखું છું, ઘ્રાણે સુંઘું છું, જિવ્હાએ સ્વાદું છું, તે તે વસ્તુઓમાં

परमात्म इक्षान.

(१३)

हुं नथी माराथी सर्व पदार्थ जणाय छे, तो पण ते पदार्थोमां हुं नथी. सर्व पदार्थो प्रकाश्य छे, अने हुं प्रकाशक छुं, मारी जे वस्तु नथी तेनी ममता हुं केम राखुं ? पुद्गलनी ऐठ आ जीवे बहिरा-त्मभावे वा क्षुधावेदनीना उदये भक्षण करी पण ते पुद्गल अंते मांरुं नथी, एम निश्चय करी स्वस्वभावे स्थिर रहेवुं एवं हिताकांक्षा.

“ दुहा. ”

देखी आत्मस्वरूपने, जाण्यो पुद्गल खेल;
न्यारो तेथी आत्मा, चिदानंद गुणरेल ॥ ४ ॥

भावार्थ-परोपकृतिमान् श्री सद्गुरुद्वारा ध्याननी एकाग्रताए आत्मस्वरूप भास्युं त्यारे आ सांसारिक प्रपंच सर्व पुद्गल खेल जाण्यो, ते खेलथी आत्मा न्यारो छे अहो शुं आश्चर्य, सर्व सां-सारिक पदार्थो नाशवंत छे. अने आत्मा अविनाशी छे, आनंद, अने ज्ञाननो धारक आत्मा छे, आत्मस्वरूप बतावे छे.

पद.

चेते तो चेतावुं तनेरे, पामर प्राणी-ए राग.

आतम रूप देखुं आजरे सकल सुख,	
अचल अखंड योगी, अभोगी अशोगी भोगी;	
स्वभावे ते नहीं रोगीरे-सकल सु०	आत० १
देहमांहीं वसनारो, देहातीत मन धारो;	
रूप रंग थकी न्यारो रे-सकल.	आत० २
जाणे सुख दुःख सह, चेतन छे जग बहु;	
व्यापी घट घट बहुरे-सकल०	आत० ३
नाम ठाम जेने नहीं, नहीं जाति भाति कही;	
पोतानामां व्यापो रही रे-सकल०	आत० ४

(૧૪)

આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં સમાય છે.

નિરંજન નિરાકાર, જ્ઞાનદૃષ્ટિ આરપાર;

બુદ્ધિસાગર સુખકાર રે—સકલ૦

આત૦ ૫

પરિપૂર્ણસુખરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ—નિર્વિચાર અલંક છે, આત્મતત્ત્વપ્રાપક જીવોને કોઈની સ્પૃહા રહેતી નથી. કોઈ નિંદા કરે વા સ્તુતિ કરે તોપણ હર્ષ શોક રહિત આત્મજ્ઞાની વિચરે છે, રાગ દ્વેષની પરિણતિ મંદ પડે છે, સમયે સમયે આત્મિક સુખ સંતાતિ વૃદ્ધિ પામે છે, તૃષ્ણાનું મૂલ છેદાય છે, પરસ્વભાવ પ્રવૃત્તિ સ્વયમેવ વિરમે છે, અને આત્મસ્વભાવપ્રવૃત્તિદ્વારા નિવૃત્તિ સુખોદ્ભવ થાય છે, દેહમાં વસતાં દેહાતીત અવસ્થાનો ભોગી આત્મા બને છે, કાક-ધિષ્ટા સમ પૌદ્ગલિક વિષય સુખ લામે છે, પરનિંદાતો આત્મજ્ઞાનીને ગમતી નથી, આત્મસ્વરૂપના ધ્યાની પુરુષને જે સુખ થાય છે તે અવાચ્ય છે, આનંદનો સમુદ્રજ જાણે હોયની એવો અધ્યાત્મ જ્ઞાનીનો આત્મા બને છે, આત્મજ્ઞાનીની દશા પ્રાપ્ત થયા વિના આત્મિક સુખનો અનુભવ પમાતો નથી, આત્મા પરમ પૂજ્ય છે અંતરાત્મયોગી થઈ પરમાત્મપદમય ધ્યાનથી થતા અનહદ સુખ ભોગી આત્મા સ્વયમેવ સ્વસ્વરૂપી થઈ રહે છે.

“ દુહા. ”

ધ્યાનથી દૃષ્ટિ ફેંકું જ્યાં, ત્યાં સદુ સ્વરૂપે સ્થિર;

શત્રુ મિત્ર સ્વપ્નુ ભયું, ગઈ અનાદિકુ પીર ॥૫॥

ભાવાર્થ—મન, વચન, કાયાની એકાગ્ર આત્મ સ્વરૂપે થતાં જગત્ વિચિત્ર દેશ્યાયું, પ્રથમ ધ્યાનની પૂર્વે સર્વ જગત્ હસ્તિના કર્ણની પેટે ચંચલ ઉન્મત્ત લાગતું હતું, તે હવે ધ્યાનની એકાગ્રતાએ સ્વસ્વરૂપે સ્થિર થતાં સર્વ જગત્ પોતાના સ્વરૂપે સ્થિર દેશ્યાયું, મારું મન ચંચલ તો સર્વ વસ્તુ ચંચલ અને મારું મન સ્થિર તો સર્વ

परमात्मज्ञान.

(३५)

वस्तु स्थिर एव देखायुं तेथी सार लीधो के-मन जो आत्मां रमे तो मोक्ष अने मनः परभावमां रमे तो भवध्रमणता, एनो निश्चय थयो, आत्मज्ञान विशेष थतां स्थिरता सर्वत्र भासे छे, कह्युं छे के-

भासे आत्म ज्ञान धुरि, जग उन्मत्त समान;
आगे दृढ अभ्याससे, पत्थर तृण अनुमान ॥५॥

सारमां सार ग्राह्य, आराध्य आत्मा छे, ध्यानथी आत्मां रमतां शत्रु मित्र स्वमनी पेठे भासे छे, अर्थात् शत्रु मित्र आत्म ज्ञानीनो कोइ नथी. अनादि कालनी लागेली कुटेव तो नाशी गइ अने शुद्ध चेतना प्रगट थइ, मिथ्यात्वपणुं टळ्युं, आत्मानुं शुद्ध स्वरूप प्रगट थतां सहजानंद प्रगटे छे, आत्मज्ञानीओ एवी दशमां रमे छे, तेमने पुनः पुनः नमस्कार थाओ.

“ दुहा. ”

अहं बुद्धि परमां धरी, परमांही बंधाउं;
अहं बुद्धि जो आत्ममां, तो हुं क्यां रंगाउं.॥६॥

परवस्तुमां अहंपणानी बुद्धि धारण करी कर्मरूप परवस्तुमां बंधाउं छुं, पण जो आत्मां अहंपणानी बुद्धि थइ एट्ठे आत्मा पोते हुंछुं अन्यमां हुं नथी, आवी बुद्धि थतां हुं आत्मा कोइथी क्यां रंगातो नथी. अर्थात् कर्म करी लेपातो नथी, जे महात्माओ आत्मांज वृत्ति राखे छे ते आत्मांनी ऋद्धि पासे छे, परमां चित्तवृत्ति राखवाथी अमुक दुष्ट अमुक लंपट अमुक बैरी इत्यादि बुद्धि थाय छे पण पोताना आत्मांनी सत्तानु चित्तवन-कर्मथी पोतानुं स्वरूप प्राप्त थाय छे.

(૧૬)

ગુરુને નમસ્કાર.

“ દુહા. ”

કાલ અનાદિ પરિણમ્યો, આતમ જડને સંગ;
 અશુદ્ધ પરિણામે કરી, કરતો નાટારંગ. ॥૭॥
 પોતાના અજ્ઞાનથી, પામ્યો દુઃખ અનંત;
 સ્વપદજ્ઞાનાસિ ગ્રહી, થયો સિદ્ધ ભગવંત, ॥૮॥

માવાર્થ—અનાદિ કાલથી જીવ કર્માણ્ણક ગ્રહી ઔદારિકાદિ શરીર ગ્રહી જડ સંગે દુઃખપયોવત્ પરિણમ્યો છતો અને તે કર્મના યોગે પોતાના આત્માના થયેલા અશુદ્ધ પરિણામે કરી ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં જન્મ જરા મરણનાં દુઃખ ગ્રહી નાટારંગ કરતો ફર્યા કરે છે, આત્માનો શુદ્ધ પરિણામ થતાં ભવ પ્રપંચની બાજી નાશ પામે છે, પોતાના ઇટલે આત્માના અજ્ઞાનથી જીવ અનંત દુઃખ પામ્યો. શરીરને આત્મા માની બહિરાત્મભાવે રમતો ફરતો પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલ્યો, દુઃખનો સમુદ્ધ પોતાના અજ્ઞાનથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ સદ્ગુરુ સમાગમે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેમાં રમણતા કરી કર્મનો નાશ કર્યો. અને મોક્ષ સ્થાનની પ્રાપ્તિ કરી સિદ્ધ ભગવંત થયો એ સર્વ આત્મજ્ઞાનનું ફલ છે.

“ દુહા ”

જેનાથી નિજ આતમા, સમજાયો સુખકંદ;
 ત્રિકરણ યોગે ભાવથી, નમું ગુરુ ક્રમદ્વંદ્વ. ॥ ૯ ॥

સુખકંદ અનંતગુણવિશિષ્ટઆત્મસ્વરૂપ જે ગુરુના બોધથી સમજાયું તે સદ્ગુરુ મહારાજના ચરણ કમલદ્વયને ભાવથી મન વચન અને કાયાએ કરી નમસ્કાર કરુછું, આત્માને ઓલલાવનાર ગુરુ છે, ગુરુ પણ આત્મા છે અને શ્રોતા પણ આત્મા છે, કિંતુ

परमात्मदर्शन.

(१७)

गुरुनो आत्मा ज्ञानवंत छे अने सेवक श्रोताजननो आत्मा निर्मळ नथी तेने जगावनार गुरु छे, उपदेशक धर्मतीर्थ छे, माटे गुरुनेज मोडुं तीर्थ जाणवुं, सुदर्शना चरित्रमां चारण मुनिए चंद्रगुप्तराजाने महाफल जाणी उपदेश आप्यो छे, सद्गुरु समान त्रिभुवनमां मोडुं कोइ तीर्थ नथी. सद्गुरु मोडुं तीर्थ छे एर्प मनमां श्रद्धा यतां सम्यक्त्वनी प्राप्ति थशे, इदयमां गुरुनी मूर्ति स्थापन करी तेनुं एकाग्रचित्तथी भक्ति पूजन ध्यान करवाथी आत्माने अलौकित शांति थशे, अने दररोज एम ध्यान धरवाथी पोताने साक्षात् सद्गुरु जाणे होयनी एम साक्षात् भासे थशे, अने गुरु माहात्म्यथी अनुभव ज्ञाननो प्रवाह वहन थशे, अने दुर्गुणोनो अवश्य नाश यतां मन प्रसन्न थशे, अने आत्मा सद्गुणधाम थशे.

“ दुहा. ”

सद्गुरु वण भव दुःखनो, परिहारक नहि कोय ॥
ते सद्गुरु नित्य वंदीए, जन्म सफलता होय ॥१०॥

भावार्थ—भव दुःख अंतकारक सद्गुरु विना अन्य कोइ नथी, ते सद्गुरुने प्रतिदिन वंदन करवाथी जन्मनी सार्थकता छे, घोर कर्म करनारा दुष्टजनो पण गुरुना उपदेशथी गुरुता पामी शारीरिक मानसिक दुःख संक्षय करी पंचमीगतिने पाम्या छे, पामे छे, अने पामशे.

“ दुहा. ”

साधन साध्यापेक्षथी, जे पाळे आचार;
राग रोष मद जीतता, सफलो तस अवतारा॥११॥

(१८)

गुरुने वनस्कार.

सगादिक त्यागी शमे, करशे आतम ध्यान;

सम्यग् ज्ञान क्रिया थकी, थाशे ते भगवान् ॥१२॥

भावार्थ—जे भव्यात्माओ पंच महाव्रतादिनो आचार साधन साधनी सापेक्ष बुद्धिथी पाळे छे, अने राग रोषने जीने छे, तेनो आचार सफल छे, अने ते दुनियामां जन्म्यो सफल छे, क्रोध, मान, माया, लोभ, निंदादिनो जय करी शमभावे जे मुमुक्षुओ आत्मध्यान करशे, अने सम्यग्ज्ञान अने सम्यग्क्रियानुं अवलंबन करशे ते पोते भगवान् थशे, कर्मपळना नाशथी आत्मा ते सिद्धात्मा थइ शके छे, किंतु अभव्यजीव मुक्तिपद पाप्मी शकता नथी, कारणके अभव्यजीवोमां मुक्ति पामवानो स्वभाव नथी. अभव्य जीवोनुं उपादानकारण शुद्ध थइ शकतुं नथी, भव्यजीवोनुं उपादानकारण शुद्धसामग्री योगे थइ शके छे, संसारमां परिभ्रमण करवानुं मुख्यकारणराग अने द्वेषभावकर्म छे, नोकषायसहचारि भावकर्ममां छे, क्रोध, मान, माया, अने लोभनो राग द्वेषमां अंतर्भाव छे, सिद्ध थता जीवोने राग द्वेष अनादि सान्त भांगे छे, अभव्यजीवने रागद्वेष अनादि अनंत भांगे छे, रागअने द्वेषनो क्षय संवरथी सर्वथा थाय छे, बहिरात्मभावे राग द्वेषनो क्षय थतो नथी, ज्यारे अंतरात्मपणुं प्राप्त थाय छे, त्यारे राग द्वेषनो क्षय थइ शके छे. कथुं छे के—

राग द्वेष के त्याग बिन, मुक्तिको पद नांहि;

कोटि कोटि जप तप करे, सवे अकारज थाय ॥१॥

रागद्वेषना क्षय विना मुक्तिपद प्राप्त थतुं नथी, राग द्वेषना त्याग विना कोटि कोटि जप तप करे तो पग लेखे थतुं नथी, श्रम्य आत्मस्वरूप गुह्यसमक्ष जाणवामां आवे, जडतुं यथातथ्य

परमारसपर्जन.

(१९)

स्वरूप जाणवामां आवे पश्चात् जड अने आत्मानां भिन्नता मालुप पडतां विवेक प्रगटे, विवेकधी आत्मतत्त्वआदेय लक्ष्यमां प्रदे, अने अजीवतत्त्व हेय जाणे पश्चात् आत्मा विचारे के-मारापां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत क्षायिक चारित्र, अनंत वीर्य छे, हुं स्वतंत्र छुं, किंतु अनादिकाळधी राग द्वेषना योगे परतंत्र छुं, राग द्वेष ए माहं आत्मस्वरूप नथी, एम विचारतां सर्वत्र सर्व प्राणी उपर तथा वस्तुओ उपर समभाव प्रगटे, दुनीयानी सर्व वस्तुने क्षमभावे निरखे, राग द्वेषनो क्षय क्षमभावे आत्मध्याने प्रवर्ततां थाय अने सम्यग्ज्ञान अने क्रियाधी मुक्तिरद मळे माटे जे मुनिवरो रागादिकनो त्याग करी वायुनी पेडे अपतिवद्वतांए विचरी स्वआत्महितमां छीन रहेसे, ते-क्षणिक आयुष्यनी सफलता करे छे.

“ दुहा. ”

को किरिया जड बोलता, तरशुं अम संसार;
कर्मनाश किरिया थकी, सफलो अम आचार ॥१३॥
बहिर् क्रियामां राचता, अंतर्तत्त्व न भान;
भूल्या भवमां भटकता, क्रियाजडी अज्ञान. ॥१४॥

भावार्थ-कोइक क्रियावचिनीवो एम माने छेके-अमो क्रिया करवाधी संसार समुद्र तरीशुं, अमो जे क्रियाकांडनो आचार आदरीये छीए ते कर्म नाश करसे, माटे क्रिया सफल छे, जे जे क्रिया छे ते सफळ छे, यथा दोहन, भक्षणक्रिया, ते प्रमाणे पढि-छेहण (प्रतिखेवन) आदि क्रियाओ पण कर्म नाश करवाधी सफल छे, ए प्रमाणे साध्य आत्मतत्त्वना अजाणपणे अंतरक्रिया जे ध्यानादिकनुं स्वरूप नहीं जाणवाधी क्रियाजड पुरुषो भवमां

(૩૦)

જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સંવાદ.

મટક્યા, મટકે છે, અને મટકજે, અને પરમાત્મપદ કેવ પામી શકે, સાધ્ય સાપેક્ષતાએ ક્રિયા સફળ છે, એમ એકાંતે બાહ્યક્રિયાથી જઠાત્માઓ ઇષ્ટફલ જે મોક્ષ તે પામી શકતા નથી.

“ દુહા. ”

કોઈ જ્ઞાનને માનતા, જ્ઞાન સત્ય જગ સાર;
વિના જ્ઞાન ક્યાં મુક્તિફલ, જ્ઞાને ભવજલ પાર॥૧૫॥
એકાંતે એમ જે ગ્રહે, કરે કદાગ્રહ ચિત્ત;
આત્મતત્ત્વ પામ્યા વિના, હોય ન તત્ત્વ પ્રતીત॥૧૬॥

કેટલાક ભવ્યાત્માઓ જ્ઞાનને મુક્તિપદ માને છે, આત્મતત્ત્વના જ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી, જ્ઞાનથી સંસાર સમુદ્ર તરી શકાયછે, આત્મતત્ત્વના બોધ વિના જે ભવ્યો એકાંતે હૃદયમાં હઠ કદાગ્રહ ધારણ કરી સ્વેચ્છાએ પ્રવર્તે છે, તે પરમાત્મપદ પામી શકતા નથી, આત્મતત્ત્વ પામ્યા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

“ દુહા ”

યુવત્યંગ નિરૂપ્યા થકી, વિષય તૃપ્તિ નહિ થાય;
મોજનજ્ઞાન થયા થકી, મૂલ ન ભાગે ભાય ॥૧૭॥

માવાર્થ—યુવતિના અંગનું નિરીક્ષણ કરવાથી વિષયપુરુષોને વિષયની તૃપ્તિ થતી નથી, તેમજ વરફી, દૂધપાક, મિષ્ટાન્ન મોજનનું જાણપણું માત્ર થવાથી, ઉદરપૂર્તિ થતી નથી, માટે તેની ક્રિયા કરાય તો ઇષ્ટ ફલની સિદ્ધિ થાય છે, માટે ક્રિયાની મુખ્યતાએ ફલ સિદ્ધિ છે.

જ્ઞાનવાદી—હે ક્રિયાવાદી ! તમો ક્રિયાને ફલદાયક કહો છો તે યુક્ત નથી, ક્રિયા કરવાથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે, રાંધણું,

परमात्मदर्शन.

(३१)

युद्ध करवुं, ए आदि क्रिया छे तो तेथी मुक्ति नथी, किंतु कर्मबंध छे, माटे क्रिया संसारवृद्धिहेतुभूत छे, माटे ज्ञान तेज सार छे, कर्मक्षय ज्ञानथी थाय छे.

क्रियावादी—क्रिया थकीज मोक्ष छे, क्रिया बे प्रकारनी छे, १ कर्मक्रिया. २ धर्मक्रिया, जे क्रियार्थी संसारमां परिभ्रमण करवुं पड़े अने आश्रवणुं ग्रहण थाय ते कर्मक्रिया जाणवी, तेनो तो त्याग करवो योग्य छे. पण जेनाथी जन्म जरा मृत्युनां दुःख नाश पामे एवी धर्म क्रियाओ कही छे, ते करवी जोइए, कारण के तेनाथी कर्मनो नाश थाय छे, किंतु ज्ञान थकी थतो नथी माटे क्रिया तेज मोक्ष मार्ग छे.

ज्ञानवादी—धर्मने माटे क्रियानी जरूर नथी, आत्मानी मुक्ति तो ज्ञानथी थाय छे, शरीरनी क्रिया, वचननी क्रिया शुं मोक्ष आपी शके ? ना नहीं. मननी क्रिया विकल्परूप मोक्ष आपी शकती नथी, किंतु आत्मानुं ज्ञान यवार्थी मुक्ति प्राप्ति छे, ज्यां ज्यां क्रिया त्यां कर्मनो बंध समजवो, कारण के क्रिया जड छे तो तेथी उत्पन्न थनार फळ पण कर्म जडछे, तो मुक्ति क्याथी मळे ? माटे ज्ञानथी मुक्तिनी सिद्धता छे.

क्रियावादी—क्रियाने जड कहो किंतु क्रियार्थी जडनो नाश थाय छे, कारण के सजातियथकी सजातियनो नाश थायछे, इंटनो नाश मोगरथी थायछे, तेम कर्मछे ते जडछे तो तेनो नाश क्रियार्थी थायछे माटे क्रियार्थी नाश थवो तेज मोक्ष जाणवुं, ज्ञानथी कर्मनो नाश शी रीते थाय ? माटे कर्म नाशिका क्रिया जाणवी, मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया करवार्थी कर्म नाश थायछे, माटे ते करवी जोइए अने क्रिया ज मोक्ष फळदाछे.

(૧૨)

જ્ઞાન અને ક્રિયાઓ સંવાદ.

જ્ઞાનવાદી—તમોણ જડ થકી જડનો નાશ થયો એમ કહ્યું, તે યુક્ત નથી તમારા મત પ્રમાણે તો એમજ સિદ્ધ થાયછે કે પાપ કર-
વાથી પણ કર્મ નાશ થાય, કારણ કે પાપ પણ જડ છે અને
કર્મ પણ જડછે માટે પાપથી કર્મનો નાશ થાય તો પશ્ચાત્ દયા,
સત્ય, તપ કરવાની શી જરૂર હોવી જોઈએ ? અને જો એમ
હોય તો પાપી જીવોની શીઘ્ર મુક્તિ થવી જોઈએ અને ધર્મી
અને પાપી એવો ભેદ ભાવ પણ અસત્ય થાય કિંતુ શાસ્ત્રમાં
વીતરાગ ભગવંતે તો એમ કહ્યુંછે કે પાપ કૃત્યથી કદાપિ મુક્તિ
મળતી નથી, માટે જ્ઞાનને સત્ય માનો. અને તેનાથી મુક્તિ થાયછે.

ક્રિયાવાદી—હે જ્ઞાનવાદી ! તું મારું કથન સમજી શક્યો નહીં,
પ્રતિપક્ષી જડથકી પ્રતિપક્ષી જડનો નાશ થાયછે, કર્મનું પ્રતિ-
પક્ષી પાપ નથી માટે પાપથી કર્મનો નાશ થતો નથી, પુણ્ય
અને પાપ એ બે પરસ્પર પ્રતિપક્ષીછે માટે પુણ્યથી પાપનો નાશ
થાયછે. પુણ્યની ક્રિયા દુઃખનાશક છે માટે ધર્મની ક્રિયા
અવશ્ય કરવી જોઈએ.

જ્ઞાનવાદી—પુણ્યની ક્રિયાથી કંઈ કર્મનો નાશ થતો નથી, કારણ
કે પુણ્ય પણ કર્મસ્વરૂપછે, તો પુણ્યથી કર્મની વૃદ્ધિ થાય પણ
કર્મનો નાશ તો થતો નથી, માટે જ્ઞાનથીજ મુક્તિ થાયછે એમ
માનવું જોઈએ.

ક્રિયાવાદી—મહા ઠીક પુણ્યથકી કર્મનો નાશ ન થાય તોપણ
શાતાવેદનીયકર્મ બંધાય અને તેથી ઉત્તમ કૂઠમાં જન્મ થાય
ધન, પુત્રાદિ ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તેથી સુખ મળે તે પણ ક્રિયાનું
ફલ છે, અને તેથી અનુક્રમે કર્મનો નાશ થાય માટે ક્રિયાકાં-
દની સાફલ્યતાછે.

જ્ઞાનવાદી—પુણ્યથી શાતાવેદનીયકર્મ બંધાયછે અને તેનો મોગ

भोगवत्त्वा अवतार धारण करतां जन्म जरा मरणनां दुःख प्राप्त थायछे, अवे अवतार धारण करतां पश्चात् ते भवमां बळी नवां कर्म बंधाय पण कर्म बंधनो पार आवे नहीं, ज्ञानथी कर्मनो नाश थायछे माटे तेनो स्वीकार करवो योग्यछे.

क्रियावादी-अमो क्रियार्थी कर्मनो नाश मानीये छीए ते सयुक्त छे, उत्तम अवतार आव्या विना धर्मनां कार्य थइ शकतां नथी, पडिलेहण, प्रतिक्रमण, प्रभुपूजा, इत्यादि क्रियाओ पापनो नाश करे छे, अने नवीन कर्म प्रतिबंधकद्वारा आत्मा निर्मळ थतां मुक्तिनी प्राप्ति थायछे माटे क्रिया सफलछे.

ज्ञानवादी-धर्मनी क्रिया उत्तम कुळजन्म धनसंपत्ति आपनारीछे, पण तेथी कर्मनी वृद्धिछे. पडिलेहण, प्रतिक्रमण, प्रभुपूजा, पण कर्मनो नाश करी शकती नथी, जरा सूक्ष्मदृष्टिथी विचारो के-ज्ञान विना क्रिया करवाथी थुं फल थइ शके ? ज्ञानाग्निः सर्वकर्माग्नि, भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्म बालीने भस्मीभूत करे छे, माटे हठ कदाग्रह त्यागी, ज्ञान मुक्तिप्रद मानवुं ते योग्यछे.

क्रियावादी-क्रिया विना ज्ञाननी उत्पत्ति थती नथी, ज्ञाननो अभ्यास ज्ञानने उत्पन्न करेछे, प्रथमथी कइ ज्ञान होतुं नथी. विद्याभ्यास करतां करतां ज्ञाननो प्रकाश थायछे, सारमां समजवानुं के ज्ञानाभ्यासरूप क्रियार्थी ज्ञान उत्पन्न थायछे तो क्रियार्थी कर्मनो नाश थाय एमां कइ संका नथी, माटे क्रियाथी कर्मनाश मानवो योग्यछे.

ज्ञानवादी-ज्ञान विना सर्वत्र अंधारुं, जे कर्मनो नाश करवानोछे ते कर्मनुं स्वरूप जाण्यां विना कर्मनो नाश शी रीति थाय ? चैत्रने भैत्र नामना पुरुषे कथुं के, तारो चक्रवेग नामनो शत्रु

(३४)

ज्ञान अने क्रियानो संवाद.

छे ते तने मारवा धारेछे, हवे जो चैत्रने चक्रवेग ओळखतो होय तो चैत्रनो घात करे, अन्यथा तेनो नाश करी शके नहीं. तेम दृष्टांतथी समजवानुं के-कर्मनो नाश करवो ते कर्मनुं ज्ञान थया विना बनतो नथी माटे ज्ञानथी कर्मनो नाश मानवो जोइए.

क्रियावादी-फक्त वस्तुनु ज्ञान थवा मात्रथी फलनी सिद्धि थती नथी, एक माणसने भोजन करवानुं ज्ञान थयुं पण भोजननो मुखमां प्रक्षेप करे चावे त्यारे तेनी उदरपूर्ति थाय अने शुधा मटे, माटे क्रियाज फलप्रद छे. ज्ञान तो जाणवा मात्रछे, जेम कोइ तारु (तरनार) जळमां तरवानुं जाणेछे किंतु जळमां प्रवेश करी हाथ पग हलावे नहीं तो बुडी जाय तेम कर्मनुं ज्ञान थतां कर्म नाशकारक क्रिया नहीं कराय तो कर्मनो नाश थतो नथी, परंतु क्रियाकरणथी कर्म नाश थायछे.

ज्ञानवादी-तमारुं कथन ठीकछे, किंतु ज्ञान विना वस्तुनुं यथा-तथ्य स्वरूप जाणी शकातुं नथी, तो पश्चात् ते आदरी शकातुं नथी, मोदक बनाववानुं जाणे अने ते भक्षण कर्याथी अमुक फायदो थायछे ते जाणी शकाय तो त्यार बाद करी शकाय, जे वस्तुनुं ज्ञान नथी ते वस्तुनी क्रिया शी रीते करी शकाय ?-दृष्टांत तरीके जाणो के-कोइ मनुष्यने बीजा मनुष्ये कहुं के शास्त्रमां आकाशगामिनी विद्या कहीछे, तेनुं ज्ञान थाय तो आकाशमां उठी शकाय, त्यारे पेला मनुष्ये शास्त्रनी शोध करी आकाशगामिनी विद्या जाणी, त्यार बाद क्रिया करी आकाशमां गमन करवा लाग्यो. अत्र समजवानुं के आकाशगामिनी विद्यानुं ज्ञान थतां तेनी क्रिया थइ शके, माटे ज्ञाननी मुख्यताछे, ज्ञान विना कोइ क्रिया थइ शकती नथी

परमात्मदर्शन.

(३५)

क्रियावादी—हे ज्ञानवादी ! तमो मूळ हेतुथी विरुद्ध उतरोछो, तमारे विचारवुं के—ज्यां ज्यां क्रियाछे त्यां अवश्य ज्ञान रुं होयछे, ज्यां साकर त्यां साकरनो रस, ज्यां केरी त्यां तेनो रस अवश्य होयछे, तेम ज्यां क्रिया होयछे त्यां अवश्य ज्ञाननी अस्तित्ताछे, माटे ज्ञाने जाणतां क्रिया करती वस्तत पण गौणभावे ज्ञान होयछे, मुख्यरूपे क्रियाछे, अने क्रियायी कर्मनो नाश थायछे माटे क्रिया तेज कर्मनाशकछे.

ज्ञानवादी—हे क्रियावादी तारुं वचन अयुक्तछे, ज्यां क्रिया होय त्यां ज्ञान होय एवी व्याप्ति नथी, फोनोग्राफ वार्जंत्रिमां क्रिया बोलवानीछे, पण ज्ञान नथी, आगगाडी (अग्निरथ) मां गमननी क्रियाछे पण ज्ञान नथी, माटे तारुं कथन असत्यछे, वळी जेना माटे तुं क्रिया करवानुं कहेछे ते आत्मा तो अंते सिद्धपणुं पामी अक्रिय थायछे, अने सिद्धमां क्रिया नथी, अक्रियछे, आत्माना घरनी क्रिया नथी, तो ते क्रिया निष्फलछे, सिद्धमां ज्ञानछे, अने ते तो आत्मानो गुणछे माटे ज्ञानथी मुक्तिछे एम जाण.

क्रियावादी—क्रिया आत्मा करेछे, माटे आत्मानीछे, शरीर कंड क्रिया करतुं नथी माटे क्रिया प्रमाणीभूता कर्मक्षये जाणवी.

ज्ञानवादी—आत्मा कंड फक्त एकलो क्रियाने करतो नथी, शरीर-धारी आत्मा क्रिया करेछे, अने ज्यारे शरीरनो त्याग करी सिद्धपद पामेछे त्पारे क्रियापणुं टळेछे, आत्मा संसारमां कर्मयोगे सुख दुःख योगे त्रण प्रकारनी क्रिया करी शकेछे, व्यवहार नये क्रियानो कर्त्ता आत्माछे, निश्चयनयथी जोतां क्रियाकारक आत्मा नथी माटे आत्मानी क्रिया कही शकाय नथी.

क्रियावादी—अग्नि लफ्फडाने वाळी भस्मीभूत करी स्वयमेव शान्त

(३६)

ज्ञान क्षमे क्रियाम्ने संबाद.

(ओलवइ) जायछे, तेम क्रिया पण कर्मने बाळी पोतस्नी पेळे नास पामेछे, माटे क्रियाथी मुक्तिछे.

ज्ञानवादी—हे भियतम, जरा विचारशो तो मालुप पडशे के—क्रियाथी मुक्तिछे एवंुं नाथी जाण्युं. उत्तरमां कहेवुं पडशे के ज्ञानथी, ज्ञान न होय तो क्रियाने जाणी शक्याय नहीं, तो पछी शी रीते करी शक्याय ? तमोए कहुं के क्रियाथी मुक्ति छे आ वचन प्रलाप मात्रछे, देखो. प्रसन्नचंद्र राजर्षि ज्यारे सूर्यना सामी दृष्टि राखी ध्यान करता हता त्यारे ते कोइ क्रिया करता नहोता, अने ज्ञान ध्यानथी केवलज्ञान पाम्या, विचारो के त्यां कइ क्रिया करता हता, कइ नहीं, भरतराजाए आरीसा (आदर्श) भुवनमां भावना भावतां भावतां केवलज्ञान उत्पन्न कर्युं, मरुदेवा माताए हस्ति उपर भावना भावतां केवलज्ञान उत्पन्न कर्युं त्यां कइ क्रिया करी नथी, फक्त ज्ञानवडे कर्म स्वपावी केवलज्ञान पाम्या जीवो देखायछे, माटे ज्ञानछे तेज सत्यछे.

क्रियावादी—हे ज्ञानवादी तमोए प्रसन्नचंद्र राजर्षिनुं दृष्टान्त ज्ञाननी सिद्धिने अर्थे आप्युं, ते ज्ञानने सिद्ध नहीं करतां क्रियाने सिद्ध करेछे, प्रथम समजवुं के ध्यानछे ते क्रियारूपछे, ध्यानना चार प्रकारछे, आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्रध्यान, ए चारमांथी प्रथमनां वे ध्यान दुर्गति अर्पेछे, काउस्सगमां प्रसन्नचंद्र ऋषिए प्रथम दुर्ध्यान ध्यातां नरक गति उपार्जन करी पश्चात् पश्चात्ताप पामी धर्मध्यानादि ध्यावतां कर्म स्वपावी केवलज्ञान पाम्या तेनुं कारण धर्मध्यान अने शुक्रध्यानरूप क्रियाछे, बार भावनाओ पण धर्मध्यानमां आबी, मरुदेवी माता अने भरतराजाए धर्मध्यानादि ध्यातां

परमात्मदर्शन.

(३५)

केवलज्ञान पाम्युं, माटे ते पण क्रियायीज, केवलज्ञान, मुक्ति आदि पाम्यांछे. श्री विजयलक्ष्मीसूरीजीए पण कहांछे के ध्यानक्रिया मनमां आणीजे, धर्म शुक्र ध्यायीजेरे; इत्यादि, माटे क्रिया कर्म क्षय करीछे.

ज्ञानवादी—हे क्रियामां राचनार, हजी तुं पोतानो मत छोडतो नथी, मारा वचन उपर लक्ष आप, ज्ञान विना ध्यान थइ शकर्तु नथी जेनामां ज्ञान छे ते ध्यान करी शके छे, जुओ भरतराजा. जेनामां ज्ञाननो सर्वथा अभावछे त्यां ध्याननो अभावछे, जुओ, घट जडछे तेमां ज्ञान नथी, जो, ध्यानतुं ज्ञान न होय तो ध्यान शी रीते शके ? प्रथम ज्ञान अने पश्चात् क्रिया, वळी समजतुं के ज्ञान विना जरा पण क्रिया थइ शकर्ती नथी, एक दिवसना जन्मेला बालकने पण स्तन पान प्रवृत्तिमां संस्कार बुद्धि कारण छे, सुख दुःखने पण जगावनार ज्ञानछे, ज्ञान रुपराजानी क्रिया दासीछे, माटे ज्ञानना हुकम प्रमाणे क्रिया थइ शकेछे, ज्ञानरूप राजाना करतां क्रिया दासी मोटी कहेवाय नहीं. ज्ञान देखतुंछे, अने क्रिया आंधळी छे, ज्ञान विना चारित्र नथी, ज्ञान विना वैराग्य थतो नथी, ज्ञान विना देव गुरु धर्मने ओळखी शकाता नथी, अरे विचारो तो खरा, ज्ञानथीज आत्मा पण ओळखाय छे, पण क्रिया ओळखी शकर्ती नथी. ज्ञानथी बीजाना मननी बात जाणी शकाय छे, कोइ अंध पुरुष वनमां फरतो फरे किंतु अंधपणाथी—खाडामां चालतां पण पढी जाय, तेना सामो वाय आवे तो कइ दिशा तरफ जवुं ते देखी शके नहीं, अने जो देखतो होत तो दुःखथी बचे माटे ज्ञान ते देखता पुरुष समान छे अने क्रिया आंधळा पुरुष समान छे.

(૩૯)

જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સંવાદ.

કહું છે કે-

જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમે, કરે કર્મનો સેહ;

પૂર્વક્રોડ વર્ષા લગે, અજ્ઞાને કરે તેહ;

દેશ આરાધક ક્રિયા કહી, સર્વ આરાધક જ્ઞાન.

ઇત્યાદિ વિચારી જોતાં જ્ઞાનથી કર્મ નાશ પામે છે, વહી સમકિત પણ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે જ્ઞાનના સમાન કોઈ નથી. જ્ઞાન બે પ્રકારે છે, ૧ વ્યવહાર જ્ઞાન, ૨ નિશ્ચય જ્ઞાન. ગણીત, વ્યાકરણ, જ્યોતિષ્ય, વૈદક, નાટક સાયન્સ આદિનું જ્ઞાન વ્યવહાર જ્ઞાન છે, એનાથી આત્માનું હિત એકાંતે થઈ શકતું નથી. ષડ્દ્રવ્ય તેના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સાત નય, ભક્ષભંગી, સ્વાદ્વાદરીત્યા આત્માનું સ્વરૂપ ઉપયોગે જાણવું તે નિશ્ચય જ્ઞાન છે, આત્માનું સ્વરૂપ ધ્યાવું, વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણી આત્મ સ્વભાવમાં રમવું તેનું નામ નિશ્ચય જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી કોટી ભવનાં કર્મ નાશ પામે છે, માટે તે જ્ઞાન આદરણીય છે, એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં પશ્ચાત્ રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય છે, જે જ્ઞાનથી આત્મા પરમાત્મ પદ પામે તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પૂર્વ પુણ્યયોગે થાય છે, તેનું નામ સમ્યગ્ જ્ઞાન છે, એ નિશ્ચય જ્ઞાનનું. સદ્દેહુ શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ છે, તથા વીતરાગ શાસ્ત્ર છે, એનું અવલંબન કરવું. વીતરાગ શાસ્ત્ર કથિત સમ્યગ્ ક્રિયાનું અવલંબન કરવાથી કર્મ ક્ષય થાય છે, ક્રિયા બે પ્રકારની છે ૧ શુભ ક્રિયા ૨ અશુભ ક્રિયા, જે ક્રિયાથી પુણ્ય થાય છે, તે શુભ ક્રિયા, વ્યવહાર નયથી આદરવા યોગ્ય છે, જે ક્રિયા કરવાથી પાપાર્જન થાય છે તે અશુભ ક્રિયા જાણવી. વીતરાગ ભગવંતે સમ્યગ્ ક્રિયા શાસ્ત્રમાં પ્રરૂપી છે, તે સમ્યગ્ ક્રિયા જાણવી.

સદ્ગુરુ-સમ્યગ્ જ્ઞાનથી સમ્યગ્ ક્રિયા જાણી શકાય છે માટે

परमात्मदर्शन.

(३६)

ज्ञान पूर्वक क्रिया लेखे छे, ज्ञान क्रिया विना पांगल्लं छे, अये क्रिया आंधळी छे, ए बेनो संगम यतां मुक्ति पामी शकाय छे. श्री तीर्थ-कर महाराजा त्रण ज्ञानना स्वामी छतां चारित्र अंगीकार करे छे, तपश्चर्या अंगीकार करे छे माटे क्रियानी जहर छे, ज्ञान अने क्रियार्थी मुक्ति छे, माटे शास्त्रमां कहुं छे के-ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः ए सिद्धान्त वाक्यानुसार प्रवृत्ति करवी. मोक्षाभिलाषी भव्यात्मा-ओने द्रव्यानुयोग ज्ञान अत्यंत उपकारी छे, सम्यग् ज्ञानथी बलि-हारी छे. ज्ञानरूप सूर्योदय यतां मिथ्यात्व अंधकारनो नाश थाय छे. जेम जेम आत्म स्वरूपनुं विशेष ज्ञान थतुं जाय छे, तेम तेम क्रोध, मान, माया, लोभनी भंदता थती जाय छे. ज्ञानदशा थया विना जीवनी मुक्ति थती नथी, आत्मज्ञानथी मुक्ति थाय छे.

शुष्कज्ञानीनां लक्षण कहे छे.

“ दुहा. ”

वाक् पटुताए विद्वता, जन मन रंजन हेत;
पोथी पुस्तक वांचतो, शाश्वत पद क्युं लेत ॥१८॥
अहं बुद्धि अभिमानथी, यावत् परमां थाय ॥
तावत् ज्ञानी को नहीं, पामे नहि शिव ठाय ॥१९॥

भावार्थ-मनुष्योंनां मन खुशी करवाने माटे वाणीना वाचाल पणामां जेनी विद्वता समायी छे, एवो शुष्क ज्ञानी पोथी पुस्तक वांचतो छतो अने परने उपदेश आपतो छतो मुक्ति पद पामे नहीं, लोकोमां मारी विद्वत्ता दर्शाववी, लोको मारी प्रशंसा करे अने हुं जगतमां प्रसिद्ध थाउं आ प्रकारनी इच्छाथी जे ज्ञाननां पुस्तको भंगे छे, व्याख्यान वांचे छे, तेना पुरुषो मुक्तिपद पामी शकता नथी. आत्मभावे ज्ञान परिणमतां परमात्मपदमय आत्मा बने छे;

(૪૦)

જ્ઞાનથી મોહ.

શ્રાવકથી વ્યાખ્યાન વાંચી શકાય નહીં, કારણ કે તે સંસારમાં રાંચી માંચી વિષયમુખ ભોગવતો સંસાર અસાર જાણીને પણ પડી રહ્યો છે, અહંકારબુદ્ધિથી પરમાં અહંપણાની બુદ્ધિ થાયછે, હું મોટો આ સર્વ મારું, મારા સમાન દુનિયામાં કોણ વિદ્વાન છે ? એવા વિચાર થાયછે ત્યાં સુધી નિશ્ચયજ્ઞાનીપણું નથી, શુષ્ક જ્ઞાનીપણું જાણવું, એવા શુષ્કજ્ઞાની પરમાત્મસ્વરૂપ તરફ લક્ષ આપતા નથી અને બહિરાત્મપણું ધારી મુક્તિ સ્થાન પામતા નથી.

આત્મજ્ઞાનીનું લક્ષણ કહે છે.

“ દુહા. ”

વૈરાગ્યાદિક ગુણ વૃંદ, આતમમાં પ્રગટાય;

સમભાવે નિરસે સદા, પરમાતમ પદ પાય. ॥૨૦॥

ભાવાર્થ—વૈરાગ્ય, સંવેગ, સમતા, સહનશીલતા, નિર્લોભતા, આદિ ગુણ સમૂહ આત્મામાં પ્રગટાવે અને ગુણધારકઆત્મા, સમ-ભાવે શત્રુમિત્ર, કંચન, ઉપલ, નિંદક, વંદકાદિને દેખે, ત્યારે પર-માત્મ પદની પ્રાપ્તિ થાયછે.

“ દુહા. ”

ત્યાગ વિરાગ વિના કદી, થાય ન આતમ જ્ઞાન;

આતમ જ્ઞાન વિના કદી, પામેં નહિ શિવ ઠાળ ॥૨૧॥

ભાવાર્થ—સંસારબંધનમૂતપુત્રસ્ત્રીધનાદિકના મમત્વરૂપ ત્યાગ વિના અને વૈરાગ્ય વિના આત્મજ્ઞાન થતું નથી, અને આત્મજ્ઞાન વિના શિવસ્થાનની પ્રાપ્તિ નથી, સારાંશકે—સંસારની મોહજાલનો ત્યાગ અને તિષ્ઠિસ્થિરજ્ઞાન વૈરાગ્યથી સદ્ગુરુ ઉપદેશદ્વારા આત્મસ્વરૂપ સમજી આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાયછે, આત્મજ્ઞાનીઓને અંશુકમાં અમુક દોષછે, અમુક ક્રોધીછે, અમુક મારો શત્રુછે, આવી

परमात्मदर्शन.

(४१)

भावना थती नथी, ते तो एमज विचारेछे के जीवनो कोइ शत्रु मित्र नथी, तैम संबंधी पण नथी, पारकी निंदा करवी तेमां मने कंइ फायदो नथी, आत्मज्ञानीओ तो एम विचारेछे के-सर्व जीव कर्मना वशे जुदी जुदी सारी नठारी आचरणा करेछे, तेमां हुं सर्व ना आत्मानी निंदा करुं के शरीरोनी निंदा करुं, अलबत विवेक-थी विचारतां कोइ पण निंदाने पात्र नथी, ज्यां सुधी मनमां निंदा करवानी बुद्धि थायछे त्यां सुधी कोइ अपेक्षाए धर्मी नथी, तेम परनी निंदा करतो साधु वा श्रावक होय तो पण ते चंडाल समान मनोवृत्तिथी जाणवो, शुष्कज्ञानी मुखथी आ संसार असारछे एम मुखथी पोकारेछे, पण संसारमां आसक्ति राखी भवभ्रमण करेछे, शुष्कज्ञानी चारित्र अंगीकार करी शकतो नथी, केटलाक श्रावको उपरथी त्याग विराग देखाडी संसारमां शुकरनी पेटे आसक्ति धारण करेछे तेम ज्ञाननुं फल विरति पाम्या विना स्वजन्म निष्फल गुमावेछे. केटलाक जीवो उपरचोटीया वैराग्यथी दीक्षा अंगीकार करी पूजा माननी लालचे गच्छमतना कदाग्रहे नड्या छता आत्मस्वरूपज्ञान ज्ञान विना बहिरात्मपद पामता परस्पर एक बीजानी निंदा करी टोळुं भेगुं करवानी बुद्धिथी, व्याकरण, न्याय आदि अभ्यास करी एक बीजानुं खंडन मंडन करेछे तेवा साधुओ आत्मज्ञान पामी शकता नथी पण जे साधुओना हृदयमां संसारनी असारता वसी रहेलीछे, अने शांत सुखाकृतिथी विचरेछे, सद्गुरुनुं तथा गीतार्थ साधुनी संगति करेछे ते आत्मज्ञान पामी कर्म क्षय करी मुक्तिपद पामेछे, संसारमां वसतां त्याग विरागपणुं पामवुं मुश्किलछे, त्यागी अने वैरागीपणुं अध्यात्म दशावाज्य मुनिवरो पामी शकेछे, अने आत्मापमां अनंत सुख अनादि कालथी तिरोभावे रहुंछे, ते पण आत्मानुभवी भव्यो जाणेछे, काया मा-

(४२)

आत्मज्ञानितुं लक्षण.

याने आत्माथकी भिन्न जाणे ते पुरुषो तेनो त्याग करी शकेछे, संसार बळता अग्रि समान छे, संसारनां दरेक कार्यो उपाधिमय छे, संसारनी उपाधिमां वसतां आत्मानुं ध्यान थइ शकतुं नथी, माटे संसारी उपाधि त्यागी सद्गुरु उपदेश सांभळवो के जेथी वैराग्य प्राप्त थाय, अने वैराग्य प्राप्त थतां गुरु महाराजने पूछी आत्मानुं स्वरूप ओळखवुं, अने ते आत्मस्वरूप जाणतां तेनुं ध्यान धरतां कर्मनो नाश थायछे, माटे आत्मस्वरूपाभिलाषिओए त्याग अने वैराग्यनी प्राप्ति माटे प्रयत्न करवो.

“ दुहा ”

योग्य होय ते आदरे, दृढ कदाग्रह त्याग;

वैराग्ये मन वासियुं, तस परमात्म राग. ॥२२॥

भावार्थ—आत्मतत्त्व तथा तेनी प्राप्तिना अव्यभिचारी हेतुओने भव्यात्मा अंगीकार करे आत्मतत्त्व जेनाथी पामी शकाय नहीं एवां साधनोमां दृढ कदाग्रहपणानी बुद्धिनो त्याग होय, सद्गुरु महाराजा भव्यात्माओनी विचित्र प्रकृति जोइ जे साधनथी जेने फायदो थाय ते साधन व्रतादि तेने अंगीकार करावे, त्यारे अतिशय प्रेमभक्तिथी गुरु वाक्यने शिष्य अंगीकार करे, आत्मारथी जीव भवभयथी बीक पामतो विचारे के—जो दुर्लभ मनुष्यावतार पापी स्वच्छंदाचारीपणे वर्तीश तो अनंत भवभ्रमण करवां पडशे माटे गुल्नी आज्ञा मस्तके धारी मत कदाग्रहनो त्याग करे अने संसारनी अनित्यता विचारे—कर्मनुं स्वरूप सूक्ष्मदृष्टिथी विचारी सारांश ग्रहे के—आ जगत्मां सम्यग्धर्मथी आत्महित छे, एम विंत्तन करी जलपंकजवत् संसारभावथी न्यारो रहे, तेवा भव्यात्माओने परमात्मपदने राग थाय किंतु संसारमां विष्टा शुकरवत् अहर्निश

परमात्मदर्शन.

(४३)

विवेकधी शून्य हृदयवाला, अने परवस्तुने पोतानी मानीं हर्ष शोक धारण करनारा रागांधवहिरात्मीयोने परमात्मपदना राग यतो नधी, वैरागी, त्यागी, मत कदाग्रहवर्जित जीवो परमात्मपदपामी शके छे. आ आत्मार्यानुं लक्षण छे.

“ दुहा. ”

समकित जेगे अर्पियुं, ते मोटा गुरु देव;
निमित्त गुरु ते आत्मना, कीजे तेहनी सेव. ॥२३॥
त्यां त्यां गुरुनी बुद्धिधी, भटके जमणे रोझ;
गुरु गुरु शी वस्तु छे, नहीं करतो तस खोज ॥२४॥
धोळुं तेठलुं दुध एम, तेवी गुरुमां बुद्धि;
गुरुबुद्धि सर्वत्र जास; तस नहि आतम शुद्धि ॥२५॥
सेवे सद्गुरु प्रेमधी, चरणकमल आधीन;
पामे ते परमार्थने, थावे शिवसुखलीन. ॥२६॥
सद्गुरु सम कोनो नहीं, भवमांहि उपकार;
कामकुंभश्रीसद्गुरु, भवजल तारण हार ॥२७॥
प्रत्यक्ष उपकारी गुरु, परोक्ष जिनवर होय;
एहवी बुद्धि प्रगटतां, धर्म योग्यता सोय. ॥२८॥
गुरुश्रद्धाभक्ति विना, लागे नहीं उपदेश;
भणवुं सुणवुं शास्त्रनुं, ते पण हेतु क्लेश. ॥२९॥
सद्गुरु वचनामृत विना, तत्त्वस्वरूप न पाय;
सद्गुरु सेवंतां थकां, समकितरत्न प्रहाय. ॥३०॥

(૪૪)

વેદ.

તારક બુધ્ધિથી ગુરુ, કથન કરે ઉપદેશ;
શ્રદ્ધા ભક્તિથી સુણી, આદર કરો વિશેષ. ॥૩૧॥

માવાર્થ—અનંતકરુણાયોગે કેવલપરમાર્થબુધ્ધિથી અનંત
ભવ દુઃસ્વલ્લિછેદકકુઠારસદૃશ ધર્મમૂલભૂતસમકિતરૂપ રત્ન જે
સદ્ગુરુર્ણ અર્પણ કર્યું તે ગુરુ મોટા દેવ સમાનછે, દેવ ગુરુ ધર્મની
શ્રદ્ધાથી સમકિત આત્મામાં ઉત્પન્ન થાયછે, દેવ વીતરાગ અષ્ટાદશ
દૂષણ રહીત હોય તેને સ્વીકારવા.

યતઃ જિનેન્દ્રો દેવતા સ્તત્ર, રાગ દ્વેષ વિવર્જિતઃ

હતમોહમહામલ્લઃ, કેવલજ્ઞાનદર્શનઃ ॥૧॥

સુરાસુરેન્દ્રસંપૂજ્ય, સદ્ભૂતાર્થપ્રકાશકઃ

કૃત્ત્વકર્મક્ષયં કૃત્વા, સંપ્રાપ્તં પરમં પદં ॥૨॥

જીવાર્જીવૌ તથા પુણ્યં, પાપમાશ્રવસંવરૌ;

બંધોવિનિર્જરામોક્ષૌ, નવતત્ત્વાનિ તન્મતે. ॥૩॥

તત્ર જ્ઞાનાદિધર્મેયો, મિત્રામિત્રવિવર્તિમાન્

કર્મ શુભાશુભં કર્તા, મોક્તા કર્મફલસ્ય ચ ॥૪॥

ચૈતન્યલક્ષણો જીવો, યશ્ચૈતદ્ વિપરીતવાન્ ॥

અર્જીવઃસઃ સમાખ્યાતઃ પુણ્યં સત્કર્મપુદ્ગલાઃ ॥૫॥

इत्यादि

વીતરાગ શાસનમાં જિનેન્દ્ર ભગવાન્ દેવછે, તે રાગ દ્વેષ રહિત
છે, જેજે મોહરૂપ મહામલ્લનો સર્વથા નાશ કર્યોછે, અને જેવને કેવલ
જ્ઞાન અને કેવલદર્શન સાકાર નિરાકાર ઉપયોગ તરીકે માસ્યાંછે,
બૈમાનિક અને ભૂવનપતિ આદિના ચોસઠ ઈંદ્રોવઢે જેનાં ચરણ કમલ

परमात्मदर्शन.

(४५)

पूजायांछे, एवा वीतराग देव जाणवा, वळी तीर्थकर देव त्रिभुवनवर्ति धर्मास्तिकायादिक षड्द्रव्योना गुण पर्याय आदि सत्य पदार्थोना प्रकाशकछे, जेवुं जगत्तुं स्वरूपछे तेवुं तेमणे केवलज्ञाने प्रकाशयुंछे. असत्य जल्पननुं तेमने कंड प्रयोजन नथी, दयाळु अने उपकारीपणाने लीधे सत्य तत्तानी प्ररूपणा करीछे, भरत, ऐरवत अने महाविदेह क्षेत्रमां तीर्थकरोनी उत्पत्ति थायछे वीश स्थानकमांनुं गमे ते स्थानक उत्कृष्ट परिणामयोगे आराधवाथी त्रिभुवन आराध्य तीर्थकरनामकर्म बंधायछे, अनादिकालसंगी रागद्वेष स्वरूप महामल्ल शत्रुनो जेणे सर्वथा नाश, स्वशुद्धआत्मिकपरिणामथी करीछे. एवा तीर्थकर महाराजाने चोत्रीश अतिशय अनुक्रमे उत्पन्न थायछे, स्वआचार कल्प अने भक्तिभरथी गमन करी प्रभुनी प्रभुता दर्शाववा माटे चतुर्निकायना देवता देवीओ प्रभुने लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान अने केवलदर्शन उत्पन्न यतां अलौकिक विचित्र मनहर देवताइ अष्टमहामातिहार्य युक्त समवसरण नी रचना करेछे ते उपर बाह्य अने अंतर्लक्ष्मीवडे सुशोभीत त्रिजगत्तारक तरणि, पांत्रीस वाणीगुणधारक, परमपूज्य परमपवित्र त्रयोदश गुणस्थानवर्ति श्री देवाधिदेव तीर्थकर महाराजा वचनातिशये युक्त देवता मनुष्यतिर्थचोत्पन्न बार पर्षद अग्रे मधुर ध्वनिथी बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मास्वरूप तेमज देवगुरु धर्म अने नवतत्त्व, षड्द्रव्यनुं स्वरूप, भव्योना कल्याणार्थे प्रकाशेछे, अने देशनान्ते साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपचतुर्विधसंघनी स्थापना करेछे, तेमां सर्वथी मुख्य चतुर्विध संघमां मुनिराज छे, धर्मनी अपेक्षाए संघछे, वीतराग आज्ञा मुजब ज्यां प्रवर्तन नथी, ते संघ कहेवाय नहीं, मोहजनितभ्रमणाए केटलाक श्रावकना कूळमां उत्पन्न थइ श्रावको साधु साध्वी विना श्रावक वर्गनेज संघ

(૪૬)

ગુરુ, ઋણ તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરાવે છે,

તરીકે અજ્ઞાનથી ગણે છે, એ વર્તન વીતરાગશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે, સાધુના સત્તાવીસ અને શ્રાવકના એકવીસ ગુણ મળી અઢતાલીશ ગુણયુક્ત સંઘ કહેવાય છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રથી ભિન્નાભિન્ન અને વ્યવહારનયથી શુભાશુભ કર્મનો કર્તા તથા ભોક્તા, ચૈતન્યલક્ષણ યુક્ત જીવતત્ત્વની પ્રરૂપણા તીર્થકરે કરી છે. જીવથી વિપરીત અ-જીવતત્ત્વનું પ્રરૂપણ તેમને કર્યું છે, એમ નવ તત્ત્વનું પ્રરૂપણ કર્તા વીતરાગ દેવ છે, આયુષ્ય મર્યાદા પર્યંત પૃથ્વીતલ પાવન કરી અ-ઘાતીયાં કર્મ સ્વપાત્રી અશરીરી અનામી થઈ સિદ્ધસ્થાનમાં પહોંચી સાદિ અનંતિ સ્થિતિ અજરામર પદ ભોગવે છે, એવા દેવને દેવ તરીકે માનવા, વીતરાગ આજ્ઞાધારક પંચાચાર, પંચમહાવ્રત આ-રાધક ગુરુને ગુરુ તરીકે સ્વીકારવા, વીતરાગકથીતમોક્ષમાર્ગ સ્વરૂપ ધર્મને ધર્મરૂપે સ્વીકારવો, આ ઋણ તત્ત્વની શ્રદ્ધા ગુરુ મહા-રાજના ઉપદેશથી થાય છે, માટે ગુરુ મહારાજ સમક્રિતદાયક પ્રબલ નિમિત્ત કારણ છે, તેમને જ ગુરુ તરીકે સદા સ્વીકારી તેમની આજ્ઞા-નુસાર ચાલવું. વિવેકશૂન્ય અજ્ઞાનવાસીત ચિત્તવાળો મૂઢપુરુષ પરમાર્થબુદ્ધિહીન જેટલું પ્રવાહી ધોળું તેટલું દુઃખ એવી અજ્ઞાનતાથી રોજ પશુની પેટે સર્વ ઘુંડોમાં, સર્વ ધર્મોપદેશકોમાં ગુરુબુદ્ધિ ધારણ કરે છે તે અજ્ઞાની સ્વઆત્મશુદ્ધિ કરી શકતો નથી અને ભવિષ્યત્ કાલે સદ્ગુરુશ્રદ્ધા વિના કારણે પળ નહીં, આત્મતત્ત્વજ્ઞ, અધ્યા-ત્મોપયોગી ગુરુનું આલંબન અનાદિકાલસંલગ્ન અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, સહજાનંદી આત્માનુભવ મંદિરમાં મ્હાલનાર ગુરુ મહારાજ પ્રત્યક્ષ મારા ઉપકારી છે, અને જિનેશ્વર પરાક્ષ ઉપકારી છે, એમ વિવેકદાષ્ટિ જેને પ્રત્યક્ષ થઈ છે તે ધર્મ પામી શકે છે, ગુરુ શ્રદ્ધા અને ક્ષુદ્ધાન્તઃકરણથી ગુરુ ભક્તિ કરવાથી તેમનો ઉપકાર ભવ્યાત્માને લાગે છે, અને શ્રદ્ધા ભક્તિ વિના ઉપદેશ લાગતો નથી, ગુરુની આજ્ઞા

परमात्मदर्शन.

(४७)

विना स्वयमेव शास्त्र वांचे तो पण यथायोग्य तत्व तेना हृदयमां परिणमे नहीं, अने विपरीत परिणमे तो अपथ्यसेवननी इव उपदेश निष्फल थाय.

परमार्थथी जोतां तारंक बुद्धिथी गुरुराज उपदेश अर्पेछे, ते उपदेश विनयथी अति हर्षे श्रवण करी आदरवा योग्य आदरो, अने त्याज्यने त्यागो. सुगुरुमां गुरुबुद्धि थया विना उपदेश कंड असर करी शकशे नहीं, ए निश्चय जाणवुं. अने गुरुए जिज्ञासु अने श्रद्धालुने उपदेश आपवो, पात्र विना उपदेश लागतो नथी.

अज्ञानी मूढ मत कदाग्रही इगुरुओनी संगतिथी जे लोकोनी बुद्धि विपरीतपणे परिणमीछे, तेमने उपदेशथी असर क्वचित् थाय छे, खारी भूमिमां पतितजलनी जेम निष्फळताछे, तेम खल भवाभिनंदी जीवोने उपदेशनी पण निष्फळताछे, जेनां नीचे लस्या प्रमाणे लक्षण होय तेने उपदेश देवो योग्यछे.

१ संसारनी अनित्यताए वासित चित्त होय.

२ हुं कोणछुं? वयांथी आव्यो? वयां जइश? शुं मारे कर्तव्यछे?

३ हुं ते कोण? हुं अने मारुं ते शुं? ए जाणतो होय अथवा जाणवानी जिज्ञासा होय.

४ भवनो भय लागे एटले जन्म जरा मृत्युथी व्याप्तसंसार बळताअग्नि समान छे तेमां पडीश तो वळी मरीश एवो जेने भय होय.

५ गुरु महाराजनी वाणी उपर पूर्ण विश्वास होय तेम प्रीति होय.

६ सत्य अने असत्यने समजी शकतो होय अने कदाग्रहीन होय.

७ गुरु महाराजना कथनानुसार प्रवर्तनार होय.

(૪૯)

યોગ્ય અને અયોગ્યશ્રોતાંતું લક્ષણ.

- ૮ કપટ વૃત્તિ જેને હોય નહીં, અને સદાચાર પ્રવૃત્તિયુક્ત હોય.
- ૯ લોકવિરુદ્ધનો ત્યાગ કરનાર હોય.
- ૧૦ વિનેય હોય અને ગુરુની શ્રદ્ધા સહીત સેવામાં તત્પર હોય.
 इत्यादि लक्षणो जेनामां होय ते उपदेश ग्रहणार उत्तम पात्र-
 भूत ध्रावक वा मुनिपणे पण शिष्यो जाणवा.
 नीचेनां लक्षणवाळाओने उपदेश लागीं शकतो नहीं.

ગાથા.

રત્તો દુઠો મૂઢો--પુર્વિવુગ્ગાહિઓઅ ચત્તારિ
 ઉવણસસ્સ અણરિહા અહવાસણ્હિં પરિબુજ્જંતિ ॥૧॥

- ૧ સંસારનેજ સાર માની તેમાં અત્યાસક્તિ ધરનાર.
- ૨ હું કોણ છું ? મારે શું કર્તવ્ય છે ? તેનો પણ જેને વિચાર થાય નહીં.
- ૩ પાપનાં કાર્યો કરતાં ભય પામે નહીં,
- ૪ જીવોનો ઘાત કરનાર ધૂર્ત શઠ મૂર્ખપણું જેનામાં હોય,
- ૫ ગુરુના દોષો જોનાર, તેમની નિંદા કરનાર અને ગુરુની શ્રદ્ધા તથા ગુરુનો વિનય बहुमानरहीत હોય.
- ૬ ગુરુમહારાજની વાણી ઉપર વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, તેમજ તેમના ઉપર પ્રીતિરહીત હોય.
- ૭ કુગુરુ અને સુગુરુની પરીક્ષા કરવાની જેનામાં બુદ્ધિ ન હોય.
- ૮ કપટી, વ્યસની, તેમજ નિંદક હોય,
- ૯ કુગુરુના ફંદામાં ફસાણ્લ હોય અને દષ્ટિરાગી હોય.
- ૧૦ જેનું સ્થિર ચિત્ત ન હોય, જેમ ભમાવે તેમ ભમે, વિવેકશૂન્ય હૃદય હોય.

परमात्मदर्शन.

(४९)

- ११ गुरु करतां पोताने मोटो माननार, अने पोतानो कको खरो माननार होय.
- १२ उपदेश समजे नहीं अने गुरु उर द्वेष करे.
- १३ अविनयी होय.

इत्यादि लक्षणयुक्त जीवो होय ते उपदेश देवाने योग्य नथी, तथापि गुरुसंगतिथी तेवा जीवोने पण लाभ मळे, एकांत नथी, आत्मज्ञानी गुरु महाराज अवसरना जाणछे, माटे स्वपर लाभार्थे प्रवृत्ति करेछे, योग्य लागे तो उपदेश आपे अने अयोग्य लागे तो उपदेश आपे नहीं, मौन धारण करे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र वीर्यादि गुणोमां ध्यानथी प्रवर्ते, सद्गुरु महाराजा सदा स्वतंत्र आत्मोपयोगपणे वर्तेछे, धर्मध्यान अने शुद्धध्यानना योगे आत्मा परमानंद स्वरूपमां रमण करी तत्पद प्राप्त करे एम गुरुनी प्रवृत्तिछे, एवा गुरुनी आज्ञासह वर्तवुं.

“ दुहा. ”

- त्याज्यने त्यागी ज्ञानथी, उपादेयशुं हेत;
करता हरता कर्मने, शाश्वत पद झट लेत. ३२
- द्रव्यकर्म ने भावकर्म, तेनो करी परिहार;
समता संगे झीलतां, लहीए भवजल पार. ३३
- स्वच्छंदाचारीपणुं, रोकी सद्गुरु सेव;
गुर्वाधीन मनहुं करी, पामो शाश्वत मेव. ३४
- धन्वंतरिसमसद्गुरु, कर्ता कर्मनो नाश;
उत्तम वैद्यनी उपमा, तेना थइए दास. ३५

(५०)

गुरुधी गुरुता.

मूळ विना नहि वृक्ष जग, गुरुगम वण क्यां ज्ञान;
वांचो पोथी पत्र पण, नहीं टळे अज्ञान. ३६

भणवुं गणवुं मानथी, जन मन रंजन काज;
आत्मलक्ष्यना ध्यान विण, लहे न शिव साम्राज्य. ३७

क्रिया कांड कपटे करी, करतो रंजे लोक;
शुष्कज्ञान पण एकलुं, जाणो भविजन फोक. ३८

लाभालाभे सुख दुःख, शत्रु मित्र सम भाव;
उदासीनता चित्तमां, भवसागरमां नाव. ३९

निंदो निंदक नेहथी, पूजो पूजक कोइ;
धूर्तो कदेशे ढोंगीए, समभावे सब जोइ. ४०

अंतर्सृष्टियुगतणी, आत्ममांही अनुप;
बांठा बहु बोले सुणी, मनमां राखी चुप. ४१

भावार्थ—ज्ञानथी त्याज्य वस्तुने त्यागी आदरवा योग्य वस्तु स्वरूपज्ञानाधार आत्मा प्रति प्रीति अंतरात्मायोगे उत्पन्न थइ छे एवा मुनिवरो आत्मानी साथे एकतानथी प्रीति करता छता कर्मनो नाश करी झटिति सिद्धि सौधमां प्रवेशे छे, हे आत्मा जेना योगे तारी अशुद्ध परिणति थइछे, एवं द्रव्यकर्म अने भावकर्मने स्वतः शुद्धपरिणतिथी असंख्यातप्रदेशथी दूरकर, समताह्वीनी साथे ध्यान रूप सरोवरमां, क्रीडा करतां तुं भवपाथोधि सहेजे उतरी मुक्तिनगर प्राप्त करीश, एम मुनिराज ध्यानमां भावे, अष्टकर्मनो आत्मानी साथे जे बंध तेने द्रव्यकर्म कहे छे, अने राग द्वेषनी परिणतिने भावकर्म कहेछे, आत्मस्वरूपमां मृगता करवाथी द्रव्य-

परमात्मदर्शन.

(५१)

कर्म अने भावकर्मनो नाश थायछे.

हे शिष्य तुं परमात्मपदनी अभिलाषा राखतो होय तो स्व-
च्छंदताचारीयपणुं टाळी गुरुना आधीन मन करी सद्गुरुनुं सेवन
कर के जेथी शाश्वतपद पामीश, कर्मरोगनो नाश करणार्थम् गुरु
धन्वंतरी वैद्य समान छे, तेमना दास थइएतो कर्मनो नाश थाय,
वैद्य विना दवाओ पोताने फायदाकारक थती नथी, तेम गुरुनी
आज्ञा प्रीति विना गमे तेटलां सद्ब्रतो धारण करीए तो पण यथा-
योग्य आत्महित थतुं नथी.

मूळ विन वृक्ष क्यां ? अने गुरुगम वण आत्मज्ञान क्यां ?
श्रावक वर्ग अविद्या तथा अविनयना योगे स्वयंगुरु बनी ज्ञानी
गुरुनी अपेक्षा राख्या विना पोथी पुस्तक वांचे पण ते ज्ञान सत्य-
ज्ञान तरीके थशे नहीं, पोतानी मेळे वांचेला ज्ञानथी वैराग्यादि
गुणो जोइएतेवा प्राप्त थशें थहीं अने शंकादि दोषोनुं निराकरण
थशे नहीं. मुनिवर्गने पण गुरुगमद्वारा विनयभक्ति बहु मानथी
ज्ञान ग्रहवुं योग्य छे, अने तदर्थम् योगवहनादिनुं शास्त्रमां अनंत
ज्ञानी वीतराग भदंते भव्यात्माओना हितार्थे प्ररूपण कर्तुं छे.

मानथी पूजावाना अर्थे जनमन रंजनार्थम् विद्याभ्यास करवो,
शास्त्र वांचवां इत्यादि सर्व मोक्षहेतुभूत कार्य नथी, आत्माना
हितने माटे भणवुं, गणवुं, वांचवुं, इत्यादि शुद्ध परिणाम थयो नथी
त्यां सुधी शिव साम्राज्य पामी शकातुं नथी. बाह्याडंबरी क्रिया-
कांडना कपटथी देशोदेश विचरतो छतो मनुष्योने रंजे ते पण
आत्मलक्ष्यना उपयोग विना व्यर्थ छे तेमज क्रियाने नहीं मान-
नार, व्रतादिनो खप नहीं करनार जेने सत्यज्ञान थयुं नथी एवा
वाक्पटुताथीज पंडित पद धारण करनार शुष्कज्ञानीनुं एकळुं ज्ञान
पण आत्महित प्रति थतुं नथी.

(૫૨)

ગુસ્તી ગુસ્તા.

લાભ, અલાભ, સુખ, દુઃખ, શત્રુ, મિત્ર, જીવિતવ્ય, મરણ આદિ પ્રાપ્ત થતાં જેનું સમચિત્ત છે અને સાંસારિક પદાર્થો પ્રતિ હ્રદાસીનતા જેના હૃદયમાં વર્તે છે એવા સદ્ગુરુમુનિવર સંસારૂપ સમુદ્રમાં નાવ સમાન છે.

નિંદક સુશીથી (બેલાશક) એવા મુનિવરની નિંદા કરો, અને પૂજક ભાવથી મળે પૂજો, ધૂત્તો મળે ઢોંગી કહે, પણ એવા મહાત્મા સર્વને સમભાવે નિરવે છે. બીજાના મલા ઘુંડા કહે તેમાં પોતાને શું ?

જ્ઞાનિગુરુમહારાજા આત્માની ગુણસૃષ્ટિ અંતર્દૃષ્ટિ યોગે નીહાઠી પ્રમુદિત થાય છે, આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશો છે, એકેક પ્રદેશ અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્યાદિ ગુણો સદા શાશ્વત ભાવે રહ્યા છે, વઠ્ઠી આત્મા પોતાના સ્વરૂપે રૂપી છે, પુદ્ગલની અપેક્ષા અરૂપી છે, જ્ઞાનરૂપ ઉપયોગની અપેક્ષા સાકાર છે, દર્શનરૂપ ઉપયોગની અપેક્ષા નિરાકાર છે, વઠ્ઠી શાશ્વત આત્મામાં ઉત્પાદવ્ય અને ધ્રુવ સમયે સમયે વર્તે છે, વઠ્ઠી આત્મામાં સ્થિત અગુરુલઘુ ષડ્ગુણહાનિ વૃદ્ધિ કરે છે, એ આત્મા પુદ્ગલ દ્રવ્ય સાથે મિલે છે તો પણ તે થકી ન્યારી છે, અનંત ઋદ્ધિનો ભોક્તા મારા આત્મા વિના પરદ્રવ્યની સાથે મારે કંઈ સંબંધ નથી, મારો આત્મા કર્મે અવરાયો છે, પણ તે ગુણો મારા નહીં થયા નથી, મારા આત્માના ગુણોને ઉપમા આપવી વ્યર્થ છે, અહો હું આત્મા અસ્થંડહું, સર્વ પદાર્થનો હું સમયે સમયે જ્ઞાતા છું, ત્રગ ધ્રુવનમાં એવો કોઈ પદાર્થ નથી કે મારાથી અજાણ્યો હોય, હું પ્રકાશક છું, અન્ય દ્રવ્ય પ્રકાશ્ય છે, જ્ઞાતા અજ્ઞાતા એ હું જાણું છું, પણ તેથી હું ન્યારો છું, મારું સ્વરૂપ વાચ્યા-વાચ્ય વૈલ્લરી ભાષાથી છે, મારા અનંતા ગુણો છે તો હવે મારે પર-ભાવમાં રમણતા કેમ કરવી ? એમ વિચારી આત્માના ગુણો તરફ

परमात्मवर्षन.

(५३.)

पोतानी दृष्टि दीधीछे, जेणे एवा मुनिभ्रजुं शरण याओ. एवा मुनिवरो आत्मध्यान ध्याता आपस्वभावमां विचरेछे, बकवादी-ओना धर्तीगो सांभळी मौन धारण करी सद्गुरुओ विचरे छे, कुगुरूप विषधरोनी कुदेशनारूप विषज्वालाथी अज्ञान सर्व मनुष्यो प्रायः मुंझाइ गयाछे, कोइ विरला आसन्न काळमां सिद्धिपद पा-मनारा महात्मओ वा तेमना अनुयायी शिष्यो सम्यग्मार्गे गमन करेछे.

“ दुहा. ”

नाटकियानी पेठ ज्यां, धर्मतणो उपदेशः

अंतर्दृष्टि ज्यां नहीं, तेनो मिथ्या वेष. ४२

अहो दुःषम कलिकालमां, विरला सुभसुरु जोयः

बाकी फुट्यो राफडो, सर्पतणो अवलोयः ४३

द्वेष गच्छ ममता ग्रही, वळी कदाग्रह चित्तः

मतमतांतरमां पडया, दुर्गतिनारीमित्त. ४४

भावार्थ—अंतर्दृष्टिना उपयोग विना नाटकीयानी पेठे ज्यां धर्मनो उपदेश साधुनाम धरात्री आपेछे तेनो वेष मिथ्याछे.

पंचविष ज्यां भेगां मळयांछे एवा आ कलिकालमां विरला शुद्ध मुनियो होयछे, बाकी लौकिक अने लोकोचर कुगुरुओनो जाणे राफडो फुट्यो होय अने सर्पो फाटी नीकळे तेनी पेठे फाटी नीकळयाछे.

वेषनी ममता, गच्छनी ममता वळी कोइ प्रकारनो मनमां कदाग्रह राखी जे साधु राग द्वेषना उदये मतमतांतरमां रक्त थया छता, शुद्ध प्ररुपणा भूळी पोतानी पुष्टिने माटे मोहांध बनी आत्मस्वरूपनुं भान भूळी परभावमां राचेछे, माचेछे तेवा कुगुरुओ दुर्गति नासीना मित्र जाणवा.

(૫૪)

ગુરૂની ગુસ્તા.

“ દુહા. ”

જલધિ ભરતી ઓટમાંહી, મત્સ્યો આકુલ થાય;
 તીરે આવે પ્રાણ નાશ, ગચ્છતણો એ ન્યાય. ૪૫
 શરીરપર મમતા નહીં, કરે શું તેને દેહ;
 ગચ્છ વસ્યો વ્યવહારથી, અંતર્ગુણ ગણ ગેહ. ૪૬

ભાવાર્થ—સમુદ્રમાં ડ્યારે ભરતી ઓટ આવેછે, ત્યારે જલપ્રવાહના જોરથી મત્સ્યો આકુલ વ્યાકુલ થાયછે, તેમાંથી કોઈ કંટાળીને કાંટે આવેછે, ભરતી ઉતરી જાતાં જલ વિના તરફડી મરણ પામેછે, વા ધીવરો તેને પકડી લેછે, અને દુઃખભાગી થાયછે, તેમ ગચ્છ સિંઘાઢામાં વસતો કોઈ મુનિ, આવી કેવલ આત્મની વાત સાંભળી એકાકી વિચરેછે, તો તે આત્મહિત કરી શકતો નથી, માટે ગચ્છમાંહીં વસીને આત્મસાધન કરવું, વૈરાગી, ત્યાગી ગીતાર્થ જ્ઞાની પોતાની યોગ્યતાથી આત્મસ્વરૂપના ધ્યાન માટે એકલ વિહારી થાય તેનો એકાંત નિષેધ નથી.

જે મુનિવરોને શરીરપરથી આત્મજ્ઞાનના બલવડે મમતાભાવ ઉઠી ગયોછે, તો તે મુનિવરોને શરીર રાગ દ્વેષનું કારણ થતું નથી. તો પશ્ચાત્ વ્યવહારથી ગચ્છમાં વસેલા તથા વસતા એવા મુનિયોને ગચ્છ ઉપર કેમ મમતા થાય. અને કેમ ગચ્છ રાગ દ્વેષનું કારણ થાય ? અલબત્ત થાય નહીં. ગચ્છ ઇટલે સાધુનો સમુદાય, સમૂહ, તેમાં જ્ઞાનીને કેમ મોહ થાય ? અને અજ્ઞાની તો ગચ્છનો સ્વીકાર કરે નહીં, તો પણ શરીરપર મમતા ધારણ કરે. જ્ઞાનના અભાવે સંવરનાં કારણો પણ અજ્ઞાનીને આશ્વરૂપે પરિણમેછે. જેનાથી બંધાયછે, તેનાથી જ્ઞાની છુટેછે, માટે જ્ઞાની ગુરુ મરારાજા અંતરમાંથી સંસાર સ્વેલચક્રી ન્યારા રહી વર્તેછે, જ્ઞાનિકો મોગ

परमात्मदर्शन.

(५५)

सत्री निर्जराको हेतुहे=ज्ञानी भोग कहे तो पण तेथी निर्जरा था-
यछे. ज्ञानीने कोइना प्रतिबंध नथी, राग द्वेषजुं जे कारण लागे
तेनाथी दूर रही आत्मध्यान करेछे. श्री यशोविजयजी प्रमुख
सुगुरुओ जाणवा.

कपटी मुनिजुं लक्षण कहे छे.

“ दुहा. ”

मनभीतरनी ओरने, वर्ते बाहिर ओर;
कहेणी रहेणी सम नहीं, ए पण चऊटा चोर. ४७

मनमां कंड अने बाहिर आचरण कंड कहेणी प्रमाणे रहेणी
न होय, श्रावनी आजीजी करनार होय, कपटपणाथी वर्ते ते
पण चऊटानो चोर जाणवो, कदापि व्रतादि पाळी शकतो होय
नहीं पण प्ररूपणा वीतरागमार्गना अनुसारे करे ते आराधक छे,
पण कपटी तो विराधक छे.

“ दुहा ”

योग्य जाणतां खोलता, पेटीःधर्म विशाल;
सेवो साचा दीलथी, सदगुरु महा कृपाल. ॥४८॥

ज्ञानी गुरु महाराजा योग्य जीव जाणीने धर्म रत्ननी पेटी
मनोहर विशाल खोले छे, अने तेना आत्मानुं कल्याण करेछे,
भव्योने उपदेश द्वारा मोक्ष मार्ग दर्शावे छे, अयोग्य मनुष्यनी
आगळ मौन धारण करे छे, जे दृष्टिरागी न होय अने विनयी
होय तेनी आगळ योग्यता प्रमाणे अवसरे उपदेश आपेछे, एक
सरखो उपदेश प्रत्येक मनुष्यने परिणमतो नथी, माटे योग्यनेज
उपदेश देवो, भेषजुं जल, सीप, झाड, सर्प आदिना मुखमां पडयुं

(૫૬)

ગુરુની દુર્લભતા.

પતું ભિન્ન ભિન્ન પરિણમે છે તેમ અત્ર પળ દૃષ્ટાંત જાણવું.

કોઈ એમ કહેશે કે—મુનિઓએ સર્વને ઉપદેશ આપવો અને ઉપદેશ આપવા માટે તો સાધુપણું અંગીકાર કર્યું છે, અને ન આપે તો અન્ય કોણ આપે ? તેને પ્રત્યુત્તરમાં કહેવાનું કે—જેમ સેનાપતિ લશ્કરી સિપાઈને તરવાર સ્વેલતાં મારતાં શીખવે છે, પણ જેની યોગ્યતા થઈ નથી તેવાં લઘુ બાલકને કંઈ હાથમાં તરવાર (સ્વડ્ગ) આપતો નથી, ને આપે તો બાલકનો નાશ થાય તેમ જ્ઞાની ગુરુ યોગ્યતા જેને પ્રાપ્ત થઈ છે તેને ઉપદેશ આપે છે. ઉપદેશમાં પણ પાત્રના આધારે ફેરફાર રહે છે, કેટલાક સ્થાને સંસારમાં રાચેલા માંચેલા શ્રાવકો વિરતિધર્મના ભાષણરૂપે ઉપદેશ આપે છે, પણ તેમનું વૈરાગ્ય ત્યાગ વિના સર્વ અલેખે જાણવું. ગુરુના ઉપદેશથી જે વૈરાગ્ય થાય છે તે અન્યથી થતો નથી. પંચમારકમાં શ્રી તીર્થેકરાદિના અભાવે તથા પંચવિષના યોગે યોગ્ય જીવો અલ્પ જાણવા માટે હે ભવ્યાત્માઓ મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે નિર્મલ મનથી સદ્ગુરુનું શ્રવણ કરો, અને તે ફરમાવે તેજ શ્રદ્ધાથી અંગીકાર કરશો તો પરમપદ પામશો.

“ દુશા. ”

બને બને નહીં હસ્તિયો, યુગે યુગે નહિ દેવ;
 મુંડ મુંડ નહિ ગુરુપણું, જાણી સદ્ગુરુ સેવ. ૪૯
 વિષય મીઠા મોગી નહીં, બ્રહ્મચારિ ગુણવંત;
 કપટ વૃત્તિ ત્યાગી સદા, નમું સદ્ગુરુ મહંત. ૫૦

બન બન પ્રતિ હસ્તિયો હોતા નથી, અને ભરત પેરવતનો પ્રત્યેક આરકમાં કંઈ તીર્થેકરોની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તે પ્રમાણે મસ્તક

रमात्मदकीन.

(५०)

मुंदावी रजोहरण मुहपत्ति झाली लीधेला गृहस्थ जेवामां सर्वमां कंडः गुरुपणुं होतुं नथी, जीव अजीवनुं स्वरूप जाणे नहीं अने दुःख-गर्भित वैराग्यथी साधुवेष ग्रहण करी राग द्वेषना फंदमां फसाय, हसे, तोफान करे, क्लेश करे ते सर्व कुगुरुओ जाणवा, जे महात्पाओ विषयभिक्षाना भोगी नथी, ब्रह्मचारीछे, क्षमादि गुणवंतछे, अने कपटवृत्तिनो जेणे त्याग कर्योछे अने जे गाढरीयानी पेटे चालता नथी तेवा सद्गुरुने हुं पुनः पुनः नमस्कार करुंछुं, बाकी वेष धरवा मात्रथी हुं ? माटे परीक्षा करी आत्मतत्त्वना उपयोगी गुरुनुं शरण करवुं, एकगुरुनी आज्ञा प्रमाणे वर्त्तवुं, पतिव्रतानी पेटे माथे एक धर्मभद गुरु होय, एक गुरुनी भक्ति अर्द्धाथी शिष्यश्रावक सद्गुणधाम बनेछे, अनुभवथी जोतां एम जो न वर्त्तय तो संपूर्ण धर्म पामी शकाय नहीं, कोई गुरु कंड कहे अने कोई गुरु कंड कहे, हवे वेमांथी कोनी आज्ञा मानवी, जेवो जोइए तेवो एकथी अधिक गुरुओपर भक्तिभाव, रहे नहीं, घणा पक्का अनुभवथीओने आ वाक्य सत्य लागसे, नहीं लागे तेंनुं भाग्य, बाकी अन्य सुसाधुओ मानवा पूजवा योग्यछे. तेमनी भक्ति करवीं अने सदुपदेश सांभळवो. आ वात गुरुव्रत ग्रहणनी अपेक्षाएछे.

“ दुहा ”

धर्मरत्न जेथी मुदा, लहीयुं गुरु रसाळ;
शरण शरण तेनुं सदा, अकर म झंखो आळ ॥५१॥
भटकी गुरु गुरु वंदीया, शिर पटक्युं सोवार;
ज्यां त्यां माथुं नामियुं, लह्यो न किंचित् सार ॥५२॥

भावार्थ—जेनी पासेथी धर्मरत्न समेजी समकित ग्रहण कर्युं, हर्षवडे ते गुरुनुं सदा मन वचन अने कायाए करी शरण अंगी-

(૫૯)

આત્માર્થિ : શિષ્યલક્ષણ.

કાર કરુંહું, અને ભવ્યાત્માઓ કરો, અન્ય આઠ પંચાઠ શંખો નહીં.

કુગુરુઓમાં ગુરુની બુદ્ધિ ધારણ કરી વાંચા, તેમના ચરણે શતબાર શિશ પટક્યું અને હરાયા ઢોરની પેટે જ્યાં ત્યાં માથું ઘાલ્યું અને માથું નમાવ્યું પણ સાર કંઈ પામ્યો નહીં, અને તે પ્રમાણે વર્તવાથી આત્મહિત થવાનું નથી.

યત:

અગીયથ્થ કુસીલેહિં, સંગં તિવિહેણ વોસિરે ॥

મુસ્વમગ્ગંસિમે વિગ્ઘં, પહંમિ તેણગે જહા ॥૧૧॥

અગીતાર્થ અને કુસીલિયાનો સંગ ત્રિવિધે વોસિરાવવો, પંથમાં ધોરની પેટે મોક્ષ માર્ગમાં વિગ્ન કરનારાછે.

“ દુઃખ. ”

એમ અનંતા ભવ ભમી, પામ્યાં દુઃખ અપાર;

સદ્ગુરુ સ્હેજે ઓઝરૂયા, તાર તાર મુજ તાર ॥૧૩॥

માવાર્થ—એમ અનાદિકાલથી કુગુરુની સંગતિયોગે આત્માના અશુદ્ધ પરિણામે, ચતુર્ગત્યાત્મક સંસારમાં અનંતિવાર ભ્રમણ કરી વિચિત્ર શરીર ધારણ કરી તાડન તર્જન, ક્ષુધા, તૃષ્ણા, રોગ, શોક, વિયોગાદિથી અનંત દુઃખ લહું, હવે ભવિતવ્યતાયોગે સદ્ગુરુને ઓઝરૂયા, જીવ આનંદ પામી, ગુરુ વિશ્વાસથી કહેછે કે હે ગુરુ તું મને તાર તાર, તાર તાર એ શબ્દ પુનઃ પુનઃ કથનથી સંસાર ભય સાથે મુક્તિ માર્ગની અતિ આકાંક્ષા જણાવી, આત્માર્થી ધ્યાની સમક્ષિત દાતા ધર્મગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું.

परमात्मदर्शन.

(५९)

“ परमात्मार्थिं गुरुभक्त शिष्योनुं लक्षण कहेछे. ”

“ दुहा. ”

गुरु विनयी भक्ति घणी, श्रद्धा ए मन स्थिर;
शिवपद अर्थी साहसी, मनमां आते गंभीर ॥५४॥

गुरुनो विनय मन वचन अने कायाधी करवामां तत्पर होय, यथाशक्ति भावधी अत्यंत भक्ति गुरुनी करनार होय, गुरुक्त तत्त्वने विषे जेनी श्रद्धा स्थिरपणे होय वा गुरुना द्वेषीळा इर्ष्यावाळा तथा तेमना प्रतिपक्षी कुगुरुओ तथा कुभक्तो आहुं अवलुं समजावे, गुरुना दोषो देखाडे कुयुक्तिधी गुरु महाराजे कहेलां तत्त्वनुं खंडन करे, वळी एम कहे के-एनामां शो भलीवारछे, एतो कंड जाणतो नथी. कपटीछे, एम पोतानी मरजीमां आवे तेम बोले पण तेथी सुशिष्योनी गुरु उपरनी श्रद्धा जरा मात्र पण कपी थाय नहिं, उलटुं सुवर्णने जेम जेम गाळीए तेम तेम दिप्तिमंत थाय तेम गुरु भक्त शिष्योनी श्रद्धा उलटी बधती जाय, अने गुरुओनी संगतिधी श्रद्धा उठे तो पीतळ समान भक्तो जाणवा, एवा भक्तो ४ चार गतिमां भटक्या, भटकेछे, अने भटकशे, श्रद्धा बे प्रकारनी छे, हळदरना रंग समान अने अन्य मजीठ समान, हळदर समान श्रद्धानो कारण पाम्प्याधी नाश थायछे, माटे गुरु उपर मजीठना रंग समान श्रद्धा थवी जोइए वळी श्रद्धाना बे भेदछे. १ प्रशस्य श्रद्धा, अने २. अप्रशस्य श्रद्धा ते प्रत्येकना पण बे भेद छे, हळदर रंग समान, मजीठ रंग समान, वळी लौकिक गुरु अने लोकोत्तर गुरुनी श्रद्धा जाणवी.

वळी श्रद्धा बे प्रकारनी छे, व्यवहार नय गुरु श्रद्धा,—व्यवहार नयधी गुरु अनेक प्रकारनाछे, पापनी विद्या शिखवे ते पाप

(૬૦)

યોગ્ય અને અયોગ્ય શ્રદ્ધાનું લક્ષણ.

ગુરુ, આજીવિકાની વિદ્યા શિખવે તે આજીવિકા ગુરુ, પણ એ ગુરુઓ વ્યવહારથી છે, ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે તે વ્યવહારથી શુદ્ધ ગુરુ જાણવા, અસ્તિ નાસ્તિ ભેદોવદે કરી આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવનાર ધર્મગુરુ સમાન અન્ય કોઈ ગુરુ નથી. બીજા ગુરુઓને તો અર્નતિવાર જીવ પામ્યો, પણ તેથી આત્મહિત થયું નહીં, અને સમક્ષિત પ્રગટયું નહીં, પણ ધર્મગુરુયોગે સમક્ષિતની શ્રદ્ધા થઈ, માટે ધર્મગુરુ સમાન કોઈ ગુરુ નથી, વ્યવહારનયથી સત્યપ્રશ્નસ્ય ધર્મગુરુ શ્રદ્ધા જાણવી. આદરવા લાયક છે. નિશ્ચય નયથી પોતાનો આત્મા ગુરુ જાણવો, ગુરુની શ્રદ્ધા ભક્તિમાં સ્વામી તેટલીજ ધર્મમાં સ્વામી સમજવી.

મોક્ષ જિજ્ઞાસુ અને તે માટે ઉદ્યમ કરનાર શિષ્ય હોય, ધર્મકાર્યમાં સાહસિક વિક્રમરાજાની પેઠે હોય, વીરુણ ના હોય તેમજ કોઈથી દબાય નહીં, કોઈના તેજમાં અંજાઈ જાય નહીં. વઢી મનમાં અતિ મંભીર હોય, એટલે ગુરુએ કહેલ વાતો હિત વચનો પોતાના મનમાં રાલ્લે અને ગુરુના દોષ અન્ય આગલ લોલે નહીં, ગુરુનો વિશ્વાસી હોય, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એ લે મોટા ગુણલે, ગાહરીયા પ્રવાહથી ગુરુનામ ધરાવનારાઓ કૂલાચારમાં આસક્ત જીવો ગુરુની ગુરુતા જાણી શક્તા નથી. એનું શિષ્યનું લક્ષણ કહું.

ગુરુભક્ત શિષ્યોનું લક્ષણ.

“ દુહા. ”

વૈરાગ્યે મન વાઢીયું, વાર્યા વિષય કષાય;
ધીરજ જસ સુરગિરિસમી, વશ જશ મન વત્ર કાય૫૫

માત્રાર્થ-સંસારની અનિત્યતા માલ્વી મન જેનું વૈરાગ્યરંગમાં પ્રવ્યંલે. અને જેણે વિષય કષાયને યથાશક્તિએ વાર્યાલે અર્થાત્

परमात्मदर्शन.

(६१)

त्रिभय कषायनी परिणति जेनी मंद थइछे, आत्मामां रहेल धर्ममां प्रेनु मन वळ्युंछे, बाकी सांसारिक कार्यमां जेनुं चित्त लागतुं नथी, अने सांसारिक कार्य करेछे तोपण ते थकी न्यारो रही लुखा परिणामे करेछे, मेरुपर्वत सम जेने धैर्यता प्रगट थइछे, देव-वार्थी पण ढगायो ढगे नहीं, एवो धैर्यवंत होय, मन वचन अने कायाना योग जेना वशवर्ति थयाछे, एवा गुरुभक्तशिष्यो भवनो पार पामसे.

“ दुहा. ”

समता चित्त अंगी करी, अदेखाइनो नाश;
करता गुरु भक्तो सदा, पामे शिवपुर वास ॥५६॥
गुरु आज्ञाए चालतो, करे न आज्ञालोप;
शिक्षा गुरु देतां सदा, कदी करे नहि कोप ॥५७॥
गुरु सेवामां रत सदा, गुरु गुण करे प्रकाश;
गुरु अवगुण दाखे नहीं, ते गुरु भक्तो खास ॥५८॥

भावार्थ—जे शिष्योए समता पोताना मनमां अंगीकार करीछे, लोभादिक अवगुणोनी मंदता थइछे, अने अदेखाइनो नाश जेणे कर्योछे, गुणिनी अभिवृद्धिथी जेना मनमां इष्यां थती नथी, अथवा गुरुमहाराज कोइ शिष्य उपर विशेष प्रीति राखे पण तेथी अन्य शिष्यनी अदेखाइ करे नहीं, गुरुमहाराजना जेटळा भक्तो होय तेटळा उपर पोताना प्राण पाथरे, एवा गुरु भक्तो आ तोफानी दुनियामां रह्या छता पण अंतरंगथी न्यारा रह्या छता गुरुनी भक्ति द्वारा ज्ञान पामी अनंत सुखसमय सिद्धि सौध पामे. मुमुक्षु शिष्य गुरु आज्ञामां धर्म मानतो गुरुनी मरजी प्रमाणे चाळे, मन, वचन

(६२)

आत्मार्थि शिष्यलक्षण.

अने कायाने गुरुनी आज्ञा मरजी अनुसार प्रवर्तवे, कदी गुरुनी आज्ञानो लोप करे नहीं, विपरीत मार्गमां अज्ञान, प्रमाद, मति-भ्रमथी चालतां गुरु भक्तोने गुरु महाराज शीखामण आपतां क्रोध थाय नहीं, गुरु प्रत्यक्ष होय वा परोक्ष होय तो पण देवनी पेठे तेनुं सदा ध्यान करे, परोपकारनी स्मृति लावे. अने गुरुनी भ-क्तिमां शिष्य सदा आसक्त रहे, अने गुरुना गुणोनो सर्वनी आ-गळ प्रकाश करे, कोइ गुरुनी निंदा सांभळवाना करतां पृथ्वीमां पेसी जवुं सारुं, कोइ एम कहेशे के गुरुमां दोषो होय तो केम गुरुने मानवा ? अत्र समजवानु के अन्यना कहेवाथी दोषोनी शंका लाववी नहीं, दोषो होय तो पण ढांकवा, उपकारीना उपकारनुं लक्षण ए छे के कोइ कर्म उदयनी प्रबळताथी गुरु अवळा मार्गे चाले तो गुरुभक्त बुद्धियुक्तिप्रयत्नथी ठेकाणे लावे. पण प्राण जतां तेमनी अन्यना आगळ निंदा करे नहीं, निंदा करवाथी कंइ फायदो थतो नहीं माटे परोपकारज्ञशिष्य, गुरुना अवगुण प्रकाशे नहीं, गुरुद्रोही गुरुनिंदक कुशिष्यने आत्मज्ञान सबळं परिणमतुं नहीं, अरिहंतनी स्तुतिथी जेटलो लाभछे, तेटलो गुरुनी स्तुतिथी लाभ जाणवो. दीक्षादायक पण धर्मगुरु होयछे, उपर कहेलां लक्षणो जेनामां होय तेने गुरुभक्तो जाणवा, एवा गुरुभक्तो संसार समुद्रनो पार पामी शकेछे, सत्य असत्य धर्मनी परीक्षा करनार पण शिष्य होवा जोइए, तेम देवनुं लक्षण पण जाणनार अने कुदेवने परिहरनार शिष्य होवा जोइए, अन्यथा कुगुरुमां गुरुनी बुद्धि धारण करी भवपाशमां सपडाय माटे शिष्य सुगुरुना परीक्षक होय ते मुक्तिपद पावे.

“ दुहा. ”

विधिण सदगुरु वंदता, निंदे अवगुण नीज;

परमात्मदर्शन.

(६३)

क्षणे क्षणे गुरु देखतां, राखे मनमां रीज ॥५९॥
अनुभव पच्छिशी कह्यो, विनय तणो अधिकार;

गुरुभक्तो विधि पूर्वक त्रिकाल सदगुरु वंदन करे, अने पो-
तानामां रहेला दोषो गुरु आगळ निंदे, के जेथी ते दोषोनो झाटीति
नाश यह शके. जेटळीवार गुरुने देखे तेटलीवार मनमां आनंद पामे.

विनयनो विशेष अधिकार अस्मदीयकृतअनुभवपंचविंशति
नामक ग्रंथमां कह्यो छे.

ते रीते जे चालशे, ते लेशे भवपार ॥ ६० ॥

ते क्रम प्रमाणे जे चालशे ते भव्यात्मा संसार समुद्रनो पार
पामशे, अमुक मारुं कल्याण करशे के अमुक एवुं जेनुं अस्थिर
चित्त छे, ते गुरुनो विश्वास पात्र थतो नथी.

“ दोहा. ”

रमणिक रामा देखतां, प्रेमी मनमां प्यार;
तेहथी अधिको सदगुरु, शिष्य तणो निर्धारं ॥६१॥

शोळ शणगारे अलंकृत नवयौवना सुंदर अंगवाळी स्त्री उपर
तरुण प्रेमी पुरुषनो जेटळो राग होयछे, ते थकी अधिक सदगुरु
उपर प्यार शिष्यनो होय तो शिष्यनुं कल्याण थाय. अने गुरु
भक्तोनुं कल्याण थाय, अन्यथा आत्महित थवुं मुश्किलछे, आ
रहस्य अनुभवथी अवबोधवा योग्यछे, मूर्खात्माओने माटे आ
लखाण नथी, दुःखाब्धिभवनो नाश करवाने जे तत्पर थयाछे,
अने जेमने तत्त्व रहस्य प्राप्त करवुंछे तेने माटे आ लखाणछे. वं-
चक, अस्थिरचित्तवाळा प्रपंची, कृतगुणने नहीं जाणनारने सदगुरु
तत्त्वरहस्य बतावता नथी. रासभने शर्करा अवगुणकारीछे, सर्पने

(૬૪)

આત્માર્થિ શિષ્યલક્ષણ.

દુग्ધપાનસદૃશ અયોગ્યને તત્ત્વોપદેશછે, યોગ્ય અને અયોગ્યની પરીક્ષા કરવી ગુરુમહારાજના હસ્તમાંછે, વિડાલના ઉદરમાં સ્વીર ટકતી નથી તદ્વત્ અયોગ્યના હૃદયેધર્મતત્ત્વ ટકતું ની. અવિનયીને ગુપ્તધર્મતત્ત્વરહસ્ય આપવું આત્મહિતકર થતું નથી.

સંપ્રતિ કાલે ધર્મતત્ત્વનો ઉપદેશ શાક ભાજીપાલાની પેટે યોગ્ય અયોગ્યની પરીક્ષારહીત દૃષ્ટિગોચર થાયછે, તેથી વાકુલેશ વા અલ્પફલની પ્રાપ્તિ થાયછે, સ્વેદુત પળ ભૂમીની પરીક્ષા કરી વાવવા યોગ્ય ધાન્યકાળે થાવેછે, તો ધર્મરૂપ બીજ યોગ્યાયોગ્યની પરીક્ષા કર્યા વિના કાઢવિના કોઈપણ મનુષ્યના હૃદયમાં રોપવું; તે અનુચિત્ત, ચિંતનીયછે. જગત્માં મનાવા પૂજાવાની લાલચે જગત્ના પ્રવાહમાં પડેલા ગુરુનામ ધરાવનારાઓ ગમે તેમ ઉપદેશ આપી મોઢા જીવોને ફસાવી પોતાના વશમાં કરી લેઈ રાચેછે, માચેછે, તે પોતાનું તથા અન્યનું યથાયોગ્ય મહું કરી શકતા નથી. સદ્ગુરુ સ્વતંત્રછે, યોગ્ય હોય તેહને ઉપદેશ આપે, અન્યથા મૌન રહેછે.

કુયુક્તિ કરનારા અને પોતાની પંડિતાઈ જણાવનારને સદ્ગુરુ અંતકરણથી ઉપદેશ આપતા નથી, તેમજ ગુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ નથી તેની સાથે ગુરુજી માથાકૂટ કરતા નથી. પત્થર ઉપર કમલ ઉમે તો અવિશ્વાસીને ગુરુનો ઉપદેશ લાગે. ગુરુના ઉપદેશથી વચ્ચમાં પોતાનું ઢહાપણ ચલાવનાર ગુરુમક્ત કહી શકાય નહીં, હાલના કાઢમાં ગુરુમક્ત થવું મુશ્કેલછે, કેટલાક પત્થર સમાન કુગુરુઓછે, પોતે સંસાર સમુદ્રમાં વૂડે અને સ્વઆશ્રિતોને બુડાડે, સંસાર સમુદ્ર તરવામાં કેટલાક પાંદડા સમાન ગુરુઓછે, અને કેટલાક વહાણ સમાન છે, એમજાણી સદ્ગુરુનું અવલંબન કરવું જીવનમર્થ છે.

परमात्मदर्शन.

(१५)

“ दुहा ”

समकितदायक सद्गुरु, तेवुं नहिं मन भान;
परोपकारी बुद्धि वण, ते भटके अज्ञान. ॥ ६२ ॥

समकित दायक सद्गुरुना उपकारनुं जेने भान नथी ते परोपकृतिथी अजाण सम्यक्त्वनो सार फल पामी शके नहीं, उपकार बुद्धिनी विकलताए गुरुना विनयना अभावे राखमां घी होम्या जेवुं थाय ते संसार समुद्रनो पार पामी शके नहीं.

“ दुहा. ”

समकितदायक गुरु अने, दीक्षा गुरुमां भेद;
अंतर रवि खजुआ समो, सुशिष्य मनमां वेद. ६३
दीक्षा दायक महामुनि, धर्मगुरु जग जोय;
समजे समजु सानमां, करो न संशय कोय ६४

भावार्थ—सम्यक्त्व दायक धर्मगुरु अने दीक्षा गुरुमां घणो भेद छे क्यां, रवि अने क्यां खजोत एटलो अंतर हे सुशिष्य मनमां जाण. दीक्षा प्रदायक गुरु बाहुलताथी धर्मगुरु होइ शके छे. कारण के—धमप्राप्ति जेनाथी थइ होय ते दीक्षा आपे तो ते होइ शकेछे, समजु सानमां समजने संसयनुं कइ प्रयोजन नथी. धर्मगुरुनो उपकार कोइ पण रीत्ये वळे तेम नथी.

“ दुहा. ”

एवा गुरुने सेविए, थइए सद्गुण धाम;
गुण धारी शिष्यो लहे, शिवपुरनो विश्राम. ६५

सद्गुणधाम भूत गुरुपदपंकज सेवतां अनेक गुणधाम भूत

(६६)

गुरुमां गुरुता.

शिष्यो थाय, अने गुग्धारी शिष्यो शिवपुरतो विश्राम लइ शके छे, सद्गुणी धनारने प्रथम गुरुनी आवश्यकताछे, दुष्पंथी सुपंथे लावनार गुरुमहाराजछे, जेने गुरु नथी ते पोते गुरु थइ शकतो नथी.

“ दुहा. ”

सहस्र सूर्योदय हुवे, चंद्र उगे शतवार;
दीपक करो हजार पण, अंध न जुवे लगार. ६६
ज्ञानी सद्गुरु जो मले, अतिशय दे उपदेश;
मूर्खने लागे नहीं, उलटो थावे क्लेश. ६७

भावार्थ—सहस्रगमे सूर्यो प्रकाशे, हजारवार चंद्रनो उदय थाय, हजार दीपक सळगावो, पण जे अंधपुरुषछे ते जरा मात्र पण देखी शकतो नथी. तेम मूर्खात्मा मोहांध जडपुरुषने ज्ञानी सद्गुरु मळे अने अतिशय उपदेश आपे तोपण मगशैलीया पाषाणनी पेठे जरा मात्र असर थती नथी. उलटो मूर्खने क्लेश थायछे, अने सद्गुरुने पण वाक्क्लेश अवशेष फल जाणवुं.

“ दुहा. ”

जडताए जड थइ रहे, गुरुमां कुगुरु बुद्धि;
रासभपुच्छ ग्रही इव, करे न आतम शुद्धि. ६८
सद्गुरुनो विश्वास नहि, कुगुरुनो विश्वास;
अज्ञानी पशु आतमा, सर्व दुःखनो वास. ६९

भावार्थ—आत्मस्वरूपनी अज्ञानताए जड जेवो थइ जइ दृष्टि-रागथी तथा मोहांधपणाथी गुरुस्वरूप समज्या विना कुलनी मर्यादाए गुरुपणु मानतो अज्ञानी जीव गुरुमां अगुरुपणु मानेछे,

परमात्मदर्शन.

(३७)

अने अवळी परिणतियोगे कुगुरुमां गुरु बुद्धि धारण करेछे, ते पोतानी कुटेवने गद्धापुच्छ ग्रहनारनी इव भवभ्रमण दुःख राशि पामतां सद्गुरुनो उपदेश लागतां पण पोतानी हठ मुक्तो नथी. तेवो अज्ञानी जीव पोताना आत्मानी शुद्धि करी शक्तो नथी. जेने सद्गुरुनो विश्वास नथी अने कुगुरुना वचननो विश्वासछे, ते अज्ञानी पशु आतमा सर्व दुःखनुं पात्र बनेछे, अवळी परिणतियोगे अवळा मार्गे भवितव्यतायोगे गमन करेछे. तेवा जीवने योग्यतानी प्राप्ति विना उपदेश पण क्लेशभूत थायछे, राजा, दीवान, शेठ, लक्षाधिपति होय पण योग्यता विना सद्गुरुनो उपदेश असर करतो नथी.

“ दुहा. ”

तर्कशक्ति जेनी घणी, वाणी जस गंभीर;
मोक्षाशा मनमां वशी, धर्मकार्यमां धीर. ७०
एवा शिष्यो पामशे, अनेकान्त सुपंथ;
गुरुगम ग्रंथो वांचीने, थाशे महानिग्रंथ. ७१

भावार्थ—जेनी तर्कशक्ति घणी होय, अने वाणी गंभीर होय, खप पडे तेटळुं बोले, मोक्षाशा जेना मनमां वशी होय. अने धर्म कृत्यमां मेरुवत् अडगवृत्ति होय, गुह्यां वचनो वज्रना टांकणानी पेटेज जेम जेना हृदयमां कोतरातां होय, एवा सद्गुणी शिष्यो स्याद्वाद अनेकांत मार्ग पामशे. अने रवच्छंदाचारीपणुं तथा अहंपणुं त्यागीने गुरुगम ग्रंथोने वांची धारी श्रावकपणुं अंगीकार करशे. अथवा शक्ति परिणामयोगे निग्रंथ अवस्था ग्रहण करशे, योग्यता पोतानी केटलीछे अने कया ग्रंथो वांचना योग्यछे. ते गुरुमहाराज जाणेछे माटे तेमना फरमावेली ग्रंथो वांचवा

(૧૯)

ગુહની ગુહતા.

સ્ત્રી હિતાકાંક્ષા ધારવી.

“ દુહા. ”

સદા મહાનિગ્રંથથઈ, પાઠે પંચાચાર;

પંચમહાવ્રત પાઠતા. શુદ્ધ ધેરે વ્યવહાર. ૭૨

નિશ્ચય આત્મસ્વરૂપમાં, રમતા રહે નિશદીન;

ગુણપર્યાય વિચારને, કરવામાં લયલીન. ૭૩

ભાવાર્થ—દ્રવ્યથી ધન ધાન્યાદિ નવવિધ પરિગ્રહ ત્યાગી ભાવથી રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરી નિર્મમત્ત્વપણે વાયુવત્ અમતિબદ્ધપણે સદા વિચરે, વ્યવહારથી પંચમહાવ્રત. અને જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપઃઆચાર અને વીર્યાચારને પાઠે, આદરે, નિશ્ચયનયથી પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં નિશદીન મુનિવર રમે હવે પ્રસંગતઃ પ્રથમ ષડ્દ્રવ્યનું સ્વરૂપ બતાવેછે.

૧ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય—ચલણ સહાવો ધમ્મો,=ચાલતાને સહાય આપવાનો ગુણ ધર્માસ્તિકાયનોછે, તે અજીવદ્રવ્યછે, અરૂપી, અચેતન, અક્રિય, ચલનસાહ્યગુણ તેનો જાણવો. માછલું પાણીમાં તરેછે તેનો એ સ્વભાવછે, પણ પાણી તેને સાહ્યકારકછે. ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યાતા પ્રદેશોછે, પ્રત્યેક પ્રદેશમાં ઉત્પાતવ્વપય થયા કરેછે, દ્રવ્ય સ્વરૂપથી ધ્રુવપણું અસંખ્યાતા પ્રદેશોમાં અનાદિ અનંતમે ભાંગેછે. અગુરુ લઘુથી પ્રત્યેક પ્રદેશમાં ષડ્ગુણ હાનિ વૃદ્ધિ થયા કરેછે. ધર્માસ્તિકાયદ્રવ્ય અન્યદ્રવ્યમાં પરિણમતું નથી. અને અન્ય દ્રવ્યના ગુણોનું ઘાતક નથી, કેવલજ્ઞાનવડે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય દેખી શકાયછે. અન્ય જીવોને કેવલીના વચનની શ્રદ્ધા ગમ્ય છે, ધર્માસ્તિકાયના કોઈપણ પ્રદેશનો નાશ થતો નથી, એક ઠેકાણેથી અન્ય સ્થાને તેના પ્રદેશો જતા નથી, લોકાકાશમાં વ્યાપીને

परमात्मदर्शन.

(६९)

रहेछे, धर्मास्तिकायने कोइ उत्पन्न करनार नथी, जे जन्ममां यन्त्रमां ज्वां त्यां धर्मास्तिकाय व्यापी रह्छे, तेनामां वर्ण गंध रस अने स्पर्श नथी. समये समये अनंता जीवोने तथा अनंत पुद्गलमय परमाणुओने गमनमां साहाय्य आपेछे. प्रदेशे प्रदेशे अनंता गुण अने अनंता पर्यायछे. पोताना स्वरूपे धर्मास्तिकाय अस्तिरूपेछे. अने परस्वरूपे नास्तिछे. प्रदेशे प्रदेशे अनंत स्वगुणनी अस्तित्वा समये समये परिणमी रहीछे, तेमज धर्मास्तिकायना प्रत्येक प्रदेशे अनंत परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, अने परभावनी नास्तिता परिणमीछे, तेमज प्रदेशे प्रदेशे अनंत पर्यायनी समये समये अस्तित्वा जाणवी. तेमज धर्मास्तिकायना असंख्यात प्रदेशमांसमय समये परद्रव्यना अनंत पर्यायनी नास्तिता परिणमी रहीछे, जे समयमां अनंत निजगुणनी अस्तित्वा तेज समयमां अनंत परगुणनी नास्तिता जाणवी. जो धर्मास्तिकायमां परद्रव्य, गुणपर्यायनी नास्तिता न रहे तो अन्य द्रव्यरूपे धर्मास्तिकाय परिणमे अने द्रव्य द्रव्यनो भेद रही शके नहीं, माटे स्वगुण स्वद्रव्यनी अस्तित्वा समयमां परद्रव्यनी नास्तिता मानवार्थी प्रत्येक द्रव्य पोताना स्वरूपे परिणमे, अस्तित्वा धर्मास्तिकायमां रह्छे, ते पण अवक्तव्यछे, अने अनंत नास्तिपणुं रह्छे, ते पण अवक्तव्यछे, एक शब्दनो उच्चार करतां असंख्याता समय वृत्तीत थायछे, तो एक समयमां स्थित अस्तित्वा अने नास्तितानुं कथन अशक्यछे, ज्ञानवडे जाणी वैखरी भाषार्थी तेनुं स्वरूप कही शक्यातुं नथी, थोडुं कही शक्या छे, जेदनुं जाणवामां आवे तेदनुं वैखरी वाणीथी कही शक्यातुं नथी. माटे वक्तव्यावक्तव्यपणुं तेमां जाणवुं. इत्यादि विचारतां सप्त भंगी उत्पन्न थायछे, बली धर्मास्तिकाय छे ते द्रव्यपणे नित्यछे,

(७०)

श्रीगुरु षड्द्रव्यजुं ध्यान धरे छे.

अने उत्पाद, व्ययनी अपेक्षाए अनित्य छे, द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाए धर्मास्तिकाय शाश्वतछे, अने पर्यायास्तिकनयनी अपेक्षाए धर्मास्तिकाय अशाश्वतछे, धर्मास्तिकाय ज्ञेयछे, पण तेनामां ज्ञातापणुं नथी, जड छे माटे.

२ अधर्मास्तिकाय—स्थिर रहेवामां साहाय्यदायक गुण अधर्मास्तिकायनो छे, मनुष्य मार्गमां चालतां थाके छे, त्यारे झाड जेम तेन बेसवामां सहाय्यकारक छे, तेम अधर्मास्तिकार्यनी साहाय्यथी जीव पुद्गल स्थिर थायछे, ए द्रव्यना चारगुण छे, अमूर्त, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श थकी रहित, जीवत्वथी रहीत माटे अचेतन, विभाविक क्रिया रहित माटे अक्रिय, निश्चयनयनी अपेक्षाएतो सक्रिय छे, स्थिर पदार्थने साहाय्य करे छे, माटे स्थिर साहाय्यगुण अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशमयी छे, लोकाकाशमां व्यापीने रहुंछे, अनादि कालथी छे, माटे तेनो उत्पन्न कर्ता कोइ नथी, कोइ पण काले तेनो अंत नथी, माटे अनंत छे, अधर्मास्तिकायना प्रत्येक प्रदेशमां अगुरु लघुथी समये समये षड्गुण हानि वृद्धि परिणमी रही छे, अधर्मास्तिकाय चर्म चक्षुथी देखी शकालुं नथी. अधर्मास्तिकायना चार गुण छे, रूप रहित माटे अमूर्त, अचेतन एटले जीव रहीत, अक्रिय एटले विभाविक क्रिया रहीत, अने स्थिर सहाय्यगुण ए चारगुण अनादि अनंतमे भांगे अधर्मास्तिकायमांछे, समये समये अनंत जीवोने तथा पुद्गलोने स्थिति सहाय्य आपे छे, एकेक प्रदेश अनंता गुण पर्याय रह्या छे. अधर्मास्तिकायद्रव्यमां सगुण पर्यायनी अस्तित्ताछे, परगुण पर्यायनी नास्तित्ता छे, द्रव्यत्वनी अपेक्षाए दरेक अधर्मास्तिकायना प्रदेशो एक सगुणा छे, कारण के दरेके प्रदेशमां द्रव्यत्वपणुं रहुं छे, किंतु अगुरुलघुथी यतीषड्गुणहानिवृद्धि प्रदेश प्रदेश प्रति भिन्न भिन्न परिणमी

परमात्मदर्शन.

(७१)

रही छे. ते अधर्मास्तिकायना प्रदेशमां अनंतगुणनी हानी छे, त्या अनंत गुणहानी मटीने असंख्यात गुणहानि थाय छे, संख्यात गुणहानि होयछे, त्यां अनंतगुण हानि थायछे, एम असंख्याता प्रदेशोमां षड्गुण हानिवृद्धि समये समये भिन्न भिन्न परिणमवाथी सर्व प्रदेशो अपेक्षाए एक सरखा नथी, एक स्थानथी बीजे ठे-काणे प्रदेशो गमन करता नथी. माटे प्रदेशो अचल छे, वळी प्रदेशना कडका थता नथी, माटे अखंडछे. अधर्मास्तिकायमां जाणवानो गुण नथी माटे जडछे, पोताना स्वरूपे अधर्मास्तिकायमां अनंत शक्तिछे, तेनी केवली भगवान्ना वचनथी श्रद्धा करवी. आ द्रव्य लोकाकाशमां व्यपक छतां कोइ द्रव्यना गुणनुं घातक नथी. अने ते अन्य द्रव्यमां परिणमतुं नथी, पोताना स्वभावनो त्याग करतुं नथी. अधर्मास्तिकायने पुण्य पाप लागीं शकतुं नथी, परद्रव्यनी साथे परिणम स्वभाववाळा जीवद्रव्यने पुण्य पाप लागीं शकेछे. अधर्मास्तिकाय द्रव्य जाणीं शकायछे, माटे अधर्मास्तिकाय प्रकाशयछे, अने ज्ञान प्रकाशक छे, अधर्मास्तिकाय ज्ञेयछे, अने जीव ज्ञाताछे, द्रव्यार्थिक नयापेक्षया अधर्मास्तिकाय शाश्वत छे. पर्यायार्थिक नयापेक्षया अधर्मास्तिकाय अशाश्वत छे, अन्य द्रव्य साथे परिणमतुं नथी. माटे अधर्मास्तिकाय अपरिणामीछे, अधर्मास्तिकाय द्रव्यरूपे नित्य छे. अने पर्यायरूपे अनित्य छे, अनंत अस्तित्व धर्मथी युक्त अधर्मास्तिकायछे. आ द्रव्य जाणवा योग्यछे, अने ते आदरवा योग्य नथी फक्त ते द्रव्यनुं स्वरूप ज्ञानदृष्टिथी जणायछे, आत्मानी साथे तेने कइ संबंध नथी. एकेक प्रदेशे अनंत धर्म अनंतगुण अनंतपर्यायनी अस्तित्ता छे, अने अधर्मास्तिकायना एकेक प्रदेशमां परद्रव्यना अनंतधर्म अनंतगुण अने अनंतपर्यायनी नास्तित्ता व्यापी रहीछे, प्रत्येक प्रदेशमां रहेला धर्मनी अस्तित्ता

(૭૨)

શ્રી ગુહ ષડ્દ્રવ્યનું ધ્યાન ધરો.

તથા પરધર્મની નાસ્તિતાની અપેક્ષા સમ્ભંગી ઉત્પન્ન થાયછે, જેમ જેમ સમ્યગ્ જ્ઞાન થતું જાયછે, તેમ તેમ ઉપયોગની એકાગ્રતાએ વિ-
શેષ જ્ઞાન થતું જાયછે.

૩ આકાશાસ્તિકાય-અધર્માસ્તિકાયાદિકને અવગાહના આ-
પવાનો સ્વભાવ આકાશનોછે, આકાશના બે ભેદછે, ૧ લોકાકાશ
અને ૨ અલોકાકાશ, જેમાં છ દ્રવ્યની સ્થિતિ છે, તે લોકાકાશ
જાણવું, જેમાં આકાશ સિવાય અન્ય પદાર્થની સ્થિતિ નથી તેને
અલોકાકાશ કહેછે. તેના ચાર ગુણ છે, અરૂપી ઇટલે રૂપરહીત,
આકાશનું કાલું, પીલું, ધોલું, નીલું, શ્વેતઆદિ રૂપ નથી.

પ્રશ્ન-આકાશનું ચક્ષુથી જોતાં કાલું રૂપ દેખાયછે, અને તમે કેમ
ના કહોછો ?

ઉત્તર-આકાશ સામું દેખતાં જે કાલીમા દેખાય છે તે કંઈ આ-
કાશની કાલીમા નથી. કિંતુ પુદ્ગલદ્રવ્યની કાલીમાછે, માટે
આકાશનું રૂપ નથી.

પ્રશ્ન-નિર્મલ્લ જલથી પરિપૂર્ણ સ્થિર સરોવરમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ
પડેછે, દેખો, સરોવર માટે આકાશનું રૂપ માનવું જોઈએ.

ઉત્તર-વિશેષ સૂક્ષ્મબુદ્ધિદ્વારા પરીક્ષા કરતાં અવબોધાશે કે
આકાશનું પ્રતિબિંબ સરોવરમાં પડતું નથી, અને સરોવરમાં
જેનું પ્રતિબિંબ પડેછે તે પુદ્ગલદ્રવ્યછે, તેમાં જોતાં માલુમ
પડેછે કે-વાદ્લાં વિગેરેનું પ્રતિબિંબ સરોવરમાં દેખાયછે,
સાકારનું પ્રતિબિંબ પડેછે, નિરાકારનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી,
છ દ્રવ્યમાં એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય સાકારછે, બાકીનાં પાંચ દ્રવ્ય
નિરાકારછે, સાકારનું સાકારને વિષેજ પ્રતિબિંબ પડેછે,
આકાશ નિરાકારછે માટે તેનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી.

परमात्मदर्शन.

(७३)

प्रश्न—आत्माने विषे अन्य द्रव्य भासेछे, त्यारे आत्मांमां अन्य द्रव्यनुं प्रतिबिंब पड्या विना केम भासे ?

उत्तर—दर्पणमां मुखनुं प्रतिबिंब जेम भासेछे, तेम आत्मांमां अन्य पदार्थानां प्रतिबिंब पडतां नथी, ज्ञान गुण पोतानी शक्तिथी सर्व पदार्थाने जाणेछे, तेथी सर्व पदार्थानां प्रतिबिंब आत्मांमां पडतां नथी. ए उपरयी सिद्ध थायछे के—आकाश अरूपी छे, अचेतन एटले जीवरहित, विभाविक क्रियारहीत आकाश जाणवुं. केटलाक मतवादी एम मानेछे के—आकाशथी जलनी उत्पत्ति थइ पण ते मंतव्य नथी. कारण के—आकाश निराकार अक्रियछे अने तेनाथी कोइ पण पदार्थनी उत्पत्ति थती नथी, जलादिक साकारछे, अने आकाश निराकारछे, माटे निराकारथी साकार वस्तुनी उत्पत्ति थइ शके नहीं, वळी आकाश अनादि कालनुं छे, अने कदी तेनो अंत आववानो नथी माटे अनंत छे, माटे आकाशनो बनावनार कोइ नथी, वळी आकाशनो उत्पन्न करनार कोइ होवो जोइए, एम कोइ कहे तो विकल्प के—आकाशरूप कार्यनुं उपादान कारण कोण ? अने निमित्त कारण कोण ? प्रथम पक्ष—आकाशनुं उपादान कारण इश्वर जो कहेसो तो ते संभवतो नथी, कारण के इश्वर ज्ञानवान् छे, अने आकाश जडछे, इश्वरनो ज्ञान गुण आकाशरूप कार्यमां आववो जोइए, पण तेम नथी. माटे इश्वर आकाशनुं उपादान कारण कहेवाय नहीं, अलबत आकाशनुं उपादान कारण कोइ नथी. जेने उपादान कारण नथी तेने निमित्त कारण पण नथी. इश्वर आकाशनुं निमित्त कारण नथी. आकाश अनादि कालथी स्वयंसिद्ध छे, आकाशमां अवगादना गुणछे, तेथी अन्य द्रव्योने रहेवा माटे

(૭૬)

પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ.

અવકાશ આપે છે. આકાશના એકેક પ્રદેશે અનંતા ઘર્મ, અનંતા પર્યાય રહ્યા છે. આકાશ દ્રવ્યના પ્રત્યેક પ્રદેશો દ્રવ્યત્વ પળાથી એક સરસ્વા છે, અને પ્રત્યેક પ્રદેશમાં અગુરુ લઘુથી પદ્મગુણ હાનિ વૃદ્ધિ સમયે સમયે થઈ રહી છે તેની અપેક્ષા એક સરસ્વા નથી. આકાશમાં સ્વદ્રવ્ય સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, અને સ્વભાવની અપેક્ષા અસ્તિપણું છે. અને પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ અને પરભાવની અપેક્ષા નાસ્તિપણું છે. આકાશમાં પરદ્રવ્યની જે નાસ્તિતા તે પણ અસ્તિપણે છે. પરદ્રવ્યની નાસ્તિતા અસ્તિપણે આકાશદ્રવ્યમાં ન રહે તો અન્યદ્રવ્યની અસ્તિતાનો નાશ થાય અને અન્યદ્રવ્ય કહેવાય નહીં, જે સમયમાં સ્વદ્રવ્યાદિકની અસ્તિતા છે તેજ સમયમાં પરદ્રવ્યાદિકની નાસ્તિતા છે, અસ્તિતા અને નાસ્તિતા વૈત્તરી વાળીથી કહી શકાય સર્વથા માટે અવક્તવ્ય છે. ઇત્યાદિ વિચારતાં સમ્પર્કી ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી. માટે જડ છે. વહી તેના પ્રદેશના કડકા થતા નથી માટે અસ્વંડ છે. જ્ઞાનગુણે જળાય છે માટે જ્ઞેય છે. લોકાલોક વ્યાપી આકાશદ્રવ્ય છે. જલમાં થલમાં ડ્યાં ત્યાં અરૂપીપણે આકાશદ્રવ્ય વ્યાપીને રહું છે, આત્મગુણોનું ઘાતક આકાશદ્રવ્ય નથી. અને તે અન્ય દ્રવ્યમાં સંયોગપણે પરિણમતું નથી. અન્ય દ્રવ્યો તેનામાં રહે છે. માટે અન્ય દ્રવ્ય આધેય છે. આકાશ દ્રવ્ય આધાર છે. આકાશદ્રવ્યના સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ, કેવલજ્ઞાનથી જાણી શકાય છે, આત્માના એક પ્રદેશમાં જ્ઞાનની ઈવી શક્તિ છે કે-આકાશદ્રવ્યના અનંતા ગુણ-અનંતા પર્યાય, અનંત ધર્મ એક સમયમાં જાણી શકે છે. ૪ પુદ્મલાસ્તિકાય-વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ થકી યુક્ત પુ-

परमात्मवचनः

(५५)

इगलद्रव्यछे, तेना चारगुणछे. मूर्त्त अचेतन जीवपणायकी रहीत. सक्रिय एटले मळवा विखरवारूप क्रिया करेछे, शुद्धगलपरमाणु अनंतछे. परमाणु बाळयो बळे नहीं, भेद्यो भेदाय नहीं, परमाणु दर्शन चक्षु अगोचर जाणवुं. द्विपरमाणु संयोगी स्कंधने द्विप्रदेशी स्कंध कहेछे. अनंत परमाणु संयोगी स्कंध दृष्टिगोचर थायछे, ते व्यवहार परमाणु कहेवायछे. निश्चयनये तो स्कंधकथायछे. एक परमाणुमां एक वर्ण एक गंध एक रस अने बे स्पर्श रहाछे, परमाणुथी बनेला केटलाक स्कंधो चक्षुथी देखाय पण हाथमां पकडाय नहीं, केटलाक स्कंधोनो स्पर्श ग्रहाय किंतु चक्षुथी देखाय नहीं जेम वायु. केटलाकनो गंधग्रहाय पण चक्षुग्राह्य थइ शकतां नथी जेम कस्तुरीना पुद्गल स्कंधो विगेरे. एम विचित्र स्वभावयुक्त पुद्गलस्कंधो थायछे. अने विचित्र पदार्थ बनेछे. पश्चात् विखरी जायछे. यावन्त पदार्थो चर्मचक्षुथी ग्राह्यछे ते सर्व पुद्गल छे. केटलाक पुद्गल स्कंधो चर्मचक्षुथी पण अग्राह्य छे, अंधकार तथा प्रकाश पण पुद्गल द्रव्यछे. कर्म पण पुद्गल द्रव्यछे, पंचधा औदारिकादि शरीर पण पुद्गल द्रव्यछे. बादर पदार्थना ज्ञानथी सूक्ष्म पदार्थ स्वरूप अनुमाने जणायछे, पत्थर मृत्तिका आदि सर्व पुद्गल द्रव्य जाणवां. एकेंद्रियथी यावत् पंचिद्रि जीवोए पुद्गल स्कंधोने शरीरपणे ग्रही स्वसत्तामां लीभाछे, ते सर्वपुद्गलद्रव्यछे, पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यना गुणोने आच्छादन करेछे. पुद्गलद्रव्यरूपी छतां जीवद्रव्यने बाधा करेछे.

प्रश्न-जीवनी अनंति शक्ति छे, तेने पुद्गल द्रव्य शुं करी शके ?

उत्तर-अधुना कर्मधारक जीवोनी अनंति शक्ति तिरोभावे सत्तामां बर्त्ते छे, किंतु आविर्भावे शक्ति प्रगट थइ नथी अनादि का-

(૭૬)

ષટ્ક્રમ્ય સ્વરૂપ.

લથી આત્માને કર્મ લાગ્યું છે, તેથી અનાદિકાલથી આત્માની શક્તિ તિરોભાવે વર્તે છે. જો આવિર્ભાવરૂપે શક્તિ થઈ હોય તો કર્મનું કંઈ જોર નથી, માટે કર્મના યોગે જીવની શક્તિ અવરાઈ છે, જેમ સૂર્યને વાદળાં આચ્છાદન કરે છે તો સૂર્યના પ્રકાશનું આચ્છાદન થાય છે, પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય છે, કિંતુ યદા વાદળાં વિલ્લરાઈ જાય છે ત્યારે પ્રકાશ સ્વચ્છ પડે છે. એમ આત્મા અને કર્મ વિષે જાણવું. આત્મા સૂર્ય સમાન છે, અને કર્મ વાદળાં સમાન છે, દૃષ્ટાંત એક દેશી જાણવું.

પ્રશ્ન—અરૂપી આત્માના ગુણોનો ઉપઘાતરૂપી કર્મથી શી રીતે થઈ શકે?
 ઉત્તર—બ્રાહ્મી ઔષધિરૂપી, અરૂપી બુદ્ધિ વૃદ્ધિમાં ઉત્તેજક છે, મદિરા રૂપી છતાં જ્ઞાનીના અરૂપી જ્ઞાનનું આચ્છાદન કરી પ્રથિલ બનાવે છે, તથા રીત્યા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશે લાગેલાં જ્ઞાના વરણીયાદિક કર્મરૂપી અરૂપી આત્મગુણોની આવિર્ભાવતાનું આચ્છાદન કરે છે.

વિષયાંતરથી નિવૃત્ત થઈ પુદ્ગલ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કથતાં અન્ય પ્રશ્ન કરે છે.

પ્રશ્ન—પૃથ્વી, પાણી, વાયુ વિગેરેની ઉત્પન્ન કર્તા ઈશ્વર છે, અને તમે તેને કેમ અન્ય સ્વરૂપે કથો છો.

ઉત્તર—પૃથ્વી, પાણી, વાયુ વિગેરેનો કર્તા ઈશ્વર નથી. અનાદિકાલથી તે વસ્તુ ઓછે. ઈશ્વર અરૂપી નિરંજન છે તેનાથી રૂપી પૃથ્વી આદિ જગત્ વર્તી શકતું નથી, સર્વ દ્રવ્ય પોતપોતાના સ્વભાવે વર્તે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી માટે જદ છે, પ્રત્યેક પરમાણુમાં ઉત્પાત, વ્યય, અને ધ્રુવપણ છે. વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની પરાવર્તના પ્રત્યેક પરમાણુમાં થાય છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં સ્વગુણ, સ્વધર્મ, સ્વપર્યાયની અસ્તિ-

परब्रह्मदर्शन.

(७७)

ताछे. परद्रव्य, परधर्म, परपर्यायिनी नास्तित्ता पुद्गल द्रव्यमां छे. जे समयमां अस्तित्ताछे, तेज समयमां नास्तित्ताछे. अस्तित्ता अने नास्तित्तानुं स्वरूप वक्तव्या वक्तव्य रूपेछे. पुद्गल द्रव्य चतुर्दश राजलोकमां व्यापीने रहंछे. पुद्गल परमाणुआ अनंताछे. पुद्गल द्रव्यने आ जीवे शरीर, आहार, इन्द्रियादिपणे अनंतिवार ग्रहण कर्युं अने मूक्युं पण पुद्गल द्रव्य कोइ काले आत्मानुं थयुं नथी अने थवानुं नथी एनुं विस्तारथी स्वरूप गुरुमुखथी धारवुं.

५ काल-कालना त्रण भेद छे, अतीत काल, अनागत काल अने वर्त्तमान काल, कालनो समय अति सूक्ष्म छे, सर्व द्रव्य उपर कालनी वर्तना वर्ती रहीछे, काल द्रव्य आत्मगुणोनुं घातक नथी.

६ जीवद्रव्यास्तिकाय-जीव द्रव्य अरूपीछे, शरीरधारी जीव व्यवहारनयथी रूपी कहेवाय छे. जीव चेतन छे, पोतानुं स्वरूप निश्चयनयथी अक्रिय छे, अने बळी निश्चयनयथी पोताना धर्मनी क्रिया जीव करेछे, माटे जीव सक्रिय छे, व्यवहारनयथी जीवकर्मनी साथे भळ्यो छतो परद्रव्ययोगे गमनादिक क्रिया करेछे माटे सक्रिय छे. जीवद्रव्य अनंत छे. जीवना वे भेद छे. एक संसारी अने सिद्धना जीवो संसारी जीव पण अनंतछे, अने सिद्धना जीवो पण अनंत छे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, उपयोग ए जीवनुं लक्षणछे. जीवमां स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र कालादिकनी अस्तित्ता छे, परद्रव्यना द्रव्य क्षेत्र काल भावनी जीव द्रव्य मां नास्तित्ताछे, स्वद्रव्यादिकनी अनंत अस्तित्ता अने परद्रव्यादिकनी अनंत नास्तित्ता समये समये जीवद्रव्यमां वर्ते छे. द्रव्यार्थिक नयथी जीव शाश्वतो छे, अने पर्यायार्थिकनयथी जीव अशाश्वतो

(૭૯)

વહ્યવ્ય સ્વરૂપ.

છે. જીવમાં હત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવવર્ણુ વ્યાપીને રહું છે, જીવના અસંરૂયાતા પ્રદેશ છે, એકેક પ્રદેશે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત વીર્ય, અનંતભોગ, આદિ ઋદ્ધિ રહીછે, પંચદ્રવ્યના દ્રવ્ય, ગુણ, ષર્વાય ધર્મનું જાણવાવર્ણુ એક આત્માના પ્રદેશમાં રહું છે તો અસં-રૂયાતા પ્રદેશની તો વાતજ શી કહેવી? નિશ્ચયનયે સ્વગુણા-દિકનો કર્તા આત્મા જાણવો, વ્યવહારનષથી કર્મનો કર્તા આત્મા જાણવો. વ્યવહારના ઘણા ભેદછે. શુદ્ધ વ્યવહારનય, અશુદ્ધ વ્ય-વહારનય. શુભ વ્યવહાર, અશુભ વ્યવહાર, અનુપચરિત વ્યવહાર, હપચરિત વ્યવહારનય, વઠી વ્યવહારનયના બે ભેદછે. ૧ સદ્ભૂત વ્યવહાર, બીજો અસદ્ભૂત વ્યવહાર. એક દ્રવ્યાશ્રિત તે સદ્ભૂત વ્યવહાર અને જે પરવિષયનો આશ્રય કરે તે અસદ્ભૂત વ્યવહાર નય જાણવો.

પ્રથમ સદ્ભૂત વ્યવહારના બે ભેદછે, એક ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર અને બીજો અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહારનય. સોપાધિક ગુણ ગુણીનો ભેદ દેખાડે. જેમ જીવસ્યમતિજ્ઞાનં. અત્રમતિજ્ઞાન સો-પાધિક ગુણછે, અને જીવ ગુણી તેનો ભેદ દેખાડ્યો, તે ઉપચરિત પ્રથમ ભેદ જાણવો.

તથા નિરૂપાધિક ગુણ અને ગુણીના ભેદે બીજો અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર જાણવો. જેમ જીવસ્ય કેવલજ્ઞાનમ્ જીવનું કેવલ જ્ઞાન, અત્ર કેવલજ્ઞાન નિરૂપાધિક ગુણછે, અને જીવ ગુણી છે, માટે નિરૂપાધિકવર્ણુ ગુણ ગુણીના ભેદે બીજો ભેદ જાણવો.

અસદ્ભૂત વ્યવહારનયના બે ભેદ છે, એક ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર, અને બીજો અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર જાણવો.

પ્રથમ ભેદ અસંશ્લેષિતયોગે ઇટલે કલિપત સંબંધે હોયછે, જેમ

परमात्मदर्शनः

(७९)

आ देवदत्तनुं धनछे, अत्र देवदत्त अने धनने उपर उपरनो संबंध छे, स्वस्वामीभावरूप कल्पित संबंधछे, ते माटे देवदत्तनुं धन कहेवुं ते उपचारथी जाणवुं. तथा देवदत्त अने धन ए बे एक द्रव्य नहीं, माटे ते धननो आरोप देवदत्तने विषे असद्भूतछे ए उपचरित असद्भूत व्यवहार जाणवो. आत्मानी साथे कर्मसंश्लेषणुंछे, एटछे आत्मानी साथे कर्म, तथा देहना संश्लेषणाना (जोडावा वा मळवा) ना योगे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार जाणवो.

आत्मानी साथे अष्टकर्मनो संबंधछे ते धन संबंधनी पेटे कल्पित नहीं. वळी औदारिक-वैक्रिय, आहारक, तैजस अने कर्मण शरीरनो आत्मानी साथे संबंधछे ते पण धन संबंधनी पेटे कल्पित नहीं. विपरीत भावनाए निवर्ते नहीं, जावज्जीव रहे तेमाटे ए अनुपचरित अने कर्मादिक भिन्न विषय माटे असद्भूत जाणवो.

अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनये जीव कर्मनो कर्त्ता जाणवो, अने उपचरित असद्भूत व्यवहारतः गृह धननो कर्त्ता जाणवो, तथा स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारे पुत्र पुत्रीनो कर्त्ता जीव जाणवो. पुत्र पुत्री पोतानी जातिनां छे, पुत्रादिक जीवनां नहीं तेम छातां जीवनां कहेवां ते उपचार, पुत्रादिक पोतानाथी भिन्नछे माटे असद्भूत जाणवो. विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारे धनादिकनो कर्त्ता जीव जाणवो. धन विगेरेनी जीवना करतां जुदी जातिछे एटछे ते पुद्गल जातिछे, माटे विजाति धनादिक जाणवुं, धन विगेरेनो कर्त्ता जीवने कहेवो ते उपचार छे, कल्पितपणुं छे. धनादिक पोतानाथी भिन्न द्रव्यछे माटे असद्भूतपणुं तेमां जाणवुं.

स्वजाति विजाति उपचरित असद्भूतव्यवहारनग्रतः नगरादिकनो कर्त्ता जीव जाणवो. जीव, अजीव वक्त्रेनौ समास

(૮૦)

આત્માર્થિ શિષ્યલક્ષણ.

તેમાં થયો. અશુદ્ધનિશ્ચય નયે રાગ દ્વેષનો અશુદ્ધ સ્વભાવે જીવ કર્તા જાણવો.

શુદ્ધનિશ્ચયનયે સ્વકીયનિરૂપાધિકજ્ઞાનદર્શનાદિક ગુણોનો કર્તા જીવ જાણવો.

આત્માનું કેવલજ્ઞાન તે શુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહાર જાણવો, ધર્મ અને ધર્માના ભેદથી એ વ્યવહાર થયો, તથા મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, આત્માનું છે એમ કહીએ તે અશુદ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહાર જાણવો.

પરદ્રવ્યની પરિણતિ ભલ્લવાથી દ્રવ્યાદિકમાં નવવિધ ઉપચારથી અસદ્ભૂત વ્યવહાર થાય છે.

૧ દ્રવ્યે દ્રવ્યોપચાર, ૨ ગુણે ગુણોપચાર, ૩ પર્યાયે પર્યાયોપચાર ૪ દ્રવ્યે ગુણોપચાર, ૫ દ્રવ્યે પર્યાયોપચાર, ૬ ગુણે દ્રવ્યોપચાર, ૭ પર્યાયે દ્રવ્યોપચાર ૮ ગુણે પર્યાયોપચાર ૯ પર્યાયે ગુણોપચાર. એનું સ્વરૂપ કહે છે.

૧ દ્રવ્યે દ્રવ્યોપચાર—ક્ષીરનીરન્યાયવત્ જીવ પુદ્ગલ સાથે મળ્યો છે માટે જીવને પુદ્ગલ કહીએ એ જીવદ્રવ્યે પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ઉપચાર જાણવો.

૨ ગુણે ગુણોપચાર—ભાવ લેશ્યા તે આત્માનો અરૂપી ગુણ છે તેને જે કૃષ્ણ નીલાદિક કાઠી લેશ્યા કહીએ છીએ તે કૃષ્ણાદિ પુદ્ગલ દ્રવ્યના ગુણનો ઉપચાર કરીએ છીએ એ આત્મગુણે પુદ્ગલ ગુણનો ઉપચાર જાણવો, ઇતિ ગુણે ગુણોપચાર.

૩ પર્યાયે પર્યાયોપચાર—અશ્વહસ્તિ પ્રમુખ આત્મદ્રવ્યના અસમાન જાતીય દ્રવ્યપર્યાય તેને સ્કંધ કહે છે, આત્મપર્યાય ઉપરે પુદ્ગલ પર્યાય જે સ્કંધ તેનો ઉપચાર કહીએ છીએ તે પર્યાયે પર્યાયોપચાર.

૪ દ્રવ્યે ગુણોપચાર—હું ગૌરવર્ણ છું એમ બોલતાં હું પટલે આત્મ દ્રવ્ય અને ગૌરવર્ણ તે પુદ્ગલનું ઉચ્ચલતાપણું, આત્મદ્રવ્યમાં

परमात्मदर्शन.

(८१)

- गौररूप जे पुद्गलनो गुण तेनो उपचार कर्यो माटे द्रव्ये गुणोपचार जाणवो.
- ५ द्रव्ये गुणोपचार—हुं गौरवर्णछुं एम बोलतां हुं ते आत्मद्रव्य अने देह तो पुद्गल द्रव्यनो सामान्य जातीय पर्याय जाणवो.
- ६ गुणेद्रव्योपचार—यथा दृष्टांत ए गौर देखायछे, गौरतारूप पुद्गल गुण उपरे आत्मद्रव्यनो उपचार ते गुणे द्रव्योपचार.
- ७ पर्यायेद्रव्योपचार—देहने आत्मा कहेवो त्यां देहरूप पुद्गल पर्यायने विषे आत्मद्रव्यनो उपचार कर्यो ए सातमो भेद जाणवो.
- ८ गुणेपर्यायोपचार—मतिज्ञान ते पंचइंद्रिय अने मनोजन्य छे माटे शरीरज कहीए अत्र मतिज्ञानरूप आत्मगुणने विषे शरीररूप पुद्गल पर्यायनो उपचार कर्यो.
- ९ पर्यायेगुणोपचार—शरीर ते मतिज्ञानरूप गुणजछे अत्र शरीररूप पर्यायने विषे मतिज्ञानरूप गुणनो उपचार करायछे, ए नवम भेद व्यवहारनये अनेकधा जीव व्यवहरायछे, निश्चय नये सर्व जीवनी सत्ता एक सरखीछे. सर्व वस्तुथी जीव न्यारोछे, अनादि कालथी आत्मानी अशुद्ध परिणतियोगे आत्मा कर्मादिकने ग्रहेछे, यथा मदिरापानथी सुत्र मनुष्यनी बुद्धि फरी जायछे, तेम कर्मनायोगे आत्मा परस्वभावमां राच्यो माच्योछे, यदा उपयोगनी एकाग्रताए स्वध्यानमां आत्मा रमे तदा कर्मादिकनो नाश थायछे. जे रूद्धिने माटे जीव फांफां मारेछे, ते रूद्धि आत्मां समायीछे. आत्मा पोतानुं स्वरूप ज्ञानवडे जाणेछे अने परद्रव्यनुं स्वरूप पण ज्ञानवडे जाणेछे. आत्माना समान कोइ उत्तम वस्तु नथी, आत्मा आदेय, आराध्य पूज्यछे. आत्मानी ऋद्धि आत्मस्वरूपना ज्ञानथी प्राप्त थायछे. त्रण जगतूनो स्वामी आ प्रत्यक्ष देखाता शरीरमां रहेलो

(८३)

आत्मज्ञान महत्ता.

आत्माछे, तेना करतां चमत्कारी बीजी कइ वस्तुछे? सुरमणि, कामकुंभ, कामधेनु पण आत्मना आगळ हीसाबमां नथी. आत्मा तेज पस्मात्माछे. आत्मा ते निश्चयथो विचारतां पोतानो गुरुछे, स्याद्वाद रीते आत्मानो ओळखाण कोइ भाग्यवंत पुरुषने थायछे, आत्मानुं स्मरण करवुं. प्रवृत्ति मार्गमां प्रवृत्ति त्यां सुधी थायछे के ज्यां सुधी आत्मानुं ज्ञान तथा रमण नथी, आत्मानुं स्वरूप ज्यां सुधी जाण्युं नथी, त्यां सुधी प्रवर्धमान गुणटाणानी प्राप्ति थती नथी कहुंछे के-

आया सामाईअ आया सामाईयस्स अडे;

वळी कहुंछे के-

जे एगं जाणइ, से सव्वं जाणइ;

जे सव्वं जाणइ, से एगं जाणइ ॥१॥

एको भावः सर्वथायेन दृष्टः सर्वेभावाः सर्वथातेन दृष्टाः
सर्वेभावाः सर्वथायेन दृष्टाः एकोभावः सर्वथातेन दृष्टः २

यथातथ्य एक आत्मानुं स्वरूप जेणे जाण्युंजे, तेणे सर्व द्रव्यनुं स्वरूप जाण्युंछे. कारण के-ज्यां सुधी भव्यात्मा आत्मानुं स्वरूप जाणतो नथी तावत् अन्य द्रव्योनुं स्वरूप जाणी शकतो नथी, सर्व शास्त्रनी रचना पण आत्मज्ञान थकीछे. सर्व शास्त्रकारो आत्मानो स्तुति करेछे.

स्तोत्रम्-

अनंतदेवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं त्वंपुरुषः पुराणः
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, त्वमस्य विश्वस्य परंनिधानम् १
भावार्थ-हे आत्मा तूं अनंतछे. तारो कदी अंत नथी, तूं आत्मा

परमात्मदर्शन.

(८३)

देवतानो पण स्वामीछे—चतुर्दश रज्वात्मक लोकमां तारी स्थितिछे. तुं असंख्यात प्रदेशमयी छे, त्यारा प्रदेशो क्षरे तेम नथी. तारुं स्वरूप नाश पामवानुं नथी. माटे तुं अच्युत अने अक्षरछे, अनादि काळनो तुं आत्माछे, तुं अव्यय स्वरूपछे. सनातन शुद्धधर्ममय तुंछे, भव्या-त्माओने मोटांमां मोटुं निधान तुंछे. तुंज परमेश्वररूपछे. आम पोते मुनिराज शरीरमां व्यापी रहेला आत्मानुं ध्यान करे.

“ दोहा. ”

नव तत्त्व षड् द्रव्यना, ज्ञाने छे उपयोग;
अनंत गुणनी रुद्धिनो, कर्ता नित्यज भोग. ७४
भोगी नहि परभावनो, आत्मस्वरूपे ध्यान;
ध्यान नहिं परभावनुं, देखे चरण निधान. ७५

भावार्थ—जीवतत्त्व, अजीवतत्त्व, पुण्यतत्त्व, पापतत्त्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, ने मोक्ष ए नवतत्त्वनुं द्रव्य अने भावथी जेने ज्ञान थयुंछे, अने षड्द्रव्यनुं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावथी ज्ञान जेने थयुंछे, ते ज्ञानी जाणवो नवतत्त्वनो षड्द्रव्यमां अंतर्भाव थायछे. षड्द्रव्य विना जगत्मां अन्य कोइ पदार्थ नथी, षड्द्रव्यमां पण एक आत्मद्रव्य पोतानुंछे. आत्मद्रव्यनी श्रद्धा थवी मुश्केलछे. कोइक तो आत्माने जळ पंकजवनुं सर्वथा अलिप्तमानी व्यवहार निश्चयनयना ज्ञान विना एकांत मिथ्यात्व स्वरूपे आत्मानुं ध्यान करता समकित विना चतु-र्गत्यात्मक संसारना त्रिविध तापोने पुनः पुनः प्राप्त करी विवेक शून्यताए ग्रथिलनी पेठें कृत्याकृत्यने नहिं गणता मोहनीयना उदये नरभवनी निष्फलताए संसारना चतुरशितिलक्ष जीवयोनिना प्र-वाहमां रोग शोकथी पीडाता चक्र खाता तणायछे, जेटला विद्वानो प्रख्यातवंत थया, थायछे, अने थशे ते सर्व ज्ञानना प्रताप थकी

(૮૪)

આત્મજ્ઞાન મહત્તા.

અને તે જ્ઞાન આત્મદ્રવ્યમાં રહુંછે, દુનીયામાં જેટલાં શાસ્ત્રછે તે આત્મામાંથી નીકળ્યાંછે. અભ્યાસાદિક જ્ઞાનનાં સાધનછે, અનંત ગુણોનો ભોક્તા આત્માછે, આત્માની ઋદ્ધિ સદાકાલ આત્મામાં રહીછે, આત્મ ઋદ્ધિનો કદાપિ નાશ થનાર નથી. નિશ્ચયનયથી જોતાં આત્મા પરાભાવનો ભોગી નથી. આત્માથી પરભાવનું ધ્યાન નિવારી સ્વશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરે તો ચરણનિધાન દેરે, ક્રિયાકાંડથી ભગવદાજ્ઞા ડોઢઘાલુ કપટીઓ અજ્ઞાની જીવને પોતાના ફંદમાં ફસાવી ધર્મના વિશ્વાસમાં ફસાવી પોતે પણ અજ્ઞાનમાં બુદ્ધે, અને અન્યોને પણ બુદ્ધાદે, સિંહના પરાક્રમનો અભિમાનથી પોતાનામાં આરોપ કરનારો શૂંગાલ ક્યાં સુધી કપટ વૃત્તિ ચલાવી શકે. આત્મજ્ઞાન તેજ ધર્મછે, તેજ આદેયછે, અધુના પંચવિષના યોગે આ ભરત ક્ષેત્રમાં કૃષ્ણ પક્ષીગ જીવોની વાહુલ્યતાએ ગીતાર્થના, સદ્ગુરુના સમાગમ તથા વિશ્વાસ વિના અને ભવાભિનંદીપણાના ત્યાગ વિના અશુભ વ્યવહારના ત્યાગ વિના મુમુક્ષુના યોગ્યગુણો વિના અજ્ઞાની જીવો જ્યાં ત્યાં દૃષ્ટિરાગની અંધતાએ વિવેકનયનશૂન્ય થયા છતા ઉપર ઉપરથી ધર્મનામે ટીલાં ટપકાં કરતા અને કરમ વિવાહ પ્રસંગ રાસમ પ્રશંસાના આચરણમાં પોતાની વાહવાહમાં કૃત કૃત્યતા સમજનાર અજ્ઞાની જીવા સદ્ગુરુની વાણી વિષના પ્યાલા સમાન લેખવી, કુગુરુની વાણી અમૃતના પ્યાલા લેખવતા, કુધારામાં સુધારાની બુદ્ધિ માનનાર, અસ્થિર ચિત્તવાળા પામર પ્રાણીઓ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોના જ્ઞાન વિના અને દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા વિના સ્વચ્છંદાચારીપણાને લીધે આત્મપ્રશંસા અને પરગુણાપકર્ષતાએ અજ્ઞાનશ્રદ્ધાએ તત્ત્વ પામ્યા જાણે હોયની ? એમ સંસારમાં પરાભવ પ્રવૃત્તિથી સ્વઆયુષ્ય પૂર્ણ કરી નૃભવચિંતામણિ રત્નસમાન હારી, નરકાદિક ગતિના

परमात्मदर्शन.

(८५)

मेमान थइ आधि व्याधिनी दुःख श्रेणि परंपराने पामेछे.

आत्मार्थि जीव स्वपरवस्तुनो विवेक करी हेयज्ञेय उपादेय समजी गुणठाणानी परिणति समजी व्यवहार निश्चयनयनुं स्वरूप गुरु-गमद्वारा समजी वैराग्यनी तीक्ष्णताए सद्गुरु आज्ञाभक्ति विनययोगे सालंबन अने निरालंबन ध्याननी अभिलाषाए अंतःकरण शुद्धि-पूर्वक स्पाद्वाद आत्मिक धर्मनुं आराधन करतो जल पंकजवत् वर्तन चलावतो व्यवहारमां वर्तेछे, परभाव प्रवृत्तिमूलरागद्वेषमहा मल्लेदक आत्मस्वभावपरिणतिमां वर्तता भव्यात्माओ ज्ञान ध्यानयोगे क्षयोपशमभावे वा उपशम भावे मोहनीय कर्मनो उच्छेद करी समकित पामी स्वल्पकालमां कर्मक्षय करी केवलज्ञानादि संपदा पामी चउदसुं गुणठाणुं आयुष्य मर्यादाए उलंघी सादि अनंति स्थिति पामी अनहद आनंददायक शाश्वत शिवसुख स्वरूप मुक्तिधाम पामी शकेछे. समये समये जीव सात वा आठ कर्म बांधे छे, स्वभावमां रमे तो कर्मबंध टलेछे, माटे आत्मतत्त्वनी प्राप्ति अर्थे सद्गुरु वचनामृतनुं विनयभक्तियोगे पान करवुं एज हिताकांक्षा.

“ दुहा. ”

अखंड अक्षय शाश्वतुं, देखी आतम रूप;

चित्ते चमक्यो आतमा, अरे हुं तो महा भूप.७६

भावार्थ—अखंड, अक्षय, शाश्वतस्वरूप पोतानुं पोते आत्मा देखी चित्तमां चमक्यो अर्थात् आश्चर्य पाम्यो, अने कहेवा लाग्यो के—अरे हुं तो महाभूपछुं, अद्यापि पर्यंत में पोताने अज्ञानी जाण्यो, हुं गरीब छुं एवी मने भ्रांति हती पण हवे ए भ्रांति चाली गइ, हुं निर्धनछुं एम हुं पोताने मानतो हतो पण जाण्युं के—मारा आत्मां अनंत धन रह्युंछे, तेनी संप्रति काले खबर पडी, चक्रवर्ति आदि

(૮૬)

આરમ્ભાન મહત્તા.

રાજાઓને હું મહાભૂષ તીરકે સ્વીકારતો હતો પણ હવે આત્માનું સ્વરૂપ ઓઝ્ઝવતાં માલુમ પડ્યું કે ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર કરતાં પણ આ શરીરમાં વ્યાપક આત્મા મદાભૂષછે. એની પ્રથુતાઈને કોઈ પામી શકે તેમ નથી. સ્ત્રી પુત્રાદિકપર જેટલી મમતા થાય છે તેટલી જો આત્મા ઉપર મમતા થાય અને તેનું ધ્યાન કરવામાં ચિત્ત લાગે તો આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપને પામે. બહિરાત્મિસાધુઓને શિષ્યો કરવા ઉપર જેટલી ચાહનાછે તેટલી જો આત્માના ઉપર ચાહના થાય તો પરમાત્મપદ અવશ્ય પામી શકાય. બાહ્યધન તો મઢેછે અને પાપના ઉદયે વિણશી જાયછે પણ આત્માનું અંતર્ધન કદાપિ કાઢે નાશ પામી શકતું નથી. દુનીયાના પ્રવાહમાં જે તળાયછે તે આત્મિક લક્ષ્મી પામી શકતા નથી—ઘણા ભવ કર્યાં, ઘણાં શરીર છોડ્યાં, પૌદ્ગલિક માયા સર્વ નાશ પામી કિંતુ ત્રણે કાલમાં આત્મા ચેતન સ્વભાવેજ વર્તેછે માટે આત્મા શાશ્વતછે, વાંચવા અગર કહેવા માત્રથી નહીં પણ તે અનુભવગમ્યછે.

“ દુઃખા. ”

રજ્જીઓ હું પરદેશમાં, લહિયાં દુઃખ અનંત;

શુભ દેહી નિજદેશને, શાન્ત થયો શિવકંત. ૭૭

ભાવાર્થ—પોતાના આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ તે પોતાના પ્રદેશ જાણવા અને પૃથ્વીના જે દેશ તે પુદ્ગલાસ્તિકાયછે, પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્ય જડછે, પૃથ્વીના પ્રદેશોને પોતાના પ્રદેશ માની પરદેશમાં રજ્જીઓ, ક્ષુધા પિપસાઈ તાડનતર્જન છેદનભેદન આદિ આત્માઈ અનંત દુઃખો સહન કર્યાં, અને નાના પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કર્યાં પણ દુઃખનો અંત આવ્યો નહીં, પણ હવે સદ્ગુણ્યોગે આત્માનું સ્વરૂપ જાણતાં પોતાનો દેશ ઓઝ્ઝવ્યો અને આત્મા મુક્તિનો સ્વામી શાન્ત

थयो, ध्यानथी आत्मा अने परमात्मानो भेद टळेछे. कबुंछे के-
 आत्मनोहि परमात्मनियो भूद्धेद बुद्धि कृत एव विवादः;
 ध्यानसंधि कृदमुंव्यपनीय द्रागभेदमनयोर्वितनोति.१

आत्मा अने परमात्मां भेद बुद्धिनो विवाद हतो, अर्थात् तेमां पंडितना विवादरूप झगडा हता तेने ध्यानरूप संधि पाले ध्यानी पुरुषे जलदीथी बेनुं अभेदपणुं करी आप्णुं, ध्यानमां आत्मा अने परमात्मानो अभेद थाय एटले ध्याननी सिद्धि जाणवी. ध्यानीने पौद्गलिक देश उपर क्यांथी ममता होय. भर-निद्रामां शून्यतानी पेठे ध्यानी पुरुष रागद्वेषशून्य थायछे, स्वरुं सुख ध्यानी पुरुष जाणेछे, शब्दज्ञानियो भले व्याकरण न्यायना वाक्पंडितपणाथी इदंभवति इदं न भवति इत्यादिथी भौळा लोकोनी आगळ भ्रमजाल रवे. किंतु आत्मिक सुख मळतुं नथी, अने निरर्थक बाह्याचारनिंदकी थइ मनुष्य जन्म हारेछे, एवा शब्द ज्ञानीओने स्वदेशनी ममता थवी मुश्केलछे, शब्दज्ञानियो खंडनमंड-ननी संकल्प जाळमां पडी आत्मिकसुख प्राप्त करता नथी, अने तेमनुं परदेश पर्यटन बंध थवानुं नथी; बाह्य क्रियाकांडनी खटपटमां शब्दज्ञानीयो मतभेद चलावी परस्पर राग द्वेष करेछे, तेमनुं क-ल्याण मत कदाग्रहत्वथी थवुं दुर्लभछे. स्वदेश अने परदेशनुं ज्ञान नथी त्यां सुधी जीव मिथ्यात्वी जाणवो. आत्मतत्त्वनुं ज्ञान थाय त्यारे मनुष्य जन्म लेखे जाणवो, खरेखर आत्मज्ञ महाशयो आत्मा-नी तात्त्विक शांतताने पामेछे; उपर उपरनी हलदरना रंग समान जे शांतता ते अंते टकी शकती नथी. केटलाक जीवो उपरथी बगनी पेठे कपटवृत्तिथी शांत देखायछे, अने अंतरमां कपटथी भरेला होय छे, केटलाक जीवो उपरथी देखतां शांत जणाता नथी अने अंतरमां खरेखर शांत होयछे, केटलाक जीवो उपरथी पण शांत होयछे अने

(૮૯)

આત્મજ્ઞાન મહત્તા.

અંતરમાં પળ શાન્ત હોયછે, કેટલાક અંતરથી શાંત હોતા નથી અને ઉપરથી પળ શાંત હોતા નથી. શાંતાવસ્થાનું સુખ આત્મજ્ઞાનીયો પામ્યા, પામેછે, અને પામશે.

“ દુહા. ”

પરપુદ્ગલના દેશને, માન્યા મારા દેશ;
તેની મમતાઈ કરી, ગ્રહિયા પુદ્ગલ વેષ. ૭૮
ઠામ ઠામ હું ભટકિયો, ચાર ગતિ દુઃખ સ્વાણ;
ત્યાં પળ મમતા દેશની, કીધી ગુણની હાણ. ૭૯

ભાવાર્થ—પૌદ્ગલિક દેશને પોતાના માની રાગ દ્વેષથી કર્મ ગ્રહણ કરતો છતો વિચિત્ર પ્રકારનાં શરીર ધારણ કર્યો, નાના દેહો ધારણ કરી દુઃખની સ્વાણભૂત ચાર ગતિમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ચેતન ભટક્યો, અને જ્યાં જ્યાં ઉત્પન્ન થયો ત્યાં પળ દેશની મમતા ધારણ કરી પોતાનું ભાન મૂલી આત્મગુણનો તિરોભાવ કર્યો, આ મારું ઘર, મારું ક્ષેત્ર, મારી પૃથ્વી, આદિના અભિમાનથી રુશિયા જાપાનની પેઠે હજારો જીવોનો નાશ થયો તેનું કારણ પરપૌદ્ગલિક દેશની મમતાછે, અજ્ઞાની જીવો સ્વદેશાભિમાનમાં એમ. એ. સુધી મળ્યા હોયછે તો પળ અજ્ઞાન પ્રવાહમાં તળાઈ જાયછે. પોતાનો દેશ કયો છે તે ગુરુમક્તો નિશ્ચયતઃ જાણી શકંછે. મન બાહ્ય વિષયમાં ધાવે છે, તાવત્ જીવ કર્મની રાશિ અશુદ્ધ પરિણામે ગ્રહેછે, ગુજરાત, બંગાલાદિ દેશો મારાછે અને હું એનોહું, આ રાજ્ય મારુંછે અને હું એનોહું, આ કુટુંબ મારુંછે, અને હું એનોહું, એવી બુદ્ધિ યાત્રત્ થાયછે તાવત્ જાણવું કે—ચેતન જડતા અનુભવેછે, આત્મા અને પરમાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તેને જ્ઞાન કહેછે. અને આત્મા અને પરમાત્માની ધ્યાનયાગે ઐક્યતા થાય તેને વિજ્ઞાન કહેછે.

उक्तञ्च—

अन्य शास्त्रेऽपि क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर्ज्ञानं, तज्ज्ञानं ज्ञानमुच्यते;
विज्ञानं चोभयोरैक्यं, क्षेत्रज्ञ परमात्मनोः१

स्वकीय अज्ञानथी आत्मा भटकायछे, अने पोताना ज्ञानथी कर्म विमुक्त आत्मा बनेछे, आत्मानो उद्धार आत्माज करी शकेछे, आत्मानुं उपादान कारण आत्माना गुणोछे, उपादाननी शुद्धि अर्थे भव्य जीवो निमित्त हेतु अवलंबी परमात्मपद पामेछे, अभव्य जीवोमां उपादान कारणनी शुद्धि थाय तथा प्रकारनो स्वभाव नथी. निमित्त कारण तो पामेछे, किंतु अभव्य जीवमां भव्य स्वभाव नथी, तेथी उपादान कारण शुद्ध थतुं नथी भगवद्गीताना छट्टा अध्यायना पांचमा श्लोकमां कहुंछे के—

श्लोक.

उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत्,
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, रात्मैव रिपुरात्मनः १

आत्मा उद्धारवो पोते, आत्माने मारवो नहि;

बन्धु पोतेज पोतानो, पोतेज रिपु छे सहि. १

आत्मा स्वशुद्धपरिणामयोगे पोते पोतानो उद्धार करेछे अर्थात् परमात्मपद पामेछे, ज्ञपुरुषो कहेछे के—आत्माने भव्यात्मा-ओए मारवो नहीं, पोताना आत्मानो घात करवो तेना समान पाप नथी, अध्यात्मगीतामां कहुंछेके—

स्वगुण रक्षणा तेह धर्म, स्वगुण विध्वंसना ते अधर्म;
भाव अध्यात्म अनुगत प्रवृत्ति, तेहथी होय संसार छित्ति.१

आत्माना अनंत गुणो कर्मयोगे ढंकायाछे, तिरोभावे रखाछे,

(६०)

आत्मधर्म महत्ता.

तेनु रक्षण करवुं एटले ते अनंत गुणोने आविर्भाव करवा, कर्मश-
त्रुथी अवरवा देवा नहीं तेनुं नाम धर्मछे, धर्मना चार भेदछे, १
नामधर्म, २ स्थापनाधर्म, ३ द्रव्यधर्म, ४ भावधर्म. कोइनुं धर्म एवुं
नाम आपवुं ते नामधर्म, कोइ पण वस्तुमां धर्मनो आरोप करवो ते
स्थापनाधर्म, धर्मना हेतुओनुं अवलंबन करवुं ते द्रव्यधर्म वा उप-
योग शून्य जे धर्म ते द्रव्यधर्म जाणवो, आत्मानी उपयोगताए नय-
निक्षेपा सप्तभंगीथी आत्मानुं अनेकान्त स्वरूप जाणी श्रद्धा करवी,
तेनुं रक्षण करवुं तेनुं नाम भावधर्म जाणवो.

ते भावधर्म आत्मामां रह्योछे, शुद्ध, सत्य, अखंड, अक्षयरूप
भावधर्म अरूपीछे अने ते भव्य जीवोने प्राप्त यायछे, समकितवंत
जीवने भावधर्मनी प्राप्ति थायछे, भावधर्म विना सर्व क्रिया नि-
ष्फल जाणवी.

द्रव्यधर्मना बे भेदछे, लौकिक द्रव्यधर्म बीजो लोकोत्तर द्रव्य-
धर्म, लौकिक द्रव्य मिथ्यात्वनुं कारणछे, भावधर्म सापेक्ष लोकोत्तर
द्रव्यधर्म परमात्मपद साधक निमित्त कारणछे, आत्मीयगुणोनुं रक्षण
ते धर्म, अने आत्माना गुणोने नाश करवो एटले आत्माना गुणो
तिरोभावे वर्ताय तेम रागद्वेषयोगे ज्ञानावरणीयादि कर्म ग्रहण कराय
तेनुं नाम अधर्म जाणवो, नाम अध्यात्म, स्थापना अध्यात्म, द्रव्य
अध्यात्म अने भाव अध्यात्म ए चार ४ निक्षेपाए अध्यात्म जा-
णवुं. आश्रनां ३ त्रण अध्यात्म अनुपयोगी जाणवां, भाव अध्या-
त्मथकी कर्मकलंक नाश पामेछे. माटे भाव अध्यात्म अनुगत प्रवृत्ति
थाय तो तेथी संसारनो उच्छेद थायछे, माटे ज्ञानी पुरुषो कहे छे
के आत्माने मारवो नहीं, आत्मानी जो अशुद्ध परिणति थइ तो
आत्माए आत्माने मार्यो कहेवायछे, आत्मा पोते पोतानो बंधुछे,
एम कहेवार्थी सिद्ध थयुं के पोतानुं भळुं करवा पोते आत्मा समर्थ

परमात्मदर्शन.

(९१)

छे, राग द्वेषने आत्मा जीते तो आत्मा बंधु समानछे, सगा सहोदर बंधुनी ममताथी आपणा पोताना आत्माने रागद्वेष लाम्प्याछे ते दूर थवा नथी, माटे बीजाने बंधु तरीके मानवा ए तो संसार व्यवहारनी कल्पनाछे, व्यवहारिक कार्योमां सहोदर बंधुनी जहरछे, किंतु आत्मा परमात्मस्वरूपमयथाय तेमां तो आत्माज पोते बंधुछे, त्यां अन्यनुं कथुं चालतुं नथी, रागद्वेषना प्रवाहमां आत्मा अशुद्ध परिणामथी बहेछे तो आत्मा पोते पोतानो शत्रुछे एम जाणवुं. आत्मा परभाव त्यागी स्वभावमां रमे तो आत्मानो कोइ शत्रु नथी, आत्मा विना आत्मानो शत्रु अन्य कोइ व्यवहारथी कल्पना मात्र जाणवो. राग द्वेषे संसारमां राचवुं माचवुं, तथा आत्मानी अज्ञानताथी मिथ्यात्व परिणतिए करी आत्माने परमात्मपद् पामवामां आत्मा शत्रुभूतछे, यावत् जीव समकित पाम्यो नथो अने मिथ्यात्व भावे रमो परने पोतानुं मानेछे तावत् तात्त्विक सुख पामी शकतो नथी, माटे आत्मिक असंख्यातप्रदेशमां ध्यान देवुं.

“ दुहा. ”

धर्माऽधर्माऽकाशना, प्रदेश हान न लेश;

पुद्गलना जे देश छे, दे अज्ञानी क्लेश. ८०

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायना प्रदेशथी आत्मगुणोनी हानि छेशमात्र पण थती नथी, पण पुद्गल स्कंधो अज्ञानीने क्लेश आपेछे

धम्मा धम्मा गासा तिन्निवि ए ए अणाइया ।

अपज्जवसियाचेव सव्वर्द्धं तु वियाहिया.

धर्म, अधर्म अने आकाश ए त्रग द्रव्य अनादिकालनांछे अने अज्ञानांछे १४ चउदराजलोक व्यापि धर्मास्तिकायछे, अधर्मास्तिकाय

(९२)

भात्मधर्म महत्ता.

पण चउद राजलोक व्यापीछे, आकाशास्तिकाय लोकालोक व्यापी छे. अशुद्ध परिगति योगे आत्मा पुद्गलास्तिकायना स्कंधोने ज्ञानावरणीयादि अष्टविधकर्मराशिरूप बनावी ग्रहण करी संसारमां परिभ्रमण करेछे.

आत्मा शुद्धस्वरूप जोतां अरूपीछे, छतां रूपी एवा कर्मथी आत्माना अनंतगुणोनुं आच्छादन थायछे, आत्माना एकेक प्रदेशे अनंति कर्मवर्गणाओ लागीछे, किंतु आत्माना आठ रूचक प्रदेशे कोइ कर्म लागतुं नथी ते आठ रूचक प्रदेश सिद्ध समान सदाकाल निर्मल अनादि कालनाछे, ए आठ रूचक प्रदेशे पण जो कर्म लागे तो जीवतुं जीवत्वपुं चाल्युं जाय. रूचक प्रदेशनो एवो स्वभावछे के तेने कोइ कर्म लागी शके नहीं, जेम जेम एकेंद्रियादिक भवतुं उलंघन करी उच्च गतिमां आवेछे तेम तेम तरतमयोगे सामान्यतः मतिज्ञान श्रुतज्ञाननी प्राप्ति थायछे.

शिव्यप्रश्न—आत्माना असंख्यात प्रदेशी शी रीते कहेवाय ? असंख्यात प्रदेश कहेवाथी आत्माना असंख्यात भाग थया त्यारे आत्माना खंड थया अने अखंड आत्मा कहेवाशे नहीं माटे आत्माना असंख्यात प्रदेशो कहेवा ते शीरीते=

सद्गुरु—आत्मा असंख्यातप्रदेश मळी कहेवायछे, असंख्यात प्रदेश कहेतां आत्माना असंख्याता भाग थइ शकता नथी. कारणके प्रदेशो एक एकथी जुदा पडता नथी, प्रदेशो बाळया बळता नथी, छेद्या छेदाता नथी, हणया हणाता नथी. केवली केवली समुद्वात करे त्यारे आत्माना प्रदेशो लोक प्रमाण विस्तारेछे छतां पण प्रदेशो एकमेकनी साथे नित्य संबंधथी संबंधितछे. तेथी असंख्यात प्रदेशे मळी आत्मा कहेवामां कोइ ज्ञानतुं दूषण नथी आवतुं, आत्माना प्रदेशो अरूपीछे, तेथी

असंख्य प्रदेशात्मक आत्मा पण अरूपी कहेवायछे. आत्माना खंड कोइनाथी पाडी शकाता नथी, अने कोइ काले खंड थता नथी. माटे अखंड आत्मा कहेवायछे, असंख्यातप्रदेशो कल्पना मात्र नथी पण ते सत्यछे. कल्पना मात्र कहेवामां प्रत्यक्ष प्रमाण नथी, अनुमान प्रमाण नथी, उपमान प्रमाण पण नथी. अने आगम प्रमाणमां तो आसमुख्य श्री सर्वज्ञ वाक्य प्रमाण कहेवायछे-श्री सर्वज्ञ भगवंते कहुंछेके-लोगागासतुल्लाअण्णपएसा माटे लोकाकाशवा जेट्ठा आत्माना प्रदेशछे एम सत्य श्रद्धा करवी.

प्रश्न-कोइ एक गिरोलीनी पुंछडी कपाइ जइ त्यारे एक तरफ पुंछडी कूदेछे. उछलेछे, अने एक तरफ धड उछलेछे त्यारे जीव बेमां समजवो के एकमां ?

ऊत्तर-पुंछडी अने धडमां एम बेमां आत्माना असंख्य प्रदेशो होवाथी बेमां अपेक्षाए जीव कहेवाय छे. केट्लाक प्रदेशो पुंछडीना भागमां रहेला होयछे तेथी ते हालेछे पण धडना भागमां ते सर्व प्रदेशो भळी जायछे त्यारे पुंछडी हालती नथी. ते समये धडमां जीव कहेवायछे ए उपरथी सिद्ध थायछे के आत्माना प्रदेशोथी एवो बनाव बने छे, सूक्ष्मबुद्धि अने गुरुगमथी आ दृष्टान्त मनन करवुं. ज्ञानावरणीय कर्म सर्व जीवने एक सरखुं होय तो सर्व जीव एक सरखा ज्ञानवाळा होवा जोइए पण ज्ञान एक सरखुं होतुं नथी माटे ज्ञाननुं प्रतिबंधक ज्ञानावरणीय कर्म जीव जीव प्रत्ये भिन्न भिन्न नाना प्रकारनुं होयछे. तेथी तेना क्षयोपशम भावे प्रेक जीवने भिन्न भिन्न प्रकारनुं ज्ञान थायछे. उपाधि भेदे ज्ञानावरणीयकर्म पंचविधछे, ज्ञानावरणीयादि

(૧૪)

આત્મધર્મ મહત્તા.

અટ્ટકર્મ આત્માના અટ્ટ ગુણોનું આચ્છાદન કરેછે. અટ્ટકર્મના નાશથી અટ્ટ ગુણો આત્મિર્માને થાયછે, યદ્યપિ જો કે કર્મ બલવાનુછે તથાપિ આત્મા જ્ઞાનયોગે સ્વસ્વરૂપમાં રમે તો ક્ષણમાં કર્મનો નાશ કરી શકાયછે. ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે-

અધ્યાય ચોથો શ્લોક ૩૭ મો.

યથૈધાંસિ સમિદ્ધાઽગ્નિ, ભસ્મિસાત્ કુરુતેઽર્જુન.
જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વ કર્માણિ, ભસ્મસાત્ કુરુતે તથા. ૩૭
નહિ જ્ઞાનેનં સદૃશં, પવિત્ર મિહ વિદ્યતે,
તત્સ્વયં યોગ સંસિદ્ધઃ કાલેનાત્મનિ વિંદતિ. ૩૮
અપિન્નેદસિ પાપેભ્યઃ, સર્વેભ્યઃ પાપકૃત્તમઃ
સર્વજ્ઞાનપૂવેનૈવ, વૃજિનં સંતરિષ્યસિ. ૩૯

ભાવાર્થ—મહામેરુના ઓઢંધનારને વાલુકા જેમ લંબ્યછે, અગ્નિ કાષ્ટ સમૂહને વાઢી ભસ્મ કરેછે તેમ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મોને વાઢી ભસ્મ કરેછે આત્માનું અનેકાંતપણે યથાતથ્ય જ્ઞાન થાય તો કર્મનો નાશ થાયછે. પરમ પુરુષાર્થ સાધન જ્ઞાન સમાન કોઈ નથી, અપવિત્રને પણ જ્ઞાન પવિત્ર કરેછે, માટે જ્ઞાન સદૃશ અન્ય કોઈ પવિત્ર નથી, જ્ઞાની સર્વ પાપનો નાશ કરેછે, હું આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપહું એમ સ્વસત્તાને ભવ્યાત્મા ધ્યાવેછે.

મોટામાં મોટું પાપ કરનારો તું હોઈશ તો પણ હે અર્જુન તું જ્ઞાન નૌકાથી સર્વ પાપ તરી જાઈશ એમ કૃષ્ણ કહેછે.

શિષ્ય—આ ઠેકાણે તમો કેમ ભગવદ્ શીતાનો દાસહો આપોહો ?
જૈન—જૈનધર્મ એક દેશી નથી પણ સર્વ દેશીછે, જૈનોમાં જેમ જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય કથ્યુંછે, તેમ ગીતામાં પણછે તે જણાવવા માટે સાક્ષી

परमात्मदर्शन.

(५५)

आपीछे.अन्य शास्त्रना श्लोकोने समकित्ती जीव अनेकान्तनयनी अपे-
क्षाए ग्रहण करी समकित रूपे परिणमावेछे,एक शरीर त्यागी अन्य शरीर
धारण करवानु कारण कंइ पण होवुं जोइए. ते कारण कर्मछे, अने
कर्म आत्माथी भिन्नछे, भिन्नछे त्यारि ते चैतन्य नथी, विपरीत जड
द्रव्य सिद्ध ठर्युं, माटे तेनो पुद्गलास्तिकाय द्रव्यमां अंतर्भाव थायछे.
लोहचुंबक पोतामां रहेली शक्तिवडे जेम सें यने पोतानी भणी खेंचेछे
तेम आत्मा अशुद्ध परिणतियोगे स्वप्रायोग्य पुद्गलोने राग द्वेषयोगे
कर्मरूपे ग्रहण करेछे. अने कर्मथकी चार गतिनां दु ख जीव पामे
छे. नैश्चयिक शुद्ध आत्मिक स्वरूप ध्यावे अने आत्म ने सर्वथकी
न्यारो माने अने परवस्तु उपरथी अहंमत्वभाव उठाडे तो
सिद्ध बुद्ध परमात्म स्वरूपमय आत्मा थाय.

“ हुंहां ”

वर्ण पांच जेमां रह्या, गंध दौय ज्यां खास;
षांचे रसनी स्थीति ज्यां, स्पर्श आठनो वास. ८१
एवा पर्यायो रह्या, तेहिज पुद्गल द्रव्य;
व्याप्युं लोकाकाशमां, कर्त्ता नहि कोइ भव्य. ८२
काल अनादिथी रह्युं, रहेशे काल अनंत;
नित्यानित्यपणे सदा, रूपी द्रव्य कहंत. ८३

भावार्थ—पांच वर्ण, बे गंध, पांच रस, अने आठ स्पर्शरूप
पर्यायो जेमां रह्याछे, तेने पुद्गलद्रव्य कहेछे, ते लोकाकाशमां
व्याप्युंछे, पण अलोकाकाशमां पुद्गलद्रव्य नथी, पुद्गलद्रव्य अ-
नादिकालथीछे, अने अनंत काल सुधी रहेशे, द्रव्यार्थिक नये पुद्-
गलद्रव्य नित्यछे, अने पर्यायार्थिक नये पुद्गलद्रव्य अनित्यछे,
पुद्गल द्रव्यरूपीछे.

(९६)

आत्मधर्म महत्ता.

“ दुहा. ”

- घटपट वस्तु जे दिसे, ते सहु पुद्गल जाण ।
 ते आतमथी भिन्न छे, शास्त्र वचन प्रमाण. ८४
- पुद्गल देशे म्हालतां, मार्यो चेतन जाय;
 तेमां ममता मानता, मरी मरी दुःख पाय. ८५
- पृथ्वी थइ नहि कोयनी, कोटी करे उपाय;
 लक्ष उपायो लेखवे, नहि आकाश झलाय. ८६
- पुद्गल वस्तु कारमी, घर हाटां ने म्हेल;
 सोनुं रूपुं धन सहु, पुद्गलना छे खेल. ८७
- दृष्टा पुद्गलनो सदा, सुख दुःखनो जे जाण;
 वास वस्यो पुद्गल विषे, आतम गुणनी खाण. ८८
- पुद्गल जे देखाय छे, तेथी चेतन भिन्न;
 कर्त्ता चेतन कर्मनो, परपरिणति रस पीन ८९
- आत्माऽसंख्य प्रदेश छे, प्रति प्रदेशे ज्ञान;
 अनंत जिनवर भाषियुं, छति पर्याये जान ९०
- विशेष सामान्ये करी, दो भेदे उपयोग;
 असंख्यात प्रदेशथी, वर्त्ते निजगुण भोग. ९१
- अस्ति धर्म अनंतनो, भोगी आतम राय;
 नास्ति धर्म अनंत त्यांय, समय समय वर्ताय. ९२
- उज्ज्वल आत्मप्रदेश छे, समता रस भंडार;
 तेनो कर्त्ता आतमा, शुद्धनये निर्धार. ९३

परमात्मदर्शन.

(९७)

- वसतां तेह प्रदेशमां, रमतां समता संग;
 सुखसागरमां उच्छे, हर्षानंद तरंग. ९४
- ममता पर परदेशनी, भागी जागी ज्योत;
 सहजे आत्म स्वरूपनो, थयो महा उद्योत. ९५
- भिन्न जाति पुद्गल तणी, मारी तेथी भिन्न;
 भिन्न जातिशुं संग श्यो, तेथी थइयो खिन्न. ९६
- संग अनादि कालथी, तेने मानी मित्र;
 राग द्वेषना योगथी, ग्रहियां देह विचित्र. ९७
- दुग्धनीरसंयोगवत्, आतम पुद्गल संग;
 थयो अनादि कालथी, करतां कर्म कुटंग. ९८
- तेथी अवळी परिणते, कर्त्ता कर्म कहाउ;
 सबळी परिणति योगथी, शुद्ध निरंजन थाउ. ९९
- पुद्गल खावुं पहेरवुं, पुद्गल वसति महेल;
 वास वसी तेमां मुधा, मानी सुखनी स्हेल. १००
- रमुं हवे शुं बाह्यमां, जेनी कूडी चाल;
 संगे तेनी माहरे, थवुं पडयुं बेहाल. १०१
- मित्र नहि ते माहरो, अवळो तास सहाव;
 हाय हाय तस संगथी, बनिया एह बनाव. १०२

भावार्थ—आ प्रत्यक्ष घट पट दंडादि वस्तु चक्षुषा विषय गोचर
 थायछे. ते पौद्गलिक वस्तु जाणनी. अने ते आत्म द्रव्यथी भिन्नछे,
 एम श्री तीर्थकर महाराजा शास्त्रमां कथेछे.

(५०)

आत्मज्ञान महती.

पृथ्वी आदिक रूपे स्थित उपवन, गिरि, वस्त्रदि, गुजरात, पंजाब, इंग्लान्ड, युरोप, अमेरिकादि देशोमां मारापणानी बुद्धियी राची माची तल्लीन बनी तेमां म्हालतां चेतन मार्यो जायछे, देश, गृह, धनादिकमां मारापणानी बुद्धि धरतो मृत्यु पामी पुनः पुनः तदगत वासना योगे जन्म धारण करी आधि व्याधि उपाधिनां दुःखो पामेछे. हे चेतन श्रुं तृष्णा जाळमां फसायछे ? स्वभावाभाव रूप अज्ञानतमः राशिमां विवेक नयन शून्यात्मा अत्र तत्र ऐहिक सुखनी भ्रान्ति ए भ्रमण करतो, मनोराज्यनी संकल्प विकल्प श्रेणिए चढयो छतो धूम्र वृन्द ग्रहण पुरुषवत् क्षणिक तुच्छ सर्वदा जड पृथ्वीने पोतानी मानी तदर्थे सहस्रशः जीव घातक बनी शोफा-पुरुषवत् स्वमहत्त्वतामां अन्य भव्यात्माओने पर्वतारोहण पुरुष दृष्टिवत् लघु गणी पारमार्थिक तत्त्व शून्यात्मा क्षणिक तुच्छ स्वार्थमां राची परवस्तुमां ममतानो दृढ भाव संकल्पी रात्री दिवस तिल-पीलक यंत्र वृषभवत् असदाचरणोमां स्वकाल अज्ञानी पशुवत् निर्गमेछे, पोतानाथी अत्यंत भिन्न पृथ्वी कोइनी थइ नथी, अने थवानी नथी मारी मारी मानवी ए केवल भ्रान्तिछे, लक्ष उपायो करतां पण आकाश हाथमां झाली शकातुं नथी. तेम कोटि उपायो करतां पण पृथ्वी देश, घरवार पोतानां थवानां नथी, देश, घरने जीव मूकी परभवमां चाल्यो जायछे, जे घर हाट म्हेल बंधावतां रक्षण करतां चेतने जरा पण शांति लीधी नहीं, ते घर हाट मूकी मरण समये जीव टगमग जोतो जीववानी सहस्रशः आशाओ करतो पण परभवमां चाल्यो जायछे, साथे कोइ पण वस्तु आवती नथी, ज्यां जे वस्तु हती ते त्यांने त्यां रही, अनंता भव कर्या पण कोइ वस्तु साथे आवी नहीं, तो आ भवमां तुं कइ वस्तु पोतानी साथे लंइ जइश ? हा अलवत कोइ पण वस्तु पोतानी साथे आवनार

परमात्मदर्शन.

(९९)

क्षुधी, पौद्गलिक वस्तु उपर शो राग अने द्वेष करवो ? केटलीक वस्तुओ मलेछे अने केटलीक वस्तुओ नाश पामेछे, सर्गां संबधी वर्गनी प्रीति पण स्वार्थना लीधे क्षणिकछे. खरी वस्तु आत्माछे, बाह्य पदार्थोमां मारापणानी बुद्धि थायछे तेनो नाश यइ अंतर आत्मतत्त्वमां मारापणानी बुद्धि थाय ते परमात्मपद पामी सकाय. घर हाट म्हेल आदि पौद्गलिक वस्तु कारमीछे, सुवर्ण, रुपुं, मोती, हीरा आदि सहु धन जे कहैवायछे ते कारमुंछे, हे जीव तेमां तुंशुं ममता धारण करेछे ? जेनो संयोग तेनो अवश्य त्रियोग थवानोछे, पूर्वोक्त पुद्गलनो दृष्टा अने सुख दुःखनो ज्ञाता आत्मा देहरूप पुद्गलमां वस्योछे, अनंतगुणनो धणी आत्माछे, पांच प्रकारना शरीरथी आत्मा भिन्नछे, पर परिणतिमां लीन थएलो चेतन व्यवहारथी कर्मनो कर्ता जाणवो.

आत्माना असंख्याता प्रदेशछे, प्रत्येक प्रदेशे अनंतु ज्ञान श्रौं जिनवरे कहुंछे. आत्मां अनंत धर्मनी अस्तित्ता रहीछे, तेमज आत्मां अनंत धर्मनी नास्तित्ता रहीछे, अस्तित् अने नास्तित् धर्म समये समये आत्मां वर्तेछे, सत्ताए संसारी जीवोना प्रदेश निर्मल सिद्ध समान जाणवा अने ते समता रसनो भंडारछे, शुद्धनयथी स्वज्ञानादिक गुणनो कर्ता आत्मा जाणवो.

आत्माना असंख्यात प्रदेशमां रमतां असंख्यप्रदेशरूप आत्मा पोते पोताना स्वरूपे स्थिर यतां अने शत्रु मित्रपर समपणुं ते रूप समता साथे रमतां क्षणे क्षणे अनंत अनंतगणुं सुख थायछे, आत्म स्वरूपनो स्ववीर्यध्याने उद्योत यतां परपरदेशनी ममता नष्ट यइ अने जाणुं के-पुद्गलनी जाति माराथी भिन्नछे, अने हुं तेथी भिन्नछुं, तो मारे पुद्गल जातिथी शो लाभ ? अने तेनो संग केम करवो जोइए ? अरेरे हुं अनादि कालथी तेनी संगतिथी खिन्न थयो.

(१००)

आत्मज्ञान महत्ता.

बळी पुद्गलने शत्रु तरीके छतां मित्र तरीके मानी राग द्वेषना योगे विचित्र देहो ग्रहण कर्यां.

हवे आत्मा अने पुद्गल स्वरूप कर्मनो परस्पर कोना जेवो संयोग थयो ते कहेछे=क्षीर नीरवत्=दुग्ध अने जळना संयोगनी पेटे.

जे देखायछे ते पुद्गलद्रव्य हे चेतन तारुं नथी अने तुं तेनो नथी तेम छतां तुं केम तेमां मारापणानी बुद्धि धारण करेछे, ज्यां सुधी चेतननी अवळी परिणतिछे त्यां सुधी संसार जाणवो, सबळी परिणति थतां कर्मनो क्षय क्षणमां थायछे, अने आत्मा शुद्ध निरंजन परमात्मपद प्राप्ति करेछे.

पुद्गलनुं भोजन तरीके तथा पुद्गलनुं पाणी तरीके खान पान करवुं, तथा वस्त्र तरीके पहेरवुं, पण पुद्गल जाणवुं, स्थान, प्रासादरूप पुद्गलद्रव्य जाणवुं. फोगट आत्माए पुद्गलमां वसी सुखनी सहेल भ्रांतिथी मानी.

हवे हुं पुद्गल द्रव्यमां केम राची माची रमुं? तेनी संगतिथी मारी खराब अवस्था थइ, मारा अनंत गुणोनो पुद्गलद्रव्य घातकछे, माटे ते मारो मित्र नथी, कारण के मारा करतां तेनो अवळो स्वभावछे, मारो चेतना गुणछे तो तेनो जड गुणछे, अरेरे तेनी संगतिथी आ संसारमां परिभ्रमण करतां विचित्र बनाव बन्या.

“ दुहा. ”

चार गतिना चोकमां, लख चौराशी बजार;
त्यां बहु जन्म मरण करी, पाभ्यां दुःख अपार १०३
पुद्गल संगे राग छे, पुद्गल संगे रोग;
रुचि अरुचि पुद्गले, पुद्गलनो छे शोग. १०४

घर पुद्गलनी लालचे, लडाइ करता लोक;
 राजन साजन मोटका, जन्म गमावे फोक. १०५
 विरोधिनी मित्रता, करतां निज गुण हाण;
 अज्ञानी मूढातमा, रणना रोझ समान. १०६
 चुंथी पुद्गल एंठनें, रमतो तेनी संग;
 विष्टाना कीडापरे, धरतो कर्म कुढंग १०७
 भ्रमित थइ भूली गयो, अविचल आत्मस्वरूप;
 अशुद्ध परिणतिथी अरे, पडियो भवजल रूप. १०८
 चेत चेत झट आतमा, शुद्ध स्वरूप निहाल;
 आ संसार स्वरूप सहु, परगट माया जाल. १०९
 अधुना भ्रान्ति छोडीने, देखो अंतर्दृष्टि,
 अंतर्दृष्टि देखतां, प्रगटे निजगुण सृष्टि. ११०
 तिरो भाव निजऋद्धिनो, आविर्भाव प्रकाश;
 परमात्म पद ते कहुं, ते पदनो हुं दास. १११
 ते पद जेणे ओळखुं, तेमां जेनुं ध्यान;
 साधुपद तेणे ग्रह्युं, तेनुं शुधुं ज्ञान. ११२
 तत्पदना उपयोग वण, चाले जे व्यवहार;
 घाणी वृषभ तणीपरे, मटे नहीं संसार. ११३
 राचो नव रस ज्ञानथी, काव्य करो को लाख;
 तत्पदना उपयोग वण, घी रंडो ज्युं राख. ११४

(१०३)

आत्मज्ञान महत्ता.

तर्क नरक गति दीये, जेने नहि निज भान;
 शब्दशास्त्रथी भिन्नछे, आत्मपद गुणवान्. ११५
 कथा पुराणी बहु करे, जन मन रंजे भाट,
 वाद वाधरी घेरछे, धर्म विना सहु वात. ११६
 क्रियाकांड नवि मुक्ति दे, जो नहि आत्मभान,
 आत्मोपयोगी साधुने, धर्मक्रिया गुणखाण. ११७

भावार्थ—चतुर्गति संबंधी चतुरश्रिति लक्ष जीवयोनिमां आ प्रत्यक्ष शरीरनिष्ठजीवे जन्म मरण करी अनंत दुःख पाम्यां.

पुद्गल ममता वा अरूचिथी जीवनी परिणति रागद्वेषमय थइ जायछे, रूचि अरूचि पण पुद्गलना संबंधेछे, पुद्गल संबंधे शोक थायछे, देशधनादिक पुद्गलनी लालसाए दुनियाना जीवो सहस्रशः जी गोना प्राणनी आहुति युद्धाग्निमां होमेछे. रूसिया, जापान, विगेरे युद्ध करेछे ते पण पुद्गलनी लालसाथी जाणनी. मइमइ मीजनीवत् नृपो पुद्गल लालसामां रक्त बनी क्षोफा पुरुषवत् स्वमहत्त्वनी भ्रमणामां भूली तत्त्व विवेचन विवेकशून्य अंतःकरणवालाओ अजागल स्तनवत् स्वआयुष्यनी निष्फलता करेछे.

पुद्गल द्रव्य आत्मगुण विरोधीछे, तेनी मित्रता करतां स्वकीय गुणनी हानि थया विना रहेती नथी, पुद्गलथी पोताने भिन्न नहीं माननार अज्ञानी मूढात्मा रणना रोक समान ज्ञानशून्य जाणवो.

आहार, पाणी आदि पुद्गलने अनंता जीवोए भोगव्युं तेज पुद्गलने आ जीव भक्षण करेछे, अनंता सिद्ध भगवंतोए संसारावस्थामां अनंता भव करी पुद्गल स्कंधोने खाधा, पीधा, बळी

परमात्मदर्शन.

(१०३)

तेज पुद्गल द्रव्यने अभव्यादि जीवोए पण पोताना भोगमां ग्रह्यां माटे पुद्गल सर्व जीवोनी वमन करेली ऐंठ जाणवी. ते ऐंठने हे जीव ! तें अनंतिवार चुंधी, हाल पण चुंथेछे, भविष्यकाले पण कोण जाणे शुं थशे ? हजी तुं केम चेततो नथी, तारी अनंति ऋद्धि तारी पासेछे ते मूर्कने तुं ऐंठ चुंथे ते तारी ओछी अज्ञानता ! अरे जीव तुं जरा मात्र पण शरमातो नथी, शुं तने भिक्षुकीनी पेंठें पुद्गल ऐंठ चुंथवाथी तृप्ति वळवानीछे ? ना कदी नहीं, जेटला पुद्गल ऐंठ चुंथेछे ते गमे तो इंद्र, चंद्र, नरेंद्रादिक होष तो पण भिखारीना सरखा जाणवा.

प्रश्न—हे सद्गुरु ! त्रयोदश गुणस्थानवर्ति श्रीतीर्थंकर केवली पण

आहार पाणी ग्रहण करेछे तेथी ते पण शुं भिक्षुक जाणवा ?

उत्तर—हे शिष्य—श्री त्रयोदश गुणस्थान वर्ति तीर्थंकर महागजे मोहनीय, अंतराय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, ए चार ४ कर्मनो सर्वथा क्षायिक भावे क्षय कर्योछे, वेदनीयादिक चार अघातीयां कर्म अवशेष रह्यांछे, क्षुधा लागवी, तृषा लागवी ए वेदनीयकर्मनो विषयछे, मोहनीय कर्मना अभावे क्षुधा वेदनीयना उदये क्षुधा शान्त्यर्थम् गृहभाटकवत् आहारादिकनुं ग्रहण करेछे, तेथी पुद्गल ऐंठ चुंधी कहेवाय नहीं, ममताभावे आहारादिक जे ग्रहण करेछे ते पुद्गल ऐंठ चुंथनारा जाणवा.

मुनिराजो के जे स्वस्वभावमां रमनारा अने परस्वभावना त्याग करनारा कदाग्रह त्याग करनारा शत्रु मित्र सम दर्शक अध्यात्मनिष्ठ चित्तवृत्तिवंतो पुद्गलने माटे क्षुधा तृषा शान्तिने माटे आहार पानादि ग्रहण करेछे, पण तेमां राचता नथी तेथी ते पुद्गलनी ऐंठ चुंथनारा जाणवा नहीं, मेवा मिष्टान्न आदि भक्षण करतो नथी पण ते भक्षण करवानी जेना मनमां लालसांछे, अने

(१०४)

आत्मज्ञान महत्ता.

ते मिष्टान्नमां राचे माचेछे तेने पुद्दल अँठ चुंथनार जाणवो.

बाह्यथी स्त्री भोगववानुं पच्चख्खाण कर्युंछे, पण अंतरमां स्त्री भोगववानी लालसा बनी रहीछे तो ते स्त्री भोगववनारज जाणवो. जो एम न मानीये तो घणा दोषो आवे.

प्रश्न—कोइ बहुचराजीनो फातडो (पुरुष पण स्त्रीनो वेष पहेरनार) छे ते स्त्री कायाए करी भोगवतो नथी तो थुं ते ब्रह्मचारी कहेवाय के नहीं ?

उत्तर—जो फातडाना मनमां स्त्री भोगववानी इच्छा बनी रहीछे तो ते व्यभिचारी जाणवो. कारण के रागथी कर्म बंधायछे, ते राग तो मनमां स्त्री उपर बनी रह्योछे माटे ऋजुसूत्र नयनामते व्यभिचारी जाणवो.

प्रश्न—कोइ ठेकाणे एम कहुं छे के—मन जाय तो जाणे दो, मत जाने दो शरीर: बिन चढावी कामठी, क्युं लगेगा तीर. १ आ उपरथी सिद्ध थायछे के मन कदापि आहुं अवळं जाय तो हरकत नथी किंतु शरीर जवा देशो नहीं, कारण के शरीरथी कर्म बंधायछे, माटे शरीरथी ब्रह्मचर्य पात्रे तो थुं ब्रह्मचर्य कहेवाय नहीं ?

उत्तर—ए कथननो सार ए छे के मनमां कदापि स्त्री भोगववानी इच्छा थइ पण हे भव्य शरीरथी स्त्री भोगववानी नहीं, कारण के तेथी एक तो कर्मबंध, ताडन तर्जन, निंदा, अवहेलनादि विशेष दोषो प्राप्त थशे, ते जणाववाने माटे अने वळी जाणवुं के—मनयोगनी साथे काययोग भळे तो विशेष कर्मबंध थाय, तेथी एम शिक्षा वाक्य लख्युंछे.

प्रश्न—कोइ माणसे मनमां एम चितव्युं के मारे विष खावुं अने अन्य मनुष्ये विष भक्षण कर्युं, ए बे मध्ये कोने वधारे हानि

परमात्मदर्शन.

(१०५)

थाय ? तथा एक मनुष्ये-कायार करी लाख मनुष्य मारी
अने एक मनुष्ये मनमां चिंतवना करी लाख मनुष्य मारी
तेमां विशेष दोष कोने लागे ?

उत्तर-कायाए करी विष भक्षणने विशेष हानि थाय कारण के
ते मनोयोगथी चिंतनपूर्वक विष भक्षण करेछे, अने तेथी ते
मृत्यु पावेछे. मनोयोगथी तेदलीहानि थती नथी माटे प्रायः
थोडो दोष जाणवो. कायाए लक्ष मनुष्य मारनारनी साथे
मनोयोग भळेछे, तेथी विशेष दोष लागे तथा फक्तमनमां
चिंतवनाथी लक्ष मनुष्य मारनारने तेना करतां थोडो दोष लागे.
प्रसन्नचंद्र राजर्षिए मनमां युद्ध करवाथी घणां कर्म उपाज्यां
तेथी कर्मबंधमां मननी मुख्यता जाणवी, मननायोगे अन्यप्रवृत्ति
थायछे, मनमां विकल्प संकल्प थाय नहीं तेने माटे ध्याननी अ-
गम्यता छे, घणां कर्म ध्यान करवाथी नष्ट थाय छे.

श्री यशोविजयजी उपाध्यायजी कह छे के

श्लोक

यत्र गच्छति परं परिपाकं, पाकशासनपदं तृणकल्पं ॥
स्वप्रकाशसुखबोधमयं तद्, ध्यानमेव भव नाशि भजध्वं १

भावार्थ—ज्यां ध्याननी परिपक्वता थएछेते मुनिराज इन्द्रनी
पदवीने पण तृणखलां बरोबर जाणे, गगे, माटे पोताना आत्माना
स्वरूपनुं प्रकाशक एवा ध्यनथी दुःखनी भ्रान्ति टळे छे, अनुभ-
वथी भासेछेके-ध्यानविना आत्मिकसुखनो अनुभव थतो
नथी, केवल सुखनुं विधान छे, तथा ध्यानथी आत्मानुं शुद्ध
ज्ञान प्रगटे, माटे हे भव्यात्माओ! मुनिवरो! तमोए बह्व उपाधिने
स्यागीछे तो रागद्वेषमोहादिक अंतर उपाधिथी भरपूर एवो जे चार

(१०६)

आत्मधर्म महिमा.

गतिरूप संसार तेनो नाश करनारजे ध्यान तेने सेवो, तेनो आदर करो, तेना उपर राग धरो. अने ध्यानवंत पुरुषोनी संगति करो के जेथी मति श्रुतज्ञाननी स्फूर्ति थाय जे ध्यानजुं अवलंबन करतां मसन्नचंद्र राजर्षि कर्मग्रंथी छेदी मोक्षे गया ते ध्यानजुं अवलंबन करवायी मनुष्य जन्मनी साफल्यता जाणवी.

श्लोक.

आतुरैरपि जडैरपि साक्षात्, सुत्यजाहि विषयाननुरागः
ध्यानवांस्तु परमद्यनिदर्शी, तृप्तिमाप्य नतमृच्छति भूयः ३

भावार्थ—कामातुर अने जड पुरुषोवडे पण कारण पामी पंचेंद्रियना विषयो त्यजायछे. जेमके—कोइने स्त्री भोगवबीछे पण केदखानामांछे, तेथी सुखे विषय त्यागे. कोइ रोगी दवाखावाना मसंमे चरी पाळेछे, तेथी शाकादिकनो सुखे त्याग करेछे, पण ते विषयनो कारणीभूत जे राग तेनो नाश थतो नथी. राग दशा त्यागवी दुर्घटछे. किंतु ध्यानवंत पुरुष तो मात्र परमात्म स्वरूपने देखनारछे तेथी ते ध्यानमां तृप्ति मानी पुद्गल वस्तुने न्यारी गणी आत्म स्वरूपमां मग्न थयो छतो अत्यंत आनंद भोगवेछे, तेवी ध्यान दशा पामी फरीथी विषयजुं मूल कारण रागदशाने वांछतो नथी, कारणके ध्यानीने विषयमां थती जे सुखनी भ्रांति ते टळीछे तेथी राग थाय नहीं.

श्लोक.

यानिशा सकलभूतगणानां,
ध्यानिनो दिनमहोत्सव सएषः ।
यत्र जाग्रति च तेऽभिनिविष्टा,
ध्यानिनो भवति तत्र सुषुप्तिः ३

परमात्मदर्शन.

(१०७)

सर्व प्राणीने निद्रामां जे रात्रि जायछे, ते रात्रि ध्यानदशावंत मुनिने दिवसना महोत्सवरूपछे, अहो ध्यानिनी केटली उचमता तेनुं सुख अनुपमछे. अने संसारी जीव विषयमां लीन थइ जे बेलाए जागेछे ते बेळा ध्यानवाळा मुनिराजने शयनरूपछे, एमां केटलो भेदछे ते विचारवो.

श्लोक.

बध्यते न हि कषायसमुत्थैर्मानसैर्नततभूपनमद्भिः
अत्यनिष्टविषयैरापि दुःखैर्ध्यानवान् निभृतमात्मनिलीनः१

भावार्थ—ध्यानवान् पुरुष, रागद्वेषरूप कषाय जनित मनथी बंधातो नथी. ध्यानीने नृपतितति आवी नमस्कार करे तोपण तेनुं चित्त होळातुं नथी, अर्थात् तेना मननी स्थिरता पूर्वना जेवी बनी रहेछे. अत्यंत अनिष्ट विषयना दुःखे पण निश्चळपणुं छोडे नहीं तेने आत्मां लीन जाणवो.

श्लोक.

स्पष्टदृष्टसुखसंभृतमिष्टं, ध्यानमस्तु शिवशर्मगरिष्ठं ।
नास्तिकस्तु निहतो यादेन, स्यादेवमादि नयवाङ्मयदंडात्

भावार्थ—स्पष्टदृष्टसुखे भयुं एवुं इष्ट ध्यान ते मोक्षना सुख करतां पण अधिकछे, पण ज्यांसुधी शास्त्रना दंड थकी नास्तिक भावने अतिशयपणे हण्यो नथी त्यां सुधी नथी, पण नास्तिक भावे रहित जे ज्ञान ते मोडुंछे.

श्लोक.

ज्ञातेष्यात्मनि नोभूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते ।
अज्ञानंपुनरेतस्मिन् ज्ञानमन्यन्निरर्थकम् ॥१॥

(100)

आत्मधर्म महत्ता.

जेने आत्माने जाण्यो तेने पुनः किंचित् अन्य जाणवानुं रहुं नथी, अने यावत् आत्माने जाण्यो नथी तावत् अन्य सर्व जाण्युं निरर्थक छे.

श्लोक.

नवानामपि तत्त्वानां, ज्ञानमात्मप्रसिद्धये;
येनाजीवादयो भावाः स्वभेदप्रतियोगिनः १

नवतत्त्वतुं ज्ञान पण आत्मज्ञान प्रगट् करवाने माटेछे, कारण के अजीवादिक जे भाव ते पण आत्मज्ञानवडे शमायछे.

श्लोक.

एक एवहि तत्रात्मा, स्वभाव समवस्थितः ।

ज्ञानदर्शनचारित्र, लक्षणप्रतिपादितः १

प्रभा नैर्मल्यशक्तीनां, यथा रत्नान्निन्नता.

ज्ञानदर्शनचारित्र, लक्षणानां तथात्मनः २

आत्मनो लक्षणानां च, व्यवहारो हि भिन्नता ।

षष्ठ्यादिव्यपदेशेन, मन्यते न तु निश्चयः ३

घटस्यरूपमित्यत्र, यथा भेदो विकल्पजः ।

आत्मनश्च गुणानां च, तथा भेदो न तात्त्विकः ४

त्यां आत्मा एक पोते स्वस्वभावपणे रखोछे, ते आत्मा ज्ञान दर्शन, चारित्ररूप लक्षणे करी युक्तछे.

रत्ननी कांति अने निर्मलता शक्ति कंड रत्न थकी भिन्न नथी तेम ज्ञान, दर्शन, चारित्र लक्षणथी आत्मा भिन्न नथी. आत्मा अने आत्मानुं लक्षण ए बे व्यवहारे जुदाछे ते षष्ठी विभक्तिना व्यपदेशी मनायछे किंतु निश्चयथी नहीं.

परमात्मदर्शन.

(१०९)

जेम घट अने घटनुं रूप तेनो भेद विकल्प मात्रे ते ममाणे
आत्मा अने आत्माना गुणोनो भेद तास्विक नथी.

श्लोक.

वस्तुतस्तु गुणानां तद्रूपं न स्वात्मनः पृथक्
आत्मास्यादन्यथानात्मा, ज्ञानाद्यपि जडं भवेत्॥

भावार्थ—वस्तुतः जोतां गुणोनुं अने आत्मानुं रूप जुटुं नथी
यदि भिन्न कथीए तो आत्मा ते अनात्मा थाय ज्ञानादिक पण
जड थाय.

श्लोक.

मन्यते व्यवहारस्तु, भूतग्रामादिभेदतः ।
जन्मादेश्च व्यवस्थातो, मिथो नानात्वमात्मनां. १
न चैतन्निश्चये युक्तं, भूतग्रामो यतोऽखिलः
नामकर्मप्रकृतिजः स्वभावोनात्मनः पुनः २

जन्मावस्था बाल, युवान, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि
भेदथी आत्माओनुं विचित्रपणुं व्यवहारनयवालो मानेछे, पण ए
वात निश्चयनये जोतां युक्त नथी अर्थात् सत्य नथी, ते नय एतं कहे
छे के—जीवने सर्व अवस्था नामकर्मना स्वभावथी प्रगटेछे पण ते
आत्मानो स्वभाव नथी.

श्लोक.

जन्मादिकोपिनियतः परिणामो हि कर्मणां;
न च कर्मकृतो भेदः स्यादात्मन्यविकारिणि १

(११०)

आत्मधर्म महत्ता.

निश्चयनयथी जोतीं जन्म जरा मरणादिक परिणाम ते आत्मानो नथी पण ते कर्मनो परिणामछे माटे अबिकारी आत्माने विषे कर्मनो बास्तविक संबंध नथी.

श्लोक.

यथा तैमिरकश्चंद्र, मध्येकं मन्यते द्विधा;

अनिश्चयकृतोन्माद स्तथात्मानमनेकधा २

भावार्थ—जेम तिमिर रोग बाळो एक चंद्रने वे तरीके मानेछे तेम निश्चयनयना ज्ञान विनानो उन्मादक प्राणी आत्माने अनेक प्रकारे मानेछे.

श्लोक.

व्यवहारविमूढस्तु, हेतूतानेव मन्यते ।

बाह्यक्रियारतस्त्वान्त स्तत्त्वं गूढं न पश्यति १

भावार्थ—व्यवहारनयमां रक्त विमूढात्मा परपर्यायने पोताना फलहेतु मानेछे माटे जेजुं मन बाह्य क्रियामां रक्तछे तेवा प्राणी गुप्त तत्त्वने देखी शकता नथी.

श्लोक.

अज्ञानी तपसा जन्म, कोटिभिः कर्मयन्नयेत् ।

अन्तं ज्ञानतपो युक्तं, तत्क्षणेनैव संहरेत् ॥

ज्ञानविना एककोटि भवसुधी अज्ञानी जेटलां तप करे ते तपमां जेटला कर्मनो क्षय न थाय तेटला कर्मोने एक क्षणमां ज्ञान सहित तपश्चर्याए खपावे.

श्लोक.

तद्द्रव्यानं सा स्तुतिर्भक्तिः सैवोक्ता परमात्मनः ।

पुण्यपाप विहीनस्य, यद्रूपस्यानुचितनं ॥

परमात्मदर्शन.

(१११)

शरीररूपलावण्य, वप्रच्छत्रध्वजादिभिः ।

वर्णितैर्वीतरागस्य, वास्तवीनोपवर्णना ॥

पुण्यपापरहित परमात्माना स्वरूपनुं चिंतवन करवुं तेने ध्यान करेवुं अने स्तुति तथा भक्ति पण तेज जाणवी.

पण शरीरना वर्ण लावण्य-वप्र, छत्र ध्वजाओथी परमात्माओने करी परमात्माने बखाणवा एवी जे स्तुति ते वस्तुतः वास्तविक स्तुति मथी.

श्लोक.

व्यवहार स्तुतिः सेयं वीतरागात्मवर्तिनां; ।

ज्ञानादीनां गुणानां तु, वर्णना निश्चयस्तुतिः ॥

पुरादिवर्णनात् राज, स्तुतिः स्यादुपचारतः ।

तत्त्वतः शौर्यगांभीर्य धैर्यादि गुणवर्णनात् ॥

श्री तीर्थकरना शरीरादिकनुं वर्णन करवुं एवी जे स्तुति ते व्यवहारे जाणवी. अर्थात् ते व्यवहार स्तुति जाणवी. पण वीतराग परमात्माना ज्ञानादिक गुण प्रशंसवा अने ते गुणो पोताना आत्मा-मां सत्ताए रखाछे एम जाणी तेनुं ध्यान करवुं. तेज खरी स्तुति छे परमात्म स्वरूप हुं छुं, एम सतत दृढ निश्चयथी चिंतववुं ते निश्चय स्तुति जाणवी.

जेम देश नगरादिकना वर्णनथी राजने बखाणेछे ते उपचारे स्तुति जाणवी अने राजानुं बल गांभीर्य धैर्यादिक गुणोनुं वर्णन ते निश्चय स्तुति जाणवी.

श्लोक.

पुण्य पाप विनिर्मुक्तं तत्त्वतस्त्वविकल्पकं ।

नित्यं ब्रह्म सदा ध्येयमेषा शुद्धनयस्थितिः ॥

(१११)

आत्मधर्म महत्ता.

पुण्य पाप रहित अने तस्वथी जोतां निर्विकल्प एवो शाश्वत आत्मा ध्यान करवा योग्यछे. भव्यात्माओए तेनुं ध्यान करवुं एवी धुद्धनयनी स्थिति जाणवी. ए ध्यानथी घातिकर्मनो पण सहजमां क्षय थायछे.

आत्मध्यानीने क्रोधादिक शत्रुओ उपद्रव करी शकता नथी, अदेखाइ पण थती नथी. आ स्थळे क्रोधादिकनुं वर्णन करेछे.

क्रोधादिकनुं स्वरूप.

आत्माना गुणोनो घातक क्रोधरूप चंडालछे, क्रोधरूपि अग्नि हृदयने बालेछे. तथा शरीरने तपावेछे. वळी क्रोधथी चित्तनी निर्मलता नाश पामेछे अने मन शान्त बहु वखते थायछे. कोइ महात्माने कोइ शिष्ये प्रश्न कर्युं के हे पूज्य, हुं क्रोधथी क्यारे मुक्त थाउं ? त्यारे प्रत्युत्तरमां जणाव्युं के समताने आदरे त्यारे. क्रोधरूप अग्नि धर्मद्वक्षने बाळी भस्म करेछे, मुमुक्षुए धैर्य धारण करी उपजता क्रोधने सहनशीलताथी जीतवो. जे मनुष्यना हृदयमां क्रोधरूप अग्नि रहेछे ते अपवित्र जाणवो. मनुष्य ते गंगाना जलमां स्नान करे तो पण क्रोधदोष गया विना पवित्र थतो नथी. मनुष्य ज्यारे अन्यना उपर क्रोधायमान थायछे त्यारे कर्म क्रोध करनारना उपर क्रोधायमान थायछे, क्रोधरूप चंडाल छिद्र जोइने हृदयमां प्रवेश करेछे, कोइ वखत तो तेनुं एटलुं जोर थायछे के ते क्रोधना उदये मनुष्य घणा जीवोने मारी नांखेछे. क्रोध बुद्धिनो शत्रुछे. समतासागरमां क्रोध बडवानल समानछे, क्रोधरूपी अग्नि हृदयमां प्रगट थायछे त्यारे तेनो धूमाडो शरीरमां प्रसरेछे. क्रोधनुं कारण परस्वभाव रमण जाणवुं. परवस्तुमांथी मारापगानी बुद्धि टळी आत्मस्वरूपमां जेनुं मन लीन थयुंछे तेवा महात्माओना हृदयमां क्रोधरूप अग्निवास करतो नथी. कारण के तेमना हृदयमां समस्वरूप

परमात्मदर्शनः

(११३)

गंगा नदी सदा बहा करेछे. त्यां मलीनता रही शकती नथी. आहार, वस्त्र, स्थान, धन, अपमानथी क्रोध उत्पन्न थायछे, आहारादिक उपर ममता थवाथी तेनुं कोइ हरण करे तो क्रोध उत्पन्न थायछे. प्रीति ज्यां होय त्यां पण क्रोध करवाथी थायछे. वैर क्रोधने क्षमाथी जीतायछे. अदेखाइ संतोषथी जीतायछे. क्षमाथी क्रोधरूप अग्नि शान्त थायछे.

यतः श्लोक.

क्षमा नाथः क्षमा तातः क्षमा माता क्षमा सुहृत् ।
 क्षमा लयश्च लक्ष्मीश्च, क्षमा शोभा क्षमा शुभं. १
 क्षमा श्लाघा क्षमाचारः, क्षमा कीर्तिः क्षमा यशः
 क्षमा सत्यं च शौचं च, क्षमा तेजः क्षमा रतिः २
 क्षमा श्रेयः क्षमा पूजा, क्षमा पथ्यं क्षमा हितं ।
 क्षमा दानं पवित्रं च, क्षमा मांगल्यमुत्तमं. ३
 क्षमा तुल्यं तपो नास्ति, न संतोषात् परं सुखं ।
 न मैत्री सदृशं दानं, नास्ति धर्मो दयासमः ४
 कामक्रोधसमेतः सन् किमरण्ये करिष्यति ।
 अथवा निर्जितावेतौ किमरण्ये करिष्यसि. ५
 सकषायस्य चित्तस्य, कषायैः किंप्रयोजनं ।
 अथवा निष्कषायत्वं, कषायैः किंप्रयोजनं. ६
 किमरण्यैरदांतस्य, अदान्तस्य किमाश्रमैः ।
 यत्र यत्र वसेदांतः, तदरण्यं स आश्रमः ७

(११४)

क्षमाधी आत्मोन्नति.

क्षमा खड्गं करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति;

अतृणे पतितो वन्हिः स्वयमेवोपशाम्यति

८

क्षमा एज भव्यात्माओनो नाथ जाणवो, माता पिता मित्र समान पण क्षमा जाणवी. क्षमा एज मोटी शोभाछे. क्षमा एज कीर्ति जाणवी. कारण के जेनामां क्षमा नथी अने क्रोधे करी धमधमायमान सदा रहेछे. तेनी कीर्ति जगमां थती नथी. क्षमाधी कीर्ति उत्पन्न थायछे. क्षमा तेज सत्य जाणवुं. क्रोधीमां सत्य क्यांथी होय. क्षमा एज मोटी पवित्रताछे. क्षमा विना स्नान पण लेखे नथी. दान पण लेखे नथी. क्षमा रहीत साधु होय तो ते नामनो साधु जाणवो, ज्यां क्षमा नथी त्यां गंभीरता रहेती नथी. क्षमा एज मोडुं तेजछे, सुखकारक आनंदप्रदा पण क्षमाछे, जे क्रोधी होय ते आनंद क्यांथी पामे ? क्रोधीना अनेक वैरियो दुनीयामां होयछे तेथी क्रोधीने निरांते उंच पण आवती नथी. वळी क्रोधी मनुष्यनो कोइ मित्र पण होतो नथी. कारण के ज्यां त्यां क्रोधधी तेना उपर अप्रीति जलनी वृष्टि थया करेछे, क्षमा कल्याणकारीछे, जे मनुष्यमां क्षमा नथी ते पोताना तथा परना आत्मानो घातक बनेछे. क्षमा मोटी पूजाछे. कर्षरूप रोगथी रहीत थवा माटे क्षमा पथ्यछे. क्षमा एज मोडुं हितछे. क्षमा ए मोडुं दानछे. जेनामां क्षमाछे ते पोताना आत्माने ज्ञान दर्शन चारित्र गुणोनुं दान आपेछे. क्षमा तुल्य अन्य कोइ तप नथी. कूरगडु ऋषि ए क्षमारूप तपथी आत्महितनी सिद्धि करी. श्री वीरभगवाने क्षमावडे अनेक उपसर्गो सहन कर्या, श्री मेतार्थमुनि ए क्षमाधी आत्महित साध्युं. श्री स्कंधकसरिना शिष्योने घाणीमां घाली पील्या पण तेमणे क्षमाधी कर्म शत्रुनो पराजय करी. आत्मिक लक्ष्मी प्राप्त करी. समरादित्य केवळी ए साधु अवस्थामां क्षमा ए करी घोर उपसर्ग सहन कर्या. क्षमाधारक अनेक मुनिवरो ए

परमात्मवृत्तम्.

(११५)

परमात्मपद प्राप्त कर्तुं भविष्यत् काले पण करशे, अंतरमां क्रोधरूप अग्नि सळगी रळोछे अने बाळथी छठ अद्वम विगेरे करे तोपण आत्महित थतुं नथी. क्रोध नरकनुं बारणुंछे. क्रोध फणीधर सर्प समानछे ते क्षमारूप नागदमनी औषधीथी वश थायछे. क्षमाना समान तप नथी, संतोष समान सुख नथी. दया समान धर्म नथी.

काम अने क्रोध सहीत जे प्राणीछे ते जंगलमां जोगी थइ वास करशे तो पण थुं थयुं ? अलवत् कंइ नहीं. अथवा जेजे काम क्रोध जीत्याछे ते अरण्यमां जइ थुं करशे ? अलवत् कंइ नहीं. काम क्रोधनो ते जय कर्षोछे तो तुं अरण्यमां जइ थुं करीश ? जेनुं चित्त काम क्रोधादिक कषाय सहीतछे तो तेने कषायलां वल्ल पहेरवावडे करीथुं ? अथवा जो चित्तमां काम क्रोधादिक कषायनी उत्पत्ति नथी तो तेवा पुरुषने कषायलां वल्ल पहेरवाथी थुं ? अर्थात् कंइ नहीं.

जेजे इंद्रियो दमी नथी तेने अरण्य थकी थुं ? तथा अदांतने आश्रमोवडे करी थुं ? अर्थात् कंइ नहीं. जेने इंद्रियीने जीतीछे एवो दान्त पुरुष जे ठेकाणे वसे ते अरण्य तथा आश्रम जाणवुं, माटे भव्यात्माओ क्षमा धारण करो. क्षमा रूप खइग जेना हाथमांछे तेने दुर्जुन थुं करशे ? अर्थात् कंइ नहीं, तृण विनानी जगाए पडेलो अंगारो पोतानी मेळे शान्त थइ जायछे, तेम आपणा उपर अन्य पुरुषे क्रोध कर्षो पण आपणे क्रोध करीथुं नहीं अने क्षमा राखीथुं तो अन्य पुरुषे आपणा उपर वरसावेलो क्रोध पोतानी मेळे शान्त थशे.

श्लोक.

क्रोधान्धाः पश्य निघ्नंति पितरं मातरं गुरुम् ।

सुहृदं सोदरं दारा नामानमपि निर्घृणाः ॥ १ ॥

(११६)

क्षमाधी आत्मोन्नति.

हे भव्य देव क्रोधान्ध जीवो पिता माता अने गुरूनो पण
नाश करेछे तेमज मित्र सहोदर स्त्री तथा दोताना आत्मानो पण
निष्ठुर पुरुषो क्रोधवशे घात करेछे. माटे क्रोधने त्यामी क्षमा भा-
रण करवी, भव्य प्राणी क्षमा धारण करी सामायिक समभाव स्वरूप
करे आत्मा अने आत्माना गुणो ज्ञान दर्शन चारित्रादिकतुं स्वरूप
मनसां विचारे-

यतः श्लोक.

नचात्मनः पृथक्ज्ञाना, दि त्रयं विद्यते क्वचित् ।
ज्ञानादि त्रय मेवात्मा, नास्य कापि परा भिदा ॥१॥
आत्मानमात्मना वेत्ति, प्रोहत्यागाद्य आत्मनि ।
तदेव तस्य चारित्रं । तज्ज्ञानं तच्च दर्शनम् ॥१॥

आत्माधी पृथक् ज्ञानादिक नथी, ज्ञानादिक स्वरूप आत्मा
छे, व्यवहारथी तेनो भेद जाणवो.

श्री हरिभद्रस्वरियोगप्रदीपमां सामायिकतुं लक्षण कहेछे.

श्लोक.

अतीतं च भविष्यं च यन्न शोचति मानसं ।
तत् सामायिक मित्याहु, निर्वातस्थानदीपवत् १
निस्संगं यन्निराकारं, निराभासं निराश्रयं ।
पुण्यपापविनिर्मुक्तं, मनः सामायिकं स्मृतं ॥२॥
गते शोको न यस्यास्ति नैव हर्षः समागते ।
शत्रु मित्र समं चित्तं, सामायिकं मिहोदितं ॥३॥

भावार्थ अतीतकालमां जे थइ गयुं, आपणा संबंधी वा परसं-
बंधी तेनो विकल्प संकल्प करे नहीं, वा अतीतकाल संबंधी कोइ

परमात्मदर्शन.

(११७)

घात याद करे नहीं. सारांश के अतीतकाल संबंधी शोक करे नहीं. तेम भविष्यकाल संबंधी स्व अने पर आश्रयी विकल्प संकल्प करी शोक करे नहीं. विकल्प संकल्प रहीत आत्मानि स्वउपयोगे अवस्थिति-तेने सामायिक कहेछे कोनी पेठे ते दर्शाबेछे, वायु रहीत दीवानि ज्योतिनी पेठे दीवाने वायु लागतां ज्योति चंचळ भायछे, तेम आत्मां पण विकल्प संकल्प यत्तां आत्मा चंचळ थइ परस्वभावमां पडेछे. माटे एकाग्रचित्ते स्थिरपणे एक आत्मस्वरूपमां उपयोग राखवो ते सामायिक जाणवुं. मनमां कोइ पण वस्तु चिंतवची नहीं, मननी साथे कोइ पण वस्तुनो संग थाय नहीं. अर्थात् मन अन्य वस्तुना संगथी रहीत होय, कोइपण वस्तुनो आकार मनमां चिंतववो नहीं, मनमां कोइ पण वस्तुनो आभास रहे नहीं. कोइपण वस्तुना आश्रय रहीत मन निराश्रित होय, मन पुण्य अने पापना व्यापार रहीत होय, मनने आत्म स्वरूपमां लीन करी देवुं, जेम भरउंधमां कोइ पण वस्तुना व्यापार रहीत बाह्यथी देखतां जणायछे, तेम भरउंधनी पेठे पस्वस्तुने भूली अखंड निर्मल आत्म स्वरूपमां आत्म स्वभावे जागवुं, अने परस्वभावनी चिंतवना करची नहीं अने तेने सामायिक कहेछे.

गतकाल, गतअवस्था, गतवस्तु आदिने विषे मनमां शोक थाय नहीं, अने आवतो काल, आवनार भावीकाले वस्तुना इष्ट संयोग तेनो मनमां हर्ष थाय नहीं, अने शत्रु तथा मित्र उपर समचित्त होय एवी जे आत्मानि अवस्था तेने सामायिक कहेछे. आ उवस्ना ज्ञान श्लोको कथाकोष ग्रंथमां कहाछे. जे भव्यात्माओने क्षमावडे तथा समपणे सामायिक वर्तेछे तेमने क्रोधादिक शत्रुओ पराभव करी शकता नथी.

भव्यात्माए मुक्तिपदनी चाहना राखतां अदेव्वाइतो नाशक

(११८)

अदेखाइ नो नाच करवो.

रवो जोइए. अदेखाइ रूप नागण हृदयमां पेसतां आत्माना गुणो हणायछे. परना गुणो सांभळी तथा परजीवनी कीर्त्ति सांभळी प्राणी विचारे छे के-हाय, हाय ते माराथी वधारे वखगायछे लोकोमां तेने वधारे मान मळेछे, एनी जो भूल काहुं वा एना उपर कंड कलंक चढे तो ठीक थाय एम पाप विचार करी लोकोनी आगल निंदा करे. खोटं कलंको चढाववां. ए सर्व अदेखाइनुं फलछे. नागण कदापि कोइने करडे तो सारी पण अदेखाइरूप नागिणी जे प्राणीने डसेछे तेनुं आ भवमां तथा परभवमां पण खराब थायछे, अदेखाइ ज्यां सुधी हृदयमांछे त्यां सुधी आत्मज्ञान थतुं नथी. वकील वकीलनी साये अदेखाइ, साधु साधुनी साये अदेखाइ, वेपारी वेपारीनी अदेखाइ, शोक शोकने अदेखाइ प्रायः रहेवानो संभवछे, माटे आत्मार्थी प्राणी मनमां विचारे के-सर्व प्राणी, पोतानां कर्मयोगे ज्ञाता वा अज्ञाता भोगवेछे. कोइनी कीर्त्ति थाय तेमां मारे शा कारणथी अदेखाइ करवी ? जेवां कर्म ते प्रमाणे यश वा अपयश थया करेछे, तेमां मारे शुं ? यश वा अपयश, मान वा अपमान ए कंड आत्मिक वस्तु नथी हुं आत्मा तेनाथी भिन्नहुं, हुं कर्मयोगे कोइ वखत राजी थयो ते वखत याचकोए कीर्त्ति गाइ, पण तेमांनुं आजे कंड नथी. वळी कोइ भवमां अपमान पण घणां थयां हशे पण तेमांनुं हाल कंड नथी. जे पोतानी वस्तु नथी तेमां अहंभाव संकल्पी वेम रति अरति करवी जोइए, कहुंछे के-

कबहिक काजी कबहिक पाजी, कबहिक हुआ अपभ्राजी,
कबहिक जगमें कीर्त्ति गाजी, सब पुद्गलकी बाजी. आप स्व० १

धवलशेठ श्रीश्रीपालनी अदेखाइथी अंते मरण पाम्या अने दुर्गतिमां गया. धवलशेठे अदेखाइथी शुं शुं कृत्य कर्युं नथी, दुनी-यामां अदेखाइ करनारनी पडती थया विना रहेती नथी, अदेखा-

परमात्मदर्शन.

(११९)

इथी निंदा कपट हिंसा, असत्यादि दोषो उत्पन्न थायछे, विशेषे शुं कहेवुं ? आत्मार्थी पुरुषे अदेखाइनो नाश करवो. तेनो नाश करवा संत पुरुषोनी संगति करवी.

जे पुरुषने मानदशा होयछे ते मानी कहेवायछे, मानी पुरुष कृत्य अकृत्यने विचारतो नथी, तथा तेने जरा पण शान्ति मळती नथी अने ते विद्या धन पामी शकतो नथी, लघुताथी प्रभुता थाय माटे लघुता भावी माननो नाश करवो. रावण दुर्योधनादि पुरुषोए मानथी दुःखराशि ग्रहण करी. गमे तो राजा होय. करोडाधिपति होय तोपण मान दशा ज्यारे छूटे त्यारे कल्याण थायछे, बाहुबल मुनिवरने मान केवलज्ञानमां विघ्नकारक थयो. अने ज्यारे मान दशा छोडी त्यारे केवलज्ञान उत्पन्न थयुं श्री यशोविजयजी उपाध्याय मान नामना पाप स्थानकनी सज्ञायमां कहेछे के—

विनयश्रुत तपशील त्रिगुण हणे सवे, माने ते ज्ञाननो भंजक होय भवोभवे; लुंपक छेक विवेक नयणनो मानछे, एहने छंडे तास न दुःख रहे पछे.

इत्यादि विचारी भव्य पुरुषोए मानदशा त्यागी आत्मस्वरूप-मां आयुष्य गाळवुं. मायास्वरूप कथाकोश ग्रंथे आ प्रमाणे छे.

माया परित्याग महो विधाय, सदार्जवं साधुजना विधत्ते
यथैहिका मुष्मिक कामितानां, सिद्धिर्भवेद्दःपरमार्थशुद्धा

यतः श्लोक.

दंपती पितरः पुत्राः सौदर्याः सुहृदो निजाः ।

ईशा भृत्यास्तथान्येऽपि माययाऽन्योऽन्य वंचकाः ॥१॥

सर्वे जिम्हं मृत्युपद मार्जवं ब्रह्मणः पदं ।

एतावान् ज्ञान विषयः प्रलापः किं करिष्यति. ॥२॥

૧૨૭)

સરલતા : ૧૨૭ :

સમગ્ર વિદ્યા વૈદુષ્યેઽ, ધિગતાસુ કલાસુચ ।
 ધન્યાનામુપજાયેત । બાલકાનામિવાર્જવં ॥૩॥
 અજ્ઞાનામપિ બાલાનાં, આર્જવં પ્રીતિહેતવે ।
 કિં પુનઃ સર્વ શાસ્ત્રાર્થ પરિનિષ્ઠિત ચેતસાં. ॥૪॥
 શ્રુતાન્ધિ પારમાર્થોપિ । ગૌતમો ગણમૃદ્ધરઃ ।
 અહો શૈઠ્ઠ ઇવાશ્રોષીત્ આર્જવાદ્ગવદ્ધિરઃ ॥૫॥
 અશેષમપિ દુઃકર્મ રુઝ્વા લોચનયા દ્વિપેત્ ।
 કુટિલાલોચનાં કુર્વન્ અલ્પીયોપિ વિવર્ધયેત્ ॥૬॥
 કાયે વત્સિ ચિત્તેચ સમંતાત્ કુટિલાત્મનાં ।
 ન મોહઃ કિં તુ મોહઃ સ્યાત્ સર્વત્રા કુટિલાત્મનાં ૭
 તપઃ ક્રિયા જ્ઞાન વિચક્ષણા અપિ ।
 કૌટિલ્યમેકં ન પરિત્યજંતઃ ॥
 દુર્યોનિ દુઃખાનિ લભંતિ તે નરાઃ ।
 સાધ્વી યથા વીરમતીતિ નામ્ની. ॥ ૮ ॥

અહો આ જગત્માં જે સ્વરેસરા ગુણોથી સાધુજનોછે તે કપ-
 ટના ત્યાગ કરી સરલતાને ધારણ કરેછે, આ ભવ અને પરભવ
 સંબંધી ઇચ્છિત કાર્યોની સિદ્ધિ સરલતાથી થાયછે. અને પરમાર્થથી
 વિચારતાં ધર્મનો અધિકારી પણ નિષ્કપટી ભવ્યાત્માછે. સ્ત્રીઓ પિ-
 તાઓ, પુત્રો, મિત્રો સહોદ્રો, સ્વામીસેવક આદિ માયાવડે પરસ્પર
 વંચક જાણવા. મૃત્યુને દેનાર (મૃત્યુપદ) કપટ જાણવું. સરલતા
 બ્રહ્મનું સ્થાન આત્માને હિતકારકછે.

परमात्मदर्शन.

(१२१)

समग्रविद्याएकरी विद्वान होय अने सर्वकलानो वेत्ता होय तोपण कपटनो त्याग थवो मुश्केलछे. धन्यछे एवा पुरुषोने के नानां भोळां बाळकोनी पेठे सरलताने धारण करेछे.

जेने तत्त्वतुं ज्ञान नथी एवा वालकोनी सरलता पण प्रीति माटे थायछे तो जे सर्व शास्त्रार्थना पारंगामीछे, एवा पंडितोनी सरलता आत्माने विशेष हितकारी थाय तेमां शुं कहेवुं ?

श्रुतज्ञाननो दरियो एवा गौतम गणधरे पण सरलताथी भगवाननी वाणी सांभळी अहो केवी आश्चर्यता ?

सरलपणे आलोचना करवाथी घणां कर्मने प्राणी खपावेछे, कुटिलताथी आलोचना करतो अल्प पापी होय तो पण प्राणी पापने वधारेछे, जेनी कायामां मनमां वचनमां कुटिलताछे, एवा जीवो उत्कृष्ट तप तपे, आकरी क्रिया करे, वैराग्यरंगमां झीलया होय एवा देखाय तोपण तेनो आत्मा कर्मरहीत थइ मोक्षपद पामतो नथी, मायाए रहीत जीवोने मोक्ष थायछे एमां संदेह नथी. विचित्र प्रकारनां तप अने विचित्र प्रकारनी धर्म संबंधी क्रिया अने ज्ञानमां विचक्षण एवा पुरुषो पण एक समग्रदुःखमूलभूता कुटिलताने सेवता दुर्योनिमां उपजी विचित्र प्रकारनां भयंकर दुःखोना भागी थायछे. जेम वीरमती नामनी साध्वी कुटिलताथी दुःख पामी तेम कपटी पुरुषो पण धर्म विषयमां कुटिलता करी चतुर्गतिरूप संसारमां परिभ्रमण करेछे, माटे आत्मार्थि पुरुषोए मने करी वचने करी तथा कायाए करी कुटिलतानो त्याग करवो, निष्कपटी मनुष्यने धर्म परिणमेछे. उदायीराजानो घातक बाह्यथी साधु अने अत्यंत विनयवंत एवो विनयरत्न कुटिलताथी मरी नरकमां गयो, तेम तेनी पेठे जे धर्माचारमां बाह्यथी जुदां आचरण अने मनमां जूझ एम करशे ते धर्मरत्न पामी शकशे नहीं. अने दुःखना

(१२२)

सरलता.

भागी थशे. भावधर्मनी प्राप्ति कोइ विरला जीवोने थायछे. द्रव्य धर्म तो कपटी पण आदरेछे, आत्मज्ञानी समकित्ती जीवने भावधर्मनी प्राप्ति थायछे, सारांश के मायानो त्याग करशे ते परमात्मपद पामवाने योग्य थशे. श्रीयशोविजयजी उपाध्याय कहेछे के-

श्लोक.

दंभेन व्रतमास्थाय; यो वांछति परंपदं ।
 लोहनावं समारुह्य, सोऽब्धेः पारंयियासति ॥१॥
 केश लोचधरा शय्या, भिक्षा ब्रह्मव्रतादिकं ।
 दंभेन दुष्यते सर्वं, त्रासेनैव महामणिः ॥२॥
 सुत्यजं रस लांपट्यं, सुत्यजं देह भूषणं ।
 सुत्यजाः कामभोगाद्या, दुस्त्यजं दंभसेवनम् ३
 स्वदोष निन्हवो लोक, पूजास्यात् गौरवं तथा ।
 इयतैव कदर्थ्यते, दंभेन व्रत बालिशाः ४
 अहो मोहस्य माहात्म्यं, दीक्षा भागवतीमपि ।
 दंभेन यद् विलुंपंति, कज्जलेनेव रूपकं ५
 आत्मोत्कर्षात् ततोदंभात्, परेषां चापवादतः ।
 बध्नाति कठिनं कर्म, बाधकं योग जन्मनः ६

कपटवृत्तिथी पंचमहाव्रत ग्रही जे जीवो परमपदने वांछे छे, ते जीवो लोहनी नावमां बेसी समुद्रनो पार पामता इच्छता होय तेम जाणवा.

केशनुं लुंचन करवुं साधुने सहेल छे, सूर्यसामी दृष्टि राखी आतापना लेवी सहेलछे, पृथ्वीने विषे शयन करवुं, लज्जानो

परमात्मदर्शन.

(१२३)

त्याग, गृहे गृहे भिक्षा मागवी, काम विकारने जीती ब्रह्मचर्य पाळवुं आदि सर्व सहेलछे किंतु साधुने कपटनो त्याग करवो मुडकेलछे. सर्व व्रत, तप क्रियादि कपटथी दुषित थायछे. जेम सुंदर निर्मल मणिने डाघलागवाथी तेनी कांति मंद थायछे तेनी पेठे अत्र समजवुं.

रसनुं लोलपीपणुं सुखे त्यागी शकाय, देह भूषण पण त्यागी शकाय. कामभोगादिने पण सुखे त्यागी शकाय. पण कपटनो त्याग करवो घणो विकटछे. जेम जेम विद्वत्ता वृद्धि पामे तेम तेम आत्म उपयोगी शून्य मुनि कपटमां पोतानी विश्रानो उपयोग करे छे कपटभाव त्यागवाथी सुख थायछे, कोइ प्राणी मान पूजानी लालचे उपरथी बाह्य चारित्र शुद्ध पाले, पंचसमितिनो बाह्यथी खप करे, त्रग गुप्तिनो बाह्यथी सारी रीते खप करे. उपरथी एवो बैराग्य जगवे के लोको तेना उपर फीदा फीदा थइ जाय पण अंतरमां आत्मानो उपयोग होय नहीं अने अभ्यंतर निर्मल परिणाम न होय पोताना गच्छनो मतनो पक्ष सबल करवानी लालसा बनी रही होय, आत्मा अने परमात्मानुं स्वरूप थुं छे ? तेनो तो विचार पण करे नहीं, व्याख्यान वाणीथी हजारो जीवोने रंजन करे, बोलवानी कळा एत्री होय के जेथी विचारा सुग्ध जीवोने वश करी दृष्टी रागीया करे, एवो साधु कपटवृत्तिथी परमात्म स्वरूप पामी शकतो नथी. ज्यारे साधुनी पण आवी स्थिति छे तो अल्पज्ञ संसारना खाडामां पतित श्रावकवर्गतो भाग्ये कपटनो त्याग करी शके. कपट रूप काळो नाग जे भव्यना हृदयमां पर निंदा, स्वमहत्त्वता, परापकर्षरूप फणीवडे करी सहीत वसतो होय ते प्राणी दुःखनी परंपराने पामेछे. अल्पज्ञ पुरुषो कपटीयोना कपटने पारखी शकता नथी, जे मुनि बाह्य क्षणिक मान पूजा कीर्तिनी लालचे श्रावक आगळ ठकिटाक आचरण देखाडी रंजन

(૧૨૪)

સરલતા.

કરે તે શ્રાવકની આગલ એવું બોલેકે તે ભદ્રિક મહામુનિ તેમને જાણે પણ પોતાનામાં કંઈ હોય નહીં.

શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ કહેછે કે—

કથની કથે સહુ કોઈ, રહેણી અતિ દુર્લભ હોઈ;

જબ રહેણીકા ઘર પાવે, તબ કહેણી લેખે આવે. ૧

નિષ્કપટી અને કપટી સાધુઓની પરીક્ષા કરવી દુર્ઘટ છે, મહા બુદ્ધિના ધણી એવા અભયકુમાર સરસ્વા કપટી વેડ્યા શ્રાવિકાનું કપટ જાણી શક્યા નહીં, તો બાલજીવોનું શું કહેવું ? જેને માન પૂજા કીર્તિની લાલચ ગઈ છે એવા પુરુષોને ધન્ય છે, વિવેકી સુજ્ઞ પુરુષ હંસની પેટે કપટી અને નિષ્કપટી સાધુઓની પરીક્ષા કરી દે છે, કપટી એમ ધારે છે કે હું અન્યને છેતરું છું પણ કપટથી તેનાં આત્માને કર્મ છેતરી પોતાને વશ કરે છે તે જાણી શકતો નથી. આઠ્ઠી દુર્નીયામાં કપટજાલ મોહ રાજાએ પાથરી છે તેમાં મનુષ્યાદિક રૂપ માલલાં વિચારાં અંતરના અજ્ઞાને સપડાય છે. અને વિવિધ દુઃખ પામે છે, જેને સ્વસ્વરૂં નિજ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે તે કપટજાલને છેદી નાખે છે, નિષ્કપટી પુરુષોની વાણીમાં દ્વિધાભાવ રહેતો નથી, નિષ્કપટી મનુષ્ય જેવું હોય તેવું કહે છે. કપટીની ટુચ્છિ કાક સદૃશ છે. પોતાના દોષને ગોપવનાર લોક પોતાનું ગૌરવ માન પૂજા જેમ થાય તેમ દંભથી આચરણ કરે છે, અહો કેટલી અજ્ઞાનતા ? જેનો અંતે ત્યાગ કરવાનો છે તેનામાં મુંઝાવું એ બાલજીવોનું લક્ષણ છે. પ્રાણી મનમાં પરમાર્થબુદ્ધિથી વિચારે તો કપટ કરવાનું કંઈ કારણ નથી. એમ વિશ્વાસ થાય. ગુરુમહારાજને પણ કપટી શિષ્યનો વિશ્વાસ આવતો નથી. જ્ઞાની ગુરુરાજની પાસે જઈ કોઈ પ્રાણી કપટથી પૂછ્યા કરે તો તે તુરત જાણી લે છે. અને તેથી પૂછકને અયોગ્ય જાણી મૌન ધારે છે, કપટી એવું જાણીને કપટ

परमात्मदर्शन.

(१२५)

करेछे के, हुं युक्ति रचुं छुं, हुं कळा करुंछुं, हुं बोलुंछुं, ते अन्य कोइ जाणतुं नथी. पण याद राख के प्रथम तो कपटने जाणनार तारा शरीरमां रहेलो तारो आत्माछे. वजुं सिद्ध भगवंत ज्ञाने करी तारुं कपट जाणी रहाछे, कोनाथी छानुं तारुं कपटछे. हे मूर्ख जीव ! तुं चार घडीना चांद्रणानी पेटे आ दुनीयामां थोडो काल रही परभवमां चाल्यो जनारछे, तारा शरीरनी खाख थइ जशे, हाडकांना चूरेचूरा थइ जशे. करेलां कर्म परभवमां भोगववां पडशे. तुं तारी मेळे विचार तो तारा आत्मा न्यायाधीशनी पेटे न्याय करी आपशे, कपट विनानी तारी केटली जींदगी गइ ? तेनो विचार कर-तारुं कपट कदापि तुं अत्र छानुं राखीश पण परभवमां केम छूटीश ? राजा, राणा, शेठ, गरीब आदि सर्व कपट करशे तो ते तेनुं फल भोगवशे. पोताना आत्माने सुबुद्धि-थी प्रश्न करो के हे आत्मा तने कपट मियछे ? तयारे आत्मा तर-फथी विचार थशे के कपट करवुं ते महापापछे.

अहो मोहराजानुं भाहात्म्य तो जुओ के प्राणी श्री तीर्थक-रोक्त भागवती दीक्षाने पण काजळें करी चित्रामणनो जेम लोप थाय तेम कपटे करी लोपी नाखेछे.

पोताना आत्मानी वडाइ करे, घणुं कपट, धरे अने पारकां अवर्णवाद बोले तेथी प्राणी कठीन कर्म बांधेछे, तेवा पुरुषो योगी-ना जन्मने बाध करनाराछे. ते शुद्ध चारित्र पामी शके नहीं. श्री यशोविजयजी उपाध्यायजी “माया” विषे कहे छे के—

नममास उपवासीया सुणो संताजी ।

शीत लीए कृश अन्न गुणवंताजी ॥

गर्भ अनंता पामशे सुणो संताजी ।

(१२६)

सरलता.

जे छे माया मन गुणवंताजी ॥

इत्यादि वांची आत्मार्थी पुरुषे कपटनो त्याग करवो.

श्लोक.

जैनैर्नानुमतं किञ्चित् निषिद्धं वा न सर्वथा ।

कार्ये भाव्यमदंभेने तेषाज्ञा पारमेश्वरी. १

अध्यात्मस्तचित्तानां, दंभः स्वल्पोपिनोचितः

छिद्रलेशोऽपि पोतस्य, सिंधुं लंघयतामिव. २

तीर्थकरे एकांते आज्ञा पण करी नथी तेम सर्वथा निषेध पण नथी कर्यो, तो पण जे कार्य करवुं ते कपट रहीतपणे करवुं, एवी पारमेश्वरी आज्ञा सत्य मानवी. जेम वहाणमां छिद्रनो लेश होय तो पण समुद्र तरवामां योग्य नथी तेम अध्यात्मने विषे जेजुं मन रंगा-युंछे, तेने जरा पण कपट करवुं ए योग्य नथी.

स्याद्वाद रीते आत्मस्वरूप जाणवाथी कपटं वृत्तिनो त्याग थसे. दगा, प्रपंच, छळभेद, एक बीजानी निदानो त्याग करी एक आत्मस्वरूपमां रमण करनार जे मुनिवरोछे तेने सहश्रशः वंदन थाओ. बाकी जे छळ भेद प्रपंच विकल्प संकल्पे करी भरेला नाम धारी साधुओ वा श्रावकोथी आत्महित दूर जाणवुं.

लोभ स्वरूपं.

श्लोक=योगशास्त्रे.

आकरः सर्वदोषाणां, गुणप्रसनराक्षसः ।

कंदो व्यसनवल्लीनां, लोभः सर्वार्थबाधकः १

धनः हीनः शतमेकं, सहश्रं शतवानपि ।

सहश्राधिपतिः लक्षं, कोटिं लक्षेश्वरोऽपि च २

परमात्मदर्शन.

(१२०)

- कोटीश्वरो नरेन्द्रत्वं, नरेन्द्रश्चक्रवर्तिनां ।
 चक्रवर्ती च देवत्वं, देवोऽर्पीन्द्रत्व मिच्छति. ३
 इंद्रत्वेपिहि संप्राप्ते, यदीच्छा न निवर्त्तते ।
 मूले लघीयांस्तल्लोभं, शराव इव वर्धते ४
 हिंसेव सर्व पापानां, मिथ्यात्वमिव कर्मणां ।
 राजयक्ष्मेव रोगाणां, लोभः सर्वागसां गुरुः ५
 अहो लोभस्य साम्राज्य, मेक छत्र महीतले ।
 तस्वोपि निधिं प्राप्य, पादैः प्रच्छादयन्ति यत् ६
 अपिद्रविणलोभेन, ते छित्रिचतुरिन्द्रियाः ।
 स्वकीयान्यधि तिष्ठन्ति । प्राग् निधानानि मूर्च्छया ७
 भुजगगृह गोधाखु मुख्याः पंचेन्द्रिया अपि ।
 धनलोभेन लीयन्ते निधानस्थानभूमिषु ८
 पिशाचमुद्गलप्रेत भूतयक्षादयोधनं ।
 स्वकीयं परकीयं वाप्यधितिष्ठन्ति लोभतः ९
 भूषणोद्यान वाप्यादौ, मूर्च्छितास्त्रिदशा अपि ।
 च्युत्वा तत्रैव जायन्ते । पृथ्वीकायादि योनिषु १०
 प्राप्योपशान्त मोहत्वं, क्रोधादि विजये सति ।
 लोभांशमात्र दोषेण । पतन्ति यतयोऽपिहि ११
 लोभाद् ग्रामादिसीमान मुद्दिश्यगत सौहृदाः
 ग्राम्यानियुक्ता राजानो । वैरायन्ते परस्परं १२

(૧૨૮) લોભ પાપનું મૂલ જાણીને તેનો ત્યાગ કરવો.

આરમ્બયતે પૂરયિતું, લોભગર્તો યથા યથા ।

તથા તથા મહચ્ચિત્રં, મુહુરેષો વિવર્ધતે ૧૩

લોભસ્ત્યક્તો યદિ તદા, તપોભિરફલૈરલં

લોભસ્ત્યક્તોનન્નેતર્હિ, તપોભિરફલૈરલં ૧૪

લોભમૂલાનિ પાપાનિ, રસમૂલાનિ વ્યાધયઃ

સ્નેહમૂલાનિ દુઃખાનિ, ત્રીણિત્યત્કા સુખીભવ. ૧૫

સર્વ દોષનું સ્થાન લોભ છે, ગુણનો ગ્રાસ કરવાને લોભ રાક્ષસ સમાન છે. વ્યસનરૂપ વહ્લી કંદભૂત લોભ જાણવો. એમ સર્વાર્થનો વાધક લોભ જાણવો. નિર્ધન સો રૂપીયાને ઇચ્છે, અને સો રૂપીયા મળે હજારની ઇચ્છા, અને હજારનો અધિપતિ થયે લાખની ઇચ્છા થાય. લક્ષમળે કરોડની ઇચ્છા થાય કોટીશ્વર તૃપ્તિ રુદ્ધિ ચાહે, રાજા ચક્રવર્તિની પદવી ઇચ્છે અને ચક્રવર્તી દેવતાની ઋદ્ધિ ચાહે છે. દેવતાને ઇંદ્રની પદવાનો લોભ રહે છે. એમ મૂલમાં લઘુ અને અંતે વૃદ્ધિને પામનાર લોભ શરાવની પેટે જાણવો.

પાપનું મૂલ હિંસા અને કર્મનું મૂલ જેમ મિથ્યાત્વ, અને રોગોને વિષે જેમ રાજરોગ (ક્ષયરોગ) સર્વ રોગનું મૂલ છે. તેમ લોભ સર્વ પ્રીપનો ગુરુ છે. અહો લોભનું સામ્રાજ્યતો જુઓ. પૃથ્વીને વિષે એક હવ્ર લોભનું રાજ્ય છે, વૃક્ષો પળ નિધાનને પામી મૂલીએ કરી સંતાડે છે.

દ્રવ્યના લોભમાં દ્વીન્દ્રિયાદિ જીવો પળ સપડાયા છે પૂર્વ ભવના નિધાન ઉપર મૂચ્છાઈવડે અધિરોહણ કરે છે.

સર્પ, ઉંદર, ગિરોલી પ્રમુખ પળ ધનના લોભમાં પૂર્વ ભવની મૂર્છાના યોગે ફસાય છે. અને નિધાનના ઉપર વાસ કરે છે.

ભૂત પ્રેત પિશાચ યક્ષાદિક્ક પળ ધનના અધિષ્ટાતા તરીકે રહે છે, અહો લોભની કેવી સત્તાકે દેવતાઓ સરખા પળ ધનાદિકની મૂર્છાએ નીચ યોનિમાં અવતરે છે. મોટા મોટા મુનિવરો કે જે ઉપશા-

परमात्मदर्शन.

(१३९)

न्तमोह गुणठाणे क्रोधादिकने झीती चढ्याछे तो पण तेमने लोभ धको देइ पाडी नाखेछे.

लोभथी राजाओ ठाकोरो विगेरे गामनी सीमोनी तकरारमां हरसाल क्लेश करी वैर धारण करी लडी मरेछे, जुओ प्रत्यक्ष रूशीया अने जापान देश लोभना कारण माटे मोटी मोटी हाल लडाइओ करी अने तेमां लाखो जीवोनो संहार थयो.

लोभरूपी खाडाने पूरवा माटे जेम जेम प्रयत्न करीये छीए तेम तेम वृद्धि पामेछे. अहो केवुं आश्चर्य ?

लोभ त्याग्यो तो तपवडे पण छुं ? अर्थात् लोभना नाशथी तप तपवानी कंड जरूर नहीं अने कदापि जो लोभ हृदयमां छे तो तपश्चर्यावडे करीने थुं ? अर्थात् कंड नहीं. लोभ मूळ भूत पाप कृत्य जाणवां, रसमूळ भूत व्याधियो जाणवी. स्नेह मूळ दुःखो जाणवां, एटले स्नेहथी सर्व दुःखो उत्पन्न थायछे, माटे हे प्राणी ए त्रण वस्तुओनो त्याग करी तुं सुखी था.

लोभथी कपट थाय लोभथी जीवहिंसा थाय, लोभथी असत्य वचन बोलवुं पडे, लोभथी चोरी करवानुं मन थाय, लोभथी कृत्य अकृत्यनुं भान रहे नहीं. लोभथी लज्जा दूर रहे, लोभथी धर्मनाश पामे, लोभथी विवेकनो नाश थायछे. लोभी पुरुषने मुखे निद्रा पण आवती नहीं, लोभी पुरुष गरज वखते गधेडाने पण बाप कहेछे. लोभी पुरुष सदा पारकुं खराब चाहेछे, लोभी पुरुष मातापिताने पण छेतरेछे, लोभी पुरुष साधु पुरुषनुं पण अपमान करेछे, मम्मण शैठ जेवा लोभी पुरुषो परभवमां पण सुख पामी शकता नहीं, आ दुनीयामां लोभी पुरुष थुं थुं कृत्य करी शकता नहीं. लोभी पुरुष धनने माटे अन्यनो घात करेछे तेनुं मरण इच्छेछे, जुओ लोभ बशे धवल शैठ श्री श्रीशाल राजाने मारवा माटे गया, पण खोदे ते पडे

(૧૩૦)

લોભસ્વરૂપ.

તેની પેટે પોતે મરણ પામ્યા અરે દુર્ગતિમાં ગયા. લોભથી સાગર શેઠ સમુદ્રમાં ઘૂડી મરણ પામ્યા. લોભથી પુત્ર. પોતાના પિતાનો રાજ્યને માટે ઘાત કરેછે, કરાવેછે, વાંછે, લોભી પુરુષની પાસે લાચો રૂપૈયા હોય તો પણ સુખે ડંઘી સકતા નથી, લોભી પુરુષ પાપકર્મથી જરા માત્ર પણ ડરતો નથી. સાધુઓને વસ્ત્ર પાત્ર શિષ્યાદિકનો લોભ હોય છે. જ્ઞાની પાસે તેમાંનું કંઈ નથી. જ્ઞાની વસ્ત્ર પાત્રાદિક રાખે છે છતાં તે ઉપર મોહ રાખતો નથી. જ્ઞાની મનમાં એમ વિચારે છે કે હું કંઈ વસ્તુનો લોભ કરું. જે વસ્તુનો લોભ થાય છે તે વસ્તુક્ષણીકણે અને મારી નથી, રાજ્ય ધન, કુટુંબ, પુત્ર, પુત્રીઓ, ઘર, હાટ, વસ્ત્ર, વિગેરે વસ્તુઓ આત્માની નથી અને આત્માની સાથે આવનાર પણ નથી. ફક્ત અજ્ઞાનતાએ જીવ પરવસ્તુને પોતાની માની તેના લોભમાં વિચિત્ર દુઃખો પામેછે. મરી ગયા બાદ સર્વ વસ્તુઓ જ્યાં હશે ત્યાંની ત્યાં રહેશે. માટે અરે જીવ જરાતો વિચાર!! પૃથ્વી, ઘર, હાટ, રાજ્ય, લક્ષ્મી મૂકી ઘણા મનુષ્યો ચાલ્યા ગયા તેમ તું પણ એક દિવસ સર્વ મૂકીને ચાલ્યો જવાનો, જે કાયામાં સારું સારું મિષ્ટાન્ન તું ભરેછે, જે કાયામાં તું વસ્યોછે, જે કાયાવડે તું હાલી ચાલી શકેછે, જે કાયાને તું નહવરાવે ધોવરાવેછે તે કાયા પણ અંતે તારી થવાની નથી. તો તું લોભ શા માટે કરેછે? ધુમાડાના બાચક ભરવા જેમ નકામાછે તે પરવસ્તુને પોતાની માની લોભ કરવો તે પણ ઘોટોછે. સ્વાહું જલ પીવાથી જેમ તૃપ્તિ વઝતી નથી તેમ લોભ કરવાથી શાન્તિ સુખ મળતાં નથી. માટે અમૃત સમાન સંતોષ ગુણનું હે જીવ તું સેવન કર કે જેથી શાન્તિ સુખ મળે.



परमात्मदर्शन संतोषमहिमा.

(१३१)

संतोष स्वरूप.

श्लोक=कथाकोष ग्रंथे.

यथा नृणां चक्रवर्ती, सुराणां पाक शासनः	
तथा गुणानां सर्वेषां, संतोषः परमोगुणः	१
संतोषयुक्तस्यः यते रसंतुष्टस्य चक्रिणः	
तुल्यासंमितो मन्ये प्रकर्षः सुख दुःखयोः	२
किमिन्द्रियाणां दमनैः किं कायपरपीडनैः	
ननु संतोष मात्रेण मुक्तिस्त्रीमुखमीक्षते	३
यत् संतोषवतां सौख्यं, तृणसंस्तारशायिनां ।	
कतत् संतोषबंध्यानां तुलिकाशायिनामपि	४

जेम मनुष्योमां चक्रवर्ती देवताओमां जेम इंद्र, तेम सर्व गुणोमां संतोष मोटांमां मोटा गुणछे. संतोष युक्त यतिना जेटळुं इंद्र चंद्र नागेंद्रने पण सुख होतुं नथी. इंद्रियोना दमन करवावडे करीशुं, कायाने पाडवावडे शुं ? संतोष मात्रवडे मुक्तिस्त्री मुखनुं निरीक्षण थायछे. तृणना संथारा उपर शयन करनार एवा संतोष वाळ्ळ मुनिवरोने जे सुखछे ते सुख संतोष बंध्य तुलिकामां शयन करनार नृप गृहस्थोने होतुं नथी. संतोषी नर सदा सुखी जाणवो. असंतोषि पुरुषने संतोषी एवा भिक्षुक जेटळुं पण सुख होतुं नथी. संतोषीने चिंता होती नथी. संतोष कल्पवृक्ष समानछे. संतोष अ-नहद आनंददायकछे. संतोषी पारकानो उपकार करवा समर्थछे. असंतोषी मरीने परभवमां पण सुख पामतो नथी. संतोषी मोटो धनवान् जाणवो. संतोषमां जे सुखछे ते सुख अन्यत्र नथी. आ-

(१३२)

निन्दानों त्याग करवों जोइए.

त्मज्ञान थया विना तात्त्विक संतोष थतो नथी माटे आत्मज्ञान करतां सर्व दोषो नाश पामशे. चक्रवर्ती सरखा मोटा राजाओ पण लक्ष्मीनो त्याग करी सुखी थया.

आत्मार्थी भव्योए पारकी निंदानो त्याग करवों, कारण के निंदक चंडालछे. निंदक मोटो पापीछे. नाम देइने निंदा करे तो अधम जाणवो. परमां भूल होय पण तेना पूंठे निंदा करवाथी कइ फायदो थतो नथी. पापमां शक्तिवाळा पुरुषोने निंदा करवानो स्वभावछे. गंगाजलमां स्नान करनार होय, अडसठ तीर्थनी यात्रा करे किंतु जो ते निंदक छे तो ते अपवित्र अने दुष्ट जाणवो, बहादूर पुरुषो निंदा करता नथी. निंदक कागडाना करतां पण भूंडोछे. अदेखाइथी निंदा उप्तन्न थायछे अने निंदाथी क्लेश उप्तन्न थायछे अने ते सामा पुरुषना जाणवामां आवे तो परस्पर वैर बंधायछे, निंदक आभवमां तथा परभवमां पण दुःख पामेछे, निंदा करवाथी मित्रनी मित्राइ पण तूटेछे.

जो तमे गुणी थवाने चाहताहो के मनुष्यनी धोळी बाजू तरफ दृष्टियो. पण काळी बाजू तरफ दृष्टियो नहीं, हालना वखतमां कोइ सर्व गुणी नथी, कोइ पुरुषनी कोइ निंदा करे तो तेने मनमां एम विचारवुं के भले ए निंदे. हुं जो सारो मनुष्य छुं तो तेनी निंदाथी मारे थुं ? निंदकना उपर मारे केम क्रोध करवो जोइए ? सामा मनुष्यनुं हित इच्छवुं होय तो तेना गुण गावा. कोइ निंदक निंदा करे तो उलटुं निंदकनामां जे गुण होय ते आपणे वखाणवो पण खराब लागणीथी सामु तेनुं बुरं करवा प्रयत्न करवो नहीं. कोइ आपणा उपर दुष्टता करे तो पण आपणे तेनी तरफ शुभ भावना राखवी, तेनु सारं करवा शुभ संकल्प करवो एम करवाथी सामो पुरुष अंते दुष्टतानो त्याग करशे आ नियमनो अनु-

भव करवाथी खातरी थसे.

आत्मज्ञानीओ कोइनी पण निंदा करता नथी तेओ तो आत्म स्खवपमां तल्लीन रहेछे. परना तरफ दृष्टि देता नथी अने कदापि उपकारने माटे परतरफ दृष्टिछे तो पण आत्महितथी अन्य प्रवृत्ति करता नथी.

कोइ विरला जगत्मां आत्म तत्त्वनी शोधमां स्वकाल निर्गमन करेछे, अने कोइ विरला परमात्मपदने पामेछे, सत्य तरफ प्रायः दुनीयां प्रवृत्ति करती नथी पण असत्य तरफ करेछे ते उपर एक दृष्टांत मुसलमानी धर्ममां प्रगट थयुं छे ते एवी रीते के कोइ एक महान् पादशाहना वखतमां एक फकीरे प्रश्न कयो के—हे पादशाह आ सब खलक बुरे रस्तेपर कयुं चल रही हे ? त्यारे एना उत्तरमां पादशाहे फकीरने विज्ञप्ति करी कहुं के—आपकुं मेरा मुकामपें दो वर्षतक रहेना चाहिए. जब आपका सवालका जवाब में देनेकुं शक्तिमान होउंगा—आ उपरथी फकीर बावा त्यां रह्या के तुरत पादशाहे पोताना राज्यमांना तमाम अमीर उमरावोने बोलावी हुकम आप्यो के—अमारा खजानाभांथी तमाम लक्ष्मी खर्ची एक महा मोटो बाग बनाववो जोइए ने ते बागमां तमाम सृष्टिनी सर्व वस्तुओ प्रगट करीदेवी. बाद तमाम जगत्मांनी सर्व प्रजाने ते बाग जोवा बोलाववी, ने तेमनो तमाम खर्च तेमनी जग्यापर पहाँचाड्या सुधी नो आपणे करवो जोइए. आवा प्रकारनो हुकम मळतां सर्व कचेरी मंडळे ताबडतोब आखी पृथ्वीमां रहेला तमाम कारीगरोंने बोलाव्या ने तेमना कहा प्रमाणे असंख्य जातनां साधनो पुरां पाडवा लाग्या. जे उपरथी बसे कोसनी वच्चमां जमीन पहाड समुद्र नाना प्रकारनां तमाम दुनीयामां रहेलां पशुपंखीओ तथा अदारभार

(१३४) आत्मानि शोभ माटे बादशाहे बनावेक बाग.

वनस्पति, मेवानां झाड, विचित्र प्रकारनां अमूल्य वस्तु रत्न स्वाहिर भातभातनां पक्वान्न, बागमां फरवाना मनोहर लताना मंडपोवाळा रस्ता, ठेकाणे ठेकाणे सुंदर वेड्याओ नाटक करे तेम गोठवण थइ, स्थळे स्थळे विचित्र प्रकारनां नाटकां. तेमज खेलाडुओनी गोठवण थइ, साकरियां पाणी, गुलाबजल लोकोना उपभोगने माटे तैयार कराव्यां. अनेक तरेहना जानवराना तमासानी रमतनी गोठवण थइ. बाग जोनाराने बेसवाने माटे अनेक खुरशीओ आदिनी सगवड थइ. बागमां सुंदर सरोवरो हवा खावाने माटे बंधाव्यां अने ते सरोवरनी आसपास चारे तरफ लीमडा बवराव्या. घटा करावी, ठेकाणे ठेकाणे पाणीना फुंवारा मूकी दीधा, विषेश थुं ? अपरंपार तेनी शोभा बाह्य जगतनी वस्तुओथी बनावी दीधी, अने राजवर्गे पादशाहने खबर आपी. पादशाहे जगत्मां एवी जाहेरात् खबर आपी के-मारा बसो कोशना बागना मध्यभागमां एक महेल में रचावेलो छे, ते महेलमां अमुक दिवसे बपोरना त्रण वागे हुं एक कलाक संताइ रहीश, तेवामां जे पुरुष मने शोधी कादशे तेने हुं मारी तमाम पादशाही आपी देइश. एवी रीतनी जाहेर खबर दुनीयामां फेलावी दीधी. ठरावेला दिवसे तमाम लोको बादशाही बाग जोवा आव्या. तमाम प्रजा बाग जोवा मशगुल थइ कोइ फुलनां झाडो जोवा लाग्या. कोइ बाघसिंहादि पशुओने जोवा लाग्या, केटलाक शोखीन तळावनी शोभा जोवा लाग्या अने ठंडो पवन खावा लाग्या, नाटक जोवाना रसीया नाटक जोवामां लीन थया. मेवाना रसीया मेवा खावा लाग्या. कोइ पुरुषे बीजा पुरुषने कहुं के-भाइ चालो आपणे बादशाहने शोधी काठीए, त्यारे सामा पुरुषे जवाब आप्यो के-तुं तो बेल्लो थयो छे, थुं राजा ते महेलमां संताय ? एने एतुं राज्य व्हाळुं के.

परमात्मदर्शन.

(१३५)

माटे आपणे तो वेक्ष्याओनो नाश जोवामां आनंद मानीशुं—कोइ व्याकरण शास्त्रना विद्वाने नैयायिकने कहुं—हे नैयायिक तुं बादशाह महेलमां संताणो छे ते बातने खरी बात माने छे के खोटी त्यारे नैयायिके कहुं के—बादशाह वाक्यं प्रमाणं वा अप्रमाणं वा, तस्य वाक्यं सत्यं वा असत्यं वा. एतत् कार्यस्य किं प्रयोजनं, इदंशं पूर्वं न भूतं, कदापि बादशाह गांडो थयो हशे, कदापि महेलमां तेने शोधवा जतां बादशाह मारी नांखे तथा बळी एक एवी शंका थाय छे के—बादशाह महेलमां छे तेषां शुं प्रमाण ? प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष विरुद्ध छे. अनुमान प्रमाणमां कोइ हेतु अव्यभिचारी सिद्ध यतो नथी, उपमान प्रमाण पण सादृश्यना अभावथी बाधितछे. आगम प्रमाणनी पण अत्र सिद्धि थती नथी, माटे अमो तो बादशाहने शोधवानुं बंध राखी आ प्रत्यक्ष देखाती वस्तुओ जोवामां आनंद मानीशुं, त्यारे व्याकरणशास्त्रवेत्ताए कहुं सत्यं सत्यं भवतां कथनं पादशाह वाक्यं प्रमाणीभूतं मया न ज्ञायते—कोइ सगां संबंधीनी बातो करवा लाग्या, बागनी मनोहरतानी एवी खुबी हती के पगले पगले विचित्र जोवानुं मळे, खावानुं मळे, केटलाक तो वृक्ष तळे सूइ गया, केटलाक एक बीजाने वस्तुओ ओळखाववा लाग्या, केटलाक रूपैया खर्ची टीकीटो करावी तमासा जोवा लाग्या, केटलाक एम विचारवा लाग्या के बादशाह बुद्धिमान् छे, तेनी ओछी माया नथी ते एवो संताणो हशे के आपणा हाथमां आववो मुश्केलछे, माटे आपणा करता होइए ते करो. केटलाक एम चिंतववा लाग्या के ज्यारे आ बागमां पण एवी भूलवणी चुकवणी छे के आपणे भूला पडीयेछीये तो बादशाहना महेलमां तो बहु भूलवणी चुकवणी हशे के जेथी शोधवाने बदले आपणे भूला पडीए तो अतोभृष्ट ततोभृष्ट थइए. केटलाक सुंदर परीओ देखी तेमां

(१३६)

बादशाहनी शोध.

मोह पाम्या. केटलाक रागरागणीना तानमां गुलतान थया. केटलाक व्यापार करवा लाग्या, केटलाक विषयनी वातो करवा लाग्या केटलाक एम चिंतववा लाग्या के आ वागमां सदा रहेवानुं थाय तो ठीक. एम सर्वजन बागनी मोहमायामां फसाया. कोइए बादशाहने शोधी कहाडवानो प्रयत्न कर्यो नहीं, एवामां एक डाहो पुरुष हतो तेणे विचार्युं के-खरेखर आ जगत्नी तमाम प्रजा गांडीने मूर्ख छे, केमके ते जोवामां मशगुल थइ पडी पण तेमनामां एटली समजण नथी के प्रथम बाग जोवाना करतां बादशाहने शोधी कहाडवो जोइए बादशाहने शोधी काढे तो आ सर्व बाग तथा बादशाही तेने मळे, माटे आपणे तो प्रथम बादशाहने शोधी काढवो जोइए एम निश्चय करी आ पुरुषे महेल तरफ प्रयाण कर्युं. कोइ वस्तु तरफ दृष्टि दीधी नहीं, अंते महेलमां गयो, बादशाहने शोधी काढ्यो, के तुरत बादशाहे एक हजार तोप फोडावी मान साथे पोतानी बादशाही तेने हवाले करीने तुरत पेला फकीर बावाने पादशाहे कथुं के-फकीर साहेब देखो. ऐंसी दुनीया दिवानीकी रीति है के सब खलक जूठा बाग देखनेमें मशगुल हुइ, लेकीन कीसीका ध्यान मेरी शोध तरफ नहीं आया. सारांश के एवी रीते आ दुनीयाना जीवो असत्य मोहमायाथी जगन्मां फसायाछे. मोहमायानो त्याग करी जिनाज्ञा सत्य मानी पोतानी कायारूपी महेलमां अनंत शक्तिमान् अनंत सुखभोक्ता एवा आत्मरूपी बादशाह रहेलोछे तेने शोधवा ध्यान लगाडे तो जीव पोते परमात्मा बनी त्रण जगतनो स्वामी थाय. संसाररूप बागमां सर्व जगत् मोहमायाथी फसायुंछे, कोइ विरला प्राणी आत्मज्ञानने माटे सदगुरुनुं संसेवन करेछे, जेम झांझवाना पाणीथी तृषा शान्त थती नथी तेम संसारनी मोहमायाथी आत्माने शान्ति मळती नथी, संसारनी सर्व खटपटने त्यागी आत्मस्वरूप प्राप्त करवुं. एज

परमात्मदर्शन.

(१३७)

सारमां सारछे. पुनः पुनः मनुष्यभव मळवानो नथी, गयो वखत पाछो आवनार नथी सद्गुरुनां वचन हृदयमां ठस्यां नथी एम लागेछे, जो ठस्यां होत तो संसारना पदार्थोमां मन जाय तही, हे चेतन तुं क्षणमां सारां सारां भोजन जमकानी इच्छा करेछे पुनः स्त्रीविषयाभिलाषे तुं वहेछे पण समजतो नथी के-स्त्रीनां उपर मोह पामवानुं थुं कारण ? स्त्रीनुं शरीर सात धातुथी भरेलुंछे, स्त्रीनी कायामांथी मळमूत्र लींट वहा करेछे, एना शरीरमां जरा पण पवित्रता देखाती नथी. परसेवो, मेल, मस्तकना कशमां जू विगोरे प्रत्यक्ष देखायछे माटे हवे तुं वैराग्य लावी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर.

ब्रह्मचर्य स्वरूप

श्लोकः

वन्हिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात्
 मेरुःस्वल्प शिलायते मृगरिपुः सद्यः कुरंगायते;
 व्यालो माल्य गुणायते विपरसः पीयूष वर्षायते,
 यस्यांगेऽखिल लोक वल्लभतमं शीलं समुन्मीलति १
 ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो,
 ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः,
 अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभावितुः धर्मस्य निर्व्याजता,
 सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं. २

तथा गाथा

शीलं कुल आहरणं, शीलं रूवं च उत्तमं जयइ;
 शीलं चिय पंडिच्चं, शीलं चिय निरूवमं धम्मं. १

(१३८)

ब्रह्मचर्यं स्वरूपं महिमा.

तथाच श्री हेमस्वरिपादः।

प्राणभूतं चरित्रस्य, परब्रह्मैककारणं;

समाचरन् ब्रह्मचर्यं, पूजितैरपि पूज्यते. २

तथा च दशमांगे श्री प्रश्न व्याकरणे यस्य ब्रह्मचर्यस्य नामानि गुणाश्चैवमुच्यन्ते तथाहि जंबू एतोय बंभवेरं उत्तम तव नियम जाण दंसण चरित्त सम्मत्त विणयमूलं गुणप्पहाणजुत्तं हिमवंत महंत तेव मत्त पसध्यं गंभीरं धिमितमज्जं अज्जव साहुजणा चरितं मोख मग्गं विसुद्धं सिद्धिगति निलयं सासत मव्वाबाहं अपुण भवं पसध्यं सोमं शुभं सिव मयल मख्खर करं जति वरसा रत्तिखयं सुसाहस्सहियं नवरि सुणिवरेहिं महा पुरिस धीर सूर धम्मिय धितिमंताणय सया सुविमुद्धं भव्वं भव्वजण समुच्चिणं निसंक्रियं निभभयं निचुसं मिरायासं निरुवलेवं निव्वुइ घर नियम निप्पकंपं तव संजम मूल दलियणेमां पंचमहव्वय सुरत्तिखयं समिति गुत्ति जाणवरं कवाड सुकय-रत्तवण दिण्ण फलिह सण्णद्धोधियिअ दुग्गतिपहं सुगतिपह देसग्गं च लोगुत्तमं च वयमिणं पउमसर तलाग पालिभूयं महा सगडअर तुंब भूअं महाविडिम रुत्तव खंधभूतं महानगर पागार कवाड फलिह भूअं रज्जपिणद्धोव इंदकेउं विसुद्धणेग गुणसंपिणद्धं, जम्मिअ भग्गम्मि होइ सहसा सव्वसंभग्गसद्धिय महिय चुण्णिय कुशल्लि तप-ल्लट्ट पडिअ खंडिय परिसडिय विणासियअं विणयसील तव नियम गुण समूहं तं बंभं भगवंतं गहगण णरत्तवत्त तारगाणं वाजहाउलुपत्ति मणिमुत्त सिलप्पवाल रत्त रयणागराणं व जहा समुद्धो वेरुलि उव्वेव जह मणीणं जह मउडो चेव भूसणाणं वथ्याणं चेवत्तवोम जुअलं अरविंद चेव पुप्फ जेट्ठं गोसीसंवेव चंदणाणं हिमवंता चेव ओस-हीणं सीतो आचेव निम्मग्गाणं उदहीसु जहासयंभूरमणो रुअगवरो चेव मंडल्लि अपच्चयाण पवरे ऐरावणो इव कुंजराणं सीहोव्वं ज-

परमात्मदर्शन.

(१३९)

शामिगाणं पवरो पद्मगाणं चैव वेणुदेवे धरणे जणपण इंदसाया
 कप्पाणं चैव बंभलोए सभासु अजह भवे सुहम्मो ठितीसु लवसत्त
 मगासच्चपवरा दाणाणं चैव अभयदाणं किमिराओ चैव कंबला-
 णं संघयणे चैव वज्जरिसभे संठाणे चैव चउरंसेझाणेसुअ परमसु-
 कझ्जाणं णाणेसुअ परम केवलं सिट्ठं लेसासुअ परमसुक्खलेसा
 तिथ्यकरो जहचेव मुणीणं वासेसु जहा महाविदेहे गिरिरायाचैव
 मंदरवरे वणेसु जहा नंदणवणं परंच दुमेसु जह जंबू सुदंसणा वी-
 सुजसा जीसे नामेण अयं दीवो तुरगावती रहवती नरवती जहवीसु
 ते चैव राया रहिए चैव महारह मते एवं अणेग गुणा अहीणा भ-
 वंति एकम्मि बंभचेरे जम्मिअ आराहि अं वयमिणं सच्चं सीलं तवो
 ओय विणओय संजमोय खंती मुत्ति तहेव इह लोइअ पारलोइय
 जसोकित्थिय पव्वओय तम्हा निहुएण बंभचेरं चरिअच्चं सच्चओ
 विसुद्धं जावजीवाए. इत्यादि महिमा ब्रह्मचर्यं व्रतनो कळो छे.

“ दुहा. ”

आत्म सुखनीःचाहतो, विषयेच्छा परिहार;
 विषयेच्छा मनमां घणी,तो शुं ? आत्म विचार. १
 आत्म स्वरूपे ध्यानतो, विषयेच्छानो नाश.
 प्रतिपक्षी बे धर्मनो, नहीं एकत्र निवास. २
 बे साथे वर्ते नहीं, वर्ते त्यां छे दंभ;
 भोगज कर्माधीनथी, त्यां शुं होय अचंभ. ३
 दुर्गंधीनी कोथळी, मळमूत्रे भरी देह;
 कान्ता काया एहवी,अपवित्रतानुं गेह. ४
 रंग रूप खोटा सहु, श्रवे अशुची नित्य;

(१४०)

आत्ममां रमणता कर.

मोह करे शुं जीवडा, समज समज तुं चित्त. ५
 भोग रोग सममानतो, स्वप्ने पण नहीं आश;
 अनित्य आ संसारमां, क्यांथी तेनो वास. ६
 दुर्लभ आत्मस्वरूपनी, वातो करवी सहेल;
 किंतु आत्म स्वरूपनी, प्राप्तिछे मुस्कल. ७

निंदा, आलस्य, असत्यादि दूषणो निवारि निःसंगी थइ आ-
 त्म तत्त्वनी खोज करनार आत्मतत्त्व पामी शकेछे. आत्मतत्त्वनी
 वातो करवी सहेलछे पण आत्म तत्त्वनी प्राप्ति थवी मुस्कलछे. कोइ
 विरला प्राणी आत्मा उपर रुचि करेछे.

आ चेतन अज्ञानयोगे भ्रमित थइ कदापि चळित थइ जाय
 छे. एवं आत्म स्वरूप भूली गयो तेथी परवस्तुमां मोह पाम्यो,
 अशुद्ध परिणत्तिथी औदारिका, वैक्रिय आहारक, तेजस, कर्मणादि
 शरीरो धारण करी तेना योगे ताडन तर्जन छेदन भेदनादिक दुःखो
 लक्षां, हवे जो तने सुखनी आशा थइ होय तो हे आत्मन् चेत चेत
 समय चाल्या जायछे मनना मनोरथ मनमां रहेशे, सद्गुरु संगे रही
 आत्म स्वरूप समज अने तेना ध्यानमां रहेतां आश्रवतुं दूरी करण
 थशे. अने अंतर तत्त्वोपयोगे संवरनी प्राप्ति थशे तारुं स्वरूप तुं देखे
 एदछे तारो मोक्ष थशे.

श्री देवचंद्रजी पण कहेछे के-

“ दुहा. ”

तत्त्वते आत्म स्वरूपछे, शुद्ध धर्म पण तेह;
 परभावानुग चेतना, कर्म गेहछे एह. १
 तजीपर परिणति रमणता, भज निज भाव विशुद्ध;

- आत्म भावथी एकता, परमानंद प्रसिद्ध. २
 स्याद्वाद गुण परिणमन, रमता समता संग;
 साधे सुद्धानंदता, निर्विकल्प रसरंग. ३
 मोक्ष साधनतणुं मूल. जे, सम्यग्दर्शन ज्ञान;
 वस्तु धर्म अवबोध विणुं, तुस खंडण समान. ४
 आत्मबोध विणुं जे क्रिया, तेतो बालक चाल;
 तत्त्वार्थनी वृत्तिमं, लेजो वचन सभाल. ५

इत्यादिथी पण आत्मज्ञाननी खास जरूरेछे, आ जगत्मां राग द्वेषव्यापी गयोछे ने आत्माना अज्ञानने लीबे जाणवो. आ शरीरमां रहेला आत्माना सरखा अन्य शरीरोमां पण रहेला आत्माओछे छम जो जाणवामां श्रद्धा पूर्वक आवे तो कोइ दुःख कोइ जीवने आपे नहीं, अने कोइ जीवना उपर कोइ जीव वैर राखे नहीं. आत्मज्ञानी सर्व जीवने सिद्धसमान गणे तो पछी कया जीवनी साये ते विरोध करे ? अलबत कोइ जीवनी साये ते विरोध करे नहीं, ए वातनो अनुभव करवार्थी मालम पडशे, आत्मिक शुद्धानंद पण त्यारे अनुभवमां आवशे. राग द्वेषथी जेनु मलीन छे तेने सुख मळ्ळंतु ननी. जगत्मां तात्त्विक सुखना भाक्ता आत्मज्ञानी मुनिवरोछे. तेमने छी नथी. पण समता रूपछी भावथी जाणवी. राजाओ शेठीयाओ, वकीलो, दाकतरो, ज्यारे ताप आदिना निवारण माटे छत्री धारण करेछे तो तेना बदले आत्मज्ञानी मुनिवरो क्षमारूप छत्रीने धारण करेछे. क्षमारूप छत्रीथी क्रोधरूप ताप लागतो नथी, अने अदेखाइरूप उष्ण प्रवन तो जरा मात्र लागतो नथी. वळी मोहरूप मेघनी वृष्टिथी पडेळुं तृष्णारूप पाणी तेने क्षमा छत्रीथी शीळी श-

(૧૫૨) આત્મજ્ઞાની રાજાથી પણ અધિક સુખી છે.

કાય છે, અન્ય રાજાઓ પાદશાહો જ્યારે એક દેશ કે દેશના માલિક હોય છે ત્યારે મુનિરાજ તેના કરતાં પણ અધિક પોતાના આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશના માલિક હોય છે. જ્યારે અન્ય રાજાઓ ઘણી લક્ષ્મી ભેગી કરે છે. ત્યારે મુનિરાજ આત્માની જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષ્મી ભેગી કરે છે. તફાવત એટલો કે રાજાની લક્ષ્મી સ્વોટી, ક્ષણિક છે અને મુનિની લક્ષ્મી સત્ય અને અચલ અસ્વૂટ છે, રાજા પાદશાહને મનવચન કાયાએ કરી સંતોષ રહેતો નથી. ત્યારે મુનિને મનવચન કાયાએ કરી સંતોષ રહે છે. રાજા જ્યારે નૃપાદિક શત્રુઓની સાથે યુદ્ધ કરે છે, ત્યારે મુનીશ્વર રાગદ્વેષરૂપ શત્રુઓની સાથે યુદ્ધ કરે છે, રાજાઓ જ્યારે બાગમાં ક્રીડા કરે છે ત્યારે મુનીશ્વરો ધર્મધ્યાનરૂપ બાગમાં ક્રીડા કરે છે—ધર્મધ્યાનરૂપ બાગ કેવો છે તે કહે છે—ધર્મધ્યાનરૂપ બાગની ચારે તરફ ઉદાસીનતારૂપ વાડ કરેલી છે. જ્ઞાનરૂપ કૂપધર્મ ધ્યાનરૂપ બાગમાં શોભી રહેલો છે. સંવેગાદિક વનસ્પતિ ત્યાં સ્ત્રી રહી છે. ત્યાં મુનિરાજ સ્થિર ચિત્તરૂપ આસન ઉપર બેસી વિચરે છે. તે બાગની શોભા અનહદ છે. તેની સુગંધીથી અનેક જાતના રોગો નાશ પામે છે. એ બાગની અંદર ક્ષુદ્ર પ્રાણીઓ પ્રવેશ કરી શકતાં નથી. જેની યોગ્યતા હોય તે ત્યાં જઈ શકે છે. જગતની મોહ માયામાં ફસાણા પ્રાણીઓને તે બાગનું સુખ થતું નથી, વઢી એ બાગમાં એક ચારિત્રરૂપ મહેલ શોભી રહ્યો છે. તેની અંદર જન્મ જરા મરણનાં દુઃસ્વ નાશક અનેક ઔષધો રહ્યાં છે તેના મુનીશ્વર ઉપયોગ કરી શકે છે. અને તે ઔષધોનું ભક્ષણ કરી અજરામરપદ પામે છે. વઢી તે બાગમાં રહેલા જ્ઞાનકૂપમાંથી મુનિશ્વર જલપાન કરે છે. જ્યાં પરોપાધિરૂપ તાપતો આવી શકતો નથી. વઢી તે બાગની અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ જમીન સ્વચ્છ નિર્મલ છે. મુનીશ્વરની સાથે શુદ્ધ ચેતના રહે છે. વઢી તે મુનીશ્વર આત્મા અને પરમાત્માની ઐક્યતારૂપ ભાંગને કાયારૂપ સ્વ-

परमात्मदर्शन.

(१५३)

हमारा धूँटी मनरूप प्यालाथी पीवेछे. तेथी शुद्ध चेतनारूप नीशो मुनीश्वर महाराजने एवो चढे छे के ते बखते अगम निगम दर्शाय छे. अने ते समये शरीर अने शरीरीनु पण भान रहेतुं नथी अने ते बखते अनहद आनंद थायछे. आवा मुनिराजने सुख थायछे ते अनंत छे. श्री यशोविजयजी उपाध्याय अध्यात्मसारमां कहेछे के—

श्लोक.

कान्ताधर सधा स्वादात्, यूनां यज्जायते सुखं ।

बिंदुः पार्श्वे तदध्यात्म शास्त्रस्वादसुखोदधेः १

अध्यात्मशास्त्र संभूत-संतोष सुख शालिनः

गणयन्ति न राजानं नश्रीदंनपि वासवम्. २

भावार्थ—स्त्रीना अधर रूप अमृतना स्वादथी युवान पुरुषोने जे सुख थायछे तेतो भ्रमणा मात्र छे, तात्त्विक सुख नथी, ते सुख तो अध्यात्म शास्त्रना स्वादथी उत्पन्न थयेलुं दरिया समान सुख तेनी आगळ बिंदु समान छे. अध्यात्म शास्त्रथी उत्पन्न थयेलुं संतोष रूप सुखना भोक्ता जे प्राणी छे ते प्राणी राजाने तथा धनदने तथा इंद्र सरखाने पण लेखामां गणता नथी.

श्लोक.

रसो भोगावधिः कामे, सद्विषये भोजनावधिः

अध्यात्म शास्त्र सेवाया रसो निरवधि पुनः १

कामने विषे भोगवतां सुधी रसछे, मिष्ट भोजनने विषे जमवाना बखत पर्यंत मधुरपणुंछे. पण अध्यात्म शास्त्रनी सेवानो जे रस ते तो निरवधि छे. कारण के अध्यात्मशास्त्रनो रस प्रारंभ कालथी मांडीने प्रतिदिन वृद्धि पामेछे. ते रस कोइ बखत बदलातो

૧૪૪)

સરલત્મ:

નથી, જ્યારે આત્માનંદી મુનિરાજને અત્યંત સુખ થામછે ત્યારે સિદ્ધ ભગવંતોને અનંત સુખ છે તેમાં શું કહેવું ? અનુભવથી સુખની પ્રતીતિ થાયછે. વઢી મુનીશ્વર ઉપર કહેલા એવા વાગમાં સદાકાલ વાસ કરેછે, તેમને કોઈ જાતની સ્પૃહા નથી આવા મુનીંદ્રના વાગની તોછે રાજા વા શાહુકારોના વાગ આવી શકતા નથી. રાજાને તો મનુષ્ય સેવેછે કિંતુ મુનીશ્વરને સુર અસુર ઇંદ્રાદિક પણ સેવેછે. રાજાને પરશત્રુ થકી ભય રહેછે. કિંતુ મુનીશ્વરને જય હતો નથી. રાજાની પાસે અનેક સુખડો હોયછે ત્યારે મુનીશ્વર રૂપી રાજાની પાસે ક્ષમા, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રાદિ અનેક સુખડો હાયછે. રાજાની લક્ષ્મી જન્માંતરમાં સાથે આવતી નથી. પણ મુનીંદ્રની લક્ષ્મી તો પરભવમાં સાથે આવેછે અને મોક્ષમાં પણ સાથે રહેછે, રાજા પોતાના દેશમાં પૂજાયછે, અને મુનીંદ્ર તો જ્યાં વિચરે ત્યાં પૂજાયછે. રાજા વૈભવ છતાં દુઃખી થાયછે, અને આત્મજ્ઞાની મુનીશ્વર તો વૈભવ વિના પણ અંતર વૈભવથી સુખી રહેછે, રાજાને પોતાના રાજ્યથી સંતોષ રહેતો નથી. અને મુનીંદ્રને તો સદા સંતોષ છે. રાજાને આ ભવમાં તથા પરભવમાં ક્લેશ સહન કરવો પડેછે, અને મુનીશ્વરને આ ભવ તથા પરભવમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાયછે, રાજા સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરેછે. ત્યારે મુનીશ્વર પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરેછે, રાજા હાથી ઉપર બેસી બચતરથી શોભા પામતો તીક્ષ્ણ ખાલાને ધારણ કરેછે ત્યારે મુનીશ્વર સંવેગ રૂપ હાથી ઉપર બેઠા થકા બ્રહ્મચર્યરૂપ બચતરથી શોભા પામતા ધ્યાનરૂપ તીક્ષ્ણ ખાલાથી રાગદ્વેષ રૂપ શત્રુનો શિરચ્છેદ કરેછે, મુનીશ્વરને તો કોઈ શત્રુ નથી. કિંતુ વ્યવહારથી શત્રુની કલ્પના જાણવી. પોતે પોતાના આત્મ સ્વભાવમાં રમેછે ઇટલે સ્વતઃ રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાયછે, રાજાને જરાપણ શાંતિ મળતી નથી, અને મુનીશ્વર તો સદા શાન્તિમાં રહેછે. રાજા જ્યારે વાહ્યવસ્તુ ઉપર મમતા

परमात्मदर्शन.

(१४५)

राखेछे त्यारे मुनीश्वर अंतर्धन उपर ममता राखेछे. क्यां मेरु अने क्यां सरसवनो दाणो, क्यां सागर अने क्यां तळाव, क्यां रात्रि अने क्यां दिवस एटलो तफावत आत्मज्ञानी मुनीश्वर अने राजा बच्चे जाणवो. दुनियामां आत्मज्ञानी मुनिसदृश अन्य कोइ सुखी नथी, शेठ, बक्रील, बारीष्टरादि लोको तत्त्वथी विचारतां सत्य सुख भोगवता नथी. सत्य सुखनी प्राप्ति तो आत्मज्ञानीने थायछे. अंतर्दृष्टिना अभावे बाह्यदृष्टिजीवो सत्य सुखनो अनुभव करी शकता नथी. आत्मज्ञानी मुनि सदा निर्भय रहेछे, अहो ते जीवता जीवन्मुक्तनी दशाने अनुभवेछे. आत्मज्ञान विना खंडनमंडननी विद्वताथी आत्महित थतुं नथी. दुनीया ज्यारे परपरिणतिमां म्हालेछे त्यारे मुनीश्वर स्वपरिणतिमां म्हालेछे.

आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति

आ वाक्यनो अनुभव पण आत्मज्ञानी मुनीश्वर करी शकेछे. शुष्कज्ञानी जीवो वाक्पटुताथी आत्मज्ञानीनो डोळ भले बतावो पण तेना अनुभवथी थतुं सुख ते पामी शकता नथी. आत्माना केवल ज्ञानादिगुणोनी प्राप्ति आत्मार्थिने थायछे.

संसारी जीवने ज्ञान दर्शन चारित्रादिक ऋद्धि सर्व तिरोभावे छे. ते तिरोभाव ऋद्धिनो आविर्भाव थाय, तेज आत्मानुं परमात्म पद जाणवुं. ते परमात्मनो हुं दास एटले उपासकहुं ते परमात्मपद जेजे ओळखुं अने परमात्मपदमां जेनुं एकाग्र चित्तथी ध्यान वर्तेछे. तेने साधुपद ग्रंथुं एम जाणवुं. अने शुद्धज्ञान पण ते पाम्यो एम जाणवुं. नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ए चार निक्षेपे साधु जाणवा.

कोइनुं साधु एवं नाम ते नाम साधु, स्थापना करीए ते स्थापना साधु तथा जे पंचमहाव्रत पाळे क्रियानुष्ठान करे शुद्ध आहार ग्रहण करे पण ज्ञान ध्याननो जेवो उपयोग जोइए तेवो उपयोग न

(૧૪૬)

જ્ઞાનસ્વરૂપ.

હોય તે દ્રવ્ય સાધુ જાણવા. જે ભાવ સંવરણે મોક્ષનો સાધક થઈ ભાવ સાધુની કરણી કરે તે ભાવ નિક્ષેપે સાધુ જાણવા.

કોઈ જીવનો જ્ઞાન એવો નામ તે નામજ્ઞાન તથા જે પુસ્તકમાં અક્ષરરૂપે લખ્યું છે તે સ્થાપના જ્ઞાન, અને ઉપયોગ વિના સિદ્ધાન્તનો ધનવો અથવા અન્યમતિનાં સર્વ શાસ્ત્ર ધનવાં તથા શરીરાદિક તે સર્વ દ્રવ્યજ્ઞાન. અને નવતત્ત્વનો નવ નિક્ષેપાઈ જાણવાં અને આત્મતત્ત્વ આદરવું તે ભાવજ્ઞાન જાણવું. ૧ આગમસારમાં કહ્યું છે. શુદ્ધ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પંચમકાલમાં કોઈક મહા પુરુષને થાય છે. જ્ઞાનના પંચ પ્રકાર છે. ૧ મતિજ્ઞાન, ૨ શ્રુતજ્ઞાન, ૩ અવધિજ્ઞાન, ૪ મન:પર્યવજ્ઞાન. દેવદિદ્ધિ વાચક કહે છે કે-પાઠ. સે કિંતં મદનાણં દુવિહં મદનાણં પન્નત્તં તંજહા સુયનિસ્સિયં ચ અસુયનિસ્સિયં ચ સેકિંતં અસુયનિસ્સિયં અસુયનિસ્સિયં ચઝવિહ પન્નત્તં તંજહા ઉપ્પત્તિયા વેણડયા કમિયા પરિણામિયા બુદ્ધિ ચઝવિહા પન્નત્તા.

ભાવાર્થ-મતિજ્ઞાન બે પ્રકારે છે. શ્રુતનિશ્રિત મતિજ્ઞાન, બીજું અશ્રુતનિશ્રિત મતિજ્ઞાન. પ્રાયશઃ શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસ વિના સહજ ક્ષયોપશમવશે જે ઉત્પન્ન થાય તેને અશ્રુતનિશ્રિત કહે છે તે ચાર પ્રકારનું છે. ઉત્પાદિકી બુદ્ધિ, વૈનયિકી બુદ્ધિ, પારિણામિકી બુદ્ધિ તથા કર્મજા બુદ્ધિ.

પોતાની મેલે ઉત્પન્ન થાય તે ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ અને ગુરૂનો વિનય શુશ્રૂષા સેવા કરતાં આવે તે વૈનયિકી બુદ્ધિ, કર્મ કરતાં ઉપજે જે તે કાર્મિકી બુદ્ધિ અને પરિણામતે દીર્ઘકાલનું પૂર્વાપર અર્થનું અવલોકન કરતાં ઉપજે તે પારિણામિકી બુદ્ધિ.

પૂર્વશ્રુત પરિકર્મિત મતિના ઉત્પાદકાલને વિષે શાસ્ત્રાર્થ પર્યાલોચન કરતાં જે ઉત્પન્ન થાય તેને શ્રુતનિશ્રિત મતિજ્ઞાન કહે છે. તેના

परमात्मदर्शन,

(१४०)

चार प्रकारछे. अवग्रह, इहा, अपाय अने धारणा तेमां अवग्रह बे भेदेछे. व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह. किमिदं एटले आ थुंछे ? एवो (अव्यक्त) अपंगट ज्ञानरूप अर्थावग्रह थायछे. तेनी पूर्वे अत्यंत अव्यक्ततर (अति छानुं जे ज्ञान) होयछे तेने व्यंजनावग्रह कहेछे. वंजणवग्रहचउहा=एटले व्यंजनावग्रह चार प्रकारछे. ते नीवे भुजब-मणनयण विणिंदिय चउक्का=मन तथा नयन ए बे विना बाकीनी चार ४ इंद्रियोने आश्रयी चार भेदेछे. श्री नंदीसूत्र पाठ. से किंतं वंजणुगहे चउव्विहे पन्नत्ते तंजहा, सोइंदिय वंजणुगहे घाणिंदिय वंजणुगहे, रसेइय वंजणुगहे, फासिंदिय वंजणुगहे=श्रोत, घ्राण, जिह्वा, स्पर्शेन्द्रिय व्यंजनावग्रह जाणवो. मन तथा नयन ए बे इंद्रियो अप्राप्यकारीछे. चक्षुरिन्द्रिय छे ते विषयदेश प्रति जाइने देखती नथी, तेम प्राप्त अर्थनुं अवलंबन करती नथी, तेम मननुं पण जाणवुं.

आ कंडपणछे ? एवुं अनिर्धारित सामान्यरूप अव्यक्तपणे अर्थनुं जे ग्रहण तेने अर्थावग्रह कहेछे, ते पांच इंद्रियो अने मने करी छ प्रकारनोछे. श्रोतेन्द्रियार्थावग्रह, चक्षुरिन्द्रियार्थावग्रह, घ्राणेन्द्रियार्थावग्रह, रसेन्द्रियार्थावग्रह, स्पर्शेन्द्रियार्थावग्रह तथा मानसार्थावग्रह. अवग्रहगृहीत वस्तुने विषे जे धर्मनी गवेषणा करवी एटले आ स्थाणुछे ? अथवा पुरुषछे ? तेमां पण हाल संध्याकालछे अने महा अरण्यछे, वळी सूर्य पण आथम्योछे, माटे पुरुष नथी. इत्यादि व्यतिरेक धर्मनुं निराकरण करवुं. अने एने पक्षीओ भजेछे, वच्च-मांथी वांकुछे, अने कोटर सहितछे. इत्यादिक अन्वय धर्मनो अंगीकार करवो, एवुं जे ज्ञान विशेष तेने इहा कहेछे. ए पण पांच इंद्रियो अने मने करी छ प्रकारेछे. तथा इहित वस्तुने विषे आ विश्वये करी स्थाणुजछे, एवो एक कोटिना निश्चयरूप जे बोध तेने

(१४८)

मतिज्ञानस्वरूप.

अपाय कहेछे. स्थाणुरेवायं इत्यात्मकरूपो अपायः तथा निश्चित वस्तुने विषे अविच्युतिपणे अथवा स्मृतिपणे अथवा वासनापणे जे धारण करवुं तेने धारणा कहे छे. ते पण पंचइंद्रियो अने मने करी छ प्रकारे छे. एम छने चारे गुणतां चोवीस भेद अने व्यंजनाग्रहना चार मेळवतां २८ अष्टावीस भेद मतिज्ञानना जाणवा एमां चार भेद अश्रुत निश्चितना मेळवतां बत्रीस भेद थाय छे. तथा जाति स्मरण पण अतीत कालना संज्ञी पंचेंद्रियना संख्याता भव देखे. मतिज्ञाननोज ते भेद जाणवो. श्री आचारांग सूत्रनी टीकामां जातिस्मरण ज्ञानने धारणानो भेद कह्यो छे—यतः जातिस्मरणं त्वाभिनिबोधिक ज्ञान विशेषमिति. कोइ एक सभामां घणा पुरूषो बेठाछे ते वखते शंख, तथा भेरी, रणशिंशुं, आदि वार्जीत्र वागवा लाग्यांश्रोताजनोए सर्व वार्जित्रनो शब्द समकाले सांभळया छतां सर्वनी क्षयोपशमनी विचित्रताथी अधिक न्यूनादिक सांभळवामां आवेछे जेमके कोइने ते शंख भेरी आदि वार्जीत्रनो शब्द भिन्न भिन्न सांभळवामां आवेछे तेना जाणवामां एम आवे के असुक भेरीओ आटला शंख वागेछे एम जणाय तेने बहु कहेछे. १ कोइने मात्र वार्जीत्र वागेछे एम जणाय तेने अबहु जाणवो. २ तथा ते शब्दमां पण कोइकने मधुर मंदत्वादि बहुपर्यायोपेते जे शंखादिक ध्वनि पृथक् पृथक् घणा प्रकारे सांभळवामां आवेछे तेने बहुविध कहीए. ३ कोइने एक बे पर्यायोपेत ते ध्वनि सांभळवामां आवेछे ते अबहुविध जाणवो. ४ कोइकने तुरत ते नाद सांभळवामां आवे छे ते क्षिप्र जाणवो. ५ कोइक विचारी विचारी घणी वार पाछळथी जाणे ते अक्षिप्र जाणवो. ६ ध्वजारूप लिंगेकरी जेम देवकुळ ओळखायछे तेम लिंग सहित जाणे तेने निश्चित कहेछे. ७

परमात्मदर्शन.

(१४९)

कोइ उक्त प्रकारे लिंगरहीत जाणे तेने अनिश्रित कहेछे. ८

कोइने शंसयरहीत संभळायछे तेने असंदिग्ध कहेछे. ९

कोइने शंसयसहीत संभळायछे तेने संदिग्ध कहेछे. १०

कोइके एक वेळा सांभळी ग्रहण करी लीधेळुं ते सदा सर्वदा स्मरण रहे पण वीसरे नही तेने ध्रुव कहेछे ११. अने कोइक एकवार ग्रहण करेळुं सर्वदा स्मरणमां रहे नहीं तेने अधुव कहेछे. १२. एवी रीते बार भेदे ज्ञान थायछे तेने पूर्वोक्त अष्टावीश भेदोथी गुणतां ऋणसेने छत्रीश भेद मतिज्ञानना थाय. तथा तेमां अश्रुत निश्रितना चार भेद मेळवीए तो ऋणसेने चाळीस भेद मतिज्ञानना थायछे. अर्थावग्रह एक समय प्रमाणछे. इहा अने अपाय अंतर्मुहूर्त्त प्रमाणछे. धारणा संख्यात असंख्याता काल सुधीछे अथवा द्रव्यक्षेत्र कालभावथी मतिज्ञान चार प्रकारनुंछे.

मतिज्ञानी आदेशथी सर्व द्रव्य जाणे पण देखे नही.

क्षेत्रथकी सर्व क्षेत्र लोकालोक जाणे पण देखे नही.

कालथकी आदेशे सर्व काल जाणे पण देखे नही.

भावथकी आदेशे सर्व भाव जाणे पण देखे नही.

श्रुतज्ञान स्वरूप

श्रुतज्ञान चौद तथा वीश प्रकारनुंछे चौद भेद कहेछे—

गाथा.

अखत्तर सत्री सम्मं, साईयं खलु सपज्जवसियं च ।

गमियं अंग पविठं, सत्तविए ए सपडिवख्खा १

(१५०)

श्रुतज्ञानस्वरूप.

भावार्थ—अक्षरश्रुत, अनक्षरश्रुत, संज्ञीश्रुत, असंज्ञीश्रुत, सम्यक्श्रुत, असम्यग्श्रुत, आदिश्रुत, अनादिश्रुत, पर्यवसितश्रुत, अपर्यवसितश्रुत, गमिकश्रुत, अगमिकश्रुत, अंगप्राप्तिश्रुत, तथा अंगबाह्यश्रुत, ए चोद भेद जाणवा.

१ अक्षरश्रुत—अक्षरश्रुतना त्रण भेदछे संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर तथा लब्ध्यक्षर. तेमां प्रथम संज्ञाक्षर—अटार प्रकारनी लीपी, तथाहि—हंसलिवी, भूयलिवी जरखातह रखवसीय बोधवा । उड्डी जवणी तुरुक्की कीरी दवडीय सिंधविषा १ माल विणी नडिनागरि लाडिलिवी पारसीय बोधव्वा । तह अनभित्तियलिवी चाणक्की मूलदेवीय. २ बीजो व्यंजनाक्षर प्रकार ते अकारथी हकारपर्यंत बावनअक्षर मुखे उच्चारवारूप जाणवो ए बन्ने प्रकार यद्यपि अज्ञानात्मकछे तथापि श्रुतना कारण होवार्थी उपचारे करी ए बे प्रकारने श्रुतज्ञाननी संज्ञा आपीछे.

३ शब्द श्रवण तथा रूप दर्शनादिक थकी अर्थ परिज्ञान गर्भित जे अक्षरनी उपलब्धि रूप लब्ध्यक्षर श्रुत जाणवुं, करपल्लवी आदिके जेथी अक्षर संख्यानुं ज्ञान थायछे तेनो समावेश लब्धि अक्षर श्रुतज्ञानमां जाणवो.

२ अनक्षरश्रुत—शिरकंपन, हस्तचालन प्रमुख तथा समस्याए करी गमनागमनादिक मनना अभिप्रायनुं जे परिज्ञान तेने जाणवुं. यथा कोइ मनुष्य कोइ मनुष्यने पूछा करे के भाइ बाहेर जावुं छे के ? तेनो प्रत्युत्तर मुखथी नहीं देतां मस्तक हलावीने अथवा हाथवती ज्ञान करीने पोतानी नापरजी जणाववी. पूछनारने तेना मनना अभिप्रायनुं परिज्ञान (जाणपणुं) थाय तेने अनक्षरश्रुत कहेछे.

३ त्रीजुं संज्ञीश्रुत-संज्ञा त्रण प्रकारनीछे १ दीर्घकालिकी, २ हेतुवादोपदेशिकी, तथा दृष्टिवादोपदेशिकी.

केम करवुं ? हवे केम थशे ? इत्यादिके करी अतीत तथा अनागत घणा कालनी घणा काल पर्यंत विचारणा करवी ते दीर्घकालिकी संज्ञा जाणवी. तात्कालिक इष्ट अनिष्ट वस्तु जाणीने प्रवृत्ति निवृत्ति करवी ते हेतुवादोपदेशिकी संज्ञा. क्षयोपशम ज्ञाने सम्यग् दृष्टिपणुं होय ते दृष्टिवादोपदेशिकी संज्ञा जाणवी. विकलेंद्रिय असंज्ञीने हेतुवादोपदेशिकी संज्ञाछे. संज्ञी पंचेंद्रियने दीर्घकालिकी संज्ञाछे. कारण के ते विचार चिंतवना करी शकेछे, समकित्ती जीवने दृष्टिवादोपदेशिकी संज्ञा जाणवी. मन तथा इंद्रियोथी उत्पन्न थयेलुं जे ज्ञान तेने संज्ञीश्रुत कहेछे.

- ४ मन विना मात्र इंद्रियोण करी थयेलुं ज्ञान ते असंज्ञीनुं श्रुत जाणवुं.
- ५ पक्षपात विना कोइ विषयना स्वरूपने जे यथार्थ जाणवुं तेने सम्यक्श्रुत कहेछे, अर्हत् प्रणीत आगमने सत्य मानवुं पक्षपात विना ते.
- ६ यथावस्थित बोधना अभावथी मिथ्यादृष्टि अर्हत्प्रणीत अथवा मिथ्यादृष्टि प्रणीत वाक्यादिकनुं जाणवुं एटले पक्षपात प्रमुख बुद्धिए करी कोइ विषयना स्वरूपने यथार्थ न जाणवुं तेने असम्यक्श्रुत कहेछे.
- ८ श्रुतज्ञान सादि पर्यवसितछे, तेमज अनादि अपर्यवसित पण छे.
- १० द्रव्यथी एक पुरुष आश्री लइए तो सादि सपर्यवसितछे, अने घणा पुरुषो आश्री लइए तो अनादि अपर्यवसित पणछे. क्षेत्रथकी भरत तथा औरवतने विषे ज्यारे तीर्थकरनो तीर्थ

(१५२)

श्रुतज्ञानस्वरूप.

बर्तेछे त्यारे द्वादशांगी रूप श्रुत होयछे, अने ते तीर्थनो विच्छेद थवाथी ते श्रुतनो पण विच्छेद थायछे. तेथी ते सादि सपर्यवसित जाणवुं. महाविदेहमां तीर्थनो विच्छेद श्रुतनो पण विच्छेद थतो नथी तेथी त्यां अनादि अपर्यवसितश्रुत जाणवुं. कालथी उत्सर्पिणि तथा अवसर्पिणीमां चोथे तथा पांचमे आरे श्रुतज्ञान होय अने छहे आरे विच्छेद थायछे तेथी सादि सपर्यवसित जाणवुं. महाविदेह क्षेत्रमां एवुं कालचक्र नहीं होवाने लीधे त्यां श्रुत ज्ञान पण अनादि अपर्यवसित जाणवुं.

भावथी—भव्यासिद्धिआ जीवने ज्यारे सम्यक्त्वनी प्राप्ति थाय छे त्यारे आदि अने केवलज्ञाननी प्राप्ति थायछे त्यारे अंत होवार्थी सादि सपर्यवसित श्रुतज्ञान जाणवुं.

- ११ अग्यारमुं गमिकश्रुत ते ज्यां सूत्रना सरखा आलावा आवे ते जाणवुं. दृष्टिवाद सूत्रमां जाणवुं.
- १२ बारमुं अगमिक श्रुत अणसरखा अक्षरोना आलावा होय ते जाणवुं.
- १३ तेरमुं अंग प्रविष्ट ते द्वादशांगीरूप जाणवुं.
- १४ चौदमुं अंग बाह्यश्रुत ते आवश्यक तथा दशवैकालिक जाणवुं तथा श्रुतज्ञानना वीस भेद पण कर्मग्रंथ विगेरेथी जाणी लेवा.

अवधिज्ञान स्वरूप.

अनुगामी, वर्धमान, प्रतिपति, अप्रतिपति, हीयमान, अर्ननुगामी ए छ प्रकार गुण प्रत्यय अवधिज्ञानना छे. उक्तंच. नन्द्यध्ययने “ तं समासओ छद्विहं पन्नत्तं तंजहा आणुगामियं अणाणुगामियं, बढुमाणयं, हीयमाणयं, पडिवाइ, अपतिनाइ.

परमार्थदर्शन.

(१५६)

- १ प्रथम जे ठेकाणे अवधिज्ञान उत्पन्न थयुं होय ते ठेकाणुं मू-
कानी बीजे देशांतर प्रमुख जाय त्यां लोचननी पेठे जे साथे
आवे तेने अनुगामिक अवधिज्ञान कहेछे. ज्यां पुरुष जाय त्यां
साथे आवे ते.
- २ बीजुं जे ठेकाणे रक्षां अवधिज्ञान उत्पन्न थयुं होय ते स्थानके
आवे तेवारेज होय. पण अन्यत्र स्थाने जाय तेवारे साथे न
होय तेने अननुगामि अवधिज्ञान कहेछे.

से किंतं गाणुगामीयं आहीनाणं ओहीनाणं तंजहा नामएगेइ
पुरिसेगममहं जोइठाणं काउं तस्सेव जोइठाणस्स परि पेरं तेसुपरि-
हिंडमाणे परिहिंडमाणे परिघोलमाणे तमेव जोइठाणं पासइ अन्न-
ध्यगए न पासइ एतमेव अणाणु गामियं ओहिनाणं जध्येव समुप-
ज्जइ तध्येव संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि वा जोयणाइ पासइ
न अन्नध्य.

भाष्यकारोप्याह-अणुगामिउ अणुगच्छइ गच्छंतं लोयणं जहा
जहा पुरिसं इयरोउ नाणु गच्छइ ठियप्पइवव्वगच्छंतं-इति.

- ३ श्रीजुं जे वृद्धि पामे तेने वर्द्धमानअवधिज्ञान कहेछे, जेमके
शळगतिअग्निमां जेम जेम बलतण नाखीये तेम तेम वधती
ज्वाला थायछे तेनी पेठे यथायोग्य प्रशस्त अतिप्रशस्ततर
अध्यवसायने लीधे पूर्वावस्थाथी ते उत्तरोत्तरसमय समय वधतुं
वधतुं जाय तेने वर्द्धमान अवधिज्ञान कहेछे अर्थात् प्रथम
उपजती वखते अंगुलनः असंख्यातमा भाग जेटुं क्षेत्र जाणे
देखे पश्चात् वधतां वधतां यावत् अलोकाकाशने विषे लोक
जेवडा असंख्यातां खांडवां देखे.

- ४ चोयुं पूर्वे शुभ परिणामवशे घणुं उपजे पश्चात् तथाविध

(१५३)

अवधिज्ञानस्वरूप.

सामग्रीनो अभाव थयाथी पडता परिणामे करी हानि पामे तेने हीयमान अवधिज्ञान कहेछे.

५ पांचमुं संख्याता असंख्याता योजन उत्कृष्टपणे यावत् समग्र लोक देखीने पण पडे एटले जे आव्युं जाय तेने प्रतिपाति कहेछे.

६ छटुं जे उत्पन्न थया पछी क्षीणताने न पामे ते लोक समग्र देखीने अलोकना एक प्रदेशने देखे ते अप्रतिपाति ज्ञान जाणवुं. ते ज्ञान आव्युं जाय नहीं.

प्रश्न—हीयमान अने प्रतिपाति ए वन्नेनां लक्षणो तो सरखांछे तेम छातां जूदां बताववानुं शुं कारणछे ?

उत्तर—पूर्वावस्थाथी हळवे हळवे घटतुं जाय एटले क्षीणताने पामे ते हीयमान कहेवायछे अने जे विध्यात प्रदीपनी पेठे एक कालने विषेज निर्मूल थायछे ते प्रतिपाति कहेवायछे. अवधिज्ञानना असंख्यात भेदछे, वळी अवधिज्ञानना चार प्रकारछे तथा चाह.

तंसमासओ चउच्चिहं पन्नत्तं तंजहा दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ दव्वओणं ओहीनाणी जहन्नेणं अणंताइं रुविदव्वाइं जाणइ पासइ उक्कोसेणं सव्व रुविदव्वाइं जाणइ पासइ, खित्तओणं ओही-
न्नाणी जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्जभागं उक्कोसेणं असंखिज्जाइं अलोए लोयप्पमाण मित्ताइं खंडाइं जाणइ पासइ कालओणं ओहि-
न्नाणी जहन्नेणं आवलियाए असंखिज्जभागं उक्कोसेणं असंखि-
ज्जाओ उस्सप्पिणी अवसप्पिणी अतीयं च अणागयं च कालं जाणइ पासइ भावओणं ओहिन्नाणी जहन्नेणंवि अणंते भावे जाणइ पासइ उक्कोसेणं वि अणंतेभावे जाणइ पासइ सव्वभावणं अ-
णंतभागं.

अवधिज्ञानी द्रव्यथी जगन्न्यपणे अनंतरूपी द्रव्यने जाणे देखे

परमात्मदर्शन.

(१५५)

उत्कृष्टपणे सर्वरूपी द्रव्यने जाणे देखे ते द्रव्यथी अवधिज्ञान.

क्षेत्रथी जघन्यपणे अंगुलनो असंख्यातमो भाग जाणे देखे अने उत्कृष्टपणे अलोककाशने विषे लोक प्रमाण असंख्यातां खांडवां जाणे देखे.

कालथी अवधिज्ञानी जघन्यपणे आवलिकानो असंख्यातमो भाग जाणे, देखे अने उत्कृष्टथी असंख्याती उत्सर्पिणी अवसर्पिणी पर्यंत अतीतकाल अनागतकाल जाणे देखे ते कालावधि ज्ञान.

भावथी अवधिज्ञानी जघन्यपणे अनंतभावने जाणे देखे अने उत्कृष्टथी पण अनंता भावने जाणे देखे ते भावावधिज्ञान जाणवुं.

मनःपर्यवज्ञानस्वरूपं.

मनःपर्यव ज्ञानना वे भेदछे. एक रुजुमति, बीजो विपुलमति अमुक पुरुषे घट चिंतव्योछे एम सामान्यपणे मननो अध्यवसाय ग्रहे ते रुजुमति जाणवुं.

तथा अमुक पुरुषे घट चिंतव्योछे ते द्रव्यथी सुवर्णनोछे, क्षेत्रथी पाटलीपुरनोछे. कालथकी शीतकालनोछे, अने भावथी पीतवर्ण सुकुमाळ द्रव्यादि विशेष ग्राहिणीमति तेने विपुलमति ज्ञान कहेछे.

अथवा मनःपर्यवज्ञान ४ चार प्रकारनुंछे, द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावथीउक्तंच तं समासओ च उव्विहं पत्रतं तंजहा दव्वओ खे-त्तओ कालओ भावओ. दव्वओणं रिउमइणं ते अणंतपएसिए खंवे जाणइ पासइ ते चेव विउलमइ अभहियतराए विमल तराए जाणइ पासइ.

भावार्थ—द्रव्यथी रुजुमति अनंत प्रदेशी अनंता स्कंध जाणे देखे अने विपुलमति तेहिज स्कंध काइक अधिकेरा विशुद्धपणे जाणे देखे, क्षेत्रथकी रुजुमति नीचे रत्नमभा पृथ्वीनुं धुळक मतर लगे

(૧૫૬)

મન:પર્યવજ્ઞાનસ્વરૂપ.

અને ઝંઝું ડ્યોતિષિના ઉપરીતલ લગે તીર્છું અઢીઢીપ બે સમુદ્ર પક્કર કર્મભૂમિ ત્રીજા અકર્મભૂમી અને છપ્પન્ન અન્તરઢીપને વિષે સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય પર્યાપ્તાના મનોગત ભાવ જાણે દેખે અને વિપુલમતિ તેહિજ ક્ષેત્ર અઢી અંગુલે અધિક દેખે અને વિશુદ્ધ દેખે. કાલયકી જઘન્યપણે રુઝુમતિ પર્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટપણે અતીત અનાગત જાણે દેખે. અને વિપુલમતિ તેથી અધિક અને વિશુદ્ધતર જાણે દેખે. ભાવથકી રુઝુમતિ અનંતાભાવ જાણે દેખે. અને વિપુલમતિ તેથી અધિક જાણે દેખે.

કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ.

કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાંજ સમકાલે સર્વ પદાર્થોના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ તથા ભાવ જાણ્યામાં આવી જાયછે, તથા ઢીઢામાં આવી જાયછે, માટે કેવલજ્ઞાન એક પ્રકારનું છે.

આત્માનુંછે, કેવલજ્ઞાનમાં મતિજ્ઞાનાદિનો અંતર્ભાવ થાયછે, આત્મજ્ઞાની સમકિતી મુનિને શુદ્ધ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાયછે.

આત્મસ્વરૂપના ઉપયોગ વિના જે સંસારમાં ચાલેછે તેનો તિલ પીલક યંત્ર ટૂંકમની પેઠે સંસારનો પાર આવતો નથી.

કાવ્યના નવરસ જ્ઞાનથી રાત્રો અને લાલ્લો કાવ્ય કરો કિંતુ આત્મપદના ઉપયોગ વિના અન્ય સર્વ રાત્રમાં ઘૃત સીંચનની પેઠે નિષ્ફલ જાણવું. તર્કશાસ્ત્ર પણ આત્મતત્ત્વના ઉપયોગ વિના મિથ્યાભાવે પરિણમેલું નરકાદિક ગતિ ભ્રમણ હેતુભૂતછે. વ્યાકરણ શાસ્ત્રથી પણ આત્મપદ ભિન્નછે.

સારાંશકે-વ્યાકરણ શાસ્ત્ર મળતાં છતાં પણ જો આત્માની ઓઢીલાણ થઈ નહીં તો તેથી શું થયું ? અલગત આત્મતત્ત્વ જ્ઞાનમાં વ્યાકરણ હેતુભૂતછે પણ આત્મતત્ત્વના રક્ષા ઉપરદોરાય તો લેલે થાય. વ્યાકરણ મળીને વાદવિવાદ મિથ્યા કરવાથી વૈરવિરોધ કલે-

परमात्मदर्शन,

(१५७)

ज्ञानी उत्पत्ति थायछे. मारा जेवो कोण विद्वानछे ? सभामां मने कोण जीतनारछे ? इत्यादि अभिमानना आवेशमां सपडाइ जवायछे. माटे व्याकरणं शास्त्र भणीने पण आत्मतत्त्व जिज्ञासु थवुं. एज परमोपदेश रहस्यछे, आत्मतत्त्व जाणतां रागद्वेष क्रोध मान माया लोभ विगेरेनो नाश थायछे. वैरविरोध कदाग्रहनो आत्मतत्त्व जाणतां नाश थायछे. जेना अज्ञानथी संसारनी मायामां लपटावानुं थयुं अने जेना ज्ञानथी अनंतकाल पर्यंत चतुर्गत्यात्मक संसारमां जडवत् स्वचेतना नष्ट प्रायः थइ परिभ्रमण करवुं पडयुं तेनुं जो ज्ञान थाय तो संसारनी उपाधिथी मुक्तज थाय अने अत्यद्भूत अनहद शुद्ध अखंड निर्मल शाश्वत आत्मसुख अनुभवी शकाय. पोतानुं ज्यां अज्ञान त्यां रागद्वेष अने पोतानुं ज्ञान थतां सूर्योदयथी अंधकार जेप स्वतः नाश पामेछे तेप रागद्वेष स्वतः नाश पामेछे.

अन्यदर्शनियो पण आत्मतत्त्वनुं गान करेछे ते नीचे प्रमाणेछे.

फकीर फकीर क्या कहो, फकीर जगत्का पीर;
 फकीरसें तो हुंढ निकाला, पूर्ण रूप अमीर. १
 मन मारे तन वश करे, सोधे सकल शरीर;
 दया धर्मकी कफनी पहरे, आप रूप फकीर. २
 वेद वेद शुं कहो, वेद छे धर्म तारो;
 वेदथी वस्तु छे न्यारी, अखंड तरखलो मारो. ३
 कुवा देखा तळाव देखा, न्हाया देवकी कुंड;
 गोळकी गंगडीके उपर, मख्खीकी बहोत हे जुंड, ४
 चल चल बोलो मत, खोलो पडदा अपना;

(१५८)

भारतमहत्ता.

- गुफामें तो साहेब देखा, सुरत वुरतसैं जपना. ५
 हा कहूं तो हे नहीं, ना कह्यो न जाय;
 हा ना के भितर, कीडी साकर खाय. ६
 शास्त्र भण्यो पुराण भण्यो, वेद तो मने खटक्यो;
 अनंतरूपे प्रभुजी मारो, आकाशमांहि चटक्यो. ७
 जोगी जंगम सेवडो, सन्याशी दरवेश;
 चक्षु सामे प्रभुजी दीठा, वृत्ति आतमदेश. ८
 वगर पाणीना तळाव मांहि, खील्युं कमळनुं फूल;
 बत्ती विना अजवाळुं आपे, झगझगति तेनी गुल९
 रत्नाकर सागर मांहि, गागर फूटी जाय;
 पाणी मांहि पत्थर लडे, अगम निगम परखाय. १०

आवां अनेक भजनपद अन्य मतावलंबीयो गायछे, किंतु ए-
 कति तेनो अर्थ करवाथी जेवो जोइएतेवो सम्यग् लाभ थतो नथी.
 अनेकान्तमत ज्ञाता आत्मार्थि अवळाने पण सवळा तरीके
 परिणमावेछे.

आत्मज्ञानने माटे प्रयत्न करवो ते अति उपयोगीछे.

कथा मात्र कहेवाथीज जो आत्महित थतुं होत तो पुराणी-
 ओ बहु कथाओ कहेछे माटे तेमनुं तो कल्याण थवुं जोइए किंतु
 तेथी कल्याण थतुं नथी. आत्मतत्त्वनुं ज्ञान नथी तो एक उदर
 पोषक कथाथी थुं थाय ? अलवत् कंड नहीं. मनुष्योना मननुं
 रंजन करवाथीज जो धर्म थाय तो भाट चारण, नाटकीआ विगेरे
 जनमनरंजन करेछे ते मने धर्म थवो जोइए परंतु समजवाडुं के

परमात्मदर्शन.

(१५९)

आत्मधर्म समज्या विना अने आत्मार्थिपणाना गुणो प्रगटया विना जनमनरंजनताथी पोतानी वाहवाहमां आत्मधर्म साधी शकतातो नथी. माटे भव्यात्माओए कीर्त्ति, वाहवाह जनमनरंजनता प्रति लक्ष्य नहीं देतां आत्मधर्म उपर लक्ष्य देवुं. आत्मधर्म प्रति जेनी दृष्टि ते प्राणी त्रण भुवनमां पूज्यताने पामेछे, व्याख्यान द्वारा जनमनरंजनपर ध्यान आपवुं ते अयोग्यछे. भव्यात्माओ आत्महित शी रीते करे ते उपर लक्ष आपवुं, अने तेवा शुद्ध अंतःकरणना अभिप्रायथी उपदेश देवो ते स्वपर हितकारकछे.

परस्पर क्लेशोत्पादक वादथी कंड आत्महित थतुं नथी. गाली देवीने लेवी एवो वादतो वाघरीना गृहे पणछे परमार्थ शून्य वादथी कायक्लेशादि मात्र फळछे. आत्मतत्त्व रमण तथा आत्मज्ञान विना सर्व वात निष्फळछे. व्याकरण, न्याय, वादादि आत्मतत्त्वमां उपकारकछे माटे तेमनुं स्वरूप जाणी तेमां रमण करे तो वादादि सफलछे. दीर्घ आयुष्यना अभावे अवश्य ज्ञातव्य आत्मतत्त्वनुं अवलंबन करी रागादि दोषोनो नाश करवा प्रयत्न करवो ए हित शिक्षाछे.

आत्मानुं ज्ञान जो नथी तो क्रिया कांडथी पण मुक्ति थती नथी, आत्मस्वरूपना उपयोगी मुनिराजनी सर्व क्रिया गुणनी खाण जाणवी, तद्धेतु, अमृत क्रियाना अधिकारी मुनीश्वरछे.

अध्यात्मसार ग्रंथे श्लोक.

अपुनर्बन्धकस्यापि, या क्रिया शमसंयुता ।

चित्रा दर्शन भेदेन, धर्मविघ्नक्षयाय सा १

अशुद्धापि हि शुद्धायाः क्रियाहेतुः सदाशयात् ।

ताम्रं रसानुबन्धेन, स्वर्णत्वमधिगच्छति २

(१६०)

आत्मना रमणता कर.

समभाव सहित विचित्रदर्शनभेदे अपुनर्वधी जे चोथुं गुणठाणुं तेनी जे क्रिया ते पण यग्रपि धर्मना विघ्ने कर-नारीछे, तो पण भला आशय थकी अगुद्ध क्रिया करे ते पण शुद्धकहेवाय. जेम ताम्र रसानुवेवे सुवर्गताने पामेडे, तेम अत्र समजवुं, अन्वोऽन्व क्रिया, विषक्रिया, गरलक्रिया, तद्धेतुक्रिया, अमृतक्रिया ए पंच प्रकारनी क्रिया जाणवी. तेमांनी आद्य त्रण क्रिया त्याज्य जाणवी. तद्धेतु, अने अमृत क्रियानी प्राप्तिथी मुक्ति थायडे, अनेकान्त मार्गमां कदाग्रह करवो नहीं, समयसिंधुनुं विंदुग्रही मकलावुं ते व्यर्थ छे, मतकदाग्रहप्रस्तमना जीवोनी रागद्वेषयोगे सर्व क्रिया दुःखनुं धाम एटले स्थान छे, स्वात्मोत्कर्ष मान पूजा कीर्त्तिने माटे परात्मापकर्षकारक क्रियावादी स्वात्महित निरपेक्ष पणाने लीधे साधन साध्य बुद्धि शून्यताथी परमात्म पद साधी झकतो नथी, सापेक्षपणे व्यवहार निश्चय पूर्वक जिनाज्ञा सहित तद्धेतु अमृत क्रियानुं अवलंबन करीने भव्यात्माओ अखंड निर्मलशाश्वत सुखमय शिवस्थाननी प्राप्ति करे छे, जे भव्यो क्रियानुं अजीरणजे निंदा तेनुं सेवन करेछे ते मुक्तिपदना अधिकारी थता नथी, अ-मुकमां अमुक दोषछे, अमुक तो आम करेछे, इत्यादि परभाव परिणति ज्यां सुधीछे त्यां सुधी आत्तध्यान अने रौद्र ध्याननी क्रिया जाणवी. अंतर्दृष्टि थतां धर्मध्याननी क्रिया थइ शकेछे, जगत्मां रोगो अनेक प्रकारना होयछे, तेमज औषधो पण अनेक प्रकारनांछे, कोइने उधरस थइ होय ते अमुक औषधथी मटे अने ते उधरस कोइने ते ह्वाथी मटती नथी. सूरतथी विहार कतां मीयागाम आव्या त्यां श्री दुर्लभविजयजी साथे दीपाविजयजी तपस्वी हता तेमने उधरस घणी हती, तेम ताव पण हतो ते गाममां मोटां मोटां मरचां खा-कीथी उधरस मटी तो भव्यात्माओने समजवानुं के भावरोगी जी-

परमात्मदर्शन.

(१६१)

वा अनेक प्रकारनाछे, कर्मरोग पण अनेक प्रकारनाछे, तेना उपरं धर्मनां औषधो पण अनेक प्रकारनाछे, कर्मरोगने टाळनार सदगुरु वैद्यो पण अनेक प्रकारनाछे, कोइ जीवने कोइ धर्म औषधथी लाभ थाय, कोइ जीवने कोइ मुनीश्वर वैद्यथी लाभ थाय, माटे पक्षपात करी एकान्तमतरूप कदाग्रहनुं अवलंबन करवुं नहीं, पंचमारके अल्पपुण्यवंत बहुपापकर्मीजीवो प्रायशः धर्मनुं नाम धरावी मारा तारा पणानी बुद्धि धारण करी पक्षपातरूपविषनु पान करी अनंतभवभ्रमण करनारा थशे. अज्ञानरूप निद्रामां सुतेलाने तो सदगुरु महाराज सहेलाइथी उठाडी शकेछे किंतु जे मत कदाग्रह पक्षपातरूप दारुनुं पान करीने अज्ञानरूप निद्रामां सुइ रहेलाछे ते पुरुषने तो गुरुमहाराज पत्नीश लाकडीओ मारीने आत्मस्वरूपे जगाडवाने समर्थ नथी. कारणके ते विलकुल बेशुद्ध बनी गयाछे, सत्यतत्त्व समजवाने शक्तिमान्छे किंतु जेगे मतकदाग्रह रूप मदि-
रानुं पान कर्युंछे, एवा पुरुषनी आगळ सत्यतत्त्वनी हित शिखा-
मण गुरुमहाराजा आपेतो ते व्यर्थ जायछे, उलटुं ते गुरुमहाराजने पण निंद्य वचन संभळावेछे, केटलाक जीवो तो एवा होयछेके पो-
ताना मतमां बेठुं ते खरुं अन्य सर्व खोडुं मानेछे तेवा जीवने ज्ञानी गुरुमहाराज बहु प्रयासे सत्यमार्गे दोरेछे, व्यवहार अने निश्चय नयना जाण ज्ञानी गुरुमहाराजा क्रियावडे कर्मनो नाश करेछे, ए परमार्थ.

“ दुहा. ”

आत्मोपयोगी साधुने, किरिया सदगुण धाम;

मतकदाग्रह लालचु, सहु किरिया दुःख ठाम. ११८

जलनी उपाधिथकी, जुदी अवस्था थाय;

तेवी जे जननी थती, भवमां ते भटकाय. ११९

(१६२) योग्य वाधु सत्क्रियाथी आत्मधर्म साधी शकेछे.

**उपादान समजे नहीं, समजे नहीं निमित्त;
कारण कार्य समजे नहीं, तत्त्वे शुं शुभ चित्त. १२०
द्रव्यभाव समजे नहीं, वर्ते बाह्याचार;
अनुपयोगिआत्मनो, पामे नहि भवपार. १२१**

भावार्थ—प्रथम दुहानो अर्थ उपर लखायोछे जलनी उपाधिथी जेम भिन्न भिन्न अवस्थाओ थायछे—एटले जेम जलमां लाल रंग नाखीए लाल देखायछे. पीळो रंग नाखीए तो जळ पीळुं देखाय छे, लीलो रंग नाखीए तो जल लीळुं देखायछे, एटले जळ अन्यनी साथे मिश्र थवार्थी व्यवहारथी स्वशुद्ध रूपनो त्याग करेछे. तेम जे जीवो असत् संगतिरूप उपाधिना योगे जेवा मळ्या तेवा थइ जायछे, ते भवमां अटकेछे, अर्थात् सारांशके—जे जीव पादरीनी संगतथी तेना उपदेशवडे इशुने पूज्यमाने, अने खीस्ति धर्म स्वीकारे, कदापि ते जीवने कोइ बौध गुरुनी संगति थइ. बौधे कहुं खीस्ति धर्म तो अनार्य धर्मछे, ते धर्मथी मुक्ति मळती नथी, बौध धर्म सत्यछे माटे ते स्वीकार. त्यारे तेना उपदेशथी बौध धर्म स्वीकारे, वळी तेने कोइ मुसलमान मळयो तेणे कहुं बुद्ध धर्म तो खोटोछे, सत्य धर्म तो खुदाकाहै, बुद्ध धर्ममें तो अमुक जूठा कहाहे, ओ तो काफरोंका धर्म हे, इसलिये खुदाका धर्म मानेगा तो दोस्रखमे पडेगा नहीं, एम मुसलमानना उपदेशथी मुसलमान धर्म स्वीकार्यो. त्यारे ते पुरुषने कोइ वेदांति मळयो. वेदांतीए कहुं सर्व धर्मनुं मूळ वेदान्त छे, वेदथी मुक्तिनी प्राप्ति थायछे. इत्यादि कथनथी वेदधर्मनो स्वीकार कर्यो. त्यारे कोइ कालीकाना भक्ते कहुं. अरे मनुष्य तुं कालिकानो भक्तथा, कालिका पुत्र धन स्त्री वैभवने आपनारीछे, माटे कालिका तेज खरीछे, वेदथी तो कंड सख मळतुं नथी,

परमात्मदर्शन.

(१६३)

इत्यादि कथनथी कालिका नो भक्त थयो, त्पारे वळी नास्तिकरुवादी तेने मळयो तेणे कथुं भला मनुष्य तने धर्म धुताराओ छे तरेछे केमके जे वस्तु आपगी आंखे देखाती नथी. ते वस्तुनी इच्छा राखवी ते व्यर्थछे, कालिका तो पत्थरनी मूर्ति छे ते कंइ फळ आपवा समर्थ नथी इत्यादि कथनथी नास्तिक थाय इत्यादि अवस्था जे मनुष्यनी थायछे ते कदापि आत्म सुख पामी शकतो नथी. कारण के ते अज्ञानी अविवेकी अने श्रद्धा रहीतछे, तेथी भवभ्रमण कर्या करेछे.

वळी जे भव्यो उपादान कारणने समजता नथी अने निमित्त कारणनुं स्वरूप पण जाणता नथी, अमुक कार्य अने तेनुं कारण अमुक ते पण समजी शकता नथी. साधन अमुक अने साध्य अमुक ते पण समजी शकता नथी एवा अज्ञानी जीवोनुं तत्त्वमां चित्त होतुं नथी.

द्रव्य अने भावथी चारित्रने समजता न होय. फक्त ओघ-दृष्टिथी बाह्याचारमां धर्म मानी प्रवर्त्ते, आत्मतत्त्वनो उपयोग होय नहीं तेवा जीवो भवनो पार पामी शके नहीं श्री यशोविजयजी उपाध्याय कहेछे के-

ढाळ.

ज्यां लगें आत्म तत्त्वनुं, लक्षण नवि जाण्युं;
त्यां लगें गुणठाणुं भळुं, किम आवे ताण्युं. आत्म-१

ए प्रमाणे विचारतां आत्म तत्त्वावबोध विना क्रिया मुक्ति मार्गप्रतिकारणीभूत थती नथी. हुं क्रिया कोने माटे करुंछुं, क्रियाथी शुं थायछे, क्रियानो कर्ता कोणछे ? एनी यथायोग्य समजण विना अनुपयोगताए परमात्मपदरूपसाध्यसंसिद्धि थइ.

(૧૧૪)

આત્મજ્ઞાનથી કર્મનો નાશ.

શકતી નથી, ઉલટું તે અનુપયોગતાએ ક્રિયા કરી અન્ય ફલ પ્રાપ્ત કરેછે યથા વિનાયકં પ્રકુર્વાણો, રચયામાસ વાનરં । વિનાયકની મૂર્તિ બનાવતાં વાંદરો રચ્યો તેની પેટે-આત્માની અજ્ઞાનતાએ અન્યો-ન્ય, વિષ, ગરલ, એ ત્રણ ક્રિયાનું સેવન થાયછે-અને એ ત્રણ ક્રિયાથી જીવ અશુદ્ધપરિણતિયાંગે શુભાશુભ કર્મપુદ્ગલો ગ્રહી અનેક જન્મ ગ્રહતો ત્રિવિધ તાપથી પીડાતો કૂટાતો દુઃખ સંતતિનો ભોગી બનેછે. જડ ચેતનનું વિશેષતઃ ભેદ જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી બહિ-રાત્મપણું ટલ્લું નથી. અને બહિરાત્મયોગે ચેતન જડ જેવો માસેછે, અને અજ્ઞાની જીવ પરવસ્તુમાં અહંત્વ પરિણામ ધારતો જડતા અનુ-ભવેછે-શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહેછે કે-

હું એહનો એ માહરો, એ હું એની બુદ્ધિ;

ચેતન જડતા અનુભવે, ન વિમાસે શુદ્ધિ. આતમ. ૧

આતમ અજ્ઞાને કરી, જે ભવ દુઃખ લહીએ;

આતમ જ્ઞાને તે ટલ્લે, એમ મન સદ્દહીએ. આતમ. ૨

આત્માના અજ્ઞાનથી જે ભવદુઃખ પરંપરા પમાયછે, તે ભવ દુઃખ પરંપરાનો નાશ આત્મજ્ઞાન થતાં થાયછે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન થતાં અનાદિ કાલથી પરમાં પરિણમન થયુંછે તે ટલ્લેછે. રાગદ્વેષ યોગે જીવ પરવસ્તુમાં પરિણમેછે અને યદા રાગદ્વેષની પરિણાતિ ટલ્લેછે, તદા આત્મા પરવસ્તુમાં પરિણમતો નથી. જ્યાં સુધી સમ્યગ્ રીત્યા આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું નથી. ત્યાં સુધી જીવ રાગદ્વેષ પરિણામે મોહી બનેછે. આત્મજ્ઞાનથી રાગદ્વેષની પરિણાતિ ઉદ્ભવેછે, આત્મજ્ઞાને સહજ સ્વભાવે રમતાં રાગદ્વેષની પરિણાતિ નાશ પામેછે, આત્મોપયોગે સ્થિરતા થતાં નિર્વિકાર અસ્વંદ શાશ્વત સુખ ભોગવાય છે, માટે આત્મોપયોગી સાધુને સર્વ ધાર્મિક ક્રિયા સુખની ત્વાનિ

परमात्मदर्शन.

(१६५)

भूत थायछे, अज्ञानीने संवरना हेतुओ आश्रवरूपे परिणमेछे अने स्याद्वादरूपे जेणे आत्मतत्त्व जाण्युंछे एवा ज्ञानीने आश्रवना हेतुओ पण संवररूपे परिणमेछे, एम ज्ञानीओनुं कथनछे.—प्रथम कोइ अपेक्षाए अजीवतत्त्वनुं ज्ञान करवुं जोइए. कारणे अजीवने अवबोधतां सहेजे तेथी भिन्नजीव जाण्यो जायछे, जीवाजीवादि नवतत्त्वोનો सम्यगवबोध भेदज्ञान थवामां मुख्य हेतुछे.—

आत्मज्ञानथी मुनिवर्यो मुक्तिपद प्राप्त करेछे. कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र पण कहेछे के—

श्लोक.—योगशास्त्रे.

मोक्षः कर्मक्षयादेव, सचात्माज्ञानतो भवेत् ।
ज्ञानसाध्यं मतं तच्च, तद्भयानं हितमात्मनः १
न साम्येन विना ध्यानं, न ध्याने न विना च तत् ।
निःकंपं जायते तस्माद्, द्रयमन्योन्य कारणम् २

मोक्षपद प्राप्ति कर्माष्टकक्षयतः थायछे, अने भवसंतति वृद्धि कारणीभूतकर्माष्टकनो क्षय आत्मज्ञानथी थायछे. इत्यादिथी विचारतां आत्मज्ञान थवुं एज सर्व शास्त्रनो स्पष्ट रहस्पभूत उद्देश समजायछे. मतिज्ञान अने श्रुतज्ञानना योगे अस्ति नास्ति धर्ममय आत्मानुं ध्यान थायछे, अने ध्यान पण आत्मानुं समजवुं. ध्यानयोगे स्थिरता प्रगटतां अनंत सुख अनुभवी आत्मा बनेछे, अने अनुभव ज्ञानयोगे भव्यात्मा सुखनो आस्वादी बनेछे. कोइ वस्तुपर राग नहीं अने कोइ वस्तुपर द्वेष नहीं एवी आत्मानी अवस्थाने साम्य अवस्था कहेछे. सूर्यना समान ज्ञान गुणे प्रकाशी आत्मा समजवो. सूर्य अभ्रथी आच्छादित थतां तेना किरणोना प्रकाशनुं पण आच्छादन थायछे,

(૧૬૬)

સાધુનો ક્રિયા.

વાયુના યોગે વાદલાં દૂર થતાં જેમ સૂર્ય કિરણોથી પ્રકાશેછે તેમ આત્મારૂપસૂર્ય કર્મરૂપવાદલાંથી અવરાયોછે તેથી સર્વ વસ્તુઓ આત્માના જ્ઞાનમાં જ્ઞેયરૂપે ભાસતી નથી. પણ મતિજ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાનના યોગે ધ્યાનરૂપ વાયુ વાતાં કર્મરૂપ વાદલાં આત્માથી દૂર થાયછે. ત્યારે આત્મારૂપ સૂર્ય જ્ઞાનરૂપ કિરણોથી લોકાલોકને પ્રકાશેછે. ધ્યાનપરંપરાએ આત્મોપયોગીપણું મુનિરાજને સતત બન્યું રહેછે, ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ વિના આત્મોપયોગતા વર્તતી નથી. દ્રવ્ય ચારિત્રથી કર્મ નાશ થતું નથી, ચારિત્ર શું છે ? તે જે જાંવો અજ્ઞાનયોગે સમજતા નથી, તે ભાવ ચારિત્રનો સ્પર્શ કરી શકતા નથી, ભાવચારિત્ર પ્રાપ્તિ પ્રતિ રજોહરણ મુહપાત્તિ સાધુવેષ દીક્ષા આદિ નિમિત્ત કારણોછે, અને તેવી દીક્ષા પ્રત્યેક તીર્થકરોએ ગ્રહી ભાવ ચારિત્ર પ્રગટાવ્યું, તેમ અન્ય ભવ્યાત્માઓએ પણ પ્રથુના પગલે ચાલી તેમનું અનુકરણ કરી ભાવચારિત્ર પ્રગટ કરવું, તે ભાવ ચારિત્રની નિરપેક્ષતાએ વાહ્યાચારમાં સરાગદૃષ્ટિથી મુંઝાતા એવા જીવો ઉપયોગની શૂન્યતાએ સંસારરૂપ સમુદ્રનો પાર પામી શકતા નથી.

પ્રશ્ન—ભાવ ચારિત્ર વિના સાધુવેષ અસમંજસછે તો તે કેમ ગ્રહણ કરવો જોઈએ ?

ઉત્તર—રજોહરણ મુહપાત્તિથી યુક્ત સાધુવેષ અંગીકાર કરી જીવ વાહ્યગ્રંથિનો ત્યાગ કરેછે તે આશ્વિનગ્રંથિ નાશ પ્રતિ કારણછે. માટે દીક્ષા અંગીકાર કરવાથી વાહ્યઉપાધિ ટલેછે. અને છકાયના જીવોની રક્ષા થાયછે, પંચમહાત્રત પાલવાથી આશ્રવના માર્ગો નાશ પામેછે. સર્વતીર્થકરભગવંતોએ એવી ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરીછે. અને તદ્દ્વારા વિકલ્પ સંકલ્પ ત્યાગી આત્મધ્યાનમાં પ્રવર્તી પરમાત્મપદ સાધ્યું, માટે ભવ્યાત્માએ પણ ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરવા પ્રયત્ન કરવો, સંસારમાં

परमात्मज्ञान.

(१६७)

गृहस्थावासमां वसी सर्वतः विरतिपणुं पामवुं मुक्केलछे, माटे दीक्षा अंगीकार करतां राग द्वेषनी हीनता यतां आत्मस्वरूपे रमण करतां भावचारित्र प्रगटेछे, ए राजमार्ग जाणवो. मोक्ष पद लक्ष्यमां राखी सद्गुरु संगति करतां आत्मज्ञान प्रगटेछे. उपाधिमां अहर्निश राचीमाची रतेनार गृहस्थ जीवोने दुःख संत-तिरूप फळनी प्राप्ति थायछे. आत्मज्ञानना अभि ठाषि पुरुषोए सद्गुरुनुं सेवन करवुं. सद्गुरु सेवनथी जे ज्ञान मळेछे ते तांत्विक्क फळने प्रमटावेछे, अने ते ज्ञानथी संयमनुं ग्रहण थायछे. अने संयमथी पोताना स्वरूपमां स्थिरता प्रगटेछे, अने स्थिरतायोगे जीव स्वगुणोने आविर्भाव रूपे प्रकाशेछे. माटे द्रव्यचारित्र एटले साधुवेष दीक्षाअंगीकार पंचमहाव्रत धारण आदि द्रव्यचारित्र कदापि असमंजस कहेवाय नहीं, भावचारित्रनी सापेक्षताए द्रव्यचारित्र निमित्त कारणीभूत आदरणीयछे. माटे भागवती दीक्षा अंगीकार करवी एज हिताकांक्षा-निज गुण स्थिरता तेज वस्तुतः चारित्र जाणवुं. व्यवहार चारित्रथी निश्चयचारित्र प्रगटेछे, आत्म परमात्मपद ए माटेज व्यवहार चारित्रक्रियारूप कथ्युंछे. निश्चय चारि-त्रनी सापेक्षताए व्यवहारचारित्र सप्रमाण निमित्त कारणछे. “ दुहा. ”

शिथिलाचारी आळसु, विषय वासना राग

कृष्ण सर्प सम ते गुरु, करवो तेनो त्याग. १२२

ब्रह्मचर्य उपदेश दे, मनमां ललना वास;

कृष्णसर्पसम ते गुरु, संग न कीजे खास. १२३

भावार्थ-वळी जे शिथिल आचारवंत-धर्मध्यानमां आळसु

(૧૬૮)

સાધુની ક્રિયા.

પરસ્વભાવ રમણતામાં તત્પર, વઢી જેના હૃદયમાં વિષયવાસનાનો રાગ સદા વન્યો રહેતો હોય. તેવા કુગુરુઓ કૃષ્ણસર્પસદૃશ જાણવા, તેનો ધર્માભિલાષી જીવોણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ સર્પ સંગતિથી એકવાર મૃત્યુ થાયછે, અને એવા કુગુરુની સંગતિથી મિથ્યાતત્ત્વોપદેશ પામતાં રાગદ્વેષ પરિણતિ યોગે અનેક જન્મધારણ કરવા પડેછે. વઢી જે ગુરુ નામ ધરાવતા બ્રહ્મચર્યવ્રત પાઢવાનો ઉપદેશ આપેછે. અને અંતરમાં સ્ત્રીનો વાસછે એવા કૃષ્ણસર્પ સદૃશ કુગુરુની સંગતિ કરવી નહીં. વિષયના જે રાગી હોયછે તેની સંગતિથી આત્મા નિર્વિષયી વનતો નથી. વિષયો વિષના કરતાં પણ અતિ દુઃસ્વદાયકછે. કહાં છે કે—

શ્લોક.

વિષસ્ય વિષયાણા ચ, દૃશ્યતે મહદંતરં
ઉપચુક્તં વિષં હંતિ, વિષયાઃ સ્મરણાદપિ. ૧

વિષ અને વિષયોનું મહદ્ અંતર દેખાયછે, વિષ તો સ્વાધું છતું પ્રાણનો નાશ કરેછે. અને કામાદિક વિષયોતો સ્મરણ માત્રથી આત્માના ગુણોને હુણેછે તો જે વિષયના સંગી હોય તેની સંગતિથી આત્મહિત થતું નથી તેવા કુગુરુઓની પણ નિંદા કરવી નહીં. મનમાં એમ ચિંતવવું કે એ વિષયના ભિચારી અશુદ્ધ પરિણતિયોગે હેયજ્ઞેય ઉપાદેય વિવેક શૂન્ય ચિત્તવાઢા થઈ ચિંતામણિ રત્નસમાન આત્મધર્મનો અનાદર કરી પરપુઢ્ગલરૂપ પેંઢમાં રાચીમાવી રહ્યાછે, એ તેમની ભવિતવ્યતાનો વાંકછે. એમ વિચારી માધ્યસ્થપણે વર્તી તેમની સંગતિ ત્યાગવી. કુગુરુનું લક્ષણ જણાવવાનું મુરુય કારણ એ છે કે—ભવ્યજીવો જેવું આલંબન મળે તેવા થઈ જાયછે, સારું આલંબન મળે તો આત્મા સારા રસ્તે વઢેછે. અને નઢારું આલંબન

परमात्मदर्शन.

(१६९)

मळे तो आत्मा अधोगति भाक् थायछे माटे भव्यजीवो असत्य आलंबननो त्याग करी सत्य सद्गुरुरूप निमित्त कारणनुं अवलंबन करे, एज हिताकांक्षाछे.

“ दुहा. ”

विषय त्याग वैराग्यता, वनितानो नहि संग;
धन कंचननो त्याग जास, नमीए सद्गुरु चंग. १२४
विषयाशा मनमां मटी, मन मर्कट वश जास;
भवभीरु भ्रमणा मटी, तेना थइए दास. १२५

सुगुरु लक्षण कथेछे—जेओए विषयनो त्याग कर्योछे. अने जेपनुं मन वैराग्यथी सतत वासीत थयुंछे. अने जे वनितानो संग करता नथी. धन कंचन ए उपाधिछे. तेथी विकल्प संकल्प उद्भवेछे. एम जाणी जेणे त्याग कर्योछे, एटले बह्य परिग्रहनो त्याग कर्योछे. एबा सुंदरगुरुने नमस्कार करीए, विषयनी आशा तृष्णाना अंकुरा जेना हृदयमां उत्पन्न थता नथी. अने जेणे मन रूप मांकडुं वश कर्युंछे. अशुद्ध राग द्वेषनी परिणति योगे मनमां आर्तध्यान वा रौद्रध्यान थायछे, ते मन वश करवाथी थतुं नथी. चित्तने वश करतां विकल्प संकल्पनो नाश थायछे. मन वश करवुं ते अत्यंत दुर्जयछे. कोइ धनुष्यधारी स्वबुद्धि विचक्षणताथी रात्रावेध सहज मात्रमां साधी शके. तेवो पण मनने पोताना वशमां करी शकतो नथी.

यतः श्लोक.

चित्तमेवहि संसारो, रागादि क्लेशवासितं ।
तथैव तैर्विनिर्मुक्तं, भवान्त इति कथ्यते ॥१॥
रागादि क्लेशथी वासीत चित्त तेज संसारछे, अने रागद्वेषा-

(१७०)

आत्मस्वल्प.

दिकथी रहित मन धतां भवान्त कथायछे. एवुं चित्त पण जेणे वश कर्युंछे एवा सुगुरुमहामुनिराजने देखी प्राणी पण शान्त भावने पामेछे. तेमना उपदेशथी अनेक जीवोने सर्वज्ञ कथीत त-स्वनी श्रद्धा धायछे. कोइ श्रावक व्रत अंगीकार करेछे. कोइ साधु व्रत अंगीकार करेछे, वळी जे सद्गुरु ज्ञान दर्शन चारित्र्यथी मोक्ष सुख आराधेछे, ते सद्गुरु मुनिराज चोराशी उपमाए विराजीग होयछे ते ग्रंथान्तरथी जाणवी वळी मुनिराज अनेक उपमाओने धारण करनाराछे. यथा. गाथा.

कंसे संखे जीवे, गयणे वाउय सारए सलिले ॥

पुरूवरपत्ते कुम्भे, विहण खगगेय भारंडे ॥१॥

कंस पात्र समान उज्जवळ, शंख, जीव, गगन, वायु, शरदूक्तु जल, कमलपत्र, काचबो, पंखी, खड्गी, भारंडपंखी, हाथी, वृषभ, सिंह, मेरुपर्वत, समुद्र चंद्र, सूर्य, सुवर्ण, पृथ्वी, अग्निनी आदि उपमा-ओने धारण करनार मुनीश्वर जाणवा. वळी मुनीश्वर लक्षण कथे छे—भवभीरु—एटले संसारमां अनेक प्रकारनां दुःख भयांछे, ज्यां सुधी संसारछे त्यां सुधी तात्त्विक सुख नथी. पुनः पुनः रागद्वेषथी बीता होय माटे रागद्वेषने सेवे नहीं. भ्रमणा मटी—जड वस्तुमां आत्मबुद्धि हती ते टळी हुं अने मारुं आवी भ्रमणारूप बुद्धि पर-वस्तुमां थती हती, ते भ्रमणा बुद्धिनो जेणे नाश कर्योछे, एवा महात्मा मुनीश्वर आत्मतत्त्व साधी शकेछे, वळी जे पुरुष शिष्यभाव तथा वैराग्यथी रहितछे. एवा अनधिकारी पुरुषने प्रायः उपदेश देवा पण प्रवृत्ति करता नथी. अन्य शास्त्रोमां पण कहुंछे के—

श्लोक.

नापृष्टः कस्यचित् ब्रूया । न्नचान्यायेन पृच्छतः ॥

जानन्नपिच मेधावी, जडबल्लोकमाचसेत् ॥ १ ॥

परमात्मवर्षीन.

(१०१)

विद्वान् मुनिवर्यं भ्रमं कर्मा विना कोइनी साथे बोझे नहीं, अन्यायथी पृच्छकने पण उपदेश करे नहीं, किंतु सर्वतत्त्वनो जाण छतो पण भेषावी जगत्मां जडनी पेठ विचरे बळी जे सुपुष्प सु-निनी आत्मज्ञान तरफ धारणाछे, अनेक प्रकारनी वासनाओधी वासित चित्त ज्यां सुधी होयछे त्यां सुधी आत्मस्वरूप प्रतिकल्प लागतुं नथी जेम मलीन दर्पणमां प्रतिबिंब स्वच्छ पडी सकतुं नथी. ज्यारे दर्पणने राख विंगेरेथी उटकीएछीए त्यारे तेनी अं-दर स्पष्ट प्रतिबिंब भासेछे तेम मनोरूप दर्पण रागद्वेष तेमत्र अनेक प्रकारनी वासनाओधी युक्त होयछे त्यां सुधीतेनामां आत्मस्वरूप भास तुं नथी, पण ज्यारे रागद्वेष इच्छा वासनारूप मलीनतानो नाश्र थाय छे त्यारे आत्मस्वरूप भासेछे, निर्मल चित्त जेनुं थयुंछे एवा मुनि-वर्यो आत्मतत्त्वना अधिकारीछे. अन्य के जेनां मनममत्त वासनाथी मलीनछे एवा पुरुषो गृहस्थो-तत्त्व प्राप्तिमां अधिकारी नथी.

बळी मुनीश्वर निंदा वा स्तुतिथी संतुष्ट थाय नहीं. कारण के मायाना फंदमां पडेली दुनीया दौरंगीछे, कोइ कंइ कहे अने कोइ कंइ कहे, लोक कीर्त्ति अने लोकनी स्तुति अर्थे जे आचरण आच-रवां ते मायानी वृद्धिने माटेछे पण आत्मसुख माटे नथी. माटे लोककीर्त्ति स्तुतिरूप वासनानो मुनि त्याग करे.—स्वकीय आत्मानुं हित करवुं तेज योग्य छे,

यतः श्लोक.

विद्यते न खलुकश्चिदुपायः। सर्वलोक परितोषकरो यः।
सर्वथा स्वहितमाचरणीयं। किं करिष्यति जनो बहुजल्पः

आ दुनीयामां एवो कोइ उपाय नथी के जेथी सर्व लोक स्तुति करे. माटे आत्मतत्त्वाधि पुरुषे लोकवासनानो सर्वथा परि-

(१७२)

भारमस्वरूप.

त्याग करी आत्महित आचरवुं. लोकनी निंदा स्तुति तरफ देखवुं नहीं, बल्की अन्य शास्त्रोमां कह्युं छे के—

श्लोक.

न लोकचित्तग्रहणेरतस्य । न भोजनाच्छादन तत्परस्या ।
न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षो । न चातिरम्यावसथप्रियस्य

जो पुरुष सर्व प्रकारसें लोकोंके चित्त रंजन करणे विषे प्रीतिवाला हे तथा जो पुरुष भोजन आच्छादन विषेही तत्पर है. तथा जो पुरुष व्याकरणादिक अनात्मशास्त्र विषे अभिनिवेशवाला है. तथा जो पुरुष अत्यंत रमणीय गृहो विषे प्रीति वाला है ऐसे पुरुषकुं मोक्ष प्राप्त होता नहीं, यतैं मोक्षकी इच्छा करनेवाले मुनि-वर्गकुं सा लोकवासना सर्व प्रकारसें परित्याग करणी चाहियै..

ए श्लोकथी पण विचारतां मुनिवर्षने सर्व प्रकारनी वासनानो परित्याग थवो जोइए. वासनारहित मुनिवर्ष अनेक प्रकारनां धार्मिक कार्य करतां बंधाता नथी.

अंतरथी वासना आदिनो त्याग विना बहिरनो निष्कळ ह्याग जाणवो. आत्माथी भिन्न सर्व जगत्ने देखनारा मुनिराजना हृदयमांथी सर्व वासनानो नाश थायछे.

असंख्यात प्रदेशी आत्मा तेज हुं परमात्माहुं, अन्य जडवस्तुओ हुं नथी. अने अन्य जडवस्तुओ मारी नथी आ प्रमाणे हृद निश्चय भावनाभावे, अने अंतरथी न्यारो वर्ते. आत्माभिमुख चेतनापणे वर्ते. एवा परमपूज्य करुणासागर मुनिश्वर महाराजना दास थइने रहीए. एवा मुनिना दास महाभाग्य होय तो थवाय. प्रमती सेवा चाकरीथी भवोभवनां दुःख नाश पाये. अने सर्व उपाधि टळे, आत्मा परमात्मरूप थाय. माटे भव्य सुशिष्योए एवा

परमात्मदर्शन.

(१७१)

मुनिवर्यना दास थइ रहेवुं, एमनी आज्ञा मस्तके चढाववी. कदी एवा मुनिवरनी आज्ञानो लोप करवो नहीं, तेमनुं सदाकाल ध्यान स्मरण करवुं, तेमनी वैयायच्च करवी.

प्रश्न—गुरु अने मुनिमां आपना बोलवा प्रमाणे कंड भेद-मजाय छे तेनुं शुं कारण ?

उत्तर—जेणे उपदेश देइ सम्पक्त्व पमाडयुं होय ते धर्माचार्य गुरु जाणवा.

ते मुनिराज छते पण धर्म पमाडवाथी धर्माचार्य गुरु मुनिराज जाणवा. अने ते विनाना उपरोक्त लक्षण सहित जे होय तेवा रजोहरण मुहपत्तिना धारक मुनिराज जाणवा. समकितदान दातृ-त्त्वथी बेमां एटलो भेद जाणवो. उपकारथी भेद जाणवो. हवे सर्व जीवने धर्मनी प्राप्ति केवा लक्षणथी धाय ते देखाडेछे, अत्र मुनि तेमज श्रावकनो भेद पाडया विना, बन्नेने हितकारक आत्म धर्म जाणी बन्नेने उपदेश आपेछे.

“ दूहा ”

रहीए आप स्वभावमां, लहीए तत्त्व स्वरूप ॥

आपोआप विचारतां, मिटे अनादि भूप ॥ १२६ ॥

जाति नहीं हे आत्मकुं, जस जाति अभिमान ॥

पामे नहि ते धर्मने । नक्की मनमां जाण ॥ १२७ ॥

भावार्थ—मोक्ष पदपाप्त्यर्थम् आत्मस्वभावमां रमणता करवी जो आत्मस्वभावमां रमण करीए तो तत्त्व स्वरूप एटले परमात्म पद पामीए, वेष बदलो, देश बदलो, किंतु आत्मस्वभावमां रमणता विना मुक्ति नथी. परवस्तु संबंधे यता अनेक प्रकारना विकल्प संकल्पो तेने मनथी दूर हठावी केवल आत्मानुं ध्यान करवुं. आ-

(૧૭૪)

આત્મસ્વરૂપ.

ત્મા પોતે સુખનું સ્થાન છે. આત્મા પોતાની મેલે જ્ઞાન ગુણથી પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે, હું આત્મા સદા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપનો ધારણ કરનાર છું. હું માયાથી ન્યારો છું. સર્વ ઉપાધિથી હું ભિન્ન છું. મારું પોતાનું સ્વરૂપ રાગદ્વેષ રહિત છે તો હું કેમ તેનો પટલે પરપુદ્ગલનો સંગ કરું ? હું અરૂપી છું તો રૂપીવસ્તુને કેમ પોતાની માનું ? હું વિજ્ઞાતિથી ન્યારો છું તો મારાથી ભિન્ન વિજ્ઞાતિય પુદ્ગલ દ્રવ્ય તેને કેમ પોતાનું માનું ? મારા શુદ્ધ સ્વરૂપે હું રમું તો હું અલંબ આનંદમય છું. વિકલ્પ સંકલ્પ રહિત હું છું તો વિકલ્પ સંકલ્પને હું પોતાના કેમ માનું ? અને વિકલ્પ સંકલ્પ હું કેમ કરું ? અને જ્યાં સુધી વિકલ્પ સંકલ્પ કરું ત્યાં સુધી સુખી કેમ થાઉં ? તેમજ નિર્વિકલ્પ એવું મારું સ્વરૂપ પણ શી રીતે પામું ? વિકલ્પ સંકલ્પ કરવા એ મારા આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી તો હવે હું સ્થિર અસંખ્યપ્રદેશમય ઉપયોગી થાઉં ? અને ગાઠ નિદ્રાની પેટે સર્વ માયા જાલને મૂલી જાઉં, તો મારો અનુભવ આપો આપ વિચારતાં થાય અને એમ નિર્વિકલ્પ દશામાં રહેતાં આત્મશક્તિ મારી આવિર્ભાવે પ્રકાશે, ક્ષાયિકભાવે, દ્રઢધ્યાન સંતતિયોગે આત્મ ગુણો સ્ફુરાયમાન થાય, વિકલ્પ સંકલ્પ શ્રેણિ પરંપરાનાશ પામતાં સહજ અનુભવ સુખરાશિ પ્રગટે, અને અનાદિકાલ સંલગ્ન આધિ વ્યાધિ ઉપાધિરૂપ ધૂપ નાશ પામે. સારાંશ કે-આધિ વ્યાધિ ઉપાધિનાં દુઃખોનું મૂલ કારણ કર્મની પ્રકૃતિયો છે. અને દ્રવ્ય કર્મરૂપ પ્રકૃતિયોનું આત્માની સાથે જે બંધાવું તે રાગદ્વેષ પરિણતિ યાજ્ય છે.

રાગદ્વેષ પરિણતિની નષ્ટતા જ્ઞાન ધ્યાનથી છે. આત્મા સ્વસ્વ-ભાવમાં રમણ કરે તો અનંત ભવોપાર્જિત કર્મરાશિને દૂર કરે છે અને ક્રમે સર્વ કર્મ પ્રકૃતિ વિકૃતિ સમૂલતઃ ક્ષય કરી પરમાત્મપદ આત્મવિષે પ્રગટાવે છે, આત્મજ્ઞાનથી પૃતાદૃશ સુખોત્પત્તિજ્ઞાન ક્રિ-

परमात्मदर्शन.

(१७५)

यामां प्रवर्तवाथी थायछे.

आत्मानुं स्वरूप दर्शावेछे.

“ जाति नहि हे आत्मकुं ”—आत्माने जाति नथी एटछे ब्राह्मण जाति, वणिक् जाति, कणबी, सोनार, लुवार. डेड, चंडाळ, इत्यादिजाति आत्मानी स्वरूपतः विचारी जोतां बिलकुल जणाती नथी. जाति देहकुलने आश्रितछे, आत्मा अरूपी तेथी न्यारोछे. माटे जातिमान् आत्मा नथी. कोइ जात्याभिमानथी हुं ब्राह्मण हुं, हुं वणिकहुं, हुं रजपुत हुं, हुं कणबी हुं, एम अज्ञानयोगे जाति अध्यास पोताना आत्मांमानी लेछे ते आत्मपद प्राप्त करी शकतो नथी. वस्तुतः विचारी जोतां मालुम पडेछेके जगत् व्यवहारमां जाति एक संज्ञा मात्र छे, आत्मांमं सदा ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि जाति कदी रहेती नथी अने रहेशे पण नहीं, व्यवहारमार्गे जातिनी कल्पना छे पण ते वस्तुतः सत्य नथी माटे जातिनो अध्यास आत्मांमं धारण करवाथी बहिरात्मपदनी प्राप्तिनो वियोग थतो नथी. जेम आकाशमां कोइ जाति नथी. तेम आत्मांमं पण कोइ जाति नथी अभिमानवाळा जडजीवो आत्मअनात्म विवेक शून्य बनी परमां अहंमत्त्वबुद्धिथी रागद्वेष परिणति भजी मानसिक अनेकशः संतापो अनुभवी आर्त रौद्रध्यान वश थइ अधोगति प्राप्त करेछे. “ जस-जाति अभिमान ” जेने जातिनुं अभिमान छे ते बाह्य पदार्थोमां धर्म मानेछे, जातिना अभिमानथी लोको परस्पर एक बीजानी निंदा करेछे, एक बीजाने जाति अभिमानथी हलका गणेछे. जात्यभिमानी जीव जातिमां राची माची रहेछे, उंची जातिवाळो कहेवातो होय तो नीच जातिवाळाने हलको गणेछे. पोतानी जातिमां राग बंधाय छे, अने अन्य जातिमां द्वेष बंधाय छे. पोतानी जातिमां ज धर्मछे अन्य जातिमां धर्म रहेतो नथी एम दृढवासनाथी भवमां बंधायछे.

(१७६)

आत्मस्वरूप.

माटे तेवा जीवो बहिर् दृष्टिपणाथी चिदानंद आत्मांमां सदा रहेला धर्मने प्राप्त करी शकता नथी. जात्यभिमानि जीवनी अंतरदृष्टि यती नथी, तेतो क्षणे क्षणे हुं ब्राह्मण छुं, हुं क्षत्रीय छुं, हुं वाणियो छुं, छुं एवी बुद्धि धारण करेछे, पण हुं ब्राह्मण नथी, हुं वणिकू नथी, हुं क्षत्रिय नथी, एवी बुद्धि धारण करी शकतो नथी, श्री यशोविजयजी उपाध्याय पण समाधिशतकमां कहेछे के—

“ दुहा. ”

जाति देह आश्रित रहे, भवको कारण देह ॥
ताते भव छेदे नहीं, जातिपक्षरति जेह ॥ १ ॥

इत्यादिकथी विचारतां पण जात्यभिमानि आत्मधर्म साधी शकतो नथी, माटे आत्मधर्मार्थी मुमुक्षु जनोए आत्मानुं स्वरूप समजवुं, अने बाह्य जात्याभिमानरूपभ्रमबुद्धि त्यागी अंतर्दृष्टिथी आत्मधर्म साधवो, परमार्थ शिक्षा इत्येवं.

“ दुहा. ”

लिंग देह उपर रहे, आत्मथी छे भिन्न;
तेमां शुं रंगाइये, रंगातां दुःख दीन. १२८
वर्णाश्रमना भेदथी, माने जे मन धर्म;
सत्य धर्म ते नवि ग्रहे, बांधे उलटां कर्म. १२९

भावार्थ—पुरुषलिंग वा स्त्रीलिंग आदि लिंग देहाश्रित छे, देह ज्यारे आत्माथी भिन्न छे, अलबत आत्मानि देह नथी त्यारे लिंग आत्मानुं कहेवायज केम ? पुरुषादि त्रणे लिंगो आत्माने कर्मोपाधिना संबंधथीज कहेवाय छे, हुं पुरुष ए अभिमान मनुष्य धारण करतो मायान्ध बनी हुं असंख्यप्रदेशी आत्मा एवो विवेक

परमात्मदर्शन.

(१७७)

भूली जाय छे, पुरुष लिंग प्राप्त थयुं ए कर्मना उदयथी छे, तेमां अहंता धारण करवी ते अज्ञानी जीवनुं लक्षण छे, पुरुष वा स्त्रीना अध्यासथी बंधातां आपणुं आत्मानुं शुद्ध स्वरूप भूलीएछीए, हुं अने माहं ए अभिमानथी त्रण जगत्मां कोइ आत्मानंदानुभवी थयो नथी अने थवानो नथी माटे वस्तुतः प्रियधर्मसाधक भव्यात्माओ लिंग अध्यासथी केम परमां रंगावुं जोइए ? अर्थात् कदी पण लिंगाध्यास मनमां स्फुरवा देवो नहीं, अने एमां जो रंगाशुं तो दुःख बडे दीन एटले गरीब अवस्था प्राप्त थशे एमा संशय नथी. कोइ मर्द पुरुषने चंपालाल, नपुंसक कहे तो त्वरित तेना मनभां आवशे. के मने नपुंसक कहेनार कोण ? एम संकल्प थतां क्रोधनो आविर्भाव थतां मुख तोबरा जेवुं फुली जशे. वखते चंपालालने त्रण चार अपशब्दो पण संभळावे, परस्पर एक बीजानो अपकर्ष करवा बाकी राखे नहीं, ए लिंगाभिमाननुं फळ छे. माटे विवेकनयनाधिष्ठाताओए परमात्मपद प्राप्त्यर्थ अन्तर्दृष्टि साधी एतादृश अभिमानने त्यजवो, ज्यां सुधी लिंगाध्यास छे त्यांसुधी जीव हुं परमात्मा छुं एवी दृढ भावना धारण करवाना अभावे जन्म मरणनी उपाधि संचय संग्रहेछे.

वर्ण, तेमज आश्रमभेदे जे आत्मिकशुद्धधर्मनो भेद मानेछे, ते शुद्ध शाश्वत आत्मधर्म प्राप्त करतो नथी, सत्यधर्म तेवा व्यवहारजडजनथी समजातो नथी. अने कदापि तेवा पुरुषनी आगळ कोइ सत्य धर्मनु दर्शावे तोपण कदाग्रहग्रस्त थवाथी वचनानुतो पण तेने विषवत् परिणमेछे, अने सत्य धर्म ते आत्मानो पोताना सहज स्वभावे सदाकाल पोतानाथी जरामात्र पण दूर नथी तेने अज्ञानान्धजीव विपरीत दृष्टिथी जाणी शकतो नथी.—जडमां आत्म धर्मना अभिनिवेशथी उलटां कर्म संग्रही तेना उदये अधोगति भजे छे, श्री

(१७८)

आत्मज्ञानभी कर्मनो नाश.

यशोविजयजी उपाध्याय पण समाधि शतकमां कहेछे के—

लिंग देह आश्रित रहे, भवको कारण देह;
ताते भव छेदे ननीं, लिंग पक्षरत जेह. १

जाति लिंगके पक्षमे, जिनकूं है दृढ राग;
ताते भव छेदे नहीं, जाति पक्ष रति जेह. २

जाति लिंगना पक्षमां जेने दृढ राग छे ते भवान्त कदापि करी शकता नथी. आत्माने जाति नथी के लिंग नथी जेम स्वप्नमां अनेक प्रकारनी जातियो तथा लिंगो धारण करायछे, अने ते जागीने जोतां कंड भासतुं नथी, तेम जाति अने लिंगाध्यास पण ज्यारे आत्माभिमुख चेतना थायछे त्यारे स्वप्नवत् लागेछे. हुं पुरुष वा स्त्री नथी. आ मंत्रनो मनमां १००८ वार जाप जरा श्राद्ध राखीने जिज्ञासु कर, पछे तारा मनमां केवा प्रकारना विचारो आवेछे ते विचार अने पहेलांना विचारोमां केटलो फेर पडेछे ते विवेकथी विचार. एकवार आ मंत्रप्रयोग श्रद्धाथी जे अजमावसे तेने अनुभवनी मालुम पडशे, हुं चंपालाल, मनसुखलाल नथी एम अर्ध कलाक पर्यंत धारणा करवाथी प्रथमनी अवस्था अने चालती अवस्थाना विचारोमां एक मोटो भेद पडतो पोताने मालुम पडशे, अने आत्म धर्म प्राप्त करवानी जिज्ञासानो उद्भव थशे. हुं त्यारे जाति लिंग मानवुं खोहुं छे, तो कोइ पोताने अमुक जातोवाळो कहीने बोलावे तो बोलवुं नहीं ? वा कोइ कहे के तुं पुरुष छे के स्त्री छे ? त्यारे एम कहेवुं के हुं तो पुरुष वा स्त्री पण नथी. आम जो वर्तीए तो चाले केम ? तेना प्रत्युत्तरमां समजवानुं के—अंतर्धी जाति वा लिंगनो अध्यास धारण करवो नहीं ? व्यवहारथी जाति वा लिंगना व्यवहारो कराय छे तेम करवा, पण अंतर्धी पोताना

परमात्मदर्शन.

(१७९)

मानवा नहीं. तेमज जाति वा लिंग आश्रित धर्म मानवो नहीं, धर्म आत्मानो अने धर्मी आत्मा अरूपी छे अने ते देह तथा जातिथी भिन्न समजवो. ए ज परमार्थ.

कुलाचारनी रीतमां, जे माने मन धर्म;

धर्म मर्म समजे नहीं, ले नहीं शाश्वत शर्म.१३०

भावार्थ—जे भव्यो अज्ञानदशाथी पोताना कूलना आचारमां धर्म मानेछे ते धर्म मर्म समजता नथी. अने धर्मज्ञानना अभावे शाश्वत शर्म पामी शकता नथी. कूलाचारनी प्रवृत्ति दरेकनी भिन्न भिन्न होयछे, अने ते प्रमाणे सर्व मनुष्योनी प्रवृत्ति थया करेछे, ज्ञानी पुरुषो कूलाचारनी रीतिमां धर्म मानता नथी. प्रायः कूलाचारनी रीति जे देशमां जे धर्म चालतो होय तेनी मिश्रताथी थइ होय छे;—जैनोनी कूलाचारनी रीति जैन धर्म फीलोसोफीथी मिश्रितछे, माटे जैनोनी कूलाचारनी रीतिमां धर्मना हेतुओमानो अंतर्भाव वर्ते छे. माटे तेनाथी विपरीत वर्तवुं नहीं—बाल जीवोने कूलाचारनी रीति पण व्यवहारथी धर्म साधनमां कारणी भूतछे आ वचन बोलवामां दीर्घदृष्टिथी विचार करतां घणो उंडो परमार्थ समायोछे, ते अर्धदग्ध उपलक डोळ घालु जनोना जाणवामां आवशे नहीं,—जैन धर्मनी सत्यताथी ते धर्म जे लोको आचरेछे तेनी कूलाचारनी रीति पण धर्मकारणमिश्रित होयछे, माटे श्रावकना कूलाचारे पण जे धर्मनी श्रद्धा—आचार ते श्रेयस्कर छे, जेम कोइ कूवामां पाणी (जल) ना होय अर्थात् सुकाइ गयुं होय तो पण ते खोदवा गाळवाथी जलनी सेरो फूटी कूवामां पाणि नीकळशे,—तेम जैन धर्म पण कूलाचारथी पाळतां ज्ञानीगुरुनो संग थतां तेनुं रहस्यं समजातां—समकीतनी प्राप्ति थशे, माटे समजु भव्यजनेए आ बाबतनेा विचार करवो—हालनो समय प्रथमना जेवो नथी, माटे जैनीओए

(१८०)

साधुनी क्रिया.

नहीं समजतां पण लोकिक देवगुरुनो त्याग तेमज देवपूजा-गुरुवंदन जैन देरासरे जवुं अन्यत्र नहीं, ए विगेरे ओघथी पळातो आचार पण धर्मनुं अंग जाणी त्यागवो नहीं, ज्ञानियोनी दृष्टिमां ते हलको छे, पण बालजीवोने तेथी चढवानुं छे, श्रावक कूलमां उत्पन्न थएलो माणस एटलुं तो समजशे के अरे हुं ती जैन छुं, मारो धर्म जैन छे, एम मोनी अन्य धर्म मानशे नहीं, तेम गुरुनो संग थतां समजतो थशे—कूलथी पण जैन धर्म पालनार, कूळमां उत्पन्न थनार विशेष धर्म समजशे नहीं तो पण मारो जैन धर्म छे एटलुं पण धर्माभिमान आवशे माटे सापेक्षपणे विचारतां व्यवहारनयथी श्रावक कूला-चारमां प्रवत्त थनारने धर्मनो प्राप्तिछे, अन्य कूळमां उत्पन्न थनारने माटे नहीं,—एकांत वादीओ कूळाचारमां धर्म मानेछे तेना निषेधपर आ वचन छे. जाति संबंधी पण अंतर् अभिमान त्याग करवो. कोइ एम चिंतवे के आपणे वर्णावर्ण गण्याविना डेड भंगी स्त्रीस्ति विगेरे सर्वनी साथे खावुं पीवुं, तेथी आपणो आत्मातो अभडातो नथी, त्यारे तेनी साथे खावा पीवामां शो दोषछे ? आम कोइ सडेल भ्रष्ट बुद्धिथी कहे तेनो प्रत्युत्तर के जे जातोनी साथे खावापीवानो व्यवहार नथी तेनी साथे खावाथी जाति अभिमान टळ्युं कंड कहेवातुं नथी, पण अंतरमां जाति अभिमान बिलकूल नहीं रहेवाथी अभिमान टळ्युं कहेवाय छे. जाति अभिमान ज्यांथी उत्पन्न थायछे त्यांथी तेनो नाश करवो जोइए. एज मुख्य परमार्थछे, इत्यादि घणुं कहेवानुं छे पण विस्तारभयथी लख्युं नथी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावनो विचार करी चालवुं.



परमात्मदर्शन.

(१८१)

इवे कुसाधु संबंधी कहेछे.

“ दुहा. ”

सत्य धर्म समजे नहीं, दे उलटो उपदेश;
 धर्म मर्म समज्या विना, अंतरमां वहे क्लेश. १३१
 स्त्रीविषयाशक्ति घणी, त्याग विराग न लेश;
 मन चंचल जेनुं सदा, लजवे साधु वेष. १३२
 शिष्य थइने रीसथी, वर्ते गुरुनी साथ;
 आत्महित ते नहि करे, विनयी ले शिवपाथ. १३३
 कपटी काळा कागडा, कुगुरु कर्मचंडाल;
 संगकदो करवो नहीं, भवतस अरहट्ट माळ. १३४

तत्त्वनो उपदेश अज्ञानी कुगुरुओ सत्य आपी शकता नथी.
 अने उलटां कर्म ग्रहेछे ते जणावेछे.

भावार्थ—आत्मानुं स्वरूप सम्यग् जाण्या विना जे गुरु एवं
 नाम धरावेछे, ते कुगुरु जाणवा, धर्मनो मर्म जरा मात्र समज्या
 विना आत्मापरमात्मानो उपदेश आपवा तैयार थइ जायछे, जीव,
 अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इत्यादिनुं किं-
 चिदपि ज्ञान होय नहीं, तेम छतां उपदेश आपे तेवा कुगुरुओ म-
 नमां क्लेश पामेछे, अने पोते पण बूडेछे, अने बीजाने पण बूडाडेछे,
 आ वचन लौकिक कुगुरु अने लोकोत्तर कुगुरुना उपदेशने उदेशी
 कहुंछे, सामान्यनीति शिक्षण हितशिक्षा तो परस्पर मनुष्यो एक बी-
 जाने आपेछे, तेनुं आ ठेकाणे ग्रहण कर्युं नथी. फक्त धर्मना उप-
 देश माटे लखवानुंछे, धर्मनो उपदेश आपवाने साधुओने अधिकार
 छे, संसारमां राचीमाची रहेला श्रावकोने तो धर्मनो उपदेश आप-

(૧૮૨)

સાધુની ક્રિયા.

વાનું ક્યાંથી હોય ? માટે શ્રાવકવર્ગને ઉદ્દેશીને પણ લલ્હું નથી. ઉપદેશનો અધિકાર અધિકારી વિના નથી. સામાન્યતઃ શ્રાવક વાંચે તે માટે ના નથી. હવે મૂઝ વિષય ઉપર આવીયે, લૌકિક તેમ લોકોત્તર કુગુરુઓ અજ્ઞાનદશાથી પોતે પોતાના આત્માના વૈરી થાયછે. અને અન્ય જનોના આત્માના પણ વૈરી બનેછે. પોતે હિંસા કરે, અસત્ય વદે, પરવસ્તુ ગ્રહે, અબ્રહ્મમાં લીન હોય, સ્ત્રી પરિગ્રહના ધારી હોય અને અંતરથી વિદ્યામાં રાચી રહેનાર ઝૂંડની પેઠે પૌદ્ગલિક સુખમાં અહર્નિશ અભિલાષી હોય. એવા કુગુરુઓ અધોગતિ ભાક્ થઈ, અનેક પ્રકારના કલેશો પામેછે.

જેના મનમાં ત્યાગ તથા વૈરાગ્ય લેશ માત્ર પણ હોય નહીં, અને સ્ત્રી ત્રિષયોની આશક્તિ ઘણી હોય અને હસ્તિકર્ણવત્ વા વિશુત્વત્ જેનું મન ચંચલતાને ભજતું હોય, ઇટલે પરવસ્તુમાં મન રમણ કરતું હોય એવા સાધુનો વેષ જો કે ધારણ કરેછે, તોપણ તે સાધુવેષને લજવેછે. જેમ કોઈ મનુષ્ય બહુતર વગેરે પહેરી શુદ્ધમાં લડવા જાય અને જ્યારે લડાઈ થાય ત્યારે નાસે. તે જેમ વીરપણાને લજવેછે તેમ અન્ન પણ જાણવું. દુઃસ્વર્ગર્ભિતવૈરાગ્ય વા મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી દીક્ષા અંગીકાર કરી પશ્ચાત્ અંતર દૃષ્ટિ વિના વાહ્યપૌદ્ગલિક વિષયોમાં મન વર્તે, અને તેના યોગે આર્તધ્યાનને રૌદ્રધ્યાનનો પરિણામી બની ઉપરથી સાધુ વેષના સદ્ભાવે સાધુ કહાવે, તો તે અવશ્ય પોતાના આત્માને ઠગેછે, અર્થાત્ તેને રાગ દ્વેષની અશુદ્ધ પરિણતિ ઠગેછે.

વહી જે ધર્મદાનથી તથા ધર્મોપદેશ દાનથી વા દીક્ષા આપવાથી પોતાના ગુરુ તરોકે જે હોય અને પોતે શિષ્ય હોય તેમ છતાં રીસના હેતુઓનો સંબંધ પામી રીસથી ગુરુની સાથે વર્તે ગુરુની નિંદા કરે વા તેમનાં દુષણો શોધે— તેમનોઉપકાર ખૂલી જઈ તેમની આજ્ઞા

परमात्मज्ञान.

(१८३)

प्रमाणे करे नहीं, तेवा अविनेय शिष्यो आत्महित करी शकता नथी, हराया ढोरनी पेठे स्वच्छंदाचारपणे वर्ती बहिरात्मदशांमां आयुष्य निर्गमन करता आत्महित साधी शकता नथी. जे शिष्यो नम्र विनयी परमार्थना ग्राहक लज्जा, आदि गुणोधी अलंकृत छे ते शिष्यो मुक्ति मार्ग ग्रहेछे.

कपटभावथी परिपूर्ण कृष्णलेइया अंतर्मां वर्तवाथी कृष्ण सर्प सदृश, चंडाल सदृश जे कृत्यो करता होय एवा कुगुरुओनो हे भव्यात्माओ संग करशो नहीं. एतादृश कुगुरुओनी भववृद्धि अ-रहहमाळन्यायवत् जाणवी. खीस्ति आदि कुगुरुओनी संगति चेपी रोग समान छे तेथी सदा दूर रहेवुं, विशेषतः लौकिक कुगुरुओने माटे आ वचन छे. कदापि संसारी जीवने कार्यवशात् खीस्ति आदिक कुगुरुओनी संगति करवी पडे तो पण तेमना वचन सांभळवा नहीं, अने तेमना उपदेशनी श्रद्धा करवी नहीं, कारण-के तेथी संसारनी वृद्धि थाय, मिथ्यात्वनी वृद्धि करनार पादरीओ विगेरे कुगुरुओ छे, माटे मोक्षार्थी जीव कुगुरुनो त्याग करी मुगुरु-ने भजे-सेवे.

“ दुहा. ”

ममता त्यजी तुं बाह्यनी, अंतर्धनने देख;
 अंतर्धन ते-धर्म छे, सत्यज मानी लेख. १३५
 अरूप अंतर्धनतणी, रूद्धि त्हारी पास;
 तेनी भ्रमणाए करी, करे शुं अन्य प्रयास. १३६
 अन्य प्रयासे दुःख राशि, परपरिणति परतंत;
 परपरिणतिमां लीन जे, करे न भवभय अंत. १३७

(१८३) योग्य साधु सत्क्रियाथी आत्मधर्म साधी शक्ये.

संसारी अवळा फरे, सवळा फरे फकीर;
नमो नमो ते सद्गुरु, भयभंजन वडवीर. १३८

भावार्थ—हे आत्मा सद्गुरु संगत्या आत्मतत्व समजी बा-
ह्यनी एटले धन, धान्य, क्षेत्र, स्त्री, पुत्र, गृह, हाट, राज्यादि जे
पर वस्तु तेनी ममता त्यजी हे चेतन तुं तारा अंतर्धनने देख-ज्ञान
दर्शनचारित्र रूप अंतर् धन आत्मानी अंदर रहुंछे तेने हे आत्मा
निहाळ, अंतर् धन ताराथी दूर वा भिन्न नथी, अंतर् धननी प्राप्ति-
थी अपूर्व शान्तिनो भोगी आत्मा बनेछे, अंतर्धन विना क्षायिक
सुखनी प्राप्ति कदी थवानी नथी. दरेक ग्रंथोमां आत्म स्वरूपना हि-
तने माटे विवेचन छे, सात नयथी सम्यग् आत्मानुं स्वरूप जाणवुं.
एकांत पक्षथी आत्म स्वरूप जे जाणेछे ते सम्यग् परमात्मपदनी
प्राप्ति सन्मुख थइ शकता नथी. आत्मानुं ध्यान मनन करवाथी
आत्मगुणोनो आविर्भाव थायछे, ते संबंधी श्री देवचंद्रजीए आत्म-
स्तुति नीचे प्रमाणे करीछे.

स्तवन--ध्यानदीपिका.

गुण अनंत धर जीवने, वंचे भवमे कर्म-धरोनिज भावना-ए टेक.

राग द्वेष मुख हि वहदया. शत्रु हणु धरी ध्यान.	धरो०	
आत्म लखो निज ज्ञानशुं, बाळी कर्म अज्ञान.	ध०	२
कर्म हणु तिम ध्यानशुं, जेम न पडुं भवमाहि.	ध०	
भवज्वर अज्ञाने नडया, नवि दीठो शिव राह.	ध०	३
परमात्म जग गुरु ठग्यो, निरस विषयने संग.	ध०	
सर्वज्ञ आत्म नवी लेखीयो, भ्रम अज्ञाने रंग.	ध०	४
आत्म स्वरूप पिछाणवा, ज्ञान दृष्टिए करी देख.	ध०	
पंच ध्येय अरु आत्मा, ज्ञान गुण एक लेख.	ध०	५

परमात्मदर्शन.

(१८५)

नित्य छतोछे सहज ते, केवळ गुण मुज मांहि.	ध०
मोह दाह त्यां पीडवे, ज्ञान अमृत ज्यां नांहि.	ध० ६
कर्म उदय चउगति भुं, निश्चय सिद्ध स्वरूप.	ध०
कर्मने भजुं केम हुं, अनंत चतुष्टय भूप.	ध० ७
तजी आशा निज शक्तिशुं, हुं आनंद स्वभाव.	ध०
छेद अज्ञान अनादिनो, आज लहचो निज दाव.	ध० ८
एम जाणी धीरज धरी, रागादि मळ खोय.	ध०
ध्यावे आतम शक्तिशुं, धर्म शुद्ध ध्यान होय.	ध० ९
ध्यान ध्येय स्वरूपथी, ध्यावो स्ववेद ध्यान.	ध०
कर्महीन सर्वज्ञता, निर्मल शील भगवान.	ध० १०
जड चेतन जीवादि ए, ध्येय स्वभाव पिडाणि.	ध०
ध्यान लहो मन स्थिर करो, ज्ञान ध्याए आणि.	ध० ११
परमेश्वर परमात्मा, ध्येय अरूपी देव.	ध०
द्रव्यार्थिक नय शाश्वतो, ए परमातम सेव.	ध० १२
भवद्रुम क्षयकर शुद्धछे, ज्ञान थकी पर भिन्न.	ध०
जगत् सकल आदर्श ज्युं, जीर्ण ज्योतिमय.	ध० १३
दर्शन ज्ञान आनंदमय, अक्षर विगत-विकार.	ध०
इंद्रि विणुं निकल गुणी, शान्त जाण शिवधार.	ध० १४
शुद्ध अष्ट गुण युक्तछे, निर्मल अमेय अमेय.	ध०
पर त्यागी अक्षय गुणी, ज्ञानीने आदेय.	ध० १५
अणुथी पण जे सूक्ष्मछे, थंभथी पण जे वृद्ध,	ध०
जगत् पूज्य निर्भय सदा, परमातम शिव सिद्ध.	ध० १६
ध्याने कर्म सहु गळे, जगगुरु अमल अरूप.	ध०
जिण जाणे सहु जाणीये, जाय अविद्या धूप.	ध० १७
तत्त्व दृष्टि निज थीर हुवे, जाणे निज अनुभूति.	ध०

(१०१)

आत्मस्वरूप.

घरो ध्येय ज्ञेय आदेय ते, अंतर आतम भूत.	ध० १८
वचन अगोचर भ्रम विता, चिंतवी सहज अनंत.	ध०
जास ज्ञानमें अंशज्युं, भावे द्रव्य अनंत.	ध० १९
आत्म ज्ञानथी आत्मने, जाण्यां थाये सिद्धि.	ध०
मुनि तन्मय गुण तिहां लहे, तजी ग्रहीका नहीं लब्धि.	ध० २०
लीन थइ ग्रहे एकता, ध्याता ध्यान सु ध्येय	ध०
परमात्मा अंतरात्मा, एक अभिन्न अमेय.	ध० २१
कटमे कट कर्त्ता तणी, दिसे दुविधा रीति.	ध०
पण ध्यान ध्येय ए आत्मा, एथी नवीय परतीत.	ध० २२
भवमें भूम्यो अज्ञानथी, विण लाधा निज नाण.	ध०
परम ज्योति जग दुःखहरु, तेहिज अनुभव जाण.	ध० २३
भावे एम निज भावना, ध्यान बीज गुणधाम.	ध०
देवचंद्र सुख सागरु, ध्यान अमूलख पाम.	ध० २४

श्री देवचंद्रजी पण ए प्रमाणे आत्म स्वरूपनुं वर्णन करेछे. गुण विशिष्ट आत्माने संसार चक्रमां वर्ततां आत्मस्वरूपनी अनु-पयोगताए परस्वभावमां रमणपणाथी परपुद्गलरूप जे कर्म तेनुं ग्रहण समय समय प्रति थतुं जायछे, माटे हे चेतन स्वस्वरूप रम-णता रूप निजभावनानो दृढ प्रयास अने स्थिरताथी आदर कर. अनादि कालथी तुं परभाव एटले पुद्गल द्रव्यना वर्ण, गंध, रस स्पर्श, मय पर्यायोनी लालचमां-तृष्णामां, ग्रहणमां, ममत्त्वमां, पराभिमुख चेतना करी अशुद्ध परिणति धारी, स्वभान भूली लोभायो पण परवस्तु पोतानी थइ नहीं उलटुं राग द्वेषनायोगे पुद्गल द्रव्यने आ-कर्षी कर्मरूप परिणमावी अनेक योनिमां त्रिचित्र देहो धारी स्व-ऋद्धितुं आच्छादन करी परपुद्गल भोगी थइ राजा जेवो पण तुं

परमात्मदर्शनः

(१८७)

रंज बन्धो, राग द्वेषरूप शत्रुने हणी आत्मीयध्यानमां प्रवृत्ता
थाउ, अने ज्ञान शक्तिथी निजस्वरूप जाणुं. आत्मज्ञान यतां
परमां बंधाएलो अज्ञानाध्यास स्वतः दूर थायछे, आत्मा निर्मल
थतां परमात्मा कहेवायछे-तेनुं स्वरूप कहेछे.

श्लोक.

साकारं निर्गताकारं, निष्क्रियं परमाक्षरं ।

निर्विकल्पं च निःकंपं, नित्य मानन्दमन्दिरम् १

आत्मा ज्ञानरूप उपयोगथी साकारछे, तथा दर्शनरूप उपयो-
गथी निराकारछे तथा आत्मा निष्क्रिय निश्चय नयथी जाणवो.
प्रश्न-शरीरस्थ आत्मा साक्रियछे, अनेक प्रकारनी खावा पीवानी
गमनागमननी क्रिया करेछे, छतां ते निष्क्रिय केम जाणवो ?
उत्तर-ज्यां सुधी जीवना प्रदेशोनी साथे कर्म लाग्युंछे त्यां सुधी
ते सक्रियछे-अने कर्मनो नाश सर्वथा थतां निर्मल सिद्ध
बुद्ध परमात्मा निष्क्रियछे. शरीरस्थ आत्मा व्यवहार नयथी
सक्रियछे कर्मनो संबंधछे माटे, अने निश्चयनयथी अक्रिय
जाणवो. वस्तुतः आत्मानुं जेवुं स्वरूप होय तेवुं निश्चयनय वर्णवे
छे, माटे आत्मानुं वस्तुतः ध्यान करतां निष्क्रिय भाववो, अने छे
पण निष्क्रिय.

परमाक्षरं-क्षर एटले खरवुं, पोतानुं स्वरूप बदलवुं. परम ए-
टले सर्वोत्कृष्टपणे पोतानुं स्वरूप नहि फेरवनार आत्माछे, अनादि
कालथी विभाव दशायोगे भवचक्रमां आत्मा परिभ्रमेछे तोपण
तेना असंख्यात प्रदेशमांथी एक प्रदेश पण खरी गयो नहि, तेमज
अनंत गुणोर्मानो एक गुण पण खरी गयो नथी, माटे आत्मा
अक्षर, अनदृष्टिथी जाणवो. यद्यपि आत्माना प्रदेशोनुं तथा गुणोनुं

(૧૮૮)

આરમ્ભસ્વરૂપ.

કર્મથી આચ્છાદન થયું છે તો પળ પ્રદેશો તથા ગુણોનો નાશ થયો નથી તેમ પળ થવાનો પળ નથી ત્રણ કાલમાં અક્ષર રૂપ આત્મા છે.

પ્રશ્ન—પરમાક્ષર અસંખ્યાત પ્રદેશી આત્મા કીડી અને હાથીના શરીરમાં એક સરખો કેમ મનાય ? કીડીનું શરીર છોડી જ્યારે હાથીનું શરીર ધારણ કરે ત્યારે તેનો વિકાસ થયો, અને જ્યારે હાથીનું શરીર ત્યાગી કીડીનું શરીર ધારણ કરે ત્યારે આત્માનો સંકોચ થયો, અસંખ્ય પ્રદેશી આત્માનો સંકોચ વિકાસ થયો ત્યારે તે નાના શરીરમાં ળઘુ અને મોટા શરીરમાં મહાન્ થયો ત્યારે આત્માનું એકસરખું રૂપ રહ્યું નહીં, દેહમાત્ર વ્યાપી જીવ થયો તેનું કેમ ?

ઉત્તર—

માથા.

જહ પડમ રાય રયણં, સ્વિત્તં સ્વીરં પમાસયદિ સ્વીરં ॥
તહ દેહી દેહસ્થો, સદેહમત્તં પમાસયદિ ૧

છાયા.

યથા પદ્મરાગ રત્નં, ક્ષિપ્તં ક્ષીરે પ્રમાસયતિ ક્ષીરં;
તથા દેહી દેહસ્થ, સ્સદેહ માત્રં પ્રમાસયતિ. ૧

માર્થ—પદ્મરાગરત્ન દુગ્ધથી ભરેલા વાસણમાં નાંચીએ તો તે રત્નમાં એવો ગુણ છે કે—તેની પ્રમાથી સર્વ દુગ્ધ તદ્વર્ણમય થઈ રહે છે. જો નાની વાટકીમાં દુગ્ધ ભરી અંદર પદ્મરાગરત્ન નાંચીએ તો પદ્મરાગના રંગ સરખું સર્વ દૂધ થઈ જાય છે. તેમજ મોટું કુંડું હોય તેમાં દૂધ ભરી પદ્મરાગ રત્ન નાંચીએ તો તે રત્નની પ્રમા તેટલા સર્વ દૂધમાં વ્યાપી જાય છે. તથા સંસારી જીવ પળ અનાદિ કાલથી કષાયોદ્વારા મલીન થતો શરીરમાં રહે છે. શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશોવડે વ્યાપ્ત થઈ રહે છે, સ્નિગ્ધ પૌષ્ટિક આહારથી જેમ જેમ શરીર

परमात्मदर्शन.

(१८९)

वृद्धि पामेछे, तेम तेम शरीरनी अंदर रहेला आत्मप्रदेशो पण तेटला शरीरमां व्याप्त थायछे, मोटा शरीरमां जीवप्रदेशो विस्तारपूर्वक रहेछे, नाना शरीरमां शरीरने व्यापी रहे तेवी रीते आत्मप्रदेशो रहेछे, असंख्यात प्रदेशनी व्यक्ति स्वरूप जीव जाणवो, जो के आत्मा शरीरादि परद्रव्यथी जुदोछे तोपण संसार अवस्थामां अनादि कर्म संबंधथी नाना प्रकारना विभाव भाव धारण करेछे ते विभाव भावोथी नवीन कर्मबंध थायछे, बळी ते बांधेलां कर्मोना उदयथी फरी एक देहथी देहान्तर धारण करेछे, अने तेम अशुद्धकारक चक्रथी संसारवृद्धि पामेछे, संसार अवस्थामां जीव कर्मसहित होय छे अने मोक्षदशामां कर्मरहित आत्मा सादि अनंतभंगें सदा समये समये अनंत सुख भोगवतो बर्तेछे, संसारी यद्यपि आत्माछे तोपण तेनी सत्ताथी अक्षरछे, तथा सत्तातः निर्विकल्प आत्मा जाणवो, विकल्प संकल्प मनना योगे थायछे, विकल्प संकल्प योगे राग द्वेषमां आत्मा परिणमेछे, हुं आत्मा ज्यारे विकल्प रहीतछुं तो केम विकल्प संकल्प करूं ? परभावमां रमतां विकल्पादि उद्भवेछे, माटे परभावमां रमणता निवारवी, बाह्यदृष्टि योगे आत्मा परभावमां परिणमेछे माटे मुमुक्षु भव्यजनोए बाह्यदृष्टि प्रचार वारवा माटे अंतर्दृष्टिथी आत्मधर्म तरफ क्षणे क्षणे लक्ष्य आपवुं, अंतर्दृष्टि यतां बाह्यवस्तुमां परिणमेलो मननो वेग अटकतां मन अंतरात्मा प्रति वळेछे, एम प्रतिदिन सतत दृढ अभ्यास यतां पोतानी ऋद्धिनो स्वयं अनुभव थायछे. कहुं छे के—

श्लोक.

बहिर्दृष्टि प्रचारेषु, मुद्रितेषु महात्मनः ।

अंतरेवावभासंते, स्फुटाः सर्वाः समृद्धयः ॥ १ ॥

महात्माने बहिर्दृष्टिना प्रचारो बंध थए छते पोताना आत्माप्रा

(१९०)

आत्मस्वरूप.

सर्व समृद्धियो भासेछे, बहिर्दृष्टिथी देखाता पदार्थोमां अहं ममत्त्वः बुद्धिथी बंधाएला जीवने अंतर्दृष्टिनी प्राप्ति थती नथी, अंतर्दृष्टिना। अभिलाषी जीवोए निम्न लिखित विषयोनुं पुनः पुनः मनन करवुं.

- १ प्रथम विषय—हुं कोण ? हुं क्यां छुं ? साथी छुं ?
- २ द्वितीय विषय—हुं चेतन के जड ? चेतननो धर्म शो ? जडनो धर्म शो ?
- ३ तृतीय विषय—देखाती वस्तुओमां हुं छुं के नहीं. दृश्य वस्तुओमां मारापणुं शुं ?
- ४ चतुर्थ विषय—हुं क्यांथी आव्यो ? क्यां जइश ?
- ५ पंचम विषय—मनुष्य जन्मनी साफल्यता साथी ?
- ६ षष्ठ विषय—धर्म क्यां रहेछे ? तेना हेतुओ कोण ?
- ७ सप्तम विषय—हुं संसारमां जन्मजरामरण पासुंछुं तेनुं शुं कारण ?
- ८ अष्टम विषय—संसारमां आत्मा क्यांरथीछे ?
- ९ नवम विषय—आत्मा निर्मल परमपद साथी पामे ?
- १० दशम विषय—कर्मनो कर्ता भोक्ता आत्मा कर्मनो नाश शी रीते करी शके ?

ए दश महाविषयो संबंधी भव्यात्माए एक कलाक बे कलाक प्रतिदिन विचार करवो.

प्रथम विषय संबंधी विचार—कोऽहम् ? हुं कोण छुं ? जड के चेतन ?, ज्ञानशून्य जडनुं लक्षणछे, अने हुं तो ज्ञान गुणवाळो भासुं छुं. त्यारे हुं चेतन, शुद्ध आत्मद्रव्य तेज हुं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आदि गुणमय हुं आत्मा ते शिवाय हुं अन्य नथी.

हुं क्यां छुं ?—हुं संसारी छुं तेथी शरीर प्राणरूप जे जड-वस्तु तेमां रह्योछुं. जेम म्यानमां असि रहे पण जेमम्यानथी भिन्नछे तेम हुं शरीर के जे सप्तधातुमय तेमां वस्योछुं पण तेथी न्यारो छुं.

हूं शायी छुं ? अनादि एटले जेनी आदि नथी एवो हूं आत्मा अनादि कालथी अज्ञानयोगे तथा रागद्वेषयोगे अशुद्ध परिणति योगे अष्टकर्मग्रही अने ते कर्मयोगे शरीर ग्रही तेमां कर्मथी वस्यो छुं.

द्वितीय विषयविचार—हूं चेतन के जड ? अलबत ज्ञानदृष्टिथी विचारतां हूं ज्ञानमय चेतनछुं, चेतन, आत्मा वा जीव ए त्रण पर्याय वाची शब्द जाणवा. हूं जडथी भिन्नछुं, अनंत काळ गयो पण हूं आत्मा अव्ययछुं, अजीव पदार्थने हूं जाणुंछुं तेथी हूं तेनो ज्ञाताछुं अने ते ज्ञेय पदार्थछे, जेटली दुनियामां वस्तुओ देखायछे तेथी हूं भिन्नछुं पंचभूतथी पण हूं भिन्नछुं, पुद्गलास्तिकाय, धर्म, अधर्म, आकाश, कालद्रव्य, अजीवछे अने हूं तो जीवछुं.

तृतीय विषयविचार—देखाती वस्तुओमां हूं आत्मा नथी. जे जे वस्तुओ चक्षुगोचर थायछे ते स्वरूप हूं नथी, ते दृश्यमान धनादिकमां मारापणुं मानवुं ते स्वप्ननी पेठे भ्रांतिछे, अर्थात् स्वप्नमां देखाती वस्तुओने मारी मानवी ते जेम खोडुं भ्रांतिछे, तेम चक्षुवडे देखाती वस्तुओमां मारापणुं मानवुं ते केवळ भ्रम मोहदशाछे.

प्रश्न—चक्षुथी दृश्यमान वस्तुओथी अनेक प्रकारनां कृत्यो थाय छे, कोइ वस्तुओ आहाररूपे होयछे, तेना भक्षणथी क्षुधा शमेछे, चक्षुथी दृश्यमान जलथी तृषा शान्त थायछे, एम प्रत्यक्षने वस्तुओना फायदा मालुम पढेछे, तोते पदार्थने स्वप्नना पदार्थो सरखा केम कहा ? स्वप्नना पदार्थोथी कंड कार्य थतुं नथी. अने चक्षुद्वारा दृश्यमान पदार्थोथी कार्य थायछे माटे सादृश्यपणुं शी रीते संभवे ?

प्रत्युत्तर—हा अलबत स्वप्नना पदार्थो अने चक्षुषा दृश्यमान पदार्थोमां कार्यभेदे मोडुं आंतरुंछे, पण चक्षुथी देखाता पदार्थो तेमज स्वप्नमां भासता पदार्थोमां आत्मा नथी, अलबत ते वे

(૧૧૨)

આત્મસ્વરૂપ.

આત્માથી ન્યારાણે, ચક્ષુથી દેખાતા આકારો અને સ્વપ્નમાં દેખાતા આકારો પુદ્ગલ દ્રવ્યનાણે, અને પુદ્ગલ દ્રવ્યથી આત્મા ત્રણે કાલમાં નિશ્ચયનયતઃ જોતાં ભિન્નણે, માટે ભિન્ન વસ્તુમાં આત્મપણાની બુદ્ધિ ભ્રાંતિ માત્રણે, માટે જેવી સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થોમાં મારાપણાની બુદ્ધિ સ્વોટી તેના સરસ્વીજ ચક્ષુષા દેખાતા પદાર્થોમાં મારાપણાની બુદ્ધિ સ્વોટી જાણવી.

પ્રશ્ન—ત્યારે ચક્ષુથી દેખાતા સર્વ પદાર્થો અસત્ય સમજવા ? અને જો તે અસત્યણે તો તેમાં મમત્ત્વ ભાવ કેમ ઉત્પન્ન થાયણે ?

પ્રત્યુત્તર—ચક્ષુથી દેખાતા સર્વ પદાર્થો પુદ્ગલના પર્યાયોરૂપે સત્ય ઇટલે અસ્તિત્ત્વ યુક્ત જાણવા, અને તે પુદ્ગલ પર્યાયરૂપ પદાર્થો આત્મસ્વરૂપે નથી ઇટલે આત્માથી ભિન્નણે, આત્મપણું તેમાં કંઈ નથી માટે આત્મઅપેક્ષા ઇ તે અસત્ય જાણવા, આત્મદ્રવ્યમાં પુદ્ગલ પર્યાયરૂપ પદાર્થોનું અસ્તિત્ત્વ નથી કિંતુ આત્મદ્રવ્યમાં પુદ્ગલ પર્યાયરૂપ પદાર્થોની નાસ્તિતા સદા સમયે સમયે પરિણમી રહીણે, તદ્દપેક્ષયા અસત્ય જાણવા, અને પુદ્ગલરૂપે તે સત્ય જાણવા, માટે પુદ્ગલ વસ્તુઓ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોતાં આત્માથી અત્યંત ભિન્નણે તેમાં મારાપણાની બુદ્ધિ અજ્ઞાન તથા મોહથી ઉત્પન્ન થાયણે, જ્યારે અજ્ઞાન નાશ થતાં જ્ઞાન પ્રગટેણે ત્યારે મોહનો નાશ થતાં પરવસ્તુમાં થતી અહંમત્ત્વબુદ્ધિ નાશ પામેણે.

શંકા—જ્યારે આ પ્રત્યક્ષ દેખાતું શરીર પોતાનું નથી ઇમ જાણ્યું ત્યારે કોઈ શરીરનો ઘાત કરે તો શું કરવા દેવો ?

સમાધાન—કોઈ શરીરનો ઘાત કરે તો બિલકુલ કરવા દેવો નહીં. અને ડલડું શરીરનું સંરક્ષણ કરવું યતઃ શરીરમાયં સ્વલુ ધર્મ

परमात्मदर्शन.

(१९६)

साधनं प्रथमं तो शरीरज धर्म साधनमां कारणीभूतछे. यतः
कहुं छे के-

श्लोक.

शरीरं धर्मसंयुक्तं, रक्षणीयं प्रयत्नतः
शरीराज्जायते धर्मः पर्वतात्सलिलं यथा. १

भावार्थ-धर्म संयुक्त एवा शरीरतुं यत्न पूर्वक रक्षण करवुं,
कारण के जेम पर्वतथी नदी उत्पन्न थाय छे तेम शरीरथी धर्मनुं
साधन थाय छे ने वळी कहुं छे के शरीरंच पुद्गल धर्मत्वात् आ-
हाराधारं-शरीर पुद्गल रूपछे माटे ते आहारना आधारे रहेछे
कहुंछे के-

गाथा.

देहो अ पुग्गलमओ । आहाराइ विरहिओ न भवे ॥
तय भावे नय नाणं । नाणेण विणा कओ तित्थं. १

भावार्थ-देह एटले शरीर पुद्गलमयछे, अने ते शरीर आ-
हार विना होतुं नथी. तेना अभावे ज्ञान नथी अने ज्ञान विना
तीर्थ नथी. पूर्वबार वर्षनी दुकाली पडी हती त्यारे आहारना अभावे
श्रुत ज्ञाननी विस्मृति घणी थइ गइ माटे आहार पण श्रुत ज्ञानना
अभ्यासमां चारित्र पालनमां कारणीभूतछे. अने आहार विना
ज्ञान नाश पामेछे, आहार पुनः बे प्रकारनोछे, सावद्य आहार अने
निरवद्याहार-जीवमय जे आहार ते सावद्याहार, अने जीव रहित
जे आहार ते निरवद्याहार-सावद्यआहार भक्षणथी कर्म बंध था-
यछे. माटे मोक्षाभिलाषिजीवोण निरवद्याहारनुं ग्रहण करवुं, तेमां
मुनिराज तो सर्वथा सावद्याहारना त्यागी होयछे, सावद्यआहारना
निमित्तथी जीवो सप्त नरक पर्यंत गमन करेछे यतः कहुंछे के-

(१२४)

साधुनी क्रिया.

गाथा.

आहार निमित्तेणं, जीवा गच्छन्ति सत्तमिं पुढवीं ।
तंडुल जसं आहरणं, भणियं सुत्ते जिणंदेहिं. १

भावार्थ—आहारनो अभिलाषी तंडुल तत्स्य बीजा जीवोने भक्षण करवानी इच्छामात्रथी सातमी नरक सुधी जायछे. माटे भवभीरु मुनिवर्यो शुद्धआहार संयमार्थे ग्रहण करेछे, यतियोने आहार शुद्धि अति दुष्कराछे कहुं छे के—

गाथा.

आहारे खलु सुद्धी, दुलहा समणाण समणधम्ममि ।
ववहारे खलु सुद्धी, दुलहा गेहीण गिहधम्मे. १

श्रमणोने श्रमण धर्ममां वर्ततां निर्दोष आहारनी प्राप्ति दुर्लभछे, तेम गृहस्थोने गृहस्थावासमां वर्ततां व्यापारादिमां व्यवहार सुधी दुर्लभाछे. शुद्ध आहारथी शरीरनुं पोषण संयमार्थम् श्रमणो करेछे प्रसंगथी आहारनुं विवेचन करी शरीर धर्मसाधनमां कारणी भूत छे एम सिद्ध कर्युं, धर्मीजीवोनुं शरीर धर्म माटेछे तेम पापी जीवोनुं शरीर पाप माटे जाणवुं. चतुरशीति लक्ष जीवयोनि परिश्रमण करतां दुष्प्राप्य मनुष्य शरीर चिंतामणि रत्न जेवुं पामी जे मनुष्यो खावां पीवामां. तेमज विषय सुख भोगववामां, मोज मजा मारवामां शरीरनी सार्थकता समजेछे, ते जीवो मूढ अविवेकी पशु समान जाणवा. देवताना शरीर करतां मनुष्य शरीर अत्यंत उपयोगीछे. मनुष्य शरीरथी मोक्ष प्राप्ति थायछे, बीजा शरीरथी मोक्ष प्राप्ति थती नथी, माटे शरीरनुं आहारादिकथी पोषण करवुं. रोगादिक थये छते रोगनाशार्थ औषध दवा करवी. कोइ शरीरनो घात करे तो करवा देवो नहिं कारण के शरीर विना धर्म साधन थतुं नथी.

परमात्मदर्शन.

(१९५)

शरीर बाह्ये एव मातुं नही, कारण के ते पुद्गलछे शरीरथी न्यासो आत्मा भाववो, शरीर आत्म धर्मनी प्राप्तिमां निमित्त कारणछे एवं, उपरना प्रश्ननो उत्तर थयो.

प्रश्न—गजसुकुमाल मुनीश्वरे इमज्ञानमां शरीर घातनो उपसर्ग केम सहो ? केम तेमणे शरीरनो घात करवा दीथो ?

मृत्युत्तर—गजसुकुमालेतो काउसग्ग कर्यो हतो अने एवी तेमनी श्रद्धा हती के शरीरना उपसर्गथी पण चळया नहीं. सर्व जीवोने माटे एवी स्थीति नथी. अंतरथी भिन्नपणे आत्मभावमां वर्तवुं ? व्यवहारथी तेनुं संरक्षण करवुं, गज सुकुमालनी एवी भवितव्यता हती. तेमज तेनी अंतर्भावना प्रवर्द्धमान हती, तेथी एवी स्थीति बनी. एकांत जैनमार्ग नथी तेथी शंका करवी नहीं, काल, स्वभाव, नियति, कर्म, अने उद्यम ए पंच कारणोथी मोक्षरूप कार्यनी सिद्धि थायछे, शरीरनी सार्थकता व्रतधारण तपश्चर्या विगरेथी छे. अंते शरीर आत्मानुं थयुं नथी अने थशे पण नहीं. नित्य पर्व सम शरीरनी लालना पालना करवामात्रथी आत्महित थतुं नथी पण तेथी धर्मनां कार्य करवाथी आत्महित थायछे ? त्रण धन दरेक मनुष्यनी पासे रहेछे, प्रथम बाह्य धन. सुवर्ण, रूपुं, जवाहीर, रत्न, राज्य विगरे जाणवुं, ते बाह्य धन अनित्य चंचल जाणवुं, कोइनी पासे बाह्य धन विशेषछे तो कोइनी पासे स्तोकछे. ए बाह्य धननी अपेक्षाए गरीब तंगरमां भेद पडेछे, बाह्य धनने माटे अनेक प्रकारन्त उद्योगो क्लेशो देशोदेश परिभ्रमण आदि उपाधियो वेठवी पडेछे. किंतु ए बाह्य धननो ढगलो मरती व्रत्तते साथे छेइ मथो नथी अने छेइ जवानो नथी, बाह्य धननी ममताए अह-

(૧૨૬)

આત્મજ્ઞાનથી કર્મનો નાશ.

નિશ્ચ આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનમાં આત્મા પરિણમી અનેક પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે. અને બહિર્ભાવે રાત્રીમાત્રી અનેક જન્મની વૃદ્ધિ કરે છે.

જેમ કુંભકાર ચક્રને એકવાર વેગ આપે છે તેથી તે ચક્ર ચકર-ચકર ઘણી વસ્તુ સુધી ભમ્યા કરે છે તેમ મનને આર્તધ્યાન, રૌદ્ર-ધ્યાનના ચિંતનનો એકવાર વેગ આપ્યાથી ઘણા વસ્તુ સુધી આર્તધ્યાનાદિમાં પરિણમી રહે છે. રાગદ્વેષનો વેગ આત્માને આપવા-થી ઘણા કાલ સુધી આત્મા રાગદ્વેષ વેગ જોરે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, માટે અત્ર સાર એ ગ્રહવાનો છે કે-ધર્મનો વેગજો આત્માને આપવામાં આવે તો મુક્તિપદ આત્મા પામે, તત્પદ અર્થે સદાકાલ એમ ભાવવું કે-દેખાતી વસ્તુઓમાં હું નથી. ત્યારે મારે કંચન કા-મીનીને કેમ મારી માનવી ? વા મનમાં તેનું ચિંતન કેમ થવા દેવું. કારણ કે તે વસ્તુઓ પોતાની નથી તો નિરર્થક તે સંબંધી વિચાર મારે કેમ કરવો ઘટે ? હું એટલે આત્મા જેમાં નથી તેમાં રાગદ્વેષથી પરિણમવું મારે કેમ ઘટે. કદાપિ જાણો કે શરીર નિર્વાહ આદિ અર્થે તે વસ્તુઓનું ગ્રહણ કરવું પડે તોપણ ઉદાસીન ભાવે ગ્રહણ કરવું. અંતરથી તે વસ્તુઓથી હું ન્યારોહું એવા ઉપયો-ગની સ્થિરતાએ રહું. પણ તેમાં રાગદ્વેષથી પરિણમવું યોગ્ય નથી. સંસારનાં કાર્યો કરું પણ તેમાં લપટાડું નહીં એવી રીતે વર્તવું તેજ આત્માને હિતકારી છે, દેખાતી વસ્તુઓ પુદ્ગલના પર્યાયો જાણવા, પુદ્ગલનો સડળ પડળ, વિધ્વંસન સ્વભાવ છે. પુદ્ગલના પર્યાયો અનેક આકારરૂપે દેખાય છે. અને પાછા વિચરી જાય છે. જેમ સં-ધ્યા સમયે પુદ્ગલના પર્યાયો અનેક રંગરૂપે પરિણમે છે અને ક્ષણમાં નહ યદ જાય છે તેમ ચક્ષુથી દેખાતી વસ્તુઓ વિચિત્ર વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શમય દેખાય છે અને વઝી તે પાછી જુદા આકારરૂપે પરિણમી

परमात्मदर्शन.

(१९७)

भिन्नवर्ण गंध रस स्पर्शने धारण करेछे शरीर पण पुद्गलछे. माटे ते मारुं नहीं अने हुं तेनो नथी, पुद्गलनी भिन्न जातिछे. अने आत्मानी भिन्न जातिछे तेनी जाति भिन्न अने जेनो धर्म भिन्न जेनी वर्तना भिन्न ते एक कदी होय नहीं. हुं आत्मा पुद्गलमां त्यारे केम होंउं ? जो के संसारमां कर्मनायोगे हुं पुद्गलथी वस्यो छुं तो पण पुद्गलथी निश्चय नयथी जोतां हुं न्यारो छुं. ए त्रीजा विषयनो अल्प विचार कर्यो.

चतुर्थ विषय विचार-हुं क्यांथी आव्यो क्यां जाइश ? हुं आत्मा क्यांथी एटले क्या स्थानमांथी अत्र मनुष्य गतिमां आव्यो, अने हवे आ शरीरनो उत्सर्ग कर्या बाद क्यां जाइश. ते संबंधी स्थिरचितथी विचार करतां एम सिद्ध थायछे के पूर्व भवमां कोइ पण में सारुं कृत्य करेछुं. सिद्धान्तमां पण कथ्युंछे के-जे जीव सरल हृदयी होय, परोपकारी होय, दयालु होय, धर्माथी होय, कोइ जिवनो घात करनार होय नहिं ते जीव मरीने मनुष्य थायछे. अर्थात् शुभभावनायुक्तजीव मरीने मनुष्य गति प्राप्त करेछे, तपश्चर्यावंत, व्रती, परोपकारी, ब्रह्मचर्यादि गुण विशिष्ट जीव देवगति प्राप्त करेछे, पापी, मालिनारंभी, कृतघ्न, कपटी, हिंसा असत्यादिथी युक्त जीव नरक गति पामेछे, कपटवंत पापादि युक्त जीव तिर्यचनी गति प्राप्त करेछे. माटे ते उपरथी विचारतां सिद्ध थायछे के पूर्व भवमां कंड सारां कृत्य करेलां के जेना योगे मनुष्य शरीर ग्रही तेमां वश्यो छुं. जेने जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न थायछे ते पोतानो पूर्वभव यथातथ्य जाणेछे, जाति स्मरण मति ज्ञाननो भेदछे, संभातिराजा पूर्वे द्रुमकनो जीव हता. मिष्टान्न भक्षण लालचथी श्री आर्य सुहास्ति आचार्यजीने साधु थवानी विनांति करी, गुरु महाराजे योग्य जाणी लाभनी खातर साधु वेष समर्प्यो,

(१९८)

चतुर्थ विषय विचार.

स्वांथी शुभ भावना योगे मृत्यु पामी संभति राजा तरीके थया, संभति राजाना भवमां गुरु महाराजने देखी पूर्व भवनी यादी आनी, अनेक जिनबिब भराव्यां, अनार्य देशमां-जेवाके अफगानिस्तान बलुचिस्तान, इरान, अरबस्तान, तिबेट विगेरे स्थाने श्रावकोने साधु वेष समर्पि जैन धर्मनो बोध देवा मोकल्या. घणा राजाओने जैन धर्मी कर्या अवंति सुकुमाल पण उज्जयिनी नगरीमां आचार्य श्री आर्य सुहस्तिना योगे जाति स्मरण ज्ञान पाम्या. हाल पण जे स्थाने अवंति सुकुमाल स्वर्गस्थ थया त्यां अवंति सुकुमाल पार्श्वनाथ नामनुं जिनमंदिरछे, सुदर्शना पूर्वभवमां समलिकाहती ते तद्भवमां पंच परमेष्टि मंत्र श्रवण करी मृत्यु पामी सिंहलद्वीप नृप पुत्रिका थइ त्यां रुषभदास शेठना मुखथी नमो अरिहंताणं पद सांभळी इहापोह करतां जातिस्मरण ज्ञान पामी भरुअच्च नगरमां जिन मंदिर तथा मुनिवर्योने वंदन करवा आवी. पूर्वभवमां भरुअच्च नगरनी बाहिर ज्यां मरण पामी हती त्यां श्री ज्ञानभानु नामना आचार्य पधार्या हता तेमणे सुदर्शनाने उपदेश दीधो. सुदर्शनाए समलिका विहार बंधाव्यो, मतिज्ञाननी उत्कृष्टि स्थिति छासठ सागरोपमनी छे. पाठ-कालमसंखं संखंच धारणा मतिज्ञाननो धारणा नामनो भेदछे. तेनो असंख्यात संख्यातो काल जाणवो, जाति स्मरण ए धारणामां भळ्ळे, अर्थावग्रहतो एक समयनो जाणवो. उत्कृष्ट अने जघन्यथी इहा अपायनो काल अंतर्मुहूर्त्तनो जाणवो. समकृती जीवने मतिज्ञान होयछे अने मिथ्यात्वी जीवने मति अज्ञान होयछे. सम्यग् रतिया तत्त्वबोध थया विना तत्त्वज्ञान तरफ लक्ष वळतुं नथी, सम्यग् तत्त्वनी श्रद्धा विना मतिज्ञान उत्पन्न थतुं नथी. हवे मूळ विषय उपर आवाये. देवता पूर्वभव जाणी छकेछे, तारकीना जीव पोतानो पूर्वभव जाणेछे, हाकचा

परमार्थदर्शन.

(१९९)

वखतमां जाति स्मरणज्ञान उत्पन्न थवानो निषेध नथी. केटलाक सदगुरु संगतिहीन अनार्यमति अज्ञानी आत्मानो पुनर्जन्म मानता नथी एवा नास्तिक शिरोमाणि ज्ञानदृष्टि शून्य जीवो परमपद पायी शकता नथी. जीव पण अनादि कालथी आ संसारमांछे अने जीवने कर्मपण अनादिकालथी लाग्यांछे ते कर्मनायोगे अवतारो ग्रहण करवा पडेछे तेनी साबी-तीना हेतुओ-नीचे मुजब.

- १ जोड कहेवातां छोकरां नानपणमां एक सरखां होवा छतां अने तेमने एक सरखी रीते उछेरवामां आव्या छतां पाछळ-थी तेओना विचार आचारमां भिन्नता पडेछे तेनुं कारण कर्म जाणवुं.
- २ पिता पुत्रना देखावतुं सदशपणुं छतां बन्नेनी अकल अने वि-चारमां जे आसमान जमीननो तफावत जोवामां आवेछे तेनुं कारण पण कर्म जाणवुं.
- ३ एक माबापना बे पुत्रो छतां एकने कविता बनाववानी सहेजे शक्ति उत्पन्न थायछे अने बीजो अभ्यास करतां पण कम बुद्धिमान् अने कविता करी शकतो नथी तेनुं कारण पण कर्म जाववुं. कारण के एकने ज्ञानावरणीय कर्मनो क्षयोपशम थयो छे अने बीजाने थयो नथी.
- ४ आ पृथ्वीमां एक दुःखी, अने बीजो सुखी एक जन्मथी अंध, लुलो, लंगडो, बाधिर, वा भीखारीना पेटे जन्मी मरण पर्यंत दुःख पामनार थायछे, त्यारे बीजो मनुष्य देहथी सुखी सारा कुळमां पेदा थयेलो, धनथी सुखी बुद्धिमान्, तथा मान सन्मान पामनार जोवामां आवेछे तेनुं कारण जीवे पूर्व भवमां करेळां पाप पुण्य तेनुं फल जाणवुं.

(૨૦૦)

પુનર્જન્મની સાબીતી.

એમ થવાનું કારણ ઈશ્વરના હાથમાં છે એમ કહીએ તો આપણે ઈશ્વરને ગેર ઇન્સાફી અને દયા વિનાનો ઠેરવીએ છીએ, કર્મથી જ આવા અવતારો બને છે. ઈશ્વરને સુખ દુઃખ આપનારો માનવું એ ન્યાયથી વિરુદ્ધ તેમજ મહા અજ્ઞાન જાણવું. ઈશ્વર કોઈને સુખ દુઃખ આપતો નથી. જીવ, પુણ્ય, પાપ રૂપ કર્મના અનુસારે સુખ દુઃખ પામે છે એમ શ્રી તીર્થંકર ભગવાન કહે છે, તીર્થંકર કેવળ જ્ઞાની છે માટે તે સત્ય પદાર્થ સ્વરૂપ કહે છે. માટે તેમના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો. પુનર્જન્મ સિદ્ધિ સર્વ પ્રમાણ સિદ્ધ છે, ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં પરિભ્રમણ કરતો જીવ મહાપુણ્યોદયે મનુષ્ય જન્મ પામે છે. અમૂલ્ય ચિંતામણિ સમાન માનવતનું પામી ભવો દાધિનો પાર પામવો એજ કર્તવ્ય છે. સંસારરૂપ સમુદ્ર તરવા મનુષ્યાવતાર એક વહાણ સમાન છે. મનુષ્યરૂપ વહાણમાં આત્મ રૂપ ઉતારુ બેઠો છે. આત્મોપયોગ રૂપ સ્વલાસી વહાણને ચલવેતો વહાણ સમ્યક્ માર્ગે ચાલે. સમુદ્રમાં તૃષ્ણા રૂપ મોટી ભમરીઓ આવે છે તેમાં વહાણને બુડવા નહીં દેતાં શુદ્ધોપયોગ રૂપ સ્વલાસી સમુદ્ર પાર વહાણ ઉતારે માટે હે ચેતન તું શુદ્ધોપયોગનો આદર કર કે જેથી તું અનંત શાશ્વત સુખ પામે.

તું ક્યાં જાઈશ—પરભવના પુણ્યથી માનસિક શક્તિવાળું માનવ તનુ પ્રાપ્ત થયું છે તે આયુષ્યની મર્યાદા સુધી અંતે રહે છે. પશ્ચાત્ તે શરીરમાંથી આત્મા જુદો પડે છે. કોઈ આત્મા મહાપાપ કરી નરક ગતિમાં સંચરે છે. નરકો સાત છે, પહેલી કરતાં બીજી નરકમાં વિશેષ દુઃખ છે, બીજી કરતાં ત્રીજીમાં વિશેષ દુઃખ જાણવું. સર્વ કરતાં સાતમી નરકમાં વિશેષ દુઃખ ભોગવવું પડે છે, ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય સાતમી નરકના જીવાંને છે જે જીવો હજારો માયો ભેંસો બકરાને રેંસી નાંચે અને તેથી પોતાનું ગુજરાન ચ-

परमात्मदर्शन.

(३०१)

लावेछे तेवा जीवो प्रायः नरकगतिना मेमान थइ त्यां दुर्गंधमय खराबशरीरोने पामी असह्यदुःख क्षणेक्षणे भोगवेछे, विविध प्रकार्नी क्षेत्र वेदनाओ भोगवेछे, जे जीवो हजारो माछलीओनुं भक्षण करेछे अने रात्रिदिवस तेमने मारवानो उद्यम करी रह्याछे तेवा जीवो नरकगतिमां गमन करेछे. मरती वखते तेवा जीवोनी लेइया बगडे छे, अने नरकमां दुःख पामतां तेवा जीवोने मुकाववा कोइ जतुं नथी. त्यां नरकमां महारौरव दुःख पामेछे, करेला पापोमांथी छुटता नथी. जे जीवो शिकार रमी हजारो पंखी पशुने मारी तेना मांसथी पापी पेट भरेछे अने सदाकाल तेवा पापी शिकारकृत्यमां राचीमाची रहेछे तेवा जीवो प्रायः नरकगतिमां परमाधामीनी करेली वेदनाओ, बूमो चीसो पाडता भोगवेछे, सागरोपम वर्ष सुधी नरकमां रहेछे, ते जीवोने जरामात्र पण सुख नथी. आंख मींचीने उघाडीए तेटली वखत पर्यंत पण नरकमां सुख नथी जे जीवो मांसथी पापी पेट भरी आनंद मानेछे तथा परस्त्री लंपटी होयछे तेवा जीवो प्रायः नरकगतिमां जायछे, रौद्रध्यानना चार ४ पायामां वर्ततो जीव क्रूरपरिणामयोगे नरकमां गमन करेछे. माटे हे आत्मा तुं जो उपरोक्त हेतुओनुं सेवन करीशतो नरकगतिमां जाइश. असंख्य जीवो रौद्र परिणामने धारण करता नरकगतिमां गया अने अनेक जायछे अने जशे. तुं मनथी तारुं वर्तन तपासीजो, तुं रात्री दिवस केवा प्रकारना विचारो धारण करेछे, तुं रात्रीदिवस पापनां केवां केवां कृत्य करेछे. वावे तेवुं उगे आ कहेवतने याद राख. तें अज्ञानथी नरकगतिमां जवाय तेवां पापो कर्यां होय तो हंवे ते बावतनो पश्चात्ताप करवो घटेछे, अने गीतार्थगुरु पार्थे आलोचना लेवी घटेछे. प्रायश्चित्त विना पापनी शुद्धि थती नथी. जेने भवनी भीति उत्पन्न थइ होय ते प्रायश्चित्त ग्रहेछे, मान ल-

(१०९)

प्रायश्चित्त लेखु.

जानो त्याग थाय अने वैराग्य प्रगटे त्यारे प्रायश्चित्त लेवायछे, जे जे गुप्त पापों कर्यां होय तेने बीजानी आगळ कहेवाची जीव डरेछे वा लज्जा पामेछे. पण मोक्षाभिलाषी जीवोए गुरु पासे लोकवासना त्याग करी प्रायश्चित्त ग्रहण करवुं. व्रतभंगनुं प्रायश्चित्त ग्रहनार जीव आराधक जाणवो. मनमां शल्य राखवुं नहीं फहं छे के—

गाथा.

ससल्लो जइवि कटुग्गं, घोरं चीरं तवं चरे ।
 दिव्ववास सहस्सं तु, तओवि तं तस्स निप्फलं १
 सल्लुद्धरण निमित्तं, गीयस्स नेसणाउ उक्कोसा ।
 जोयण सयाइं सत्तउ, बारस वरिसाइं २
 आलोअणा परिणओ, सम्मं संपडिओ गुरु सगासे ।
 जइ अंतरावि कालं, करिज्ज आराहगो तहवि. ३
 लज्जाइगारवेणं, बहुस्सुअ मएणवाविदुच्चरिअं ।
 जो न कहेइ गुरुणं, नहु सो आराहगो भणिओ. ४
 जह बालो जंपंतो, कज्जमकज्जं च उज्जुअं भणइ ।
 तं तह आलोइज्जा, मायामयविप्पमुक्कोअ. ५
 न वि तं सथं व विसंवर, दुप्पउत्तो च कुणइ वेआलो ।
 जं तं च दुप्पउत्तं, सप्पो व पमाइओ कुद्धो. ६

माटे उषरोक्त भावार्थ समजी सद्गुरु पार्श्वे कृत पापोनी व्रत भंगोनी आलोचना लेवी गुरु गीतार्थ जाणवा तेमनी पासे आलोचना लेवी सातसे योजन तथा बार वर्ष सुधी गंभीर

परमात्मदर्शन.

(- २०३ -)

गीतार्थ पासे आलोचना लेवानी तीव्रच्छा राखवी, तथा आलोचना लेनार पण आत्मार्थी तत्त्वनों अभिलाषी होवो जोइए. गुरुनी पार्श्वे पापनो पश्चात्ताप करतो प्राणी कर्मथी हळवो थायछे अने निर्मल थयेलो निशल्य भव्यात्मा सत्पंथे चालेछे, जेम कोइना उदरमां बगाड थइ ते अशक्त थयो होय तो ते माणस वैद्यने नाडी देखाडेछे, वैद्य तेनी वर्तणुक पुछी लेछे, कया कया पदार्थो खावामां आव्या हता ते पुछेछे त्यारे रोगी पण सर्व वात कहेछे पश्चात् वैद्य तेना शरीने सारं करवा प्रथम मळ शुद्धि जुलाब आपेछे. पश्चात् बीजी दवाओ आपेछे, तेम गुरु महाराज पण अनेक प्रकारना पापोनी आलोचना रूप जुलाब आपी तेनुं हृदय शुद्ध करेछे पश्चात् आत्महितने माटे अन्य मार्गो, व्रतो बतावेछे माटे हे चेतन तुं हवे विचार कर अने नरकना हेतुओ दूर कर. श्रीवीरभगवान्नी माशीए माथाना वाळ जेटला धणी कर्या एम प्रभुनी पासे पश्चाताप कर्यो तेथी सर्व पाप जतुं रह्यु, हे चेतन आर्तध्यान जो मनमां करीश तो तिर्यचनी गतिमां जाइश. धर्मध्यानथी देवगति मनुष्यगति प्राप्त थायछे अने शुक्ल ध्यानथी मोक्ष स्थान प्राप्त थायछे. माटे चेतन-चारे गतिनां द्वार तारे माटे खुलांछे, जेवां कृत्य करीश तेवी गतिमां जाइश-आयुष्य पूर्ण थतां, देवता मनुष्य तिर्यच अने नरक ए चार गतिमांथी गमे ते गतिमां कर्मानुसारे तुं जाइश-एक गतिमांथी नीकळी बीजीमां, बीजीमांथी नीकळी त्रीजीमां, एम अनादि कालथी तुं चतुर्गतिमां परिभ्रमण करेछे. चतुर्गतिमां परिभ्रमण करावनार कर्मछे. कर्माष्टक प्रकृति रूप द्रव्यकर्म जाणवुं. राग अने द्वेष रूप भावकर्म जाणवुं, रसग अगर द्वेषना विचारो कर्याथी जीव पुद्गल स्कंधोने कर्म रूप परिणमावी ग्रहण करेछे.

(૨૦૪)

આરમ્ભસ્વરૂપ.

દરેક માણસ પોતે કરેલા રાગદ્વેષના વિચારોથી જ પોતાને કર્મની જાઝમાં ઘેરી લે છે, એમ સમજવાનું છે. -વિચારમાં સમાયલા જોશ્વમનો રૂબાલ નહીં હોવાથી રાગદ્વેષના સર્વે વિચારો સુરેથી આવવા દે છે. હવે એવા વિચારોથી રાગદ્વેષના સંસ્કારો ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે રાગ દ્વેષના સંસ્કારો પોતાના બનાવનાર ઉપર દ્વાળ કરી તેની પાસે ફરીથી તેવા વિચારો ઉત્પન્ન કરાવે છે કે જેની અણસમજુ લોકોને સ્વભર નહિ હોવાથી તેમ થતું અટકાવવાની કોશેશ કરવાને બદલે ઉલટું વારંવાર તેવાજ વિચારો ઉત્પન્ન થવા દે છે, અને તેનું છેવટ પરિણામ એવું આવે છે કે એકજ વિચાર બે પાંચ વસ્તુ કીધાથી માણસ પોતે રાગદ્વેષના કબજામાં આવી જાય છે. અને તે પછી રાગદ્વેષ, નિંદા, શોક, મોહ, અદેલાઈ, બુરાઈ, ચોરી, અસત્ય, વ્યભિચાર, હિંસા, કપટ, વિશ્વાસઘાતના વિચારો માણસની મરજી ઉપરાંત તેનાથી થઈ જાય છે, એવી રીતે રાય દ્વેષ મોહ માયાના વિચારોના બંધનમાં જીવ પડે છે, કર્મનો કર્તા પોતે અને જેમાં બંધાનાર કરોઢીયાના જાઝની પેઠે પોતે જ છે, જે નઠારા વિચારો અજાણ પળે ફરી ફરીથી કરવાથી તેમાં પોતે બંધાઈ જાય છે વઢી રાગદ્વેષ મોહ, માયા, મત્સર, રૂપ નઠારા વિચારો થી છેવટે નઠારું કામ થઈ જાય છે કે જેનું કડવું ફલ ઢોગવતી વેઢાઈ તે દુઃસ્વી થાય છે, દુઃસ્વ સ્વમતી વસ્તુ તેને પોતાના કરેલા કર્મથી છૂટો થવાની ઇચ્છા થાય છે. અને ફરીથી એવું નઠારું કામ નહીં થાય અને નઠારો વિચાર નહીં આવે તેને માટે હવે તે સાધ્ચેત રહેવાની કોશેશ કરે છે. ઉત્પન્ન કરેલી રાગદ્વેષની ટેવો ઘળી બલવાન તથા અનાદિ કાલથી હોવાથી શરૂઆતમાં તો મનુષ્ય નિષ્કઝ જાય છે, ઇટલે તેની મરજી ઉપરાંત રાગદ્વેષ મોહના વિચારો આવી જાય છે. અથવા તો સ્વરાવ કામ થઈ જાય છે. પળ લાંબો વસ્તુ પો-

परमात्मदर्शन

(२०५)

तानी महेनत चालु राख्याथी छेवटे ते रागद्वेष मोह मायाना खरा-
ब विचारोने अटकावी शकेछे. अने तेम कीधाथी रागद्वेषथी बांधि-
लां कर्मनो पण ते नाश करी शकेछे, मनोजय अभ्यासथी थायछे.
रागद्वेषना विचारोथी मनुष्य आवता भवने माटे नवां कर्म संग्रहेछे.
तेथी परभवमां जन्म लेवा पडेछे, जन्म जरा मरणथी आत्मा खरूं
सुख भोगवी शकतो नथी माटे हवे मनुष्य भवमां चेतवानुं छे, दरेक
मनुष्यो पोतानी बुद्धि अनुसारे सुखी थवा महेनत करेछे—कोइ रा-
ज्यथी सुख मानी लेछे. कोइ पैशाथी तो कोइ स्त्रीथी कोइ कुटुंबथी
तो कोइ पुत्रादिकथी सुख माने छे पण ते पुद्गल वस्तुओमां सुख
नी बुद्धि धारवी ते केवल अज्ञानछे, खरूं सुख आत्मां रहुंछे, ते
सुख आत्म ध्यानथी प्राप्त थायछे. श्री तीर्थंकर महाराजाए मोक्षनुं
सुख सत्य कथ्युंछे, अने मोक्ष तो आत्मा कर्मथी मूकाय त्यारे मळे
छे, मोक्षनुं सुख कंइ वातोना गपाटा मारवाथी मळतुं नथी. पण ते
माटे सांसारिक सुखनी इच्छा त्यागी मोक्ष सुख प्राप्त करवा मुख्य-
ताए चारित्र मार्ग आदरवो जोइए.

प्रश्न—चारित्र विना थुं मुक्ति नथी मळती ?

उत्तर—श्री सर्वज्ञे ज्ञाननुं फळ विरति कथ्युंछे माटे विरतिरूपचा-
रित्र सर्व कर्मनो क्षय करेछे, विरति पणुं बे प्रकारेछे—देशवि-
रति अने सर्व विरति—देशविरतिपणुं व्रतधारी श्रावकने
होयछे. अने सर्वविरतिपणुं मुनीश्वरने होयछे. श्री तीर्थंकर
महाराजाओ पण दीक्षा अंगीकार करेछे, जेटला तीर्थंकर थया
अने थशे ते सर्व सर्वविरतिरूप चारित्रने ग्रहण करेछे. ज्यारे
तीर्थंकरने दीक्षा लेवानो समय थायछे त्यारे लोकांतिक देवता
वीनति करवा प्रभु पासे आवेछे. हे प्रभो आप दीक्षा लेइ ज-
ना जीवोनो उद्धारगत् करो, भव्यो विचारो के जेने ते भवमां

(૨૦૬)

આત્મસ્વરૂપ.

કેવલ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે તેવા તીર્થંકર મહારાજાઓ પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરેછે અને ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કરેછે. તો વીજા ભવ્યજીવોને ચારિત્ર વિના મુક્તિ શી રીતે મળે ? અને વહી શાસ્ત્રમાં પણ કહુંછે કે-

ગાથા.

દંસણ નાણ જુઓ વિહુ। ન કુણઈ કમ્મસ્વયં ચરણ રહિઓ।
નાણરુઠ્ઠ જુઓ વિજ્જુવ્વ । કિરિય રહિઓ અરોગત્તં ?

ભાવાર્થ-દર્શન અને જ્ઞાનવઢે સહિતપણ પ્રાણી ચારિત્ર વિના કર્મનો ક્ષય કરતો નથી. જાણકાર વૈદ્ય ક્રિયાહીનપણાથી રોગ રહિત થાય નહીં તેની પેટે-વહી કહું છે કે-

ગાથા.

બહુભવં કયંપિ કમ્મં । સ્વઈ ચરિત્તમપ્પકાલંમિ ।
ચિર સંચિ ઇંધણ ભરં । સ્વણેણ નિહ્હઈ જહ્ જલણો ?
એગ દિવસંપિ જીવો । પવ્વજ્જ મુવાગઓ અનન્નમણો ।
જય વિ ન પાવઈ મુરુલ્લં । અવસ્સ વેમાણિઓ હોઈ ૨
અથ્થઠ તા એગ દિણં । અંતમુહુત્તંપિ ચારુ ચરણ જુઓ ।
સ્વઈ અસંચિજ્જ ભવ । જિજયંપિ જીવો બહુ કમ્મં. ૩
સુઈરંપિ ચરણ વિણા । ન દિંતિ નાણં ચ દંસણં સિવં ।
વરચરિત્ત જુયાઈં । સ્વણેણ તાઈં સિવ ફલાઈં । ૪

ભાવાર્થ-વહુ ભવનાં કર્યાં કર્મને ચારિત્ર અલ્પ કાઢમાં ક્ષય કરેછે ઘણા કાઢનો સંચિત ઇંધણ સમૂહને જેમ અગ્નિ વાઢી ભસ્મકરેછે તેની પેટે અન્યત્ર ચિત્ત નથી. અને આત્મરમણતામાં ચિત્તવાહું

परमात्मदर्शन.

(२०७)

एवुं चारित्र एक दिवसनुं जो मोक्ष न आपे तो पण वैमानिक देव-पणाने आपे.

भाव सहित भावचारित्र एक अंतर्मुहूर्त्तमां पण असंख्यभवा-जित पापनो क्षय करे, ज्ञान अने दर्शन ए बे पण चारित्र विना मोक्ष आपी शकतां नथी. माटे सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्राणि मोक्ष-मार्गः ज्ञान, दर्शन, अने चारित्र मोक्षनो मार्ग जाणवो. भावचारि-त्रथी पण कोइने मुक्तिनी प्राप्ति थायछे. चारित्र विना रागद्वेषनो जय थतो नथी. माटे कहुंछे के-ज्ञान विना चारित्र नहि, चारित्र विण नहिं मुक्तिनां सुख छे शाश्वतां । ते केम लहीए युक्तिरे-इत्यादि महा-पुरुषोनां वचनथी चारित्र मार्ग भावकर्मनो क्षय करनार बलवत्तर जाणवो. हव चारित्र पाळवा अशक्त होय ते श्रावकव्रत अंगीकार करे तेथी पण मननो शनैः शनैः जय थायछे. अने मोक्षाभिमुख थवाय छे.

हवे भव्यात्माओने समजवानुं के-श्रावकनां व्रत वा साधुनां व्रत अंगीकार करीने पण रागद्वेषनो क्षय करवानोछे, मनने जीत्या विना रागद्वेषनो क्षय करवो दुर्लभछे, अने आत्मज्ञान छे ते षड्द्र-व्य तेना गुण पर्यायना ज्ञानविना तथा वैराग्यविना थतुं नथी. मन पवन करतां पण घणुं चंचळछे. पवनने जेम मूठीमां झाली राखवो तेम मनने पण वश राखवुं दुर्लभछे, आत्मस्वरूप चिंतनना कृ-त्स्मां मनने लगाडवुं ए सिवाय बीजो रस्तो मनोजयनोनथी. प्रथम स्थिर दृष्टि राखीने जोवुं के मनमां कया कया (शा शा) विचारो थायछे, तुरत जोतां हजार विचारो आवता जणाशे ते वखते एम चिंतववुं के हे आत्मा ! ए विचार त्हाारा नथी; तुं तेनाथी भिन्नछे, त्हाारे एणी तरफ लक्ष आपवुं नहिं, एम विचारी तुरत आत्मगुणोना चिंतनमां वळवुं, अरूपी आत्मा केवी रीतेछे ? तेनो विचार करवो.

(૨૦૯)

. આત્મસ્વરૂપ.

પ્રથમ અભ્યાસમાં મનવિચાર કરતાં વંધ રહેતું નથી. માટે તેને કંઈક ઉચ્ચમ તો જોઈએ. માટે આત્મસ્વરૂપ ચિંતવનમાં મનને દોરવું. ઇટલે મન બહિર્ની હજારો વસ્તુઓમાં ભટકતું પોતાની મેલે વંધ થશે. મનને બહિર્ની વસ્તુઓમાં ભટકવાથી જેવો આનંદ મેલેછે તેવો પહેલાં મલ્લશે નહીં. જેમ નાનાં છોકરાને નિશાલે જતાં જેવું કંટાલા ભરેલું લાગેછે તેમ તથા કોઈ પંચીને પ્રથમ પાંજરામાં પુરવામાં આવેછે ત્યારે જેમ કંટાલા ભરેલું તેને લાગેછે તેમ પેલા છોકરાને જ્યારે નિશાલમાં મળતાં સમજણ પડેછે ત્યારે કંટાલો થતો નથી. અને પંચીને જેમ પાંજરામાં સ્વાવો પીવાનો આનંદ થાયછે તથા તેના ધણીની સાથે હઠ્ઠી મઠ્ઠી જાયછે ત્યારે સ્થિર થાયછે તેમ મન પણ આત્મધ્યાનમાં પ્રથમ કંટાલો જાયછે. પણ જ્યારે તેને સ્થિર આત્મધ્યાનમાં કરવામાં આવેછે ત્યારે કંઈક સ્થિર થાયછે. અને અંતે તેના ઉપર કાષ્ટ મેલવી શકાયછે. અને તે બાહ્યના વિષયોમાં ભટકતું નથી અને શાન્ત જેવું થઈ જાયછે. પશ્ચાત્ નિર્વિકલ્પમય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર ઉપયોગદૃષ્ટિની ધારા વૃદ્ધિ પામેછે તેથી ભવ્યાત્મા આત્માના અસંખ્યપ્રદેશે લાગેલાં ઘણાં કર્મ નિર્જરાવેછે, અને નિરાધાર સ્વપર પ્રકાશક બને માટે પરમપદની ચાહના કરનારે પ્રથમ મનો-જય કરવો આવશ્યકછે. શ્રી આનંદઘનજી મહાયોગી કહેછે કે-

શ્રી કુંથુનાથજીના સ્તવનમાં=

મન સાધ્યું તેણે સઘલું સાધ્યું, એહ વાત નહિં સ્વોદી;

ઇમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું, એ કંઈ વાત છે મોટી હો, કુંથુજિન૦

જેણે મન વશ કર્યું તેણે મુક્તિ સુખ વશ કર્યું એમ કહેવું અતિશયોક્તિ ભર્યું નથી માટે પહેલાં તો દરેક અભ્યાસીએ મન કાબુમાં રાખવું, જેમ ઘોડાઓ ગાડી ગમે ત્યાં ઘસડી જાયછે. માટે તેઓને કાબુમાં રાખવા પડેછે, તેમ ઈન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ આ શરીરરૂપી

परमात्मदर्शन.

(६०९)

गाडीने पोताने गमे त्यां नहिं खेंची जाय ते सारु अंदर बेठेला आत्माए तेओने काबुमां राखवानाछे, प्रथम अवस्थामां मनने काबुमां राखवानी जेम जेम वधारे कोशेश करवामां आवेछे तेम तेम नहिं जोइता विचारो धमधोकार थया करेछे, सारा, नठारा, उंच, धनना, स्त्रीना, वेपारना हजारो विचारो थवानुं कारण समजी काढी खप विना विचार थवा देवो नहिं, सारां सारां पुस्तको वांचवामां आवे त्यां सुधी मन ते काममां राकाइ रहेछे, अने खराब विचारो नो नाश थायछे, खराब विचारो महारोगोना करतां पण भूंडाछे, मोटा रोगो तो एक भवमां पीडा करेछे, किंतु खराब विचारोथी माठी असरो थइ घणां चीकणां कर्म बंधाय छे, माटे अंतर्ना खराब विचारो माटे विशेष लक्ष आपवानी जरुरछे अने तेवा अशुभ विचारमय आर्त्तध्यान अने रौद्र ध्याननुं स्वरूप शाह्यमां कभ्युंछे, आर्त्तध्यान अने रौद्र ध्याननुं मूल कारण अज्ञान, रागद्वेष अने मोहछे, अज्ञान ए महा शत्रुछे. अज्ञाननो नाश करवा सद्गुरु उपदेश वारंवार सांभळवो अने तेनो विचार करवो. षड्द्रव्योनुं स्वरूप धारवुं. जड चेतननो विभाग करवो तेथी स्व अने परनी समजण पडतां भेद ज्ञान प्रगट थशे. समकित प्रगट थवानुं मुख्य कारण भेद ज्ञानछे. जड अने चेतन बे वस्तु भिन्न भिन्न छे एटला मात्रथी भेद ज्ञान मानी खुशी थवुं नहिं पण आगल वधी अंतरथी सदाकाल बे वस्तुओ न्यारी समजवी. हवे रागद्वेष ए बे मोटां भुतछे, राग ए चूडेलछे अने द्वेष ए जन्दछे. ए बे ज्यां सुधी माणसमां छे त्यां सुधी विचारो मनुष्य सदाकाल दुःखीयो जाणवो, चूडेल जेम मनुष्यनुं रुधिर चूसी लेछे, तेम रागरूप चुडेलथी आत्मानी अनंति रुद्धि कर्मावरणथी आच्छादन थती जायछे, जन्द जेम माणसना शरीरमां पेसी अनेक तोफान करेछे, माणसनुं भान भूलावेछे. तेम

(૧૧૦)

રાગદ્વેષના વિચારો પરિહરવા.

દ્વેષરૂપી જન્દ આત્માને વઢગ્યો છતો અનેક પ્રકારનાં તોફાન કરે છે અને આત્માનું મ્હાન ધુલાવેછે, ચૂઢેલ અને જન્દને કોઈ મ્હા ઉસ્તાદ મંત્ર વાદી કાઢેછે તેમ આત્માને લાગેલાં રાગરૂપી ચૂઢેલ અને દ્વેષરૂપ જન્દ તે ઉસ્તાદ ગીતાર્થ ગુરુના ઉપદેશરૂપ મંત્રથી દૂર થાયછે ત્યારે આત્મા અત્યંત સુખી થાયછે આ ઠેકાણે શિષ્યના આત્મામાં રહેલા રાગદ્વેષને કાઢવામાં ગુરુ બલવાન્ નિમિત્ત કારણ જાણવા, અને ઉપાદન કારણ તો શિષ્યના આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ જાણવી. આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ થાય ત્યારે આત્મા નિર્મલ પદને પામેછે, નિશ્ચય નયથી કહેવાતું જે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, તન્મય આત્મા બનતાં લોક અને અલોક તેના કેવલજ્ઞાનમાં પ્રકાશેછે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નાશ પામેછે ત્યારે અનંતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે.

પ્રશ્ન—જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ક્યાં રહેતું હશે ? અને તેનું ગ્રહણ શાથી થતું હશે ?

પ્રત્યુત્તર—જ્ઞાનનું જે આચ્છાદન કરે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ—જ્ઞાનના પંચ પ્રકારછે પંચ પ્રકારનું જ્ઞાન આચ્છાદન કરે તેથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ પળ પંચ પ્રકારનું જાણવું. પુદ્ગલના સ્કંધોને આત્મા અશુદ્ધ પરિણતિયોગે જ્ઞાનનું આચ્છાદન કરે તેવા રૂપે પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશોની સાથે ક્ષીર નીરની પેઠે પરિણમાવે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે ક્ષીર નીરના મલવાના સંબંધની પેઠે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ આત્માના પ્રદેશોની સાથે રહ્યું છે અને તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનું ગ્રહણ અજ્ઞાનયોગે અશુદ્ધપરિણતિથી ગ્રહણ થાયછે.

જેમ સૂર્યનાં કિરણોનો પ્રકાશ વાઢઢાંના આચ્છાદનની અવરાય છે, તેમ આત્માનું સૂર્ય સદૃશ જે જ્ઞાન તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મથી અવરાયછે. તેથી આત્મજ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશકરૂપ કાર્ય કરી શકતું નથી.

परमात्मदर्शन.

(२१९)

हवे ज्यारे ज्ञानावरणीयकर्मनो नाश थायछे त्यारे अनंतज्ञान उत्पन्न थायछे, दर्शनावरणीय कर्मनो सर्वथा नाश थवाथी अनंत दर्शन उत्पन्न थायछे. तथा शाता अने अशाता वेदनीयनो सर्वथा क्षय थवाथी अनंत अव्याबाध सुख उत्पन्न थायछे. मोहनीय कर्मनो सर्वथा क्षय थवाथी क्षायिक सम्यक्त्वनी तथा चारित्रनी प्राप्ति थायछे, आयुष्य कर्मनो क्षय थवाथी आत्मा सादि अनंत स्थिति पामेछे. सारांश वे.—आयुष्य कर्मथी मुक्त थयेलो जीव सिद्धशिलानी उपर एक योजनना २४ चौवीस भाग करीए तेमांना त्रेवीस भाग मूकी चौवीसमा भागे एक समयमां सिद्धिस्थानमां जीव विराजेछे त्यां गयानी आदिछे पण त्यांथी पडवानुं नथी माटे अंत नथी. माटे सादि अनंतमा भांगे सिद्धमां मुक्त थएल मुक्तात्मा रहेछे. नामकर्मना नाशथी आत्मा पोतानुं अरूपीपद आविर्भावे करेछे. गोत्रकर्मना नाशथी आत्मा अगुरु लघुगुण प्राप्त करेछे. अंतराय कर्मना नाशथी आत्मा सहज जे अनंतवीर्य तेने प्रगट करेछे एम ए आठ कर्मना नाशथी आत्मा अष्टगुणने प्रगट करेछे. अने परमात्मरूपे थायछे, पंचमीगति मोक्ष तेनी प्राप्ति कर्मना क्षयथीछे, एम जीवने चारे गतियोमां जवानां कारणो बताव्यां तेमज पंचमीगतिमां जवानो मार्ग याने उपाय बताव्यो. आत्मा जेबुं वर्तन चलावशे तेवी गतिमां जशे. ए स्पष्ट वात छे. क्यांथी आव्योने क्यां जाइश ? ए संबंधी विचार लख्यो, हवे पंचम विषय संबंधी विचार लखेछे.

पंचमविषय—मनुष्य जन्मनी साफल्यता साथी—पंचमगति साध्य करवाथी मनुष्य जन्मनी साफल्यता थायछे. पुण्यपापक्षयान्मुक्तिः पुण्य अने पापना क्षयथी मुक्ति पद मळेछे शुभ कर्मने पुण्य कथेछे अने अशुभ कर्मने पाप कथेछे. शुभ वा अशुभ कर्म पौद्गलिक छे. बे प्रकारना कर्मने पण आश्रव कहेछे. शुपुण्य-

(૧૧૨)

સાધુની ક્રિયા.

આશ્રવ કહેવાય છે અને પાપને અશુભાશ્રવ કહેવાય છે. આત્માને અનાદિ કાલથી આશ્રવ ઇટલે કર્મ લાગ્યું છે, ક્ષીરનીરવત્ આત્મા અને કર્મનો સંબંધ થયો છે. આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશો છે તેમાં પ્રતિ પ્રદેશે અનંતિ કર્મની વર્ગના આ લાગી છે. એકેક વર્ગના મધ્યે અનંતા પુદ્ગલપરમાણુ છે એમ અનંતા પરમાણુ જીવ સાથે લાગ્યા છે. વર્ણગંધરસ અને સ્પર્શમય પરમાણુઓની વર્ગનાઓ જાણવી, જીવદ્રવ્યને લાગેલા પરમાણુથી અનંત ગુણા પરમાણુઓ છૂટા છે—કર્મ સહિત આત્મદ્રવ્ય પણ સત્તાથી સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે. જીવ દ્રવ્ય નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે કહ્યું છે કે—

ગાથા.

નિચ્ચાનિચ્ચ સરૂવા, ભાવા સવ્વેવિ તાવ તિયલો ॥
 ઉપ્પાય વિગમ ઠિઠ્ઠ ધમ્મ, સંગયા તે પુણો એવં. ॥૧॥
 પુવ્વભવપજ્જણં, વિગમોઠ્ઠ ભવગણ ઉપ્પત્તી ॥
 જીવ દવ્વેણ ઠિઠ્ઠ, નિચ્ચા નિચ્ચત્તમેવંતુ ॥ ૨ ॥

નિત્ય અને અનિત્ય સ્વરૂપી સર્વે પદાર્થો ત્રિલોકમાં વર્તતા ઉત્પાદવ્યય અને ધ્રૌવ્યતા ધર્મમય જાણવા, એક પદાર્થમાં ઉત્પાદવ્યય ધ્રૌવ્યતા કેવી રીતે થાય છે તે ઘટાવે છે—

યથા જીવદ્રવ્યમાં પૂર્વ ભવના પર્યાયનો વિનાશ અને આભવના પર્યાયથી ઉત્પાદ અને જીવ દ્રવ્યત્વપણે ધ્રૌવ્યતા એમ ત્રણ ધર્મમય જીવ પદાર્થ જાણવો, જીવ દ્રવ્યમાં ગતિપર્યાયથી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રૌવ્યતા દર્શાવી, આત્માના સંસારાવસ્થામાં અશુદ્ધપર્યાય જાણવા વઠ્ઠી સ્થૂલદૃષ્ટાંતે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રૌવ્યતા વર્ણવે છે—

परमात्मदर्शन.

(२११)

गाथा.

कुंडल विगमो मउडु प्पाओ कणगं अवठियं जहा ॥
तृहसव्वेवि पयथथा, जीवोनेओ पुणो एवं ॥ १ ॥

कुंडलरूप पर्यायपणे सुवर्णनो नाश अने तेनो ज्यारे मुकुट बनाव्यो त्यारे मुकुटरूप पर्यायपणे सोनानो उत्पाद, अने सुवर्णपणे ध्रौव्यता कुंडलमां तेम मुकुटमां पण बनी रहीछे, सोनुं कायम बनी रहुंछे सुवर्णमां सुवर्णना पर्यायो नो एटले आकारोनो उत्पाद व्यय थया करेछे. तेम अत्र जीवद्रव्यमां पण अनंत गुणोनो उत्पाद व्यय समये समये थया करेछे. एम धर्मास्तिकायद्रव्य, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय अने उपचारे कालमां पण उत्पाद व्यय थया करेछे, अने ध्रौव्यतापणुं सदा अवस्थित छे, षडद्रव्य द्रव्यार्थिकनयापेक्षया नित्य जाणवां अने पर्यायार्थिकनयापेक्षया अनित्य जाणवां, जीवे धारण करेला मोटा शरीरमां वा नाना शरीरमां आत्माना असंख्यात प्रदेशो सरखा जाणवा-ते वात दृष्टांतथी दहावेछे-

गाथा.

संकोय विकोएहिं, पईवकंतिव्व मलगगिहेमु ॥
हृथिस्सव कुंथुस्सव, पएससंखा समाचेव ॥ १ ॥

मृत्तिकाना नाना वा मोटां कुंडामां दीपकनी कांति संकोच अने विकाशे करी युक्त जेमछे. एटले नाना कुंडामां दीपकनी कांति संकोचपणे रहेछे, अने तेज पाछी दीपकनी कांति मोटा कुंडामां विकाशपणे रहेछे, तेम जीव पण हाथीनुं शरीर पामतां तेमां आत्माना प्रदेशोना विकाशथी सर्व शरीरने व्यापी रहेछे. तेम कुंयुवानुं शरीर जीव ज्यारे ग्रहेछे त्यारे तेटला शरीरमां जीवना असंख्यातप्रदेशो

(३१४)

आत्मज्ञानथी कर्मनो नाश.

व्यापीने रहेछे. कर्म संयुक्त संसारी जीव शरीरमां वस्योछे तेनी अपेक्षाए नानामां नानुं अंगुलना असंख्यातमा भागनुं शरीर धारण करेछे माटे अंगुल असंख्यातमा भाग जेवडो आत्मा कहेवायछे. अने केवली समुद्धात करतां जीव लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशो विस्तारेछे माटे तदपेक्षाथी लोकप्रमाण आत्मा कहेवायछे. मोक्ष दशामां आत्मा अक्रिय थवायी एकरूपे आत्मानी स्थिति रहेछे. शुद्धबुद्ध सिद्ध परमात्मानां पण उत्पाद व्यय ध्रौव्यता बनी रहेछे.

प्रश्न—हे सद्गुरो! संसारावस्थामां शरीर प्रमाणे आत्माना प्रदेशो शोको संकोच विकोच थायछे त्यारे आत्माना प्रदेशो एक बीजा प्रदेशथी जुदा पडता हशे के केम—;

प्रत्युत्तर—तेवी स्थितिमां जो के आत्माना प्रदेशोको संकोच विकाश थायछे तोपण प्रत्येक प्रदेशो एक बीजा प्रदेशोनी साथे नित्य संबंधे संबंधितछे. तेथी आत्माना प्रदेशो संकोच विकाशताने पामेछे तोपण एक बीजाथी जुदा पडता नथी. अप्रिना तणखाओनी पेठे सर्वथा भिन्न आत्माना प्रदेशो जो पडे तो असंख्यात प्रदेश मळीने एक आत्मा कहेवाय नहीं, अने आत्मापणुं नष्ट थइ जाय. माटे अरूपी आत्माना प्रदेशो संकोचविकाशने संसारी अवस्थामां पामेछे तोपण तादात्म्य संबंधे संबंधीत होवाथी कोइ कालमां जुदा पड्या नथी अने पडशे पण नहीं. एवो प्रदेशोमां स्वभाव रह्योछे ते केवलीना ज्ञानगम्यछे, अनुभवीओ ए वातने सम्यग् अनुभवेछे.

प्रश्न—आत्माना असंख्यात प्रदेशने ठेकाणे एक प्रदेश मानीए तो कइ हरकत आवे;

उत्तर—हा हरकत आवेछे, श्री सर्वज्ञ महाराजे आत्माना असंख्यात प्रदेश दीठा छे तेथी एक प्रदेश केम मानी शकाय, हे शंका-

परमात्मदर्शन.

(२१५)

वादी तने केवलज्ञान थयुंछे के एम कही शके. नां. त्यारे असंख्यात प्रदेश आत्माना छे एम श्रद्धा कर. मति कल्पनाथी कइ कोम थतुं नथी. वळी हे शंकावादी सूक्ष्मदृष्टिथी समज के ज्यां आत्माना प्रदेशोछे ते आत्माना प्रदेशोने व्यापीने ज्ञान अनंतघणुं रहुंछे, प्रति प्रदेशे अनंतु ज्ञान रहुंछे. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान अने केवलज्ञान ए पंच-मांतुं कोइपण ज्ञान आत्माना प्रदेशोने त्यागीने रहेतुं नथी. हवे आत्मानो असंख्यात प्रदेश न मानीए नहींतो एक मोटो विरोध आवेछे.-

शिष्य--हे सद्गुरो आत्माना असंख्यात प्रदेशो मानीए नहीं तो मोटो शो विरोध आवेछे-ते कृपा करीने कहो.

सद्गुरु--प्रथमतो केवली केवलीसमुद्घात करेछे. लोकाकाश प्रमाण आत्माना प्रदेशो कर्मनुं परिशाटन करवा विस्तारेछे. अने कर्म भोगवी लेछे ते वातनो विरोध आवेछे एक प्रदेश लोकाकाश प्रमाण विस्तारातो नथी तेथी शी रीते कर्मनुं परिशाटन करे नागो पलाळे शुं अने नीचोवे शुं एवी वात थइ, वळी बीजो विरोध ए आवेछे वे-ज्यारे चतुर्दशपूर्वी शंका पुछवा माटे आहारकशरीर, लब्धिथी बनावी सीमंधर स्वामी पासे मोकलेछे त्यां जइ ते शरीर शंका पुच्छी तीर्थकर सीमंधरस्वामी पासेथी उत्तर लेइ जलदी आवेछे. हवे कहो के-चउदपूर्वीए बनावीने मोकलेलुं जे आहारक शरीर तेमां आत्माना प्रदेशो खरा के नहि ?

शिष्य--हा सद्गुरो ते आहारक शरीरमां आत्माना प्रदेशो होवा जोइए- जो ते आहारक शरीरमां आत्माना प्रदेशो न होयतो ज्ञान विना भगवान्ने प्रश्नशी रीते पूछे. अने भगवान्

(૨૧૬)

ચતુર્થે વિષય વિષાર.

વાળીથી ઉત્તર આપે તે આહારક શરીરમાં આત્માના પ્રદેશોના હોયતો સમજી શકાય તે વિના ઉત્તરનો અર્થ શી રીતે સમજે અને ઉત્તર અમુક પ્રકારનો છે તે કોણ ધારણ કરી શકે—માટે અવશ્ય આહારક શરીરમાં આત્માના પ્રદેશો માનવાજ જોડે. શ્રી તીર્થંકર ભગવાને જે વાત કહી છે. તે સત્યજ છે—અનંતજ્ઞાની સર્વ પદાર્થનું બરાબર સ્વરૂપ જાણે છે.

સુગુરુ—જ્યારે ચડદૂર્વીએ આહારક શરીર અત્રથી બનાવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મોકલ્યું ત્યારે—બે શરીર થયાં એકતો ચડદૂર્વીનું સાત ધાતુથી બનેલું ઔદારિક શરીર અને બીજું મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મોકલેલું આહારક શરીર.

હવે બન્ને શરીરમાં આત્માના પ્રદેશો સ્વરાકે નહીં—

શિષ્ય—હા ગુરુજી બન્ને શરીરમાં આત્માના પ્રદેશો છે. ઔદારિક શરીરથી તો ચડદૂર્વી વ્યાખ્યાન વાંચે છે. તે સમજવું ત્યાં પળ જ્ઞાન છે. નહીં તો વ્યાખ્યાન શી રીતે વંચાય. વઢી સમજવું કે—યત્ર યત્રજ્ઞાનં તત્ર તત્ર આત્મ પ્રદેશાઃ જ્યાં જ્યાં જ્ઞાનનો સદ્ભાવ છે ત્યાં ત્યાં આત્માના પ્રદેશો જાણવા. બન્ને શરીરમાં જો આત્મપ્રદેશો હોય નહીં તો બન્ને શરીરમાં જ્ઞાન હોય નહીં માટે બન્ને શરીરમાં જ્ઞાનથી આત્માના પ્રદેશો છે એમ નક્કી યથાર્થ સિદ્ધ સ્પષ્ટ માલુમ પડ્યું.—

સુગુરુ—હવે તે બન્ને શરીરમાં આત્મપ્રદેશો છે એમ સિદ્ધ થયું. હવે સમજો કે એક પ્રદેશી આત્મા હોય તો બન્ને શરીરમાં જ્ઞાનનો સદ્ભાવ શી રીતે હોય, એક પ્રદેશ જો આત્માનો હોત તો એવો બનાવ બને નહીં. અને લઙ્ઘિથી બીજાં શરીર ધારણ કરવામાં વાંધો આવે. વૈક્રિય શરીર પણ ધારણ કરી શકાય નહીં. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો માન્યા સિવાય બન્ને શરીરમાં જાણવા—

परमात्मदर्शन.

(२१७)

पणुं घटे नहीं. एम पण सिद्ध थयुं. चउदपूर्वीना आहारक शरीरना दृष्टांतथी बन्ने शरीरमां आत्मप्रदेशो असंख्याता छे एम सिद्ध थयुं अने एक प्रदेशआत्मानो मानवामां बाध आवेछे ते पण सिद्ध कर्युं. युक्त अने गुंजान येगियो पण अनेक शरीर धारण करे छे तेमां पण आत्माना असंख्य प्रदेशो जाणवा. तीर्थकर महाराजे लोकाकाश प्रमाण आत्माना प्रदेशो कहाछे ते वात पण सिद्ध ठरी, अने ते सिद्धछे. हवे आत्माना प्रदेशो संबंधी वर्णन करेछे. आत्माना एकेक प्रदेशो अनंता पर्याय रह्याछे, ज्ञान पण प्रति प्रदेशे अनंतु सदाकाळ शाश्वत समये समये वर्तेछे.

प्रश्न—आत्माना दरेक प्रदेशे जुदु जुदु अनंतज्ञान छे एम मानीए तो एक प्रदेश जुदु जाणवारूप कार्य करे. त्यारे आत्मानो कंडक जुदु जाणवारूप कार्य करे. त्रीजो प्रदेश वळी कंड जुदु जाणे. त्यारे एक जाणनार आत्मा रह्यो नहीं.

उत्तर—जो के आत्माना प्रत्येक प्रदेशे अनंतज्ञान सत्ताभावे रहुंछे तो पण असंख्यात प्रदेशो मळी एक उपयोग वर्तेछे, पण प्रत्येक प्रदेशेनो जुदो जुदो उपयोग वर्ततो नहीं ते कंड बाध आवतो नहीं. असंख्य प्रदेशो मळी एक आत्मा कहेवायछे, माटे आत्मापणुं नष्ट थतुं नहीं. असंख्यप्रदेशो मळी एक समये निर्मल सिद्धात्माने एक उपयोग होयछे तेथी एकन आत्मा जाणवो.

कोइक आचार्य युगपत् उपयोग मानेछे, तथा चतत्पाठः
गाथा.

केइ भणंति जुगवं, जाणइ पासइ केवलीनिअमा ॥
अन्ने एगंतरिअं, इच्छंति सुउव्वएसेणं ॥ १ ॥

(૨૧૮)

આત્મસ્વરૂપ.

કેચિત્ સિદ્ધસેનાચાર્ય વગેરે કહેછે કે—યુગપત્ એકકાલા-વચ્છેદન કેવલ જ્ઞાની જાણેછે દેવેછે—અન્યે જિન ભદ્રક્ષમાશ્રમણ વગેરે એક સમયે કેવલ જ્ઞાની જાણેછે અને વીજા સમયે દેવેછે. એટલે એક સમયે જ્ઞાનાપયોગ અને વીજા સમયે દશનાપયોગ એક ક્રમવર્તિતપણે ઇચ્છેછે—આગમના અનુસારે તેમ ઇચ્છેછે. આ બે પક્ષની નંદિસૂત્રમાં ઘણી ચર્ચાછે. ત્યાંથી વિસ્તાર વિશેષ જોઈ લેવો.

જિહ્વાસુ—કેવલ જ્ઞાન વિના મતિજ્ઞાની, શ્રુતજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, મનઃપર્યવ જ્ઞાનીને એક સમયે જ્ઞાનોપયોગ અને વીજા સમયે દર્શનોપયોગે હોય કે ગહીં.

સુગુરુ—કેવલજ્ઞાની વિના વીજાં જ્ઞાનવાલાઓને એક સમયે જ્ઞાનો-પયોગ અને વીજા સમયે દર્શનોપયોગ વ્યક્ત હોતો નથી.

જિહ્વાસુ—આત્મજ્ઞાનના છતિપર્યાય અને સામર્થ્ય પર્યાય કેવી રીતે સમજવા ?

સુગુરુ—આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ પૈકી પ્રાતિપ્રદેશે છતાપણે અ-નંત અનંત જ્ઞાન રહુંછે તે જ્ઞાનનો ત્રિકાલમાં કદીપણ નાશ થનાર નથી. તે જ્ઞાનના છતિપર્યાય નાણવા, અને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય પદાર્થનો ભાસનપણો તેથી જ્ઞાનના સામર્થ્ય પર્યાય જાણવા. જ્ઞેયપદાર્થો અનંતાછે. અને તે સમયે સમયે જ્ઞાનમાં ભાસેછે, માટે જ્ઞેય જે અનંત પદાર્થો તેની ભાસતા કાર્ય કરણશક્તિ-વાલા જે જ્ઞાનના પર્યાયો તે જ્ઞાનના સામર્થ્ય પર્યાય જાણવા. છતિ પર્યાયથી સામર્થ્ય પર્યાય અનંત ગુણ વિશેષ જાણવા. સામર્થ્ય પર્યાય તે કાર્યરૂપછે. તથા ચ મહાભાષ્યે—યાવંતો જ્ઞેયાઃ તાવંત એવજ્ઞાનપર્યાયાઃ તે ચ આસ્તિરૂપાઃ પ્રતિવસ્તુનિ અનંતાઃ તતોપ્યનંતગુણાઃ સામર્થ્યપર્યાયાઃ જેમ એક દોરડો

परमात्मदर्शन.

(२१९)

ज्ञात एटले सो तांतणाओ छेते आविभागपणे छता पर्यायछे
अने ते दौरडायी अनेक कार्य थाय, अनेक वस्तुओ बंधाय
अने ते अनेकने आधार थाय. तेने सामर्थ्य पर्याय कहीए,
छतिरूप जे पर्याय तेतो वस्तुरूपछे. अने सामर्थ्य पर्याय तो
प्रवर्तन रूप एटले कार्यरूपछे. तेम अत्र ज्ञानना छति पर्याय-
मां अने सामर्थ्य पर्यायमां पण समजवुं-

जिज्ञासु—श्री सर्वज्ञे षड्द्रव्यनी बहार कोइ वस्तु नथी एम कथ्युं
छे अने नैयायिक शोळ पदार्थ कहेछे. तेनुं केम ?

सुगुरु—षड्द्रव्यरूप छ पदार्थोनी अंदर शोळ पदार्थनो समावेश
थायछे. तेथी छ पदार्थ सत्य जाणवा. प्रथम नैयायिक प्रमा-
णने भिन्न पदार्थ कहेछे ते युक्त नथी कारण के प्रमाण जे-
टलांछे तेटलां ज्ञानछे अने ज्ञानतो आत्मानो गुणछे तेने भिन्न
पदार्थ कहेवाय नहि. प्रमेयपणुं पण षड्द्रव्योनी बहार नथी.
बीजा प्रयोजन सिद्धांतादिक ते सर्व जीवद्रव्यनी प्रवृत्ति
जाणवी माटे भिन्न पदार्थ कहेवाय नहीं,

जिज्ञासु--वैशेषिक द्रव्यगुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय
अने अभाव ए सात पदार्थ कहेछे. तेनो षड्द्रव्यनी अंदर स-
मावेश थायछे के षड्द्रव्यथी भिन्न पदार्थछे तेनी यथार्थ स्प-
ष्ट समजण आपो.

सुगुरु—हे जिज्ञासु स्थिर दृष्टि राखी सांभळ. गुणने पदार्थ बीजो
कहेवाय नहीं. गुण तेतो द्रव्यमां रखाछे. तेथी गुणने भिन्न
पदार्थ कहेवाय नहीं, तथा कर्म ते द्रव्यनुं कार्यछे तथा सामा-
न्य विशेष ए बे तो द्रव्य मध्ये परिणमनछे. वळी समवायने
पण द्रव्यमां समायछे, अने अभावतो अछताने
कहेवाय ते अछताने पदार्थ मानवो घटतो नथी अभावछे

(૧૨૦) વૈશેષિક દર્શન પદાર્થનો ષડ્દ્રવ્યમાં સમાવેશ.

તે વસ્તુનો વ્યતિરેક ધર્મ છે માટે વૈશેષિક મતપણ ષડ્દ્રવ્યમાં સમાઈ જાય છે. વઢી વૈશેષિક દ્રવ્યના પૃથિવી અપ, તેજ વાયુ આકાશ. કાલ, દિશા, આત્મા, મન એ નવ ભેદ કહે છે. તે સંબંધી સમજવું કે-પૃથ્વી, અપ, અગ્નિ વાયુ એતો એકોદ્રિય જીવ જાણવા, પૃથ્વીરૂપ શરીર ધારણ કરી જે જીવો રહ્યા છે તે પૃથ્વીકાયના જીવો સમજવા, અને શરીરતો પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં આવ્યું. એમ એ ચાર પળ આત્મદ્રવ્ય ઠર્યાં. પગ કર્મ-યોગે શરીર ભેદે નામ જુદાં પડ્યાં છે. દિશીતો આકાશમાં મઢી જાય છે અને આકાશ એ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્ય જાણવું. મનતે આત્માનું સંસારપિણામાં ઉપયોગ પ્રવર્તવાનું દ્વાર છે તેથી તે ભિન્ન દ્રવ્ય કહેવાય નહીં. વૈશેષિક મતવાદી સામાન્ય વિ-શેષ એ બેને ભિન્ન પદાર્થ માને છે તે પળ યુક્ત નથી-

ગાથા.

તથાહિ સકલશાસ્ત્રે પક્ષદ્વયં,
જાતિપક્ષો વ્યક્તિપક્ષશ્ચ તત્રજાતિઃ
સામાન્યં વ્યક્તિસ્તુવિશેષઃ
ઇતિવચનાત સામાન્યેતુસર્વેષામેવ
નિત્યત્વં સત્તાપ્રતિપાદનપરત્વાત્
યથાગોત્વાશ્ચત્વાદિકં નિત્યં નતુ ગૌર
શ્ચોવાનિત્યઃ વ્યક્તિપક્ષેત્વનિત્યમેવ
યસ્તુજાતિપક્ષઃ સત્ત્વસ્માકં
જૈનાનાં દ્રવ્યાર્થિકનયઃ વ્યક્તિપક્ષઃ
સ્ત્વસ્માકં પર્યાયાર્થિકનયઃ

भावार्थ—सकलशास्त्रमां पक्ष बेछे. १ जातिपक्ष २ बीजो व्या-
क्तिपक्ष जाति एटले सामान्य अने व्यक्ति एटले विशेष. एवा वच-
नथी जाणवुं. सामान्ये एटले जातिपक्षमां सर्व पदार्थोनुं नित्यपणुं
जाणवुं कारणके जातिपक्ष सत्तानुं प्रतिपादन करवामां तत्परछे ते
हेतुथी जेमके गोत्व, अश्वत्व, गायपणुं अने अश्वपणुं ए नित्यछे.
पग व्यक्तिरूप जे गौ घोडो ते अनित्यछे. जे आ जातिपक्षछे ते
जैनोनो द्रव्यार्थिक नयछे. अने जे व्यक्तिपक्षछे. तेज जैनोनो पर्या-
यार्थिक नयछे. जातिपक्ष द्रव्यनुं ग्रहण करेछे अने व्यक्तिपक्ष पर्या-
योनुं ग्रहण करेछे. जातिपक्ष ए सामान्य अने व्यक्तिपक्ष ए विशेष
छे माटे ते बेनो नयमां समावेश थवाथी सामान्य विशेष षड्द्रव्यथी
भिन्न पदार्थ नथी.

जिज्ञासु—पृथिवी, अप, तेज, वायु, ए चार विना बाकीनां पंच

नित्य कह्वांछे. तो जैनोना स्याद्रादपक्ष प्रमाणे नित्य अनि-
त्य ए बे पक्ष प्रत्येक द्रव्यमां घट्या नहीं. ने तमो घटावोछो
ते केवी रीते ते समजावो

सुगुरु—हे भव्य सांभळ, प्रत्येक वस्तुमां ज्ञानदृष्टिथी जोतां नित्य
अने अनित्यपणुं रहुंछे. पृथिवी, अप, तेज अने वायु कार्य-
रूप न्यायशास्त्रमां अनित्य कह्वांछे अने परमाणुरूप नित्य
कह्वांछे. आकाश स्वस्वरूपे त्रणकालमां एकरूपछे माटे तद-
पेक्षया नित्यछे. अने=पटाकाशोनष्टः पटाकाशोनष्टः) घटा-
काश नष्ट थयुं. पटाकाश नष्ट थयुं, एवी रीते घटपटनी उ-
पधिथी अनित्य पक्षपणुं आकाशमां आवुं. दिशाकालमां
पण तेवी रीते नित्यानित्यपणुं घटयुं=आत्मापितस्यमते सच-
देहेंद्रियव्यतिरिक्तः विद्युर्नित्यश्चेति वचनात् तत्र कौण्डिन्य
न्यायेन पारिशिष्यानुमानेन देहाश्रितो नित्य एवेति=आत्मा

(૨૨૨)

પ્રાયશ્ચિત્ત શ્લોક.

પણ વૈશેષિકના મતમાં દેહથકી ભિન્ન જે આત્મા તે વિશુ અને નિત્ય છે ત્યાં કૌંડિન્ય ન્યાયવડે જોતાં દેહમાં રહેલો આત્મા અનિત્ય કહ્યો છે. સ્યાદ્વાદ મતમાં અશુદ્ધ પર્યાયે તથા શુદ્ધ પર્યાયે આત્મામાં નિત્યાનિત્યપણું સ્વીકાર્યું છે. મનમાં પણ નિત્યાનિત્યપણું રહ્યું છે. દેહના અનિત્યપણાથી મનનું પણ અનિત્યપણું જાણવું. દેહાશ્રિતંમનઃ દેહાશ્રિત મન છે માટે, પુદ્ગલરૂપે દેહનું પણ નિત્યપણું છે તેમ મનનું પણ પુદ્ગલરૂપે નિત્યપણું છે. પુદ્ગલ પરમાણુઓમાં પણ દ્રવ્ય ચીકનયની અપેક્ષા નિત્યપણું છે. કારણ કે—પરમાણુરૂપ પુદ્ગલનો કદી ત્રિકાલમાં પણ નાશ થતો નથી તેમ પુદ્ગલરૂપ પરમાણુઓમાં પણ વર્ગ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ સમયે સમયે ફર્યા કરે છે માટે પર્યાયચીકનયની અપેક્ષા તેમાં અનિત્યપણું જાણવું.

જિજ્ઞાસુ—સ્યાદ્વાદ ઇટલે શું ? તે સમજાવો.

સુગુરુ—એકસ્મિન્ વસ્તુનિ વિરુદ્ધધર્મદ્વય સમાવેશઃ સ્યાદ્વાદઃ એક વસ્તુમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ બે ધર્મનો સમાવેશ તે સ્યાદ્વાદ જાણવો અથવા વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન પરઃ શ્રુતવિકલ્પઃ સ્યાદ્વાદઃ ભાવાર્થ—વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવામાં પર એવો શ્રુતનો વિકલ્પ સ્યાદ્વાદ જાણવો. અથવા વિરુદ્ધધર્મદ્વય પ્રતિપાદન પરોવક્તુરભિમાય વિશેષઃ સ્યાદ્વાદઃ અથવા તો એક વસ્તુમાં વિરુદ્ધ ધર્મ બેને પ્રતિપાદન કરવામાં તત્પર એવો વક્તાનો અભિમાય વિશેષ તેને સ્યાદ્વાદ જાણવો. તથા એકસ્મિન્ જીવાજીવાદૌ વિરુદ્ધ્યધર્મ દ્વયં નિત્યાનિત્યાસ્તિત્વ નાસ્તિત્વોપાદેયાનુપાદેયાભિલાષ્યાનભિલાષ્યાદિ લક્ષણં તસ્ય સમાવેશઃ સમાશ્રયઃ સ્યાદ્વાદ ઇત્યર્થઃ

તથા જીવ અજીવ આદિ પદાર્થમાં વિરુદ્ધ જે ધર્મદ્વય—નિત્ય

परमात्मदर्शन.

(२२३)

अनित्य तेम अस्तित्व नास्तित्व तथा उपादेय, अनुपादेय तेमज अभिलाष्य अने अनभिलाष्य धर्मनो समावेश, ए विरुद्ध धर्मोनी स्थिति तेनुं नाम स्याद्वाद जाणवुं.

ए प्रमाणे स्याद्वादनुं लक्षण कही प्रस्तुतविषय वर्णन करीए. तथा वेदांती सांख्य ते एकज आत्मा अद्वैतपणे एकज द्रव्य मानेछे, ते पण युक्ति युक्त नथी. केमके शरीरजे आ चर्मचक्षुर्था देखायछे वा औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस अने कार्मण ए पंच प्रकारनां शरीर तो पुद्गलास्तिकायपणेछे माटे रूपीछे, तेमज पुद्गल द्रव्यना स्कंधो जे जुदी जुदी आकृतिरूपेछे ते एक केम थाय. तथा आत्मा अने शरीरनो आधार ते आकाश जाणवुं. अवगाहो आगासं इति वचनात्. बीजा द्रव्योने रहेवा अवकाश आपवो ते आकाशनुं लक्षणछे अने ते सर्वत्र प्रसिद्धछे. ते आकाश द्रव्यने जुदुं मानवुं जोइए. आत्मा भिन्न ठर्यो. पुद्गलद्रव्य भिन्न ठर्युं. आकाशद्रव्य भिन्न ठर्युं. तो एकज आत्माछे आत्मा विना अन्य वस्तु नथी. एवो अद्वैतवाद सिद्ध ठर्यो नहीं. वळी अद्वैतवा-दमां एकज आत्माछे. पण अनेक आत्मा नथी एवुं मनायछे. तो अनेक आत्मानी शास्त्र युक्ति, अनुभवथी सिद्धि आगळ करवामां आवशे. अद्वैतवादी आत्मानुं अस्तित्त्व मानेछे माटे ते वादनो समावेश आत्मद्रव्यमां करवामां आवेछे, माटे षड्द्रव्यनी बाहार कोइ वस्तु नथी एम सिद्ध ठर्युं.

षड् द्रव्यनी अंदर बौद्धदर्शननो समावेश.

बौद्धदर्शनने समये समये नवा नवापणे आकाश १ काल २ जीव ३ पुद्गल ४ ए चार द्रव्य मानेछे. ते वादी प्रति कहेवानुं के-जीव अने पुद्गल एकज क्षेत्रे केम रहेता नथी. ते तो चरुनादिभाव पामेछे. माटे तेना अपेक्षाकारणरूप, धर्मास्तिकाय अने अधर्मा-

(२१४) अन्य दर्शननो जैन तत्त्वमां समावेश.

स्तिकाय. ए बे द्रव्य पण मानवां जोइए. तथा केटलाक संसार चक्रनो कर्ता एक परमेश्वर मानेछे. ते पण मृषा समजबुं. निर्मल राग द्वेषातीत प्रभु, विभु, परमात्मा, परना मुख दुःखनो कर्ता थाय नहीं. वळी जगत्कर्ता इश्वर नहीं. एनो विस्तार अग्रे कर-वामां आवशे. हाल तो आत्मानुं स्वरूप वर्णवनां प्रसंगे अन्य चर्चा चाली. हवे आत्म स्वरूप विषयनुं वर्णन करीए. आपणे नकी समजबुं के आत्मद्रव्य बीजां पंचद्रव्यथी न्यारुछे. अनादि कालथी अशुद्ध परिणतियोगे पुद्गलद्रव्यने परमाणुओ तेना स्कंधो कर्मरूप परिणमी आत्मानी साथे क्षीरनीर पेठे परिणम्युंछे. मन, वाणी, छेइया, शरीर, संस्थान ए सर्व पुद्गल समजबुं. अष्टकर्मनी वर्णना-ओ पण पुद्गलछे.

अष्ट वर्णानुं स्वरूप लखेछे.

औदारिकवर्णना, वैक्रियवर्णना, आहारकवर्णना तेजसवर्णना, भाषावर्णना, श्वासोश्वासवर्णना, मनोवर्णना, कर्मणवर्णना, बे परमाणु भेगा थाय त्यारे द्रव्यणुक स्कंध कहेवायछे. त्रण परमाणु भेगा थाय त्यारे त्र्यणुक स्कंध थाय. एम संख्याना परमाणु मिले त्यारे संख्याताणुकस्कंध थाय. तेमज असंख्याता परमाणुआ भेगा थाय त्यारे असंख्याताणुकस्कंध थायछे, तथा तेमज अनंतपरमाणुओनो स्कंध थायते अनंताणुकस्कंध थाय, एटला सर्व स्कंध ते जीवने ग्रहण करवा लायक नहीं, पण ज्यारे अभव्यथी अनंतगुण अधिक परमाणुओ भेगा थइ जे स्कंध थाय. त्यारे तेनी औदारिक शरीरने लेवा योग्य वर्णना थाय.

एमज औदारिकथी अनंतगुणा अधिकवर्णनामां दल भेगा थाय. तेवारे वैक्रियवर्णना थाय. वळी वैक्रियथी अनंतगुणा परमाणु मळे त्यारे आहारकवर्णना थाय एम] सर्व वर्णाना एकेकवी

परमात्मदर्शन.

(३२५)

अनंतगुणा अधिक परमाणु मले तयारे उपरनी वर्गणाओ अनुक्रमे थाय एटले पहेलीथी बीजी वर्गणा. बीजीथी त्रीजी, त्रीजीथी चोथी, अने चोथीथी पांचमी, अने पांचमीथी छठी, छठीथी सातमी, मनोवर्गणा थी आठमी कार्मण वर्गणामां अनंतगुणा परमाणुआ अधिक जाणवा आठ वर्गणाओमां औदारिक, वैक्रिय, आहारक, अने तैजस, ए चार वर्गणाओ बादरछे. ए चारवादर वर्गणाओमां पांच वर्ण बे गंध, पांच रस, अने आठस्पर्श, ए वीश गुग जाणवा. तथा भाषावर्गणा. श्वासोश्वास वर्गणा तेम मनोवर्गणा ए चार वर्गणा सूक्ष्मछे, ए चार सूक्ष्मवर्गणामां पांच वर्ण, बे गंध, पांच रस, अने चार स्पर्श, ए सोल गुण रहाछे, अने एक परमाणुमां एक वर्ण एक गंध, एक रस, अने बे स्पर्श, ए पांच गुणछे. ए अष्ट वर्गणा संसारी आत्माने लागीछे. अने तेमां पण समये समये उत्पाद व्ययध्रुवता परिणमी रहीछे. ते वर्गणामां पण अगुरु लघुथी षड्गुण हानिवृद्धि समये समये परिणमी रहीछे. ए आठ वर्गणामां आत्मानुं कंडनथी. पुद्गलद्रव्य अने आत्मद्रव्य बे भेगां यइ परिणमेछे—पुद्गल परमाणुआ अनंतछे. हवे प्रसंगे पुद्गलनुं स्वरूप लखेछे—

पुद्गलस्वरूप,

वर्गादिक गुणो वृद्धि पामे. गळी जाय. खरी जाय एवो जेमां स्वभावछे. तेने पुद्गलास्तिकाय द्रव्य जाणवुं. मूलद्रव्य पुद्गलास्तिकाय परमाणुरूप अवबोधवुं—द्वयणुक आदि जेटला स्कंधछे तेनुं मूल कारण जाणवुं. एटले घट, पट, दंड, चक्र, वल्ल, पात्र, कपाट, ईट, पत्थर. आदि पुद्गलनी आकृतियोनुं मूल उपादानकारण परमाणुओ छे. तेवा रूपे परमाणुआ परिणम्याछे, बीजा पण तेमां निमित्त आदि कारणो मळेछे. छ प्रकारनां पुद्गल स्कंधो छे ? बादरवादर १ बादरवादर २ बादर ३ बादरसूक्ष्म ४ सूक्ष्मवादर ५ सूक्ष्म ६ सूक्ष्मसूक्ष्म.

(૨૨૬)

પુદ્ગલસ્કંધરૂપ.

- ૧ પુદ્ગલપિંડના ને સ્વંડ કર્યા પોતે ફરી મળે નહીં તે કાષ્ટ પાષાણાદિક બાદર બાદર ભેદ પ્રથમ જાણવો.
- ૨ પુદ્ગલ સ્કંધ સ્વંડસ્વંડ કર્યા પોતાની મેળે પરસ્પર એકમેક થઈ જાય એવાં દુગ્ધ, ઘી, તેલ વગેરેને બાદર કહેછે.
- ૩ જે પુદ્ગલ સ્કંધો દેખવામાં સ્થૂલ હોય-સ્વંડસ્વંડ કરવામાં આવે નહીં હસ્તાદિકર્થોગ્રહણ થાય નહિ, એવા ધૂપ, ચંદ્ર, ચાંદની, આદિપુદ્ગલબાદરસૂક્ષ્મ કથાયછે. જ્ઞાયાતમ પુદ્ગલો પણ જાણવાં.
- ૪ જે સ્કંધો સૂક્ષ્મ છે કિંતુ સ્થૂલોપલંબ હોય. સ્પર્શ, રસ, ગંધ વર્ણ, શબ્દ વિગેરે સૂક્ષ્મ બાદર જાણવા.
- ૫ જે પુદ્ગલ સ્કંધો અતિ સૂક્ષ્મ છે ઇન્દ્રિયોના ગ્રહવામાં આવતા નથી એવા કર્મવર્ગનાદિક સૂક્ષ્મપુદ્ગલ કહેવાયછે.
- ૬ કર્મવર્ગનાઓથી પણ અતિસૂક્ષ્મ દ્વયણુકસ્કંધ આદિ સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ કહેવાયછે.

પૂર્વોક્ત સ્કંધોનું મૂલકારણ પરમાણુ છે, પરમાણુ શબ્દરહીત છે જોકે સ્કંધોના મિલાપથી શબ્દરૂપ પર્યાયને ધારણ કરે છે તો પણ વ્યક્તરૂપ શબ્દપર્યાયથી રહીત છે. વહી પરમાણુ અવિભાગી ઇટલે ભાગ રહીત છે. પૃથિવી, અપ અગ્નિ, વાયુ એ ચારનું કારણ પરમાણુ આ છે અર્થાત્ પૃથિવી અપ અગ્નિ વાયુ એ ચાર ભૂતો પણ પરમાણુઓથી પેદા થાય છે. વહી પરમાણુ પરિણમન સંભાવવાળો છે. પરમાણુ અશબ્દ છે તો પણ શબ્દનું કારણ છે. પરમાણુ પોતે દ્રવ્ય છે અને તેમાં વર્ણ, ગંધ રસ અને સ્પર્શ એ ચાર ગુણો છે અને તે મૂર્ત કહેવાય છે. પૃથિવી જાતિ પરમાણુઓમાં ચારે ગુણોની મુખ્યતા છે. જલમાં ગંધ ગુણની ગૌણતા, અને બાકના ત્રણ ગુણોની મુખ્યતા છે. અગ્નિમાં ગંધ અને રસ ગુણની ગૌણતા છે, અને સ્પર્શ વર્ણની મુખ્યતા છે. વાયુમાં ત્રણ ગુણોની ગૌણતા છે, અને સ્પર્શ ગુણની મુખ્યતા છે.

परमार्थदर्शन.

(२२७)

इन्द्रियो वडे उपभोग्य पदार्थो, तथा पांच प्रकारनी द्रव्येन्द्रिय तथा औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस अने कार्मण ए पंच प्रकारनां शरीर तथा पैद्गलीक द्रव्य मन तथा द्रव्यकर्म नोकर्म विगेरे मूर्त पदार्थ पुद्गल द्रव्य जाणवुं. ए पुद्गल द्रव्य द्रव्यार्थिक नयथी शाश्वतछे, अने पर्यायार्थिक नयथी अशाश्वतछे. वस्तुतः पुद्गल द्रव्ययी आत्मा न्यारोछे. परपरिणति परिणामी थतां पुद्गल ग्राहक पुद्गल भोगी थए छते प्रति समये नवा कर्म बांधवे संसारी थयाछे, ज्यारे आत्मा स्वस्वरूप ग्राहक तथा स्वस्वरूप भोगी थाय त्यारे सर्वकर्म रहीं थइ परम ज्ञानमयी-परम दर्शनमयी-परमानंदमयी सिद्ध, बुद्ध अनाहारी, अशरीरी, अयोगी, अलेशी, अनाकारी, निःप्रयासी, अविनाशी, अज, अविचल, विमल स्वरूप, सुखनो भोगी सिद्ध परमात्मा थाय, माटे सर्व जगत् जीवनी अँठतुल्य पुद्गलना भोगनो त्याग करी स्वआत्मा स्वरूप भोगी पणाना रसीया थइ स्वस्वरूप अनुयायी चेतना योगे निजगुण स्थिरतारूप चारित्रनी प्राप्ती करवी. एज मनुष्य जन्म पाम्यानी साफल्यता जाणवी.

षष्ठविषय--धर्म क्यां रहेछे अने तेना हेतुओ कोण;

विचार--संसाररूपी कूपमां पडता प्राणिओने धारी राखे तेने

धर्म कहेछे. धर्मना बे भेदछे व्यवहारधर्म अने निश्चयधर्म,

प्रश्न--ज्यारे धर्म एकजछे, त्यारे तेना बे भेद केम कथन कर्या.

उत्तर--जो के आत्मां स्थित धर्मरूप कार्य निश्चयता कारण विना थती नथी. माटे सर्वज्ञ प्रभुए व्यवहार धर्म अने निश्चयधर्म एवे प्रकारनो धर्म कथ्योछे. व्यवहारथीजे धर्मछे ते निश्चय जे शुद्ध आत्मिक धर्म तेने प्रगटाववामां कारणछे. व्यवहार धर्म ते साधनछे अने आत्मिक धर्म ते साध्यछे. माटे धर्मना पण कारण कार्यनी सापेक्षता ए बे भेदछे.

(૨૨૮)

આત્મજ્ઞાનથી કર્મનો નાશ.

પ્રશ્ન—નિશ્ચય નયથી શુદ્ધ આત્માનો જ જ્યારે ધર્મ છે તો વ્યવહાર ધર્મ આદરવાનું શું કારણ છે. એક ફક્ત નિશ્ચય આત્મિક ધર્મ આદરવો જોડે.

ઉત્તર—વ્યવહાર ધર્મ વિના નિશ્ચય ધર્મ પ્રગટ થતો નથી. જેમકે—વા-જરીના ઢાળામાં ડગવાની ઘણી સારી શક્તિ રહી છે તોપણ જ-લનો સંયોગ થતાં ડગી નીકળે છે. તેમ વ્યવહાર ધર્મ વિના નિશ્ચય ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી—

પ્રશ્ન—મરુદેવી માતાએ વ્યવહાર ધર્મ આદર્યો નહોતો. તેમ છતાં કેમ તેમને નિશ્ચય આત્મધર્મની સિદ્ધિ થઈ.

પ્રત્યુત્તર—કારણ વિના કાર્યની નિષ્પત્તિ થતી નથી. તેતો અવશ્ય સમજવું. જોકે મરુદેવી માતાએ દેશથીના સર્વથી ચારિત્ર ગ્રહું નહોતું. તોપણ વ્યવહાર ધર્મને અવલંબ્યો હતો તેથી જ નિશ્ચય આત્મિક ધર્મને પ્રગટાવ્યો.

જિજ્ઞાસુ—હે સદ્ગુરો મરુદેવી માતાએ કયો વ્યવહાર ધર્મ આદર્યો હતો. તે સમજાવો.

સુગુરુ—મરુદેવી માતા પ્રથમ શ્રી રૂષભદેવ ભગવાનના દર્શન કરવા ચાલ્યાં એ પછી વ્યવહાર ધર્મ છે. તેમજ મરુદેવ માતાએ મનવચન અને કાયા એ ત્રણ યોગની ગુપ્તિ કરી, એટલે મનવચન અને કાયાના વ્યાપારોને પરભાવમાં જતા અટકાવ્યા. ધર્મ ધ્યાન ધ્યાયું તે રૂપ વ્યવહારથી ઉત્તમ ધ્યાને ચડ્યાં. શુદ્ધ ધ્યાન ધ્યાયી અંતકૃત્ત કેવલી થઈ મોક્ષમાં ગયાં—પુત્રપ્રેમ નાશ થવાનું કારણ મરુદેવી માતાને સમવસરણ થયું. તે પછી વ્યવહાર, તેમજ તેથી સંસારની અસારતા ઉદ્ભવી, તે પછી વ્યવહારથી ઉત્પન્ન થઈ. મનવચન કાયાના સ્વરાશ આશ્રવના વ્યાપાર રોક્યા. અલબત્ત ધર્મ ધ્યાન દિધ્યાવતાં રોકાણ, પશ્ચાત્ શુદ્ધ ધ્યાન ધ્યાવતાં નિશ્ચય આત્મિક ધર્મ પ્રગટ્યો, તે આત્મિક ધર્મ

परमात्मदर्शन.

(२२९)

रूप कार्यमां मनवचन कायानी गुप्ति तथा धर्मध्यानरूप व्यवहार धर्म मरुदेवी माताने थइ गयो, मनोगुप्ति वचनगुप्ति अने काया गुप्तिरूप तथा धर्मध्यानरूप व्यवहारधर्मने कारणता निश्चयधर्म रूप कार्यमांछे, व्यवहारधर्म घणा प्रकारेछे. तेनी विचित्रता सुगुरुना मुखथी सांभळी अनेकांतधर्म ग्रहवो. वळी भरतराजाने पण धर्मध्यानरूप व्यवहारधर्म केवल ज्ञान प्रगटवामां निमित्त कारणीभूत हतो. निश्चय धर्मतो अरूपीछे, ते व्यवहार धर्मनी मदतथी प्रगट थायछे. उपादान कारणनी शुद्धिमां निमित्त कारण बलवत्तरछे. एम समजवुं सारांश के मरुदेवी माता वा भरत चक्रवर्ति पण नीचला गुणठाणानुं छोडवुं अने उपरना गुणठाणे चढवुं ते रूप शुद्ध व्यवहार पाम्यां हतां.

जिज्ञासु प्रश्न--जो एमछे तो व्यवहारधर्म कोने कहेछे ते समजावो.

सुगुरु--पंच महाव्रत उच्चरवां. सर्व विरतिधर्म देशविरतिधर्म अलबत साधुधर्म. श्रावकधर्म ए व्यवहारणी धर्म जाणवो. ए व्यवहारधर्म निश्चयधर्मनी प्राप्ति करावी आपेछे. निश्चयथी संपूर्ण निरावरण परमात्मपदनी प्राप्ति करान्या बाद व्यवहार रहेतो नथी.

शिष्यप्रश्न--आत्मा परमात्मरूप थाय तेमां कयां कयां कारणोनी जरूछे.

सुगुरु--उपादान कारण. अने असाधारण कारण अपेक्षाकारण निमित्तकारण. ए चार कारणथी कार्यनी सिद्धि थायछे.

शिष्यप्रश्न--आत्मा सिद्धपणुं पामे तेमां पामे तेमां उपादान कोने समजवुं.

सुगुरु--सिद्धतारूप कार्य ते आत्मानुं अभेद स्वरूपछे. सिद्धतारूप कार्यनो कर्ता आत्मा पोतेजछे अने सिद्धपणुं आत्मानुं कार्य समजवुं. अधुना सिद्धता प्रगटाववी तेज कर्तव्यधर्मछे. सिद्ध-

(२३०)

साधुनी क्रिया.

तारूप कार्यनी रुचि विना अनंतकाल संसारमां परिभ्रमण थयुं. अने अज्ञान रागद्वेषयोगे पोताना धर्मथी भ्रष्ट बन्यो. हवे आत्मानो मूलधर्म भासन थयो तेथी हवे ते कार्यनी सिद्धि करवी. एम निर्धार करी तदनुगत चेतना वीर्यथी स्वस्वरूप कार्यनी-पजावे प्रथम तो अंशथी आत्मा कर्ता थाय. पश्चात् आत्मिक गुणोनी आविर्भावता थतां संपूर्ण कर्त्तापणुं पामीने परमात्मरूप कार्य नीपजावे. एवी सिद्धतानुं उपादान कारण पोतानी सत्तागत ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्यादिक अनंतागुण छे. तेज उपादान कारणपणे जाणवा. उपादान कारणरूप जे ज्ञानदर्शन चारित्र अने वीर्यछेते कार्यथी भिन्न नथी, अने तेज कार्यरूप परिणामेछे. माटे तेने उपादान कार्य कहेछे, आत्मानाधर्म छे तेमां पण ज्ञानदर्शन चारित्रनी मुख्यता जाणवी.

द्दिश्य--हे गुरुजी असाधारण कारण कोण समजवुं.

सुगुरु--उपादान कारणथी जे अभेद स्वरूपेछे. अने जे कार्यपणुं पामतुं नथी एटले कार्य संपूर्ण उत्पन्न थतां जे रहेतुं नथी तेने असाधारण कारण कहेछे. घटरूप कार्यनुं उपादानका मृत्तिका छे. मृत्तिकाछे. तेज घटरूपे थायछे, तेतो वाचकने लक्ष्यमां आव्युं हशे हवे असाधारण कारणनुं दृष्टांत कहेछे. जेमके घटरूप कार्य थतां स्थास, कोस, कुसलाकारजे थायछे. ते मृत्तिका पिंडरूप कारणथी अभेदछे परंतु घटरूप कार्य थतां ते असाधारण कारण स्थास कोस कुसलाकाररूप रहेतुं नथी. कहुं छे के-प्रमाण निश्चयेन उपादानस्य कार्यत्वाप्राप्तस्य अवांतरावस्था असाधारणमिति.

हवे परमात्मरूप कार्यमां असाधारण कारण घटावेछे. सिद्धता रूप कार्यप्रतिप्रथम मनवचन कायानायोग तेहने स्वगुण रमणमां

परमात्मदर्शन.

(२३१)

अरागी अद्वेषीपणे प्रवर्ताववा. चोथा गुणठाणाथी मांडीने सिद्धतारूप कार्य पर्यंत गुणनी वृद्धि करवी. उपशमभाव क्षयोपशमभाव श्रेणी-गतध्यान, विधिसहित आचरणा, पूजा भक्ति, गुणिनुं बहुमान, ज्ञान क्रियारूप साधक अवस्थानी तरतमता ते सर्व असाधारण कारण जाणवुं. आत्मानुं ध्यान करवुं. क्षणेक्षणे आत्मोपयोगमां स्थिरपणे वर्तवुं साधुवत. श्रावकव्रत पालवां इत्यादि सर्व असाधारण कारण जाणवुं. भेदज्ञान विना असाधारण कारणनी प्राप्ति थती नथी.

शिष्य--हे सुगुरो आत्मा सिद्धतारूप कार्यनीपजावे तेमां निमित्त कारण कोण ?

सुगुरु--देव अरिहंत, गुरु, अने सिद्धांत ते निमित्त कारण जाणवुं. निमित्त कारण विना जीव उंची स्थिति ए चढी शकतो नथी. धर्मनी प्राप्तिमां निमित्त कारण बलवान् रहेछे. देवगुरु सिद्धांत ए मुक्तिरूप महेलमां चढतां निसरणी समानछे. देवगुरुनी भक्ति बहुमान करवाथी कार्य सिद्धि थशे. तेम सिद्धांतनुं बहुमान विनयआदि करवाथी गुण प्रगट थशे. सुगुरुनो विनय विश्वास श्रद्धाभक्ति जेम घणी तेम निमित्त कारणनी पुष्टता जाणवी, सुगुरुनुं आलंबन मोडुंछे. अज्ञानरूप अंधकारनो नाश सुगुरु महाराज करेछे.

शिष्य--देननी भक्ति बहुमान शी रीते करवुं.

सुगुरु--श्री अर्हन्नी पूजा करवी, अर्हन्ना गुणोनुं स्तवन, कीर्तन, करवुं, अर्हन्नी आज्ञा मानवी, इत्यादिथी पूजा भक्ति जाणवी.

शिष्य--अर्हन्नुं पूजन शी रीते करवुं, अरिहंत साक्षात् तोहाल नथी, तेनो खुलासो आपो.

सुगुरु--अष्ट प्रकारी पूजा विगेरेथी प्रभुनी पूजा करवी. अरिहंत भगवान् साक्षात् जोके विद्यमान् नथी तोपण 'जिनना अभावे

(२३२)

चतुर्थे विषये विचार.

जिन प्रतिमानुं पूजन करवुं. जिन प्रतिमामां जिनेश्वरनो आरोप करी मानतां-पूजतां समकितनी पुष्टि अने निर्जरानुं कारण जिन प्रतिमा थायछे.

शिष्य--श्री जिन प्रतिमानुं कथन सूत्रमां छे के नहि ?

सुगुरु--हा जिन प्रतिमानुं कथन प्रभुना पवित्र सूत्रोमां छे.

शिष्य--हे सुगुरुजी, कृपा करीने सूत्रनो एक पाठ कहा के जेथी

जिन प्रतिमानी साबीती थाय:

सुगुरु--हे भव्य सांभळ--मूत्रपाठ:

तेणं कालेणं, तेणं समएणं, जावतुंगीयाए नयरीए, बहवे समणो वासगा परिवसंति, संखे, सयगे, सिलप्पवाले, रिसदत्ते, दमगे, पोख्खली, तिविद्ध, सुपयट्ठे, भाणुदत्ते, सामिले, नरवम्मे, आणंदा, इणोअजे अन्नथ परिवसंति, से अट्ठा, दित्ता, बुद्धिन्न विपुलवाहणा, जाव लद्धटा, गहिअट्ठा, अठमी, चाउट्टिसी, पुन्न मासिणी, सुपडिपुन्नं पोसहं पालेमाणा, निग्गंथाणं निग्गंथीणं, फासुएसणिज्जेणं, असण, पाण, खाइम, साइमेणं, जाव पडिलाभेमाणा, चेइआलएसु तिसं गंध पुप्फ वथ्थाइएहिं अच्चणं कुणमाणा जावविहरंति, सेतेणठेणं गोयमा, जेजिण पडिमं पूएइ, सोसम्मट्ठिठी अन्नोपुणमिद्धिट्ठि, मिच्छादिट्ठिस्स नोनाणं, नोचरणं, नोमोख्ख इत्ति सम्मट्ठिट्ठिस्स नाणं, चरणं, मोख्ख, इतिसेतेणठेणं गोयमा, अवस्सजिणपडिमाण गधपुप्फवथ्थाइएहिं पूयाकायव्वा--श्रीपंचकल्प सूत्रे पूजालापक.

भावार्थ--तुंगीया नगरीमां रहेनारा सूत्रोक्त वार श्रावको पोषधत्रतनुं आठम चउदस पूर्णिमा अमावाश्याए आराधत करता हता, पोषधपारीने साधु साध्वीओने निरवग्र आहार पाणी बहोरावता हता. अने चैत्यालयमां न १ प्रतिमानी पुष्पादिकथी पूजा करता,

परमात्मदर्शन.

(२३६)

हता, माटे गृहस्थ श्रावक जिन प्रतिमानी अवश्य पूजा करे. इत्यादि अधिकार समजी लेवो.

द्वितीय सूत्रपाठ.

तएणं सा दोवइ रायवरकन्ना, जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ. उवा० मज्जणघरं अणुपविसइ, अणु२ ण्हाया कय बलिकम्मा कयकोउअ मंगलपायछित्ता सुधधप्पा वेसाइं, मंगलाइं, वध्थाइं, पवरपरिहिया मज्जणघराओ पडिनिरकमइ, पडि२ जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छइ उवा२ जिणघरं अणु पविसइ जिणपडिमाणं आलोए, पणामंकरेइ, लोमहध्थगं गिन्हइ. तार जिणपडिमाओ पमज्जेइ, ता सुरभिणा गंधोदणं ण्हावेइ, तार सुरभिणं गंधकासाइए गत्ताइं लुहेइ, तार सुरसेहिं मल्लेहिअ अच्चेइ जहा सुरियाभो जिण पडिमाओ अच्चेइ अच्चेइत्ता तहेव भाणिअव्वं जाव धूवं दहइ, दहइत्ता, वामं जाणुं अंचइ, अंचइत्ता, दाहिणं जाणुं धरणिअलंघि कट्टुत्तिखुत्तो-इत्यादिपाठः

भावार्थ-राजकन्या द्रौपदी स्नान करवा मज्जनगृहमां जाय अने त्यांथी जिनेश्वरना देरासरमां जाय. प्रभुनी प्रतिमाने देखी प्रणाम करे. रुडा लोम हस्तकथी जिन प्रतिमानुं प्रजार्जन करे. सुरभि गंधमिश्रितजलथी प्रभुनी प्रतिमानुं स्नान करे पश्चात् अंगलुंहन करे, पश्चात् गंधादिकनुं विलेपन करे-इत्यादि घणा पाठ छे तेथी सिद्ध थायछे के-प्रभुनी पडिमा एटले प्रतिमा छे. महानिशीधमां पण प्रभुनी प्रतिमा विषे पाठछे-माटे जिन प्रतिमामां जिनेश्वरनो आरोप करी मानतां पूजतां आत्महित थायछे.

वळी ज्यारे श्रीतीर्थकर भगवान् समवसरणमां पूर्वदिशा सन्मुख वेसेछे अने दक्षिण, पश्चिम, उत्तरदिशिना द्वारे श्रीअरिहंतना प्रतिमा स्थापेछे, ते त्रण दिशाना स्थापनाजिननो आलंबन पापीने अनेक

(૨૩૫)

જિનપ્રતિમા.

જન સમવસરણમાં સમકિતરત્નને પામ્યા, બીજી પર્ષદ્ મધ્યે જિન સે-
વનથી સમકિતનો લાભ યાયછે. એ પળ સ્થાપના નિક્ષેપાનો ઉપગારછે.

વિચરતા અરિહંત તથા તેમની સ્થાપના એ બે સાધક જીવને
નિમિત્ત કારણ છે પણ ઉપાદાન નથી. અર્હનને વાંદવાનું તથા અ-
અર્હનની પ્રતિમાને વાંદવાનું ફલ સરખું જાણવું. કારણ કે બેમાં પણ
ભાવની મુખ્યતા અંતરથી થાતાં ફલ થાયછે.

બધી દરેક વસ્તુના ચાર નિક્ષેપા શ્રીઅનુયોગ દ્વારમાં વર્ગબ્યા
છે. નામનિક્ષેપો, સ્થાપનાનિક્ષેપો, દ્રવ્યનિક્ષેપો, અને ભાવનિક્ષેપ. એ
ચાર નિક્ષેપામાં આગ્રના ત્રણ નિક્ષેપાતે ભાવના કારણ છે. ઉક્તંચભાષ્યે.

ગાથા.

અહવા નામ ઠવણા, દઢ્વાએ ભાવ મંગલંગાએ ॥
પાણે ભાવ મંગલં, પરિણામ નિમિત્ત ભાવાઓ ॥૧॥

મઠે આગ્રના ત્રણ નિક્ષેપા કારણછે. એ ત્રણ નિક્ષેપા વિના
ભાવ નિક્ષેપો થાય નહીં. અને નામ તથા સ્થાપના એ બે નિક્ષેપા ઉ-
પકારી કહ્યાછે. ચોવીસ તીર્થકરનાં નામ એ નામ નિક્ષેપોછે. તેમજ
નમો અરિહંતાણં આ અરિહંત ભગવાનનો નામ નિક્ષેપોછે. અર્હનની
મૂર્તિ એ સ્થાપના નિક્ષેપછે, ડ્યારે નમો અરિહંતાણં એ નામ નિક્ષેપો
કબુલ કરાં એ છીએ અને તે જેમ આત્મા પ્રતિનિમિત્ત કારણછે તેમ
અરિહંતની પ્રતિમા પણ આત્મા પ્રતિ નિમિત્ત કારણછે. નામ નિક્ષે-
પાથી જેટલો ફાયદોછે તેટલોજ સ્થાપના નિક્ષેપાથી ફાયદો છે.
નમો અરિહંતાણં એ નામ નિક્ષેપાથી અરિહંતના ગુણોનું સ્મરણ થા-
યછે. તેટલુંજ અરિહંતની પ્રતિમાથી અરિહંતના ગુણોનું સ્મરણ થા-
યછે, અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, એ પંચ પરમેષ્ઠિનાં

परमार्थदर्शन.

(२३५)

नाम तथा तेमनी स्थापना बन्ने सरखां फळने उत्पन्न करनारीछे, माटे जे भव्य पुरुष पंच परमेष्ठिनां नामनुं आलंबन करेछे तेणे पंच परमेष्ठिनी स्थापनानुं पण आलंबन करवुंज जोइए.

शिष्य--वीतरागनी स्थापनाथी आत्महितछे. एमां तो जरा मात्र संशय नथी, पण प्रभुनी प्रतिमा पूजतां श्रावकने हिंसा थाय तेनुं केम ?

सुगुरु--हे भव्य तुं सांभळ, जिनेश्वरनी आज्ञा प्रमाग के आपणी मति कल्पना प्रमाण.

शिष्य--गुरुजी, प्रभुनी आज्ञाप्रधान.

गुरु--त्यारे सांभळ--बीजे गाम जतां वच्चमां नदी आवे ते साधु उतरे के नहीं, यादराख--एकपाणिना बिंदुमां एटला जीवछे के ते पारेवा जेवडी काया करेतो जंबुद्वीपमां माय नहीं. एवुं जलनुं बिंदु समजवुं. वळी पाणीमां सेवालरूप बनस्पति पण साधारण बादर निगोदरूपे रहीछे. वळी पुरा प्रमुख सूक्ष्मत्रस जीव पण एवाछे के मनुष्यनी कायाना स्पर्शथी हणाइ जाय हवे कहोके एवी नदीना जलमां मुनिराज पगमुकी उतरे के नहीं?

शिष्य--प्रभु ए सिध्धांतमां हिंसा थतां पण साधुने नदी उतरवानी आज्ञा करीछे. कारणके तेथी मुनीश्वरने अन्य भव्यजीवो प्रतिबोधमां लाभ मळेछे. अने भावद्यानी पुष्टि थायछे माटे, आपे एवुं मने समजाव्युं हतुं, प्रतिमाना निषेधको पण आवात मानेछे.

सुगुरु--तेज प्रमाणे सर्वज्ञप्रभुए सिध्धांतमां श्रावकने, प्रभुनी प्रतिमा पूजननुं फरमान कर्युंछे. प्रभुनी प्रतिमा पूजतां मोटो लाभ थायछे. अत्र प्रभुनी आज्ञाज प्रधान जाणवी, प्रभु सर्वज्ञ हता. तेमना केवलज्ञान आगळ आपणी मति कल्पना

(२२६)

जिनप्रतिमा.

हिंसात्रमां नथी माटे सर्वज्ञ प्रभुनी आज्ञानुसारे श्रावक प्रभुनी प्रतिमातुं पूजन करे. तेथी तेने आत्महित थायछे अने प्रभुकी आज्ञानो आराधक बनेछे, श्रावकतो आहारादिक माटे छकायना जीवनी हिंसा कर्या करेछे माटे ते हिंसाना आरंभथी दूर थयो नथी माटे श्रावक प्रभुनी प्रतिमातुं पूजन भक्ति करे तेमां तेने मोटो लाभ छे प्रभुनी प्रतिमाने मानेछे ते सम्यग्दृष्टि जाणवो. प्रभुनी प्रतिमा पूजतां श्रावकने हिंसाना परिणाम नथी-जीवोने मारवानी बुद्धि श्रावकने नथी. तेथी तेने हिंसानो बंध थतो नथी अने तेथी शुभ भाव प्रगटतां पुण्य बंध अने शुभ भाव प्रगटतां परमानंद पदनी प्राप्ति थायछे, यद्यपि जोके शुभ भावने पुण्य बंधनो हेतुछे. तोपण ते छताआत्मगुणने स्थिर थवानो तथा नवा प्रगट करवानो हेतुछे. गुण्यानुबंधी पुण्यनो हेतुछे माटे प्रभुना उपर रागरूप शुभ भाव पण परंपराए मोक्ष प्राप्तिमां हेतुभूतछे. श्रीहरिभद्र-सुरिए पंचवस्तु ग्रंथमां कहुं छे के:-

गाथा.

गुणरूढ मूलं एयं, तेणं गुणवुद्धि हेतुअं भणिअं ॥

जह एलाइयुत्तो, पसथ्य रागेण गुणपत्तो ॥ १ ॥

माटे प्रभुनी प्रतिमा पूजतां शुभभाव पण उपादन कारणनी शुद्धिमां लारणछे, माटे श्रावके प्रभुनी प्रतिमातुं पूजन करवुं जोइए. वळी सूत्रमां कहुंछे के-ज्ञानीने आश्रवनां कारण पण संवर रूपछे अने अज्ञानीने संवरनां कारण पण आश्रव स्वरूपे परिणमेछे.

वळी सर्व-विरतिपदने धारण करनारा मुनीश्वर ज्यारे नदी उताछे ते पण ज्यारे लाभने माटे छे त्यारे श्रावक प्रभुनी प्रतिमातुं

परमात्मज्ञान.

(३३७)

पूजन करे ते केम लाभने माटे न होय. अलवत प्रभुनी आज्ञाए वर्तवुं ते श्रावक तथा साधुने लाभकारी छे. आज्ञा ए धर्म जापको

श्री आनंदघनजी महाराज पण नवमा सुविधिनाथना स्वयंभवां प्रभुनी प्रतिमानुं पूजन करवुं एम उपदेशेछे, माटे जितेश्वर वीतरागनी स्थापनारूप प्रतिमानी बहुमानता, रेवना, पूजा, अवश्य करवी जोइए. एक सामान्य उत्तम गुणवंतनी छवी जोइते मेटलो आनंद थायछे. त्यारे त्रण जगत्ना पदार्थने जाणनार सर्वज्ञ अतिशय उपमारी तीर्थकरनी प्रतिमाने देखी जीवने आनंद थाय बहुमानता प्रगटे, तेमां शुं कहेवुं—निमित्त कारणरूप देव तथा तेमनी प्रतिमानुं अवलंबन भव्यजीवोने करवा लायकछे. प्रभुनी प्रतिमा संबंधी घणुं विवेचन करवानुं धार्युं किंतु ग्रंथ गौरवना भयथी संक्षेपमां पसंगे वर्णन कर्युं.

शिष्य--हे सुगुरो ! आपे कृपा करी निमित्त कारणकोण अने तेनुं स्वरूप समजाव्युं हवे कृपा करी अपेक्षा कारण कोणछे ते समजावशो—

सुगुरु—जे कारण कार्यथी भिन्न छे अने जे कारण माटे कर्तव्ये प्रयास करवो पडतो नथी, अने कार्यनी सिद्धिमां निश्चयथी ते जोइए. अने जे बीजा कार्योमां पण कारणछे. तेने अपेक्षा कारण कहेछे.

यथा पृथ्वी, आकाश, काल, ए विना घटादिककार्यनी निष्पत्ति थती नथी. भूमी, आकाश, काल, जेम घटनी निष्पत्ति अति कारणछे तेम अन्य कार्योना प्रति पण कारणछे. कर्ता जेम उपादान तथा निमित्त कारणनो व्यापार करेछे. तेम एनो प्रवर्तन करतो नथी. ते अपेक्षा कारणनुं तत्त्वार्थादिक ग्रंथोमां कहुंछे,

(२२८)

कार्यनष्टे.

यथा.

घटस्थ उत्पत्तो अपेक्षा कारणं व्योमादिं अपेक्षते तेनविना तद्भावाभावात् निर्व्यापारं अपेक्षाकारणं इति तच्चार्थवृत्तो हवे आत्मा कर्मक्षय करी मुक्तिपद पामे तेमां अपेक्षा कारण दर्शावेछे.

मनुष्यगति प्रथम वज्ररूपभनाराच संघयण, पंचेंद्रियपणुं इत्यादि सिद्धिरूप कार्यनुं अपेक्षाकारण जाणवुं.

निमित्त कारणनी प्राप्ति विना अपेक्षाकारण लेखे आवतुं नथी. जे भव्यजीवे निमित्तकारण आचर्युं नथी तेनी मनुष्यगति अपेक्षाकारणमां गणाती नथी. श्रंदेवशुरूना पुष्ट निमित्ते उपादानकारणने तरतमयोगे प्रगटावतो असाधारण कारणताए चढतो मनुष्यादिक अपेक्षा कारणपणे करी तत्वानंदरूप कार्यनो कर्त्ता आत्मा थाय.

उपादानादिक त्रणनी कारणता निमित्तना अवलंबनथी प्रगटे छे माटे भव्यप्राणी निर्दोषपणे शुद्ध निमित्तकारणने सेवे. अने शुद्ध निमित्त कारणीभूत शुद्ध देव, तथा सुगुरूना सेवनथी कर्त्तापणुं स्मरे, अने कर्त्तापणुं स्मरण करी स्वकार्य करे.

श्री आप्तमीमांसां त्रण कारण कथ्यांछे.

समवायासमवायि निमित्तभेदात्.

समवायी कारणते अपेक्षाए उपादानकारण जाणवुं. अने असमवायि कारणते नामांतर असाधारण कारण कहेवायछे तथा निमित्त कारणना बे भेद जाणवा. एक निमित्तकारण बीजुं अपेक्षाकारण-वळी कारणना बे भेद शास्त्रमां क्हाछे. एक उपादानकारण. बीजुं निमित्तकारण जाणवुं. घटदृष्टांतमां घटरूप भिन्न कार्यनो कर्त्ता कुंभकार घटथी भिन्नछे, तेम सिद्धतारूप अभिन्न कार्यनो कर्त्ता आत्मा पण कार्यथी अभिन्नछे. ज्ञाननो कर्त्ता आत्माछे तेम संपूर्ण

परमात्मदर्शन.

(२३६)

सिद्धतारूप कार्यनो कर्ता पण आत्माछे. कर्ता आत्मा ज्यारे कारणनीयोगवाइ पामे त्यारे कार्यनी सिद्धि नीपजावे. एकलो कर्ता कारण सामग्री विना कार्य करी शके नहीं एवी स्वभावता जाणवी.

उपर प्रमाणे आत्मा परमात्मपद पामे तेमां जे जे कारणो जो-इए. तेनुं यत्किंचित् स्वरूप दर्शाव्युं.

शिष्य--हे सुगुरो ! पूर्वोक्त कारणोमांथी व्यवहार धर्मरूप केटलां कारण जाणवां.

सुगुरु--हे शिष्य स्वस्थ चित्तथी सांभळ--जे कारणो कार्य सिद्धि यतां रहेतां नथी. अने कार्य सिद्धिमां अवश्य कारणी भूत छे, ते कारणोनी प्राप्तिने व्यवहार धर्म कहेछे. निमित्त कारणनी सेवना तथा असाधारण कारणनी प्रवर्तना पण व्यवहार धर्म कथायछे. नीचेना गुणस्थानकनुं छोडवुं अने उपरना गुणस्थानकनुं आदरवुं ते शुद्धव्यवहार धर्म जाणवो. वळी साधुधर्म वा श्रावकधर्म पणव्यवहार नयथी धर्म कथायछे. व्यवहार धर्म कारणछे, अने निश्चय धर्म कार्यछे कारण अनेक छे अने कार्य एकछे. माटे असंख्ययोग जिनेश्वर भगवाने कथ्याछे. तेमां पण नवपदनी मुख्यता जाणवी. जेजे अंशे निरूपाधिपणुं तेते अंशे धर्मनी प्राप्ति जाणवी.

शिष्य--मनुष्यगति विना आत्मा सिद्धतारूप कार्य अन्य गतिमां प्राप्त करी शके के नहीं.

सुगुरु--मनुष्यगति विना सिद्धतारूप कार्यनी सिद्धि थती नथी. प्रथमतो एकेंद्रियमां अपेक्षाकारणरूप नरगति प्रथम संघयण नथी. तथा निमित्त कारण पण नथी. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, मां अपेक्षा कारण नथी. पंचेंद्रियना चार भेदछे. प्रथम देवता समाकृती होयछे तेमने क्षयोपक्षमभावनुं मतिज्ञान तथा श्रुत-

(૩૩૦)

કાર્યનારહતું.

જ્ઞાન હોયછે. અને તેઓ સંમકિતપણાર્થી ચોંધા ગુણઠાણના સ્વામી જાણવા. ઇટલે તે અવિરતિ સમ્યગ્ દષ્ટિ દેવતાના ણવા. તેઓ વિરતિપણાને પામે નહીં ઈવી દેવગતિની સ્થીતિ છે માટે તેઓ ઉપરઉપરના ગુણઠાણે ચઢી શકતા નથી. મિ-થ્યાદષ્ટિ દેવતાઓતો પ્રથમ ગુણસ્થાનકે વર્તેછે. વૈમાનીક, શુ-વનપતિ, વ્યંતર, અને જ્યોતિષ એમ દેવતાના ચાર પ્રકારછે. તિર્યંચ પંચેદ્રિયના પંચભેદછે જલચર, યલચર, સ્વેચર, ઉરપરિ સર્પ, શુજંપરિસર્પ.

તિર્યંચ સમકિત પામી શકેછે. કૃષ્ણમહારાજના ભાઈ બલદેવ મુનીશ્વરનું એક હરિણમક્ત હતું. પળ ત્યાં અપેક્ષા કારણ પ્રથમ તો નથી. ગુર્બાદિકનું નિમિત્ત પામી કંદાપિ પંચમ ગુણસ્થાનક પર્યંત જાય. પળ ત્યાં અસાધારણ કારણની શ્રેષ્ઠતા નથી. અસાધારણ કારણનો અંશ પામે.

નારકીના જીવોનો પળ દેવતાની પેટે અધિકાર સમજી લેવો ઈ ત્રણ ગતિમાં ધર્મસામગ્રીની સંપૂર્ણ જોગવાઈ નથી.

યતઃ ગાથા

દેવા વિસયં પસત્તા, નેરંહયા વિવિહ્ દુઃખ સંસત્તા ॥
તિરિયા વિવેગ વિગલા, મણુઆણં ધમ્મ સામગ્ગી ૧

દેવતાઓ વિષયમાં પ્રસક્તછે. નારકી જીવો અહર્નિશ વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવ્યા કરેછે, તિર્યંચ વિવેકથી વિકલછે. ફક્ત ગર્ભજ મનુષ્યોને ધર્મની સામગ્રીછે.

મનુષ્યગતિમાં અપેક્ષા કારણ, નિમિત્ત કારણ, અસાધારણકારણ, ઉપાદાન કારણ, ઈ ચાર કારણની સામગ્રી માત્ર થાયછે. વઝી અપેક્ષા કારણમાં પ્રથમ સંઘયણ અધુના નથી.

परमात्मदर्शन.

(२४१)

हाल पंचमारके पण निमित्तादि कारणो पामी आत्मधर्म साधन थायछे. मतिज्ञान अने श्रुतज्ञानना क्षयोपशमभावे असाधारण कारणने अवलंबतो जीव शुद्धानुभव पामेछे. अने भव्य, कर्मनां तिक्षण बंधनने छेदवा समर्थ थायछे,

माटे भव्यजीवोए चिंतामणिरत्न, कल्पवृक्षथी पण दुर्लभ एवो मनुष्यजन्म पामी धर्मसाधन करवुं गयो वखत पश्चात् आवतो नथी. आयुष्य क्षणेक्षणे ओळुं थतुं जायछे. आ दुनीयामां कोइ अमर रह्यो नथी अने कोइ रहेवानो नथी. कायारूप माटीनुं पूतळ्ळं आत्मानुं कदी थयुं नथी, अने थवानुं नथी. भ्रांतिथी परवस्तुमां सुखबुद्धि कल्पायछे. जेम आकाशमां कमलनी उत्पात्ति खोटीछे. तेम परवस्तुमां सुखबुद्धि खोटीछे. जडवस्तुमां आत्मसुख क्यांथी होय; अलवत जडवस्तुथी कदापि सुखनी प्राप्ति थती नथीज. बाल्यावस्थायां अज्ञानतायोगे जे सुख धूळना ढगलामां रमकडां रमवाथी मान्युं हतुं. ते मोटी उमर थतां पोतानी मेळे टळेछे. एटले मोटी उमर थतां रमकडां वा धूलमां रमवानुं मन थतुं नथी. ते रमत उपर अरूचि थायछे. तेम विषयभोग आदिमां रूचि बाल जेवा जीवोने थायछे. जेम कागडाए विष्टा चुंथवामां पोतानुं श्रेयः मान्युंछे. तेम अज्ञानी बालमनुष्योए विषयभोग आदि परवस्तुमां पोतानुं सुख मान्युंछे पण ते सर्व मिथ्याछे. ज्ञानीनी दृष्टि आगळ एवा बालजीवो केवल दया पात्रछे. आत्मायां अखंड परमानंद समायोछे. अनंतसुख आत्मायां रह्युंछे. शोधेसोपावे आत्मसुखनी प्राप्ति अर्थे ज्ञाताओ आत्मध्यानमां सदाकाळ मग्न रहेछे. परवस्तुमां रागद्वेष बुद्धि धारण करता नथी. पोताना आत्मस्वरूपमां रमणता करेछे. परभावनो अनादर करेछे. परवस्तुमां आत्मपणुं कंड मानता नथी. पुद्गल वस्तुथी आत्मा सदा न्यारोछे एम भावेछे, अने सदा अंतर्लक्ष्य राखेछे.

(३५२)

अनेकान्ततरङ्ग,

पर्य्यायानां द्वार रोक्ये. आत्माना गुण पर्यायानुं चिंतयन करेये. पोताना आत्मानां अनंतरुद्धि शोधेये. उज्ज्वल ध्यान ध्यायेये, अने ज्ञानीओ मनमां थता अनेक संकल्पविकल्पो दूर करी आत्मस्वभावमां मग्न रहेये, प्रतिदिन उच्चस्थितिने भोगयेये. सहज शांतिथी थतुं तात्त्विक सुख ते प्राप्त करी शक्ये. मननी थती चंचलतानो त्याग करवो. मनसंबंधी प्रथम घणुं कहेवामां आव्युंये. तेथी अत्र विशेष वर्णन करवुं योग्य नथी. तोपण प्रसंगवशात् कहेवानुं के मत्त चंचल अने आस्थिरयेये ते ज्यां जाय त्यांथी पाळुं वाळीने आत्मानां साथे वश करवुं.

मन ज्यां सुधी स्थिर रहे नहीं त्यां सुधी शास्त्रोक्तक्रिया जेटली करीए तेटली सफल थाय नहि. श्रीयशोविजयजी उपाध्याय कहेयेके-

श्लोक.

या निश्चयैकलिनानां, क्रिया नातिप्रयोजना ॥

व्यवहार दशास्थानां ताएवाति गुणावहाः ॥ १ ॥

भावार्थ-जेनुं मन निश्चयमां लीनये. तेने क्रियानुं प्रयोजन नथी. व्यवहार दशावाळाने क्रिया अति गुणकारीये. मन वश करवाथी बंधातां कर्म अटकेये, ज्ञानी थइने फरता एवा पुरुषोथी पण मन जीतातुं नथी. अभ्यासथी मन जीतायये, महा अनुभवी योगीओना शिष्यो मन वश करी शक्ये. पुस्तक, पोथी, पुराण, वांचवाथी पण जे मन वश थतुं नथी, ते मन सुगुरु महाराजनी गुप्त अपेली कुंचीओथी धीरे धीरे वश थायये. पुस्तक सिद्धांतमां लखेला विषयोने जाणी सुगुरुए परिणामिकी बुद्धिथी जे अनुभव मेळठयो होयये ते शिष्यो के जे गुरुना सदाने माटे विश्वासी होयये तेने मळये, माटे सुगुरुनुं शरण करी आत्मिक धर्मनी प्राप्ति करवी.

परमात्मद्वंद्व.

(२४६)

कर्मनो क्षय करतां आत्मिकधर्मनी आविर्भावता थायछे. काया पुद्गलछे, वचन पुद्गलछे, मनपुद्गलछे, धर्म तो निश्चयथी चेतनगत जाणवो, आत्मां धर्म रहेछे. ते आत्मिक धर्म आत्मस्वभावे स्थिर यतां प्रगटेछे. निश्चयथी आत्मा अरूपीछे, अने आत्मांमां रहेलो धर्म पण अरूपीछे. असंख्य प्रदेश आत्माना छे, प्रति-प्रदेशे अनंत अनंत धर्म व्यापी रह्योछे, तात्त्विक आत्मिक धर्मथी अनंत सुखनी प्राप्ति थायछे. कर्मनो क्षय करी जे भव्यो सिद्धिपद पाय्याछे तेमने शुद्ध आविर्भावे आत्मिक धर्म प्रगट्याछे, जे जीवो कर्म सहीतछे तेमने तिरोभावे आत्मिक धर्म जाणवो. जे वस्तु मूल्यमां वस्तुतः सत्पणे नथी. तेनी उत्पत्ति यती नथी. कारण के-

नासतो विद्यतेभावो

सारांश के-असत्तुं उत्पन्न थवापणुं नथी.

शिष्य-जेम असत्तुं उत्पन्न थवापणुं नथी. तेम सत् जे वस्तु त्रिकालमां वर्तती होय तेनी उत्पत्ति कहेवी ए पण अयुक्तछे. कारण के-जे वस्तुनो उत्पाद थाय ते वस्तु प्रथम होय नहीं. यथा पट तेनो उत्पाद थयो तो ते प्रथम नहोतो. तेम जो आत्माना धर्मने सत् मानवामां आवे तो ते त्रिकालमां विद्यमानपणाथी तेनी उत्पत्ति थइ एम कहेवुं असत्य ठरेछे अने जो आत्माना शुद्ध धर्मने असत् कहेवामां आवे तो तेनी उत्पत्ति असत्य ठरेछे माटे हे सुगुरो कृपा करी यथार्थ स्वरूप समजावशो.

सुगुरू-हे शिष्य ! एकाग्र चित्तथी श्रवण कर. असत् पदार्थनी तो त्रिकालमां पण उत्पत्ति यती नथी, हवे सत्त्वस्तुनो विचार करीए.

૨૪૪)

આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ.

ગાથા.

ભાવસ્સ ણત્થિ ણાસો, ણત્થિ અભાવસ્સ ચેવહ્વપ્પાદો,
ગુણ પજ્જયેસુ ભાવા, હ્વપ્પાદ વ્ણ પકુહ્વંતિ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—ભાવનો ઇટલે સત્સ્વરૂપ પદાર્થનો નાશ નથી, અને નિશ્ચયથી અભાવ ઇટલે અસત્નો ઉત્પાદ નથી, ગુણપર્યાયોમાં ભાવો ઉત્પાદ વ્યયને કરેછે.

સારાંશ કે—દ્રવ્યાર્થિકનયથી સત્ સ્વરૂપાર્થો ઉપજતા નથી, તેમ વિનાશતાને પણ પામતા નથી.

અને જે ત્રિકાલ અવિનાશી સત્સ્વરૂપાર્થોમાં ઉત્પાદ વ્યય થાય છે તે પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાથી ગુણપર્યાયોમાં જાણવા.

હવે આત્મધર્મના સત્પણા સંબંધી વિચાર કરતાં સમજાશે કે આત્મિક શુદ્ધ ધર્મનું સત્પણું દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષા અનાદિ સત્પણે છે. જો કે કર્માવરણથી આત્મિક શુદ્ધ ધર્મનું આચ્છાદન થયું છે તોપણ આત્મધર્મનું દ્રવ્યાર્થિકનયથી જોતાં સત્પણું ટક્યું નથી. અનાદિ કાલથી કર્માવરણથી આત્મિક ધર્મ આચ્છાદનતાને પામ્યો છે ઇટલે તે તિરોભાવે સત્પણે વર્તે છે, આત્મિક શુદ્ધ ધર્મનું સત્પણું બે પ્રકારે છે. સંસારદશામાં તિરોભાવે સત્પણું અને સિદ્ધાવસ્થામાં આવિર્ભાવે સત્પણું એમ પ્રકારે જાણવું. અનાદિ કાલથી જીવની સાથે કર્મનો સંબંધ છે અને તે કર્મના સંબંધે આત્મિક શુદ્ધ ધર્મ ઢંકાયો છે. તે જ્યારે કર્મનો નાશ થાય છે ત્યારે આત્મિક શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટપણે પ્રકાશે છે, હવે સત્સ્વરૂપ આત્મિક ધર્મનો ઉત્પાદ કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવે છે. તિરોભાવપણે વર્તતો આત્મિક ધર્મ છે તેનો આવિર્ભાવ થયો. તેની અપેક્ષા ઉત્પત્તિ સમજવી સારાંશ કે—સત્સ્વરૂપ જે આત્મિક શુદ્ધ ધર્મનો કર્માવરણથી તિરોભાવ થયો હતો. તે સત્સ્વરૂપ આત્મિક શુદ્ધ ધર્મનો કર્મનાશથી આવિર્ભાવ થયો—તિરોભાવનો જે

परमात्मदर्शन.

(२४५)

आविर्भाव तेनी अपेक्षाए शुद्धधर्मनी आत्मां उत्पत्ति जाणवी. सत्पणुं तो प्रथम पण विद्यमान हतुं. हवे ते उपरथी स्पष्ट समजाशे के सत्स्वरूप आत्मिक धर्म द्रव्यार्थिकनयनी अपेक्षाए सदात्रिकाल सत्पणे जाणवो.

तिरोभावे ढंकाएलो धर्म आविर्भावनी अपेक्षाए प्रगटपणे वर्तातो नथी माटे असत् अने तिरोभावनो नाश थतां आविर्भावपणे प्रकाशतां सत्स्वरूप जाणवो.

आविर्भावपणे आत्मिकशुद्धधर्म प्रगट थतां आत्मा परमात्म स्वरूप थइ जायछे अने ते अनंत सुखनो भोगी थायछे. पश्चात् कंडू कर्तव्य बाकी रहेतुं नथी. सिद्ध स्वरूप थतां पण आत्मां पर्याया-र्थिकनयनी अपेक्षाए पर्यायनो उत्पाद व्यय समये समये बन्या करे छे, सिद्धस्वरूपी आत्मां अक्रियपणुं जाणवुं. गमनागमन पण सिद्धात्माने नथी. रागद्वेषरूप मलनो सर्वथा क्षय थवाथी सदाकाल स्वस्वभाव रमणतागुण प्रगटपणे वर्तेछे, ज्ञानावरणीय अने दर्शना वरणीय कर्मनो सर्वथा समूलतः क्षय थवाथी अनंत ज्ञान अने अनंत दर्शन आत्मां प्रगटपणे प्रकाशेछे एम अष्टकर्म क्षयथी अष्टगुण आदि अनंत गुण आत्मां आविर्भावताए प्रगटेछे.

एम अनंत धर्ममय आत्मा जाणवो, सत्य धर्म आत्मां रहेछे, शुद्ध आत्मिक धर्म प्रगटाववाना हेतुओने व्यवहार धर्म कथायछे, माटे व्यवहार धर्म अने निश्चय धर्म ए बेनुं अवलंबन करवुं.

श्री सिद्धसेनाचार्य कहेछे के-

श्लोक.

निश्चयव्यवहारौ द्वौ, सूर्यचंद्रमसाविव ॥

इहामुत्र दिवारात्रौ, सदोद्योताय जाग्रतः ॥ १ ॥

(૨૭૧)

આરમ્ભુદિ.

અંતસ્તત્ત્વં મનઃ શુદ્ધિ, વૈદિસ્તત્ત્વંચ સંયમઃ ॥
 કૈવલ્યં દ્વયસંયોગે, તસ્માદ્ દ્વિતયભાગ્ભવ ॥ ૨ ॥
 નૈકચક્રોરથો યાતિ, નૈકપક્ષો વિહંગમઃ ॥
 નૈવમેકાતમાર્ગસ્થો, નરો નિર્વાણ મૃચ્છતિ ॥ ૩ ॥
 પરસ્પરં કોઽપિયોગઃ, ક્રિયા જ્ઞાન વિશેષયોઃ ॥
 સ્ત્રીપુંસયોરિવાનંદં, પ્રસૂતે પરમાત્મજં ॥ ૪ ॥
 માર્ગ્યં પંગૂપમં પુસાં, વ્યવસાયોઽ ધસંનિમઃ ॥
 યથા સિદ્ધિસ્તયોર્યોગે, તથા જ્ઞાનચરિત્રયોઃ ॥ ૫ ॥
 સ્વસ્તકવજ્ઞાને, ચારિત્ર દ્વિતયંવહન્ ॥
 વીરો દર્શન સન્નાહઃ કલેઃપારં પ્રયાતિવૈ ॥ ૬ ॥
 એકાંતે નતુ લીયંતે, તુચ્છેઽનેકાંતસંપદઃ
 નદરિદ્રગૃહે માંતિ, સાર્વભૌમસમૃદ્ધયઃ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થઃ—નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનય આ જગત્માં સૂર્યચંદ્રની પેઠે પ્રકાશ કરતા જાગતાછે. સૂર્ય અને ચંદ્રની ઉપમામાં વિશેષ ગંભીર ભાવાર્થ સમાયોછે. સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશમાં ઘણું સમજવાનું છે. પૂર્વોક્ત શ્લોકોના ભાવાર્થ સ્પષ્ટછે. તેનું તેથી અત્ર વિવરણ કર્યું નથી. તુચ્છ એકાંત માર્ગમાં અનેકાંત સંપદાઓ લીન થતી નથી. આ વાક્ય આપણને કેટલું સમજાવેછે, તેની કેટલી બધી મહત્ત્વતાછે. વળી કહેછે કે—દરિદ્રના ઘરમાં સાર્વભૌમની સમૃદ્ધિ માતી નથી. માટે ભવ્યાત્માઓ આયતિ સર્વ શાશ્વત સુખ સંતતિ પ્રદાયક વ્યવહાર નિશ્ચય ધર્મનું અવલંબન કરી ઉત્તમ પુરુષોના પંથને અનુસરવું તેમાં હિત સમાયજીએ. અજ્ઞાન માર્ગની અંધ શ્રદ્ધાથી એકાંત માર્ગનું સેવન

परमात्मदर्शन.

(२४७)

करनारा मत कदाग्रही जीवो-व्यवहार अने निश्चयनयना ज्ञान विना वस्तु स्वरूप ओळखी शकता नथी. अने तेथी कर्तव्य कार्य सन्मुख्यता नथी. सातनयोना ज्ञान विना जगत्मां मतोनी उत्पत्ति थइछे, परस्परनयोनी निरपेक्षताए वस्तु स्वरूप यथार्थ कथातुं नथी. श्री यशोविजयजी उपाध्याय कहेछे के-

एवेकनयना हठथी मतोत्पत्ति.

श्लोकः

बौद्धाना मृजुसूत्रतो मतमभू द्वेदांतिनांसंग्रहात् ॥
सांख्यानां ततएव नैगमनयाद् योगश्चवैशेषिकः ॥
शब्दब्रह्मविदोपि शब्दनयतः सर्वैर्नैयैर्गुंफिता ॥
जैनीदृष्टिरितीह सारतरता प्रत्यक्षमुद्वीक्षते ॥ १ ॥

भावार्थ-रजुसूत्रनयथी बौधमत प्रगटयो, अने संग्रहनयथी वेदांतिनो मत प्रगटयो. तथा सांख्यमत पण नैगमनयथी तथा योग मत अने वैशेषिक मत पण ते नयथी प्रगटयो. शब्दनयथी मीमांसक दर्शन उत्पन्न थयुं. अने जैन दर्शन एटछे स्याद्वाद दर्शन तो सर्वनयथी गुंफितछे. माटे अनेकांत जैन दर्शनमां सारमां सारपणुं सदा प्रत्यक्षपणे देखीए छीए-जैन सर्व दर्शनीछे. अने बीजां दर्शन ते जैनना एकएक अंशछे.

श्री आनंदघनजी महाराज कहेछे के.

जिनवरमां सघळां दर्शनछे, दर्शने जिनवर भजनारे;

सागरमां सघळी तटिनी सही, तटीनीमां सागर भजनारे.

षड्दर्शन जिन अंग भणीजे.

जिनदर्शमां सर्व दर्शनछे माटे अन्य दर्शन जिनेश्वर दर्शन अंग-भूतछे. अने एवेका दर्शनमां सर्वांशे सप्तनय परिपूर्ण जैन दर्शननी

(२४८)

अनेकान्तः.

प्राप्ति थाय नहीं. कारण के तेमां जैन दर्शननी भजनाछे. एक अंग-नय पक्षथी पामीए पण सर्वांगे प्राप्ति थाय नहीं. जेम सघळी नदीओ समुद्रमां होय पण नदीओमां समुद्रनी भजना जाणवी. सारांश के-जे नदी समुद्रमां मळी तेमां समुद्रनी भरतीओटनुं पाणी आवे. एवी रीते नदीओमां समुद्र एकदेशे संभवेछे. तेवी रीते समुद्रनी उपमाने धारण करनार जिनवरनां ए षड्दर्शन ते अंग जाणवां. एकांते नयनुं कथन करतां. मिथ्यात्व लागे-कहुं छे के-

एगंते होइ मिच्छंत.

एकांते मिथ्यात्वपणुं होय-माटे हितशिक्षा निग्रंथ प्रवचन कये छे के-एकांतपक्ष आत्म हितकारक नथी. व्यवहारनय अने निश्चयनय अवलंबी आत्म धर्मरूप साध्यना साधक बनवुं. साध्यनी सिद्धि करवी मुश्केलछे. वातो करवी सहजछे. माटे आत्मिक हितेच्छुओए प्रमाद त्याग करवो अने व्यवहार निश्चयधर्मनुं साधन करवुं. सप्तनय सप्त-भंगी चारनिक्षेपा षड्द्रव्य, गुणपर्याय-उत्सर्ग अपवादथी परिपूर्ण स्याद्वादमतने कोइ वीरला भव्य पुरुषो सम्यग् रीत्या जाणी शकेछे. केटलाक विचित्र मार्गनी भ्रमणाओमां गोथां खायछे केटलाक ज्ञान ज्ञान पोकारी ज्ञानी नाम धरावी शुद्ध धर्मरूप क्रियातरफ अरुचि मार्ग दर्शावे छे अने क्रियानुं उत्थापन करेछे, तेथी स्वआत्मानो उद्धार करी शकता नथी. सप्तनयोथी परिपूर्ण वीतराग धर्मने सत्गुरु अने सत्श्रद्धा विना अवगाहवो मुश्केलछे माटे भव्य पुरुषो प्रभुना धर्मनो मार्ग समजी निश्चयदृष्टि हृदयमां धारण करी व्यवहार मार्गे चालेछे.

श्रीयशोविजयजी वचनामृत.

निश्चय दृष्टि चित्त धरीजी-चाले जे व्यवहार-इत्यादि.

श्री यशोविजयजी उपाध्याय महा विद्वान् हता. संवत् १७४० नी लगभग विद्यमान हता, आत्मिक ग्रंथो दरेक दर्शनना वांच्या

हता. अध्यात्मज्ञानदृष्टि पण धरावता हता, जेमणे शास्त्रवार्ता सङ्घ-
 ष्य आदि शतग्रंथ बनाव्या. ते महा पुरुष पण निश्चय दृष्टि हृदयमां
 धारण करी व्यवहार मार्गे चालवानी खास भलामण करेछे. थुं
 हालमां अध्यात्मनी किंचित् वात सांभळी व्यवहार मार्गथी विरुद्ध
 चाली डोळघाल्लु अध्यात्मी बनी जनाराओ करतां विशेष ज्ञानी
 नहोता. एम केम कहेवाय ? ना तेओ महा ज्ञानी हता. माटे व्य-
 वहार धर्म मार्गनुं यथाविधि यथाशक्ति आराधन करता हता—
 भगवान् सर्वज्ञानी कहेछे के—

जइ जिणमयं पवज्जह, तामा ववहारनिथए मुयह;
 ववहारनओ छ्छेए, तिथ्युच्छेओ जओ भणिओ ?

जो तुं जिनदर्शनने अंगीकार करे तो व्यवहार अने निश्चयने
 मूकीश नहीं. कारण के—व्यवहार नयनो उच्छेद कर्याथी तीर्थनो
 उच्छेद कयो कहेवायछे, माटे महात्मा थवानी इच्छा होय तो प्रभुनी
 शिक्षा धारवी. मानवी,

केटलाक ज्ञाननी आकांक्षा विना अंध श्रद्धावाननी पेठे क्रिया
 करेछे. ते क्रिया जड जाणवी तेमनो धर्मव्यवहार फोनोग्राफवत् जाणवो.

कोइ एम कहेसे के—बराबर वस्तुनुं स्वरूप समजीने अमे क्रिया
 करीशुं—ज्यां सुधी ज्ञान नथी त्यां सुधी क्रिया शाकामनी ? प्रच्युत्तरमां
 समजवानुं—एम बोलवामां पण समजवानी घणी तारतम्यता समाइछे.
 प्रथम विकल्प थसे के कया ज्ञाननी प्राप्तिथी क्रिया करवी. मति-
 श्रुतज्ञाननी प्राप्तिथी वा केवलज्ञाननी प्राप्तिथी.

मतिश्रुतज्ञान थया बाद क्रिया करवी एम कहेतां पण विचा-
 रवानुं के—गणधरोना जेवुं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, तेवुं ज्ञान हालना
 वखतमां नथी. त्यारे कहो के चउदपूर्वी वा दशपूर्वधारी जेवुं मति
 ज्ञान तेवुं ज्ञान पण हालना वखतमां नथी त्यारे हालमां मतिज्ञान

(३५०)

ज्ञानक्रियाधी मोक्ष.

श्रुतज्ञान तरतमताए थोडुं अपेक्षाए कहेवाय. हवे ज्ञाननेज माननारा कहो के, केवुं ज्ञान थयार्थी क्रिया करशो, ते बतावो, वा कहो के, ज्यां मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान होय त्यां क्रिया होय के नहीं. अने वळी विचारो के मतिज्ञानी अने श्रुतज्ञानी क्रिया विना थुं करे. माटे क्रियानो स्वीकार करवो योग्यछे. क्रिया विना एकलुं ज्ञान थुं करे. क्रिया ज्ञानिनी पासे होयछे. शास्त्रमां पण—

ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः

ज्ञान अने क्रियाधी मोक्षछे, ज्ञानाभ्यासरूपक्रिया विना ज्ञाननो पण क्षयोपशम थतो नथी. त्यां पण क्रियानी जरूरछे. कोइ एम कहेशे के, मति वा श्रुतज्ञान थयुं एम प्रत्यक्ष जणाशे एटले क्रिया करीथुं. तेना उत्तरमां समजवानुं केवलज्ञान प्रत्यक्षज्ञानछे, मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान परोक्षज्ञानछे. मति वा श्रुत छे के नहीं ते अनुमानथी जाणी शकाय. केवलज्ञानी कइ कहेवातो कोइ आवनाना नथी. माटे भव्य जीवोए ज्ञान श्रद्धाथी जाणी धर्मध्यानादि कारक क्रियामां प्रवर्तवुं—

आलोखक—कोइ स्थळे ज्ञाननी विशेषता वा क्रियानी न्यूनता लखे तोपण ते कोइना आदरभणीया कोइना निषेध भणी नथी किं तु बन्नेना स्वीकार माटेछे एम समजवुं. एकज स्थळे सर्वनुं स्वरूप एकज वखते वर्णवी शकातुं नथी. तेथी जेजे स्थळे जेनुं जेनुं स्वरूप वर्णन करवामां आवे ते नयनी सापेक्षताए ते ग्रहण करवुं. व्यवहार धर्म अने निश्चयधर्म सदा जयवंता वर्तेछे. सद्गुरुपासेथी एनुं स्वरूप समजवुं. मति मंदताथी शंकादि उत्पन्न थायतो पण सर्वज्ञ वीरना वचनमां सत्पता भरीछे. मतिदोष काढी सत्शास्त्रनो गुरूामता पूर्वक अभ्यास करवो. केटलीक वातोमां तो श्रद्धाज राखवी पडेछे. केवलज्ञानथी जाणेला पदार्थोनुं स्वरूप तेने अल्पमति ज्ञानी

परमात्मदर्शन.

(२५१)

जीव बराबर शी रीते समजी शके, माटे जिनवचनमां जरा मात्र शंकानो अवकाश नथी. एम श्रद्धा करवी मोक्षार्थी जीवने घटेछे.

उपर प्रमाणे यथा मतिलेशथी व्यवहार निश्चयधर्म वा धर्म क्यां रहेछे ते दर्शाव्युं.

सप्तम विषय.

हुं संसारमां जन्म मरण पाहुंछुं तेनुं शुं कारण ?

प्रत्युत्तर—कर्म, कर्म ए आत्मा नथी. आत्माथी भिन्न द्रव्यछे. आत्माणी साथे अनादिकालथी लाग्युंछे. जेनी आदिनथी तेनो अनादिकाल समजवो—

प्रश्न—कर्म आत्माणी साथे पोते पोतानी मेळे लाग्यांछे वा कोइए लगाड्यांछे.

उत्तर—कर्म पुट्गल संध स्वरूपछे. जडछे. खरवा मि लवा रूपक्रिया करेछे, अनादिकालथी आत्माणी अशुद्धि परिणतियोगे कर्म ग्रहायछे, परमात्मा आत्माणी साथे कर्म लगाडतो नथी. अर्थात् आत्मा पोते अशुद्ध भावथी कर्मने ग्रहेछे. अशुद्ध परिणति आत्माथी न्यारी नथी तेथी आत्माज पोते कर्मनो कर्ता तथा भोक्ता कहेवायछे.

आत्माणी साथे अन्य कोइ कर्म लगाडतुं नथी. केटलाक जीवो इश्वर जीवनी साथे कर्म लगाडेछे एम मानेछे पण ते युक्तिहीन तथा सर्वज्ञनामत विरुद्ध वातछे. कारण के परमेश्वरने शुं प्रयोजन छे के ते जीवोनी साथे कर्म लगावे. अलवत रागद्वेष रहीत प्रभुने कंइपण प्रयोजन नथी के ते जीवोनी साथे कर्म लगाडी शके. वळी परमेश्वर कहो के परमात्मा सिद्ध, तेओए कर्मनो नाश कर्योछे, कर्मनो सर्वथा प्रकारे नाश थतां सिद्ध परमात्मा कहेवायछे, त्यारे

(३६६)

सहस्रविषय.

समजवानुं के, जे सिद्ध, परमेश्वर कर्मातीतछे अक्रियछे कोइपण प्रकारनी क्रिया करता नथी. ते बीजाने कर्म लगाडवानी क्रिया करे ते शशशृंगवत् असत्यवात ठरेछे.

प्रश्न—त्यारे शुं सिद्ध परमात्मा कोइपण प्रकारनी क्रिया नथी करता.

प्रत्युत्तर—ना, पौद्गलिक कोइपण प्रकारनी क्रिया सिद्ध परमेश्वर करता नथी, पोताना शुद्धस्वभावे तेमनी सदाकाल स्थितिछे. कर्मछे ते तो पौद्गलिकछे. पौद्गलिक भावथी भिन्न प्रभुयाने सिद्धछे. भिन्न पुद्गलद्रव्यनी क्रियाने प्रभु परमेश्वर करता नथी, प्रभुतो अरूपीछे एवा प्रभुथी कर्म जीवोने लगाववुं त्रिकालमां पण बनेज नहीं.

सिद्ध परमात्मा शुद्ध स्वस्वभावे सक्रियछे एटले स्वभाव रमणतारूपवा षड्गुणगुणहानिवृद्धिरूपक्रियाना कर्ता सिद्धात्माछे.

प्रश्न—सिद्ध परमेश्वर, जीवो कर्म सारां वा नठारां कर्म करेछे. तेनो इन्साफ आपेछे के नहीं.

प्रत्युत्तर—सिद्ध परमात्मा वा जेने निरंजन निराकार ब्रह्म वा इश्वर कहेछे ते कर्म प्रपंचथी अत्यंत भिन्नछे. ने तेथी ते जीवोन कर्मा कर्म प्रमाणे इन्साफ (न्याय) करी सुखदुःख आपता नथी. सारांशे जीवोए जे कर्म कर्मा छे तदनुसारे सुख दुःख भोगाववा जीवोने सारा खोटा उंच पशु, पंखी, माणस, अंधादिना अवतार परमेश्वर आपता नथी.

प्रश्न—त्यारे जीवो सारां वा खोटां कर्म करे. ते पोतानी मेळे शीं रीति भोगवे.

उत्तर—जे क्रियानो कर्ता जीव पोतेछे ते क्रियानुं फळ भोगवनार एण जीव पोते जाणवो, जेब कोइ मनुष्य तालपुट विष. शक्ति.

परमात्मदर्शन.

(३५३)

णनी क्रिया पोत करे तो ते क्रियाथी प्राणनाशरूप थतुं फल पण पोते भोगवेछे. हवे कही के तेमां न्याय कर्ता कोण इश्वर वा क्रियानो कर्ता, इश्वरे मनुष्यना प्राणनो नाश कर्यो वा तालपुट विषे प्राणनो नाश कर्यो. अलवत कहेवुं पडशे के विषमांज एवी शक्ति रहीछे के ते प्राणनो नाश करेछे, प्रत्यक्ष ते सिध्द वातछे. इश्वर न्याय करेछे एम मानवुं ते केवल मृषा, प्रमाणविरूध्द कल्पना मात्रछे, निरंजन निराकार इश्वर सिध्धात्माने शुं प्रयोजन छे के कर्मना फलोदयने भोगवावे. वळी ते उपर बे विकल्प करीएछीए के कर्म पोते फल आपवामां स्वतंत्रछे के परतंत्र प्रथम पक्षमां कर्म पोतेज सारू वा खोटुं आपवामां स्वतंत्रछे. एम स्वीकारतां इश्वर जीवोने कर्माकर्म प्रमाणे न्याय आपेछे ते वात खोटी आकाश कुसुमवत् ठरी. कर्ममां ज सारू वा नडासं फल आपवानी शक्ति रहीछे तो ते प्रमाणे कर्मथी सुख दुःख फल मळशे. पोतानी मळे जेम पुरुषनुं वीर्य अने स्त्रीनुं रेतस् ए बेन असंयोगमां गर्भ उत्पन्न करवानी शक्ति रहीछे तथा जेम अग्निमां स्वाभाविक दाहकशक्ति रहीछे तेथी अग्निनो अंगारो हाथमां लइएतो पोतानी मेळे हाथ बळे, हाथने बाळवामां दाहकस्वरूप न्याय पोते करेछे. तेमां इश्वर कंडू न्याय करतो नथी. तेम कर्म पोते स्वतंत्र रीत्या फल आपवा समर्थछे. त्यां इश्वरने न्याय कर्ता मानवो केवल भ्रमणा अने अज्ञान अने मिथ्यात्व समजवुं. कर्ममांज शातावा अशातारूप फल आपवानी शक्ति छे एम सत्य छे, अने एम ज्ञान दृष्टिथी देखायछे. सर्वज्ञने असत्य वदवानुं कंडू कारण नथी हवे बीजो पक्ष लइए, कर्म फल आपवामां परतंत्र छे एटले ते इश्वरना तात्रामांछे. इश्वरनी इच्छा प्रमाणे कर्म फल आपी सकेछे एम मानीएतो इश्वर अन्यायी प्रपंची दयाहीन ठरेछे.

(१५४)

कर्म स्वयमेव सुख दुःख भाषेते.

आज्ञांका- तेम करतां इश्वर अन्यायी दयाहीन प्रपंची शीरीते ठरे वारु?

समाधान- कर्म फल आपवामां परतंत्रछे. तेम लागवामां पण परतंत्र, जे परतंत्र होय ते सदाय फलोदयमां तथा लागवामां परतंत्रज रहेछे, जेम तरवार बीजाने लागवामां तथा तेनो प्राण लेवामां सदाय परतंत्र रहीने कार्य करेछे. मनुष्य हाथमां तरवार ग्रहीने अन्यने मारे त्यारे तेना प्राणनो नाश थायछे, तरवार पोतानी मेळे उंची थइ मारवानी क्रिया करी शकती नथी, कारण के ते कर्तार्थी प्रवर्तेछे माटे परतंत्रछे. तेम कर्म इश्वरना तावामां रही प्रवर्ततां होय तो प्रथम जीवोने इश्वरे कर्म लगाडयां एम कहीएतो पहेला जीव कर्मरहीत हता. त्यारे तेमने शा माटे कर्म लगाड्यां ? कंडपण अपराध विना कर्म लगाड्याथी इश्वर अन्यायी पातकी ठरे. वळी कर्मरहीत पहेला जीवो हता तेओने कर्म लगाडवाथी इश्वर प्रभुनुं शुं कल्याण थवानुं हतुं अलवत कंड नहीं, वळी इश्वरनामां जीवोने कर्म लगावानी शक्ति नित्यछे के अनित्यछे, जोते कर्म लगाडवानी शक्तिने नित्य मानीए तो सदाय इश्वरजीवोने कर्म लगाडया करशे. जीवो कदी कर्मरहीत थशे नहीं. तो प्रभुने भजवुं इत्यादि सर्व व्यर्थ कल्पना मात्र थइपडे. वळी इश्वरमां कर्म लगाडवानी शक्ति अनित्यछे एम कहीए तो अनित्य शक्तिनां आधारी भूत इश्वरपण अनित्य ठरेछे, निराकार साकार इश्वर मानवामां कोइ प्रमाण नथी. निराकार इश्वर सिध्धने मानतां निराकार इश्वरने कोइपण जातनी इच्छा नथी तेथी ते कर्म लगाडवानी उपाधिमां केम पडे.

वळी निराकार इश्वरने जो इच्छा कहीए तो इच्छा अधुराने होयछे, पण पूर्णने होती नथी. इच्छा मानवाथी इश्वरनी पूर्णतानो

परमात्मदर्शन.

(२५५)

नाश थायछे. वळी समजवानुं के-इच्छा राग विना होती नथी अने ज्यां राग होयछे त्यां सदाय द्वेष रखोछे. रागी द्वेषी होयते कर्म सहीत होय अने कर्म सहीत होयते संसारी कहेवायछे, संसारी थवाथी इश्वरपणुं नष्ट थयुं, कर्म कलंक नाश करी निरंजन निराकार पद् पामवाथी इश्वरताछे- कर्म ए कंड बोलवा मात्र शब्द नथी, कर्म पुद्गल परमाणुओनो स्कंधथी वनेलुंछे. अने ते रूपीछे. कर्म लागवाथी आत्माना गुणो ढंकायाछे. हवे कहो के-कर्मथी रहीत एवा इश्वरमां कर्म लगाडवानी शक्ति मानवी ए केटली भूलनी वातछे, जे पोते कर्म रहीत थयाछे ते बीजाने केम कर्म लगाडे, कर्म लगाडवानी शक्ति इश्वरमां कल्पवी ते आकाश कुसुमवत् असत्य कल्पना मात्रछे. तेमज इश्वरनामां सुख दुःख भोगाववानी शक्ति मानवी ते पण कल्पना मात्र शश शृंगवत् वातछे.

कर्म पोतानी मेळे लाग्यां एम मानतां इश्वर कर्ता हर्ता नथी एम सिध्द थयुं. हवे जीवने कर्म पोतानी मेळे लाग्यां एम मानतां तर्क थशेके-कर्म लगाडया विना पोतानी मेळे शी रीते लाग्यां अने ते वयारथी लाग्यां-तेनुं समाधान सूक्ष्म विचारथी थशेके-कर्म अनादि काळथी जीवने लाग्यांछे. जीव अनादि काळथीछे. जेनी आदि होय उत्पन्न थवापणे ते वस्तुनो अंत पण होयछे, जे वस्तुनो आदि अने अंतछे. ते अनित्य होयछे अने जे अनित्य होयछे ते कार्यछे अने जे कार्य पणे वस्तुछे ते विनाशीछे जेम घट उत्पन्न थयानी आदिछे तो तेनो अंत एटले नाश होयले, आत्मा कहो के चेतन वा जीव तेनी उत्पन्न थवानी आदि नथी अर्थात् आत्मा द्रव्यार्थिकनयापेक्षाए कोइनाथी उत्पन्न थयो नथी, अने जे वस्तु उत्पन्न थइ नथी ते अनादि काळथीछे, जेम आकाश. जे वस्तु अनादि काळथीछे तेनो अंत पण नथी, माटे जीव पण अनादि अनंतछे. आत्माना असंख्यात

(१५६)

कर्म ही रीते आत्माने कागे छे !

प्रदेशमय व्यक्ति द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाए अनादि अनंतछे, कोइ पण कालमां आत्माना असंख्यात प्रदेश पैकी एक प्रदेश पण खर-बानो नथी. आत्मा कहो के जीव ते त्रिकालमां पोताना रूपे सत्छे अने जे वस्तु सत्छे ते नित्यछे, आत्मा सत्छे माटे ते नित्यछे,

प्राग्भावाप्रतियोगित्वं नित्यत्वं

प्राग्भावनुं जे अप्रतियोगी होयते नित्य जेटला कार्य रूप पदार्थो घट पट दंडादिकछे ते पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाए अनित्य जाणवा-कारणके घटपटादिक पदार्थो प्राग्भावना प्रतियोगीले. आत्मा वा चेतन प्राग्भावनो अप्रतियोगीछे माटे आत्मा नित्य जाणवो-द्रव्यार्थिक नय द्रव्यत्व पणाने ग्रहेछे माटे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाए आत्मा नित्यरूप जाणवो. संसारमां चार गतिमां परिभ्रमण करनारा अनंत आत्माओनुं द्रव्यपणुं त्रिकाल एक स्वरूपछे माटे ते द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाए नित्य जाणवा, हवे आत्मा अनादि अनंत नित्यछे, तेम सिध्द कर्युं, ते आत्माने अनादिकाळथी कर्म लाग्यांछे ते वातनुं विवेचन करायछे. आत्मा अनादिकाळथी छे एम सर्वज्ञ श्री वीरप्रभुना वचनथी जाण्युं तेम कर्म पण अनादिकाळथी आत्माने लाग्युंछे. एम सर्वज्ञ श्री महावीरना वचनथी जणांयुं, वीर प्रभु सर्वज्ञ अने रांगद्वेषथी सर्वथा रहित हता माटे तेमना वचननो पूर्ण विश्वास भव्यजीवने थाय एमां कंइ आश्चर्य नथी,

आप्तोक्तं वाक्यं प्रमाणं

श्री वीरप्रभु त्रिकाल सर्वज्ञानी आप्त हता. माटे तेमनुं वाक्य प्रमाणीभूत जाणवुं. कर्म अनादिकालथी जीवने लाग्यां एमां आगम प्रमाण पण सिध्द ठर्युं. कोइ जीव राजा थायछे, कोइ रंक थायछे, कोइ जन्मथी अंधा बधिर अवतरेछे कोइ-रोगीतो कोइ-भोगी इत्यादि सर्व पुण्यपापनुं फल प्रत्यक्ष देखवामां आवेछे माटे तेमां

परमात्मदर्शन.

(२५७)

प्रत्यक्ष प्रमाण पण सिद्ध करेछे. (भोगायतनं शरीरं) सुख दुःख भोगववानुं स्थान शरीरछे, अने ते प्रमाणे दरेक जीव क्षणिक सुख तथा दुःख शरीरादिकथी भोगवेछे एम प्रत्यक्ष जोवामां आवेछे. तो ते सुख दुःखनुं कारण कर्म-पुण्य पापरूप, आत्मानि साथे लाग्युं छे एम अनुमान थायछे. जेम कोइ शहरपासे नदीछे तेमा जलनी रेल आवीछे. शहरनी आसपासतो मेघ वरस्यो नथी. ते उपरथी एम अनुमान थायछे के-ज्यां त्यां अत्यंत मेघनी वृष्टि थवी जोइए. कारणके नदीमां रेल रूप कार्य देखायछे ते मेघनी वृष्टि विना होय नहीं अहीं तो मेघनी वृष्टि थइ नथी. तेथी अनुमान थायछे के पर्व-तमां दूरे खूब मेघ वृष्टि थइ हशे, तेम कर्मनी बाबतमां पण अनुमान थायछे के- भोग रोग सुख दुःख रूप कार्य, फलतो प्रत्यक्ष देखवामां आवेछे माटे तेनुं कारण कर्म होवुं जोइए. पुण्य पाप विना शाता तथा अशाता वेदनीय होय नहीं, ए अनुभव सिद्ध वातछे, बळी कहेछे के-जेम कोइ वृक्षना कोटरमां अग्नि सळगेछे अंदरना भागमां अग्नि बळेछे बाहिर देखाती नथी बाहिरतो फक्त धूम देखायछे. ते उपरथी अनुमान थायछे के-

यत्रयत्र धूम स्तत्रतत्र बन्दिः

ज्यां ज्यां धूम होयछे त्यां त्यां अग्नि होयछे, वृक्ष अंदरथी धूम बहिर निकळतो देखायछे माटे वृक्षना कोटरमां अग्निछे एम अनुमान थी सिद्ध थायछे. तेम सुख, पूर्णेच्छा, भोग, रोग, शोक, वियोग, अंधत्व, बधिरत्व, दरिद्रत्व, कार्यरूप, फल देखायछे माटे तेनुं कारण पुण्य पापरूप कर्म आत्मानि साथे लाग्युंछे एम सिद्ध थायछे, सर्व विद्वानो कर्मनुं अस्तित्व स्विकारेछे तेम कर्म ग्रंथमां कर्मनुं स्वरूप विस्तारथी ज्ञानीए वर्णव्युंछे तेमज कम्मपयडी, भगवतीसूत्र, पन्नवणासूत्र, विपाकसूत्र विगेरे सूत्रो तथा ग्रंथोथी कर्मनुं यथातथ्य स्वरूप सम-

(૧૫૮)

ભારમશુદ્ધિ.

જાયછે અને તે અનુભવમાં આવેછે. કર્મની પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ નિગ્રંથ પ્રવચનમાં સૂક્ષ્મપણે વર્ણન કર્યુંછે; તેવુંવર્ણન અન્ય દર્શનમાં તે પ્રમાણે પરિપૂર્ણ પળ નથી. કોઈ કર્મને કિસ્મત કહેછે, કોઈ કર્મને પ્રકૃતિ કહેછે, પણ કર્મનું અસ્તિત્વ માન્યાવિના છૂટકો થતો નથી.—

શ્લોક.

કૃતકર્મક્ષયોનાસ્તિ, કલ્પકોટીશતૈરપિ ॥

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં, કૃતં કર્મ શુભાશુભં ॥ ૧ ॥

કૃતકર્મનો ક્ષય નથી. કોટીકલ્પશતોષ્ટ પળ કર્મ અવશ્ય શુભાશુભ ભોગવવું પડેછે, જન્મજરા અને મૃત્યુ પળ કર્મથી થાયછે. ચોરાશી લાખ જીવયોનિગાં અવતરવું પળ કર્મથી થાયછે. એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિયના અવતાર પળ કર્મથી થાયછે, કર્મ અનેક પ્રકારેછે. કર્મના મૂઝ આઠ ભેદછે. તેની ઉત્તર પ્રકૃતિ એકશતઅઠાવનછે. દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્યંચગતિ, નારકગતિ, એ ચાર ગતિમાં અવતાર પળ શુભાશુભ કર્મથી છે કહ્યુંછે કે—

ગાથા.

જંજેણ કયંકમ્મં, પુઠ્ઠભવે ઇહભવે વસંતેણં ॥

તં તેણ વેદ્ઠઅઠ્ઠવં, નિમિત્તમિત્તો પરો હોઈ ॥ ૧ ॥

જે જીવે પૂર્વભવમાં તથા આભવમાં વસતાં જે કર્મ કર્યાંછે. તે કર્મ તે જીવે ભોગવવા યોગ્યછે. સુખદુઃખમાં પરજીવ તો નિમિત્ત માત્રછે. કર્મનો કર્તા પળ જીવે તેમ કર્મનો ભોક્તા પળ જીવે. દેવો સૂયડાંગસૂત્ર—સમ્મતિતર્કમાં પરભાવમાં રમતો જીવ પરનો કર્તા તથા ભોક્તા બનેલોછે—વેટલાંક કર્મ ભોગવીને ચેરવેછે. અને જીવ વેટલાંક કર્મ નવાં ગ્રહણ કરેછે—એમ અનાદિ કાઠથી જીવ કર્મને ગ્રહણ કરતો તથા કર્મને છંડતો વર્તેછે, માતાનું રુધિર અને પુરુષના

परमात्मदर्शन.

(३५९)

वीर्य संयोगे गर्भमां जीवन्तुं उत्पन्न थवुं अने प्रतिदिन वृद्धि पामवुं इत्यादि सर्व कर्मनो प्रपंचछे गर्भमां पण जीव ओजाहारग्रहेछे प्रश्न-गर्भमां जीव शावडे आहार ग्रहण करेछे.

प्रत्युत्तर-आहार त्रण प्रकारनाछे. १ ओजाहार, २ लोमाहार, (रोमाहार) कवलाहार-पूप एटछे मालपूआने ज्यारे घीमां तळेछे त्यारे मालपुओ सर्वथी घीनी साथे परिणमी जायछे. तेम गर्भमां जीव आहारने खेंची शरीररूपे परिणमावी शरीरनी वृद्धि करेछे. रोमथकी जे आहारने ग्रहण करवो ते रोमाहार कहेवायछे. हवानुं ग्रहण शरीरमां रोमथी थायछे, मुखथकी जे आहारनुं ग्रहण करवुं. ते कवलाहार कहेवायछे, मनुष्य पशु पंखी जलचरने कवलाहार प्रत्यक्ष देखवामां आवे छे, एम गर्भमां ओजाहारनुं ग्रहण छे.

प्रश्न-केटलाक भोळा लोको अज्ञानताथी एम मानेछे के-गर्भमांथी बाहिर नीकळ्या बाद-जीव शरीरमां प्रवेशेछे. अने पश्चात् छद्वा दीवसनी रात्रीए सरस्वति बाळकनुं भविष्य कपालमां लखेछे अने कहेछे के-छ्ठीना लेख लख्या मटे नहीं तेनुं केम?

प्रत्युत्तर-गर्भमांज जीव उत्पन्न थायछे. ते माटे प्रवचन सारोद्धार नवतच्च विगेरे ग्रंथो जोवा छ्ठीना लेख सरस्वति लखेछे एम मानवुं पण मिथ्या कल्पनामात्रछे-कर्म साथे बंध पामेलो जीव गर्भमां उत्पन्न थायछे, अने त्यां वृद्धि पामी नव मास थया बाद बाहिर नीकळेछे, कोइ गर्भमांज मरण पामेछे. इत्यादि सर्व कर्मनुं फळछे.

कर्मनो सर्वथा प्रकारे क्षय थवाथी जन्मजरा मरणनी प्राप्ति थती नथी-

(२६०)

ईश्वर:

प्रश्न—कर्मनो क्षय थवाथी मुक्तिपद मळेछे त्यारे जेटला जीव कर्मनो क्षय करेछे ते परमेश्वर कहेवाय के नहीं.

प्रत्युत्तर—हा, जेटला जीव, कर्मनो क्षय करेछे तेटला जीव परमात्मा सिद्ध, बुद्ध, कहेवायछे, कर्मथकी सर्वथा प्रकारे रहीत थवुं. तेनुं नाम मोक्ष कहेवायछे.

प्रश्न—कर्म सहित जीव मोक्षमां जाय के नहीं ?

प्रत्युत्तर—कर्मसहित कोइ जीव मोक्षमां गयो नथी अने जशेपण नहीं.

शिष्य—हे सद्गुरो—कोइ मति अज्ञानीयोए नवीन कल्पना उत्पन्न करी एम कहेछे के मुक्तिमां केटलांक वर्ष सुधी जीव रही पश्चात् संसारमां आवे छे. आ बाबत थुं समजवुं.

सद्गुरु—मुक्तिमां गया बाद जीव पुनरसंसारमां पाछो आवतो नथी. जीवने एक स्थानथी अन्यत्र लेइ जनार कर्मछे. अने ते कर्मनो संपूर्ण नाश थाय त्यारे मुक्ति स्थानमां जीव सिद्ध रूपे बीराजेछे. त्यांथी संसारमां आवी शकातुंज नथी. कारण के जीवनी साथे कर्म संबंध छतां गमनागमनछे. कर्मना अभावे मुक्ति स्थित मुक्तात्मानुं गमनागमन थतुं नथी, श्री वीरप्रभु एम सर्वज्ञ दृष्टिथी वदेछे—चकलाचकलीनी पेठे मुक्तिना जीवो गमनागमन करता नथी—मुक्त जीवो अक्रियावंतछे. माटे ते गमनागमननी क्रिया करता नथी.

प्रश्न—मुक्त आत्मां सर्वशक्तिमानपणुं छेके नहीं,

उत्तर—हा मुक्तात्मां पोताना स्वरूपथी सर्व शक्तिपणुं रहुंछे. पण पुद्गल-द्रव्यनी शक्तिथी मुक्तात्मानी शक्ति भिन्नछे. आकाश द्रव्य अरूपीछे. आकाश जेम अनंत प्रदेशीछे अने ते जेम स्वस्वरूपे स्थिर वर्तेछे. तेम सिद्ध परमात्मा स्वस्वरूपे शुद्ध थया छता स्थिर वर्तेछे. स्थिरवर्तवाथी आत्मिक सर्व शक्तिपणुं जरां

परमात्मदर्शन.

(२६१)

मात्र घटतुं नथी. गमनागमन परमाणुओनुंछे. परमाणुओना संबन्धथी थएला पुद्गल स्कंधो कर्मरूप परिणमी आत्माना प्रदेशोनी साथे लाग्याछे ते ज्यारे कर्म नाश थायछे. त्यारे मुक्तात्मा सिद्धबुद्ध कहेवायछे. मुक्तात्माना सर्व शक्ति आत्माना असंख्य प्रदेशोनी व्यापीने रहीछे. मुक्तात्माना शक्ति स्वद्रव्य बाहिर जती नथी. माटे आत्मस्वभावे सर्व शक्तिपणुं सदा बनी रहुंछे, सिद्ध अक्रिय होवाथी गमनागमननी क्रिया करे नहीं.

प्रश्न—कोइ एम कहेछे के-इश्वर अवतार लेइ दैत्योना नाश करेछे ए बात खरी के खोटी-

उत्तर—कर्म रहीत निर्मल परमात्माने इश्वर कहेवामां आवेछे ते परमात्मा अवतार ग्रहण करता नथी कारणके कर्मातीतने अवतरवुं आदि उपाधि नथी-पण कर्म सहित जे संसारी जीवछे ते अवतार ग्रहण करेछे अने जन्म जरा मरणनां दुःख पामेछे.

प्रश्न—त्यारे इश्वरनां लक्षण कहो.

प्रत्युत्तर—जेनामां रागद्वेष सर्वथा होतो नथी तेने इश्वर कहेछे वळी इश्वरना चार प्रकारछे-नाम इश्वर, स्थापना इश्वर, द्रव्य इश्वर, अने भावइश्वर इश्वर एवुं गुणी वा निर्गुणीनुं इश्वर एवुं नाम स्थापवुं ते नाम इश्वर, तथा कोइ पण वस्तुमां इश्वरना आरोप करवो ते स्थापना इश्वर-जे जीवमां इश्वरपणुं आविर्भावे वर्ते नहीं ते द्रव्येश्वर-जे जीवमां रागद्वेषना क्षयथी इश्वरत्व आविर्भावे वर्तेछे ते भावेश्वर, ए चार भेद इश्वरनाछे. तेमांथी पूर्वोक्त जे इश्वर भावइश्वर तरीके कथायछे. ते इश्वरनुं संसारमां पुनरजन्मवुं थतुं नथी. जीव ते पण इश्वर सत्ताएछे. इश्वरपणुं कर्माच्छादितपणे होवाथी कर्म सहित संसारी जीव संसारमां जन्म जरा मरण करेछे अने चतुरशीति लक्ष जीवयोनिमां पुनः पुनः परि-

(૨૬૨)

આત્મા કર્મ કરે છે.

ભ્રમણ કરેછે-જીવ પોતે કર્મ કરેછે અને તેનો ભોક્તા પણ પોતે એકલોછે. કહ્યુંછે કે-

ગાથા.

एको करेइ कम्मं, फलमवि तम्मिक्कळं समणुवहइ
एको जायइ मरइय, परलोयं एकळजाइ ॥ १ ॥

भावार्थ सुगम होवाची लख्यो नथी, व्यवहारनये जीव कर्मनो कर्ताछे-शुद्धनिश्चयथी स्वस्वरूपे रमतो जीव परनो एटले द्रव्यकर्म तथा भावकर्मनो कर्ता नथी.

ज्ञानी शुद्ध आत्मस्वरूपमां रमतो कर्मनो नाश करेछे-जे आश्रवना हेतुओ छे ते ज्ञानीने संवररूपे परिणमेछे. कहुंछे के-

श्लोक.

यथा प्रकारा यावंतः संसारावेश हेतवः
तावंतस्तद्विपर्यासाः निर्वाणावेशहेतवः

कर्मना वे भेदछे. एक शुभाश्रव बीजो अशुभाश्रव. प्रथम शुभाश्रवने पुण्य कहेछे, अने अशुभाश्रवने श्रीजिनेंद्रदेव पाप तरीके कथेछे. पुण्यनी बेतालीस प्रकृतिछे अने तेम पापकर्मनी ८२ व्यासी प्रकृतिछे. आत्माना शुभ परिणामथी पुण्य तथा अशुभ परिणामथी पापकर्म बंधायछे. रागद्वेषने भावकर्म कथेछे. रागद्वेषनो जय करवो ए शूरा पुरुषनुं कृत्यछे. रागद्वेष जीत्या विना देवपणुं कथातुं नथी. चतुर्दश रज्ज्वात्मक लोकमां सर्व संसारी जीवोमां रागद्वेष व्यापी रह्योछे. महादेव बचीसीमां कहुं छे के-

श्लोक.

रागद्वेषौ महामलौ, दुर्जितौ येन निर्जितौ;
महादेवं तु तं मन्ये, शेषा वै नामधारकाः १

परमात्मदर्शन.

(२६३)

आ संसारमां दुर्जय रागद्वेषरूप महामल्ले. तेवा महामल्लोने जेणे जीत्याछे तेने महादेव मानुंछे, बाकीना तो नामना महादेवछे. रागद्वेषने जीतवाथी वीतरागता प्रगटेछे, सत्यतात्त्विक सुख वीत-रागावस्थामांछे. रागदशाथी दुःखछे अने वीतरागदशाथी सुखछे. एम सर्वज्ञ वीरपरमात्मा सारमां सार कथेछे. श्रीवीरप्रभुए ध्याननी तीक्ष्णताथी रागद्वेषनो क्षय कर्योछे. श्रीप्रसन्नचंद्र राजर्षिए रागद्वेष शत्रुनो आत्मध्यानथी क्षय कर्यो. रागद्वेषज संसारनुं मूळछे. ज्ञान दर्शन अने चारित्रगुणनी क्षायिकभावे प्राप्ति रागद्वेषना क्षय विना नथी. द्वेष करतां पण रागनी सत्ता विशेषतः प्रवर्तेछे. कारण के जड वस्तुपर पण रागदशाथी ममत्वभाव उत्पन्न थायछे. आ-त्मिक ज्ञानयोगे मोहनीय कर्मनो उपशमभाव वा क्षयोपशमभाव वा क्षायिकभाव प्रगटेछे. ज्ञानावरणीय कर्मना, क्षयोपशमभाव वा क्षायिकभावना प्रादुर्भावने मोहनीय कर्म अटकावेछे.

कर्मबंधमां पण रागद्वेषनी प्राधान्यता समयमां वर्णवीछे. चार घातीकर्ममां पण मोहनीय कर्मनी सत्ता प्रबलपणे प्रवर्तेछे. देवगुरु धर्मनी श्रद्धा सम्यक्त्व पण मोहनीय कर्मना, उपशम, क्षयोपशम तथा क्षायिकभावथी थायछे, मोहनीय कर्म पण द्विधा प्रवर्तेछे. दर्शन मोहनीयना क्षयथी दर्शन प्रगटेछे अने चारित्र मोहनीयना क्षयथी चारित्र प्रगटेछे. वेदनीयकर्म, आयुष्यकर्म, गोत्रकर्म अने नामकर्म एह चार कर्म अघातीयांछे, ए चार कर्ममां औदयिकभाव फक्त प्रवर्तेछे. औदयिकभावे अघातियां चार कर्म भोगवीने आत्मा खेरवेछे. प्रत्येक भवमां द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावथी औदयिकभावनी जीव जीव प्रति भिन्नता वर्तेछे. इंद्रिय, गतिकायनी अपेक्षाए औ-दयिकभावमां जीव जीव प्रति असंख्यभेदे भिन्नतानी तारत्म्यता प्रवर्तेछे. औदयिकभावे चार अघातीयां कर्मनी कर्मबंधनमां निमित्त

(૨૬૪)

કર્મનોન્નશ.

કારણતા વર્તે છે. પ્રાધ્યાનતા રાગદ્વેષની કર્મબંધનમાં છે. માહનીય કર્મની બંધસ્થીતિ ઉત્કૃષ્ટી સિત્તેર કોડાકોડી સાગરોપમની જાણવી. મોહનીય કર્મ મદિરા સમાન છે. જેમ મદિરાપાનથી મત્ત થઈ મનુષ્ય અવિવેકી બની કૃત્યાકૃત્ય જાણી શકતો નથી. તેમ મોહના ઉદયથી મૂઢ થઈ મનુષ્ય કૃત્યાકૃત્યને સમજી શકતો નથી, ભક્ષ્યાભક્ષ્યમાં પ્રવર્તે છે, પરભાવમાં મદોન્મત્તપણે પ્રવર્તે છે અને પાપકર્મયોગે આત્માને કર્મદલિકથી ભારે કરે છે. મોહોદયથી કોઈની હિતશિક્ષા શ્રવણે સુણતો નથી. યુવાવસ્થામાં તો મોહોદયતા અતિશય વર્તે છે. મોહનીય કર્મરૂપ બાજીગર-સંસારી જીવોને પૂતઝાંની માફક નચાવે છે અને જન્મ, જરામરણ, રોગશોક, તૃષા, છુધા, છેદનભેદનનાં દુઃખ આપે છે. છતાં જીવો મૂઢતાથી સંસારમાં સાર માની રાગદશામાં મસ્તાન થઈ વર્તે છે. અહો કેટલી અજ્ઞાનતા. ક્ષણિક સુખમાં ચિંતામણિ રત્ન સમાન મનુષ્યભવ જીવ હારી જાય છે અને પુનઃ પુનઃ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. કર્મરાજા સંસારરૂપ નગરમાંથી જીવને જરા માત્ર સ્વસવા દેતો નથી. અનંત શક્તિધારી આત્મા પણ કર્મ પિંજરમાં રહ્યો છે. ક્યાં પુદ્ગલની શક્તિ અને ક્યાં આત્માની શક્તિ તેનો તો હે ભવ્યો વિચાર કરો-
પ્રશ્ન-હે ગુરુ મહારાજ કર્મ એ પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે કે પુદ્ગલ દ્રવ્યના પર્યાય છે.

ઉત્તર-કર્મ એ પુદ્ગલ પરમાણુ દ્રવ્યના પર્યાયરૂપ સ્કંધો છે અને તે આત્મ પ્રદેશોની સાથે ક્ષીરનીરની પેઠે પરિણમે છે-પુદ્ગલ દ્રવ્યનો સ્કંધ રૂપ પર્યાય કર્મ જાણવું-કર્મ જડ છે. પણ તેનાથી આત્માના ગુણો ઢંકાય છે તેથી આત્મા દુઃખ પામે છે.

પ્રશ્ન-અનાદિકાલથી જે કર્મ આત્માની સાથે લાગ્યું છે તેનો શી રીતે અંત આવે.

परमात्मदर्शन.

(२६५)

उत्तर—कर्म बंधननी मूल सत्ता जे रागद्वेषछे तेनो क्षय करवाथी कर्मनो अंत आवेछे. मतिश्रुतज्ञानना क्षयोपशमभावे कोइक भव्यजीव षड्द्रव्यने जाणी जीवद्रव्यने अन्य पंचद्रव्यथी भिन्न जाणी सम्पक् शुद्ध बोधथी आत्मध्यानमां प्रवर्ते अने रागदशाना हेतुओने त्यागी संयम आदरी निश्चयथी स्वस्वभाव स्वगुण स्थिरतारूप चारित्रमां उपयोगथी वर्ते तो जीव कर्मनो क्षय करेछे. अने तीर्थकरोक्त परमपदनी प्राप्ति करेछे. अनंत जीवो कर्मनो संक्षय करी परमपद पाम्या अने पामशे. एम श्री प्रवचन वदेछे.

जे भव्यो वीतरागना पंथने चाहेछे ते भव्यो रागद्वेषनो क्षय करी ते पदने पामेछे अने पामशे. कर्मनो ग्रहण कर्ता पण जीवछे अने तेनो नाशकर्ता पण जीवछे.

परमां रागद्वेषनी परिणतिथी कर्मबंधन अने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल अने स्वभावथी आत्मगुणमां प्रवृत्ति करवाथी कर्मनो नाश थायछे. मिथ्यात्व, अविरति, कषाय अने योगथी कर्मबंधन थायछे. अनादि कालथी जीव संसारमां परिभ्रमण करेछे तेनुं कारण कर्म जाणवुं. भेदज्ञान थवाथी आत्मा अने परनो भेद थायछे. अने भेदज्ञानथी समाकित प्रगटेछे. ज्ञानभाव विना मोहोदयतानो नाश थतो नथी. कहुं छे के,

श्लोकः

ज्ञानेन भिद्यते कर्म, छिद्यंते सर्व संशयाः

आत्मीयध्यानतो मुक्ति, रित्येवं कथितं जिनैः॥१॥

ज्ञानथी कर्मनो नाश थायछे. अने सर्व संशयो छेदायछे अने आत्मध्यान पण ज्ञान विना थतुं नथी. माटे ज्ञानथी आत्मध्यान करतां मुक्तिनी प्राप्ति श्रीजिनेश्वरोए कथीछे. ज्ञानथी वैराग्य

(૨૬૬)

જ્ઞાનપ્રતાપ.

ધાયણે અને વૈરાગ્યથી ચારિત્ર જીવ આદરેણે, અને તેથી જીવકર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષમાં જાયણે. માટે મુક્તિમાર્ગમાં જ્ઞાનની તથા તેની સાથે વૈરાગ્યની પણ મુખ્યતાણે. જ્ઞાનમાં કહું છે કે—

શ્લોક.

જ્ઞાનસ્યૈવહિ સામર્થ્ય, વૈરાગ્યસ્યૈવ વા કિલ;
યત્કોઽપિ કર્મભિઃ કર્મ મુંજાનોઽપિ ન વધ્યતે. ૧

જ્ઞાનનું એવું સામર્થ્ય છે કે વા વૈરાગ્યનું સ્વરેખર એવું સામર્થ્ય છે કે જેથી કોઈપણ કર્મોવડે કર્મ ભોગવતો છતો પણ કર્મથી બંધાતો નથી. તાત્પર્ય કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી કર્મ ભોગવતાં પણ કર્મબંધ થતો નથી.

માટે કહેણે કે—

જ્ઞાનીકો ભોગ સવિ નિર્જરાકો હેતુ હે.

જ્ઞાનીનો સર્વભોગ નિર્જરાર્થણે. ઔદયિકભાવે પ્રાપ્ત થણા પંચેન્દ્રિય વિષયભોગને ભોગવતા પણ જ્ઞાની કર્મની નિર્જરા કરેણે, અને અજ્ઞાની ઉલટા બંધાયણે. હું જ્ઞાનીહું એમ માની વેસવાથી કંઈ જ્ઞાનીપણું આવતું નથી. વા કોઈ એમ કહેણે કે આ જ્ઞાની નથી એમ કયવાથી જ્ઞાનીપણું ટઢતું નથી. જ્ઞાનીપણું જ્ઞાનિગમ્ય વા જ્ઞાનીના અનુભવમાં સમજાયણે.

જ્ઞાનના પણ ઘણા ભેદણે. આત્મજ્ઞાન વિના કર્મ કલંક ટઢતું નથી. જ્ઞાનનો મહિમા અનંતણે.

કૃષ્ણ અર્જુનને કહેણે કે—

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્ કુમતેઽર્જુન.

હે અર્જુન ! જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મને વાઢી ભસ્મ કરેણે. જ્ઞાન વિના ચારિત્ર નથી અને ચારિત્ર વિના મુક્તિ નથી. ક્રિયા પણ જ્ઞાનની પાસેણે. જ્ઞાન વિના શુંતપ, શુંક્રિયા માટે આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન

परमात्मदर्शन.

(२१०)

करनुं श्रेयस्करछे. आत्मज्ञान विना कोइ तर्या नथी अने तरने पण नहीं, राजा, करोडाधिपति, आदि सर्व करतां ज्ञानीनी महत्वताछे. ज्ञानी सूर्य करतां पण मोटोछे. कारण के सूर्य बाह्य प्रकाश करेछे किंतु अंतर्प्रकाश करी सकतो नथी. अने ज्ञानी तो अंतर्प्रकाश करे छे. ज्ञानीनी सर्व क्रिया, वर्तन सापेक्षपणे वर्तेछे. अने अज्ञानीनुं वर्तन निरपेक्षतया वर्तेछे. ज्ञानी अवश्य चोथाठाणे गणे तो होयछे अने अज्ञानी बी. ए. एल. एल. बी आदि पाद्विओथी हुनीयादारीकां महा विद्वान् कहेवातो होय तो पण समकित विना पहेले गुणठाणे वर्तेछे. ज्ञानावरणीय कर्मना क्षयोपशमभावथी वा क्षायिकभावथी ज्ञाननो आविर्भाव थायछे. सम्यक्तत्त्व श्रद्धान् विना ज्ञानावरणीय कर्मनो क्षयोपशमभाव पण मिथ्यात्वरूपे परिणमेछे. एम श्रीवीर प्रभुनुं कथनछे,

ज्ञानावरणीय कर्म पंचप्रकारेछे—मतिज्ञानावरणीय कर्म १, श्रुतज्ञानावरणीय कर्म २, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म ३, मनःपर्यव ज्ञानावरणीय कर्म ४, केवल ज्ञानावरणीय कर्म ५.

ज्ञानावरणीय कर्ममां उपशम भाव नथी. ज्ञानावरणीय कर्मनो औदयिकभावछे. ज्ञानावरणीय कर्मनो क्षयोपशम विचित्र असंख्य प्रकारे तरतमयोगथी वर्तेछे. द्वादशांगीनुं गुंथन गणधरजी क्षयोपशमभावे करेछे.

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञानमां क्षयोपशम भाव लाभेछे. केवलज्ञान क्षायिकभावे उत्पन्न थायछे. ज्ञानावरणीय कर्म अष्ट कर्ममां प्रथमछे. तेनुं कारण के विशेषतः ज्ञानावरणीय कर्म आत्मानुं भान भूलवेछे. ज्ञान विना तत्त्वनुं भान थतुं नथी. माटे प्रथम तेनो निक्षेप कर्योछे. ज्ञान विना जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध अने मोक्षनुं स्वरूप जणातुं नथी.

(૨૧૮)

જ્ઞાન.

ષ્ટદ્વય, સાતનય, સપ્તભંગી, પ્રમાણ નિક્ષેપતું યથાતથ્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન વિના સમજાતું નથી. જ્ઞાન વિના ધર્મ અધર્મનું સ્વરૂપ જણાતું નથી. જ્ઞાન વિના ચારિત્ર શું છે તેનું પળ ખાન થતું નથી.

મતિ જ્ઞાનાવરણીય અને શ્રુત જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સર્વ જીવોમાં સરખો લાગતો નથી. કોઈએક વસ્તુનું સ્વરૂપ વિશેષ સમજે છે કોઈ સમજતું નથી. ત્યાં મતિ જ્ઞાનાવરણીયકર્મની ક્ષયોપશમતાજ કારણીભૂત છે. પૂર્વભવમાં જે પ્રકારે મતિજ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાનનું આરાધન કર્યું હોય છે. તે પ્રમાણે આ ભવમાં મનુષ્ય જન્મ પામી શરીરની રચના, મગજની રચના જ્ઞાનતંતુની પ્રબલતા આદિ સામગ્રીસાધન મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમભાવમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તે સાધનોદ્વારા ઉચ્ચ કરવાથી મતિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે.

મતિજ્ઞાનના અષ્ટાવિંશતિ અને ૩૪૦ ત્રણસો ચાલીશ ભેદ નંદિમૂત્રમાં પ્રરૂપ્યા છે. જ્ઞાનની બ્રાહ્મી લીપી જે શ્રુતજ્ઞાન અક્ષરસ્વરૂપે છે તેની આશાતના કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય છે. આશાતનાના હજારો ભેદ છે. તે ગીતાર્થને વિનયથી પૂછી સમજણ લેવી.

સુવર્ણના પ્યાલામાં જલનાં જેટલાં વિંદુ પડે છે તેટલાં કાયમ રહે છે. તેમ યોગ્ય સંસ્કારી જીવ જેટલું ગુરુદ્વારા શ્રુતજ્ઞાન મેલવે છે તેટલું તેને શુદ્ધરૂપે પરિણમે છે અને તેનું સ્મરણ રહે છે.

જેમ તપાવેલા લોહના ગોઝા ઉપર જલવિંદુ ત્રણ ચાર દશ ચાર પડે તો કંઈ તેનું જોર ચાલતું નથી તેમ મૂઠ અજ્ઞાની જીવના હૃદયમાં સદ્ગુરુ વચનામૃતનો વાસ થતો નથી ઉલટો તેનો નાશ થાય છે.

એક શિક્ષક શિષ્યોને એકજ વચને સરખી રીતે કોઈ વિષયનો બોધ આપે છે તેમાં કોઈ વિદ્યાર્થીને તો બિલકુલ તેની યાદી રહેતી નથી. કોઈને યત્કિંચિત્ રહે છે. કોઈને પૂર્ણ યાદી રહે છે ત્યાં શ્રુત જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ક્ષયોપશમતાજ કારણીભૂત છે, કોઈ એક શ્લોક

भणीने स्मरणमां राखेछे. कोइ एक कलाकमां पांच श्लोक भणेछे. कोइ पच्चीश श्लोक कोइ शतश्लोक कोइ सहस्रश्लोक एक कलाकमां याद करेछे कोइ आखा दीवसनो एक श्लोक पण याद करी शकतो नथी. त्यां श्रुतज्ञानावरणीयकर्मनी क्षयोपशमताज कारणीभूतछे. हालना समयमां कोइ शतावधानी कोइ द्विशतावधानी देखवामां आवे छे. तेनुं पण कारण मति अने श्रुतज्ञानावरणीय कर्मनी क्षयोपशम-तानी विचित्रताछे. अने ते प्रमाणे मगजनी रचना ज्ञानतंतुनी प्रब-लता अने अपबलतानी तारतम्यताए घटना थायछे. अने ते प्रमाणे द्रव्य क्षेत्र काळभावथी प्रबल अपबल साधनोनी प्राप्ति थायछे. श्रुत-ज्ञानना अभ्यासथी तथा श्रुतज्ञानीनो विनय भक्ति बहुमान करवाथी श्रुतज्ञानावरणीय कर्मनो क्षयोपशम थायछे. श्रुत अने श्रुतज्ञानीनी आशातना करवाथी तथा उत्सूत्रभाषण करवाथी श्रुतज्ञाना-वरणीय कर्मनो बंध थायछे. माटे भव्य जीवोए क्रोध लोभ मान पूजा स्वार्थादिक आवेशथी उत्सूत्र भाषण करवुं नहीं. उत्सूत्र भाषणथी जमाली तथा मरीचिनी पेठे भवपरंपरानी प्राप्ति थायछे. अल्पज्ञानयोगे उत्सूत्र भाषण थयुं होय तो ज्ञान थतां मिथ्या दुष्कृत देवुं. पण मान पूजा लज्जादिकथी मिथ्यादुष्कृत देतां प्रमाद करवो नहि. भवभीरु भाग्यवंत जीव अनेकांत पंथने समजी प्राणांते पण मिथ्याप्ररूपणा करतो नथी. उत्सूत्र भाषण समान कोइ पाप नथी. माटे कदी अल्पज्ञपणाथी उत्सूत्र प्ररूपणा करवी नहि, कलिपुगमां सूत्रोनी प्ररूपणामां गुरुगम विरह, मान, पूजा, स्वार्थ, मतांधपणाथी, उत्सूत्र भा-षण करी अज्ञानी जीवो अनेक प्रकारना मत उठावेछे अने कुमति कुश्रुतयोगे कुतर्क करी भिन्न भिन्न पंथनी काळी दृष्टि रागी जीवोने समजावीने वीरप्रभुनां सत्य वचननो लोप करी आत्माना अजाण-पणाथी भवपरंपरानी वृद्धि करी जन्मजरा मरणनां दुःख विविध योनिमां अवतार ग्रही भोगववा प्रयत्न करेछे.

(२७०)

सूत्रोना आशय.

सूत्रोमां कोइ वचन तो उत्सर्ग मार्गनां छे. कोइ वचन अपवाद मार्ग बोधकछे. कोइ भय वचनछे. कोइक तो व्यवहार मार्गने बोधेछे. कोइक तो निश्चयनय मार्गने बोधेछे. एरो सूत्र सिद्धांतरूपी श्रुत सागरनो सार-महाश्रुतज्ञानी विना कोण पामी शके. अलबत ज्ञानी पामी शके.-कहुंछे के-

गाथामूत्र.

विहिउज्जम वन्नय भय, उसग्ग ववाय तदुभय गयाई;
सुत्ताइं बहुविहाइं, समइं गंभीर भावाइं ॥ १ ॥

एसिं विसयविभागं, अमुणंतो नाण चरणकम्मदया,
मुझइ जीवोत्ततो, सपरसि मसग्गहं कुणइ ॥ २ ॥

जैनसूत्रो उत्सर्ग अपवादथी परिपूर्ण सदाकाल विजयवंत वर्तेछे. सप्तनयोनुं यथार्थ स्वरूप जाण्या विना धर्मोपदेश सम्यग् रीत्या देइ शकतो नथी. केटलांक सूत्रो उद्यमकथकछे, माटे अपेक्षा समज्या विना प्ररूपणा करवी नहि. भाग्यवंत जीवोए गीतार्थनुं शरण अंगी-कार करवुं योग्यछे. दुःषम समयछे. माटे गीतार्थद्वारा अनेकांत मार्ग समजवो. श्रुतज्ञानिनी तथा श्रुतज्ञाननी आशातना करवाथी नरकादि गतिमां घणा जीवो गया अने घणा जशे.

णमो बंभलीवीए.

आ सूत्रनो सम्यग् अर्थ गुरु परंपरया केवी रीते थायछे. अने तेमां श्रुतज्ञाननो विनय बहुमान भक्तिनुं केटलुं रहस्य समायुंछे. हवे तेनो कुतर्कनी स्वच्छंइताए विपरीत अर्थ करवामां केटली विरुद्धता वर्तेछे. ते विद्वज्जनो माध्यस्थदृष्टिथी विचार करशे तो समजाशे. श्री यशोविजयजी उपाध्याय पोताना रवेला स्तवनमां सप्रमाण अनु-भव सहित शुद्ध व्याकरण दोषरहित सम्यग् अर्थ दर्शावेछे, तेनी

परमात्मदर्शन.

(२७१)

समजु लोको विचार करी असत् आलंबन परिहरो सदालंबन अंगी-
कार करशे. शतज्ञानीनो एकमत अने शत अज्ञानिना शतमत व्य-
वहारमां प्रसिद्धछे.

जगत्मां सूक्ष्मगंभीरार्थपरिपूर्ण धर्मतत्त्वना समजनारा भव्यो
अल्प होयछे, अने तेमां पण भावार्थ समजी धर्मतत्त्वनो आदर कर-
नारा अल्प होयछे, अने तेमां पण अनुभवी तो अल्पमां अल्प होयछे.

हाल पंचमकालछे, पंचत्रिष भेगां थयांछे. प्रायः बहु पापी
जीवोनुं अत्र उत्पन्न थवुं थायछे. वळी तेमां मिथ्याली अने पापानु-
बंधी पापवाळा घणा जीवोनी उत्पत्तिनो समयछे. एवा पंचमकालमां
धर्मी जीवो करतां पापी मिथ्याली जीवोनो मोटो भाग होय तेमां
शी नचाइ !!! अहा दुःषमकाल त्हारो केवो प्रभाव ?

त्यारे हवे थुं करवुं ? धर्म कर्या विना बेसी रहेवुं ? ना तेम
करवुं योग्य नथी. भगवाननुं शासन दुःपसहसुरि सुधी चालशे. धर्म
पण त्यां सुधी छे केटलाक मतिहीन प्रमादी जीवो हालमां मुक्ति नथी
एम समजी धर्मकरणी करता नथी. आ विपरीत समजवुं तेमनुं भूल
भरेलुंछे. हाल पण अप्रमादयोगे सातमा गुणठाणानुं स्पर्शन भाग्य-
वंतो करे तेमां सप्रमाण हेतुछे. जेटली जेटली कर्म प्रकृतिथी मूकावुं
ते ते अंशे मुक्तपणुं अने धर्म समजवो. कबुंछे के-

जे जे अंशेरे निरुपाधिकपणुं, ते ते अंशे धर्म ॥

सम्यग् दृष्टिरे गुणगणाथकी, जीव लहे शिवशर्म ॥

श्री यशोविजय उपाध्याय भेद ज्ञान यतां समकितनी प्राप्ति यतां
उपज्ञप्रभावे वा क्षयोपशमभावे वा क्षायिकभावे धर्मची साध्यता सिद्धि
बतावेछे, चोथा गुणठाणाथी प्रत्येक गुणठाणे षड्गुण हानि वृद्धि असं-
ख्यात भेदे प्रत्येक जीवोने रहीछे. ए वात गीतार्थोना अनुभवमां सत्यछे,

(૨૭૨)

જ્ઞાન.

ધર્મ શ્રવણથી મેદ્જ્ઞાન થાયછે અને તેથી સ્વપરનો વિભાગ કરતાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાયછે. તેમાં શ્રુતજ્ઞાનનો મહા ઉપકાર સમજવો, ત્રિકાલ સર્વજ્ઞ વીરપ્રભુએ કેવલજ્ઞાનથી સર્વ પદાર્થોને જોયા અને વાણીથી તે પદાર્થોનું સ્વરૂપ કહ્યું. તે ભગવાનની સ્વપર પ્રકાશક વાણીનેજ શ્રુતજ્ઞાન સૂત્રસિદ્ધાંતરૂપ કયેછે હાલ પણ ભગવાનની વાણી જયવંતી વર્તેછે.

આસન્નભવ્યી ભગવદ્વાણીરૂપગંગા પ્રવાહમાં સ્નાન કરી સંસારના તાપથી શાંતિ પામેછે અને પામશે.

મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અનાદિકાલથી સમકિતશ્રુત અને મિથ્યાશ્રુત વર્તે છે.

સુશ્રુતનો હે ભવ્યો આદર કરો વચ્ચત વહી જાયછે, વચ્ચત અમૂલ્યછે. ગયો વચ્ચત પશ્ચાત્ આવનાર નથી. ભવ્ય જીવોએ વારંવાર શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો.

અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે. અવધિજ્ઞાનના ષડ્ભેદછે. અને વઢી અસંખ્યાત ભેદે પ્રવર્તેછે. મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી મનઃપર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે, મનપર્યવજ્ઞાન બે પ્રકારેછે.

કેવલજ્ઞાન ક્ષાયિકભાવે ઉત્પન્ન થાયછે. શુદ્ધધ્યાનના વીજો પાયો ધ્યાવતાં વારમે ગુણઠાણે કેવલજ્ઞાનાવરણીયકર્મનો સત્તાથી પણ સર્વથા ક્ષય થાય છે.

મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પરીક્ષે. અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન દેશ પ્રત્યક્ષે. કેવલજ્ઞાન સર્વથી પ્રત્યક્ષે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ બનેછે. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં દર્શનાવરણીયાદિ કર્મનો સર્વથા ક્ષય વાયછે. જે જે કર્મપ્રકૃતિનો જે જે ગુણઠાણે ક્ષય થવાનો હોયછે તે તે ગુણ-

परमात्मदर्शन.

(२०३)

ठाणे तेनो क्षय थायछे. ज्ञानप्ररूपणा नंदिमूत्रमां हेतु न्याय पूर्वक दर्शावीछे. माटे आत्मार्थि जीवोए त्यांथी विशेष अधिकार समजवो अहाज्ञाननी केवी शक्ति !!! चक्षुद्धारा देखेला पदार्थोनो मनमां केवो विचार थायछे. वीजानामनना विचार पण ज्ञानथी जाणी शकाय छे. ज्ञाननी एकनी एकथी वीजा जीवमां विशेषता देखवामां आवेछे. केवलज्ञानमां सर्वज्ञाननो समावेश थायछे. संप्रतिकाळे ज्ञाननी क्षीणताछे. अने तेथी मतभेद प्रणा थया अने थशे जेम ज्ञाननी अल्पता नेम मतमतांतर विशेष अने ज्ञाननी वृद्धि तेम मतमतांतर अल्प जाणवां. मतभेदना कदाग्रह विना जे जे वांचवुं. सांभळवुं. मनन करवुं ते सफळछे.

क्षयोपशमभावे अधुना मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान समकित्ती जीवोने वर्तेछे. एम कथवुं अनुभवगम्य सप्रमाणछे, मति अज्ञानी अने श्रुत अज्ञानी जीवो आ क्षेत्रमां विशेषछे. मति अने श्रुत ज्ञानी जीवो अल्प अने तेमां पण विरति पाभ्या जीवो अल्प अनुभवगम्य सिद्धांतानुसारछे.

हे भव्य मति ज्ञान अने श्रुतज्ञाननो गहन विषयछे. अल्पज्ञापणाथी सूक्ष्म तत्त्वरूप निगोद स्वरूप समजी शकाय नहीं तो तेमां ज्ञानावरणीय कर्मनो दोष समज. ग्रंथकर्त्ताने दोष आपीश नहीं सूक्ष्म तीक्ष्ण मति ज्ञान विना सूक्ष्म वातनो बोध थतो नथी. एम कहेवुं सप्रमाणछे. केवलज्ञान अने केवल दर्शनथी जे पदार्थ स्वरूप जाणवा देखवामां आवे तेनुं स्वरूप मतिज्ञानथी यथार्थ साक्षात् कदी जाणी शकाय नहि. एम अनुभवथी ज्ञानीओ कथेछे. माटे शका मनमां लावीश नहीं. जिन प्रवचनपर आस्था राख. जिनेश्वरे जे वचनो कथ्याछे ने अन्यथा नथी. एम श्रद्धा कर. अने आत्मानुभव सद्गुरुद्धारा कर के जेथी मुक्तिमार्गनो अधिकारी थाय. पूर्वो-

(१११)

कर्मराजा अने क्षमराजानुं युद्ध.

मोहनीय अने ज्ञानावरणीय कर्मनुं स्वरूप तथा तेना नाशकरी
 आत्मगुणोनी लाभ देखाडी हवे प्रस्तुत कर्मविषयनुंज वर्णन कर-
 क्षमां आवेछे. कर्म संबंधी सामान्य वर्णन कर्युं. कर्म जडछे अने
 ते आत्माना गुणोनी घातकर्ता छे. सर्व जीव कर्मासक्त छे. कर्मने
 नाश करवो एज कर्तव्य छे. कर्मनुं स्वरूप समज्या विना कर्मने
 नाश थतो नथी. श्रीवीरप्रभुए घोर परिसह सहन करी कर्मनो क्षय
 कर्यो. तो तेमनी वाणीना आधारे आपणे पण ज्ञान दर्शन चारि-
 नुं आसाधन करवुं, लक्ष्यमां राखवुं. मोक्ष मार्ग विकट छे. प्रमाद
 कर्म, उपयोज अल्प, आयुष्य अल्प, दुःखसमय, सत्समामम अ-
 ल्प, धर्म साधनो अल्प, कर्मसाधनो विशेष, अहो वेवी दुर्दशा, क-
 र्मनुं जोर विशेष, धर्मध्याननुं जोर अल्प. आ थुं थयुं, थुं करवुं. हे
 वीरप्रभु तारी वाणीनुं शरण, जगतमां तमारो केटलो उपकार ! ता-
 रो आधार, तारो विश्वास. कर्मनी दुःखप्रदविचित्रप्रकृतियोनी
 नाश करवा केवा प्रकारनुं लक्ष्य जोइए ? अधमता अने प्रमादथी
 जीवो क्यांथी स्वस्वरूप पामे ? धर्म उद्यम अल्प छे. कर्मोपार्जन
 उद्यम अहर्विश चाल्या करेछे. तपासोतो खरा ! रागनुं जोर तमा-
 रामां विशेष छे वा वैराग्यनुं, जोर विशेष छे, कर्मनी कठीन ग्रंथीनो
 मेद आत्मार्थी पुरुष पुरुषार्थथो करेछे. कर्मनुं क्षेत्र चतुर्दश रज्वात्म-
 क प्रमाण छे, अर्थात् कर्मनी राजधानी चउद राजलोकमां छे. तां
 पण कर्मथी डरवानुं नथी. कर्म नाश थवानुं नथी एम स्वप्नमां पण
 विचारवुं नहि, कारणके तेम मानी बेसवाथी उलडुं कर्मनीज वृद्धि
 थायछे. माराथी राग छूटवानो नथी वा मारा कर्ममां लख्युं हसे ते
 प्रमाणे थसे. एम प्रमादनी वृद्धि अर्थे वा सरागदशानी वृद्धि अर्थे
 वचन वदशो नहि. अनुद्यमनां वचनो जे बोलवामां आवेछे ते चा-
 दित्र मोहनी आदिना उद्यथी समजवुं. जरा सूक्ष्मदृष्टिथी विचारो के

परमात्मदर्शन.

(२१५)

उद्यमथी कयुं कार्य सिद्ध थतुं नथी ? अलवत उद्यमथी सर्व कार्य सिद्ध थाय ते. हवे ते कर्म संबंधी विशेष विवेचन करीए छीए.

- १ कर्मराजा
- २ कर्मराजानो प्रधान मोह
- ३ संसारनगर
- ४ कर्मराजानो पुत्र अज्ञान
- ५ कर्मराजानी पुत्री निंदा

कर्मराजाना सुभटो—मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, कलह, भय, अभ्याख्यान, अशुभयोग, अर्तध्यान, रौद्रध्यान, इव्यां विगरे कर्मनुं कार्य ए छे के दरेक संसारी जीवो उपर सत्ता चलाववी. हवे एक दीवस कर्मराजा पोते संसारनगर तरफ ध्यान आपी जुएछे के संसारी जीवो हाल केवी हालतमां छे अने ते आपणी आज्ञामां छे के नहीं ? जोतां जोतां कर्मराजाने मालुम पड्युं के, अरे हाय वीतरागना भक्तो तथा तेमनी बाणीरूप आगमोथी घणा जीवोए मारु स्वरूप जाणी लीधुं. अने ते जीवो मने ते शत्रु तरीके लेखवी मारी नगरीमांथी नीकळवानो उपाय श्रीवीतरागना भक्तोने पुछेछे अने मोक्ष नगरी के जे कर्मराजानी राजधानी त्यां जवा इच्छेछे. वे.टलाके मोक्ष नगरी तरफ जवा सारु प्रयाण शरु कर्युंछे. अरे मारा नगरमांथी जीवो वे.टलाक काळे सर्वे जता रहेशे. वे.म करु, एम उंडा विचारमां गुम थइ बेठो छे. त्यारे तेनी पासे मोहप्रधान आवी पूछेछे के, हे कर्मराजा तमे वे.म उदास थइ बेठा छो ? मारा जेवो प्रधान छतां तमने शी मोटी चिंता आवी पडीछे ते कृपा करीने कहो.

कर्मनृपतिभाषण

कर्मराजा मोहप्रधानने कहेछे के, अरे हवे मारा राज्यमांथी

(૨૭૬)

કર્મરાજા અને ધર્મરાજાનું યુદ્ધ.

દિનપ્રતિદિન જીવો મોક્ષ નગરીમાં ચાલ્યા જાય છે.

ધર્મ રાજાના સુભટો આપણી નગરીના જીવોને સમજાવી પોતાની નગરીમાં રેંચી જાય છે. મુખ્યતાએ તેમાં મોટો ભાગ જીવોને મોક્ષ નગરીમાં લઈ જનાર તીર્થકરોનો છે. અને તેમના કાયદા પ્રમાણે વર્તનાર સાધુઓ એવા તો કાબેલ છે કે-તે સાધુઓની આગળ આપણા ક્રોધાદિક શત્રુઓનું કંઈ ચાલતું નથી. આપણા સુભટોને પણ હરાવી જીવોને પોતે મોક્ષ નગરીનો માર્ગ જણાવી આપણી નગરી છાલી કરે છે. હાય, હવે શું કરું. અરે ઓ મોહ પ્રધાન તું જલદી આપણા સુભટોને તથા મારા પુત્રને બોલાવ, અને અવિવેક સભામાં કચેરી ભર, મોહપ્રધાન કર્મરાજાનું વચન અંગીકાર કરી સર્વ સુભટોને બોલાવી સભાની બેઠક કરી. કર્મરાજા સભામાં આવી મમતા સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થયા. હવે કર્મરાજા પોતાના સર્વ સુભટોને તથા પુત્રપુત્રીઓને નીચે મુજબ વચનો કહે છે કે-

અરે મારા મોહ પ્રધાન તું મારો પ્રિય પ્રધાન છે. હિંસાતો મારી બેન છે. નિંદ્રા મારી પુત્રી છે, અજ્ઞાન મારો પુત્ર છે, ચંડરાજ લોકનું રાજ્ય આપણા તાબામાં છે. આપણું રાજ્ય અનાદિકાઝથી સંસાર નગરમાં ચાલે છે. સર્વ જીવોને આપણે પોતાના વશમાં રાખી ધર્મ રાજાની મોક્ષ નગરીમાં લેઈ જવા દેવા નહિ. તે તમારી મુખ્ય ફરજ છે. આપણું રાજ્ય ઘટે નહિ તે તમારે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.

મારા સુભટો સાંભલો ! આપણો મોટો શત્રુ ધર્મ રાજા છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર એ ત્રણ એના પુત્ર છે. ધર્મ રાજાનો ઉપયોગ રૂપ પ્રધાન છે, ક્ષાંતિ, આર્જવ, માર્જવ, મુક્તિ, સંયમ, સત્ય, શોચ, આર્કિચન, એ દશ ધર્મ રાજાના અત્યંત બઢવાન સુભટો છે, સમક્ષિત રૂપ ધર્મ રાજાનો પુત્ર એવો તો બઢવાન છે કે જેનાથી આપણો મિથ્યાત્વ સુભટ રણ સંગ્રામમાં ભાગી જાય છે, પંચ મહાવૃત્ત રૂપ જોડાઓ એવા તો બઢવા-

परमात्मदर्शन.

(२७७)

नछे के अविरति नामना आपणा योद्धाने थरथरावेछे. आपणा नगरनो भंग करनार श्री चोवीस तीर्थकरो तथा तेमनाथी उत्पन्न थयेला १साधु २साध्वी ३श्रावक ४श्रावीका रूप चतुर्विध संघ आपणाथी छुटी पडी धर्म राजाना नगरमां जवा उपडयोछे. तीर्थकरना भक्तो, साधु महाराजाओ, आपणा संसार नगरमां रहेनार संसारी जीवोने एवातो उपदेश आपेछे के-ते उपदेश सांभळ्या पछी आपणा नगरमां ते जीवो रहेता नथी, अने संसारने ते स्मशान सरखो गणेछे, आपणी मायाना अने कुटुंब परिवारने बंधन समान गणेछे, मायाना पास त्रोडी वैराग्य रूप बखतर धारण करी संसारनो त्याग करेछे, अनादिकाळथी आ प्रमाणे आपणा नगरमांथी जीवो मोक्ष नगरमां चाल्या जायछे. ते जोइ मने अत्यंत चिंता थायछे. धर्म राजानुं मोक्ष नगर आपणा संसार नगर कर तां नानुंछे ते चौद राज लोकने अंते आवेलुंछे ते नगरमां रहेनारा जीवो अत्यंत सुखी होयछे मोक्ष नगरीमां गयेला जीवोनो आपणाथी कसो भय रहेतो नथी.

मोक्ष नगरमां गया जीवो पाछा आपणा नगरमां आवी शकता नथी आपणुं तेमना उपर कथुं जोर चालतुं नथी. अरे मारी नगरीनी खराब अवस्था थइ गइ ! तमो आटला बधा सुभटो छतां मारी आवी दशा थई, हवे मारे थुं करतुं, कोनी आगळ जइ पोकार करवो:

आ प्रमाणे कर्म राजानां वचनो सांभळी मोह प्रधान आस्वासना आपेछे.

हे कर्म राजा तमो केम चिंता करोओ, कर्म राजाजी तमारुं नगर कदी खाली थइ शकवानुं नथी. अनादिकाळथी तमारी एवी सत्ता बेठेलीछे के प्रायः कोइक जीव मोक्ष नगरीमां जइ शके, आपनो हुं प्रधान तथा अज्ञान नामनो पुत्र, एटली तो संसारी जीवो

(१७८)

कमराजा अने धराजानुं पुत्र.

उपर सत्ता चलावेछे के, विचारा जीवने संसार एज सार मान्श विना छुटको थतो नथी. कर्म राजाजी अमारां दरेकनां पराक्रम नीचे भुजवछे ते सांभळो.

हुं मोह प्रधान अनादि काळथी आपनी कृपाद्रष्टि तळे हाजरळुं. परभावरूपी झाळमां दरेक संसारी जीवोने में फसावी दीधाळे. एकेंद्रिय जीवो उपर पण मारी सत्ता व्यापेली छे, द्वीन्द्रिय जीवो उपर पण मारी सत्ता व्यापेलीछे, त्रीन्द्रिय जीवो उपर पण हुं सत्ता चलावुंळुं चतुरिन्द्रि जीवोपर पण मारा वशमांछे, पंचेंद्री जीवो चार प्रकारनांछे १ देवता २ मनुष्य ३ तीर्थच ४ नारकी ए चार प्रकारना जीवो पण मारा आधीनछे, देवताओ पण देवीओ उपर मोहना पासथी आशक्त रहेछे. आ मारी देवी, आ बीजानी देवी, एवी मोह धशा करावनारळुं. मारी उत्कृष्टि स्थीति मोहनीय, कर्मनी सित्तेर कोडाकोडी सागरोपमनीछे, नानुं बाळक तेनामां पण हुं व्यापिळुं. युवावस्थावाळा जुवान पुरुषोमां तो हुं निर्भय पणे व्याप्त लुं जो मोहना होय तो दरेक मनुष्यो संसारमां सार मानेनहीं, रात्री अने दीवस हुं दरेक जीवोनी साये व्याप्तळुं, मोह मदथी वेला थयेला जीवो जाणी शकता नथो के अमो मोहना पा ममां छपडायाळीए-एवी मारी सत्ताछे जोगी जती, संन्यासी, गोसाइ, अतीत, फकीर विगेरे कहेछेके मोह खराबछे, मोह करना नहि एम बीजाने उपदेश आपेछे तेवा पुरुषोने पण हुं मारी मोह झाळमां फसावी दउंळुं.

फकीर फकीराइ लेइ बेठा होयछे तोपण धन स्त्रीनामां हुं प्रवेश करी तेने लउचावी संसारमां पाडुंळुं राजाओ के जे शूरवीरो कहेवायछे तेने पग स्त्री, धन, पुत्र, राज्य, विगेरेना मोहमां फसावी देउळुं. जे राजाओ सिंह समान शूरा होयछे, अने जे रणसंग्राममां हजारो मनुष्योने कापी नाखेछे, तेवाने पण हुं पुत्र मोहमां फसावी

परमैरमद्वैत.

(२७९)

रोवरारुं. सिंहसमानशूरा राजाओने पण मोहमां फसकाकी स्त्रीओना पने लगाडुं. हजारो सुभटोनां बाण वागतां पण जेनी चक्षुमांधी अभ्रु आव्यां नथी. एवा राजाओनी चक्षुमांधी स्त्रीना मरणथी अभ्रु कडाडुं. जो हुं राजाओमां व्यापी नहि रहूं तो तेओ आ संसार मांजीवनी हिंसा विगेरे केमकुर्म करे?पृथ्वीना लोभथी परस्पर राजाओने हुं लडाडुं, स्त्रीना मोहथी परस्पर राजाओने लडावनार अने दुनीआमां जीवोनो नाश करनार हुं मोह प्रधान हुं. ज्यां मारो संचार होयछे त्यां क्रोधादिक सुभटो पण वास करेछे. मोक्ष नगरीमां जतां अगीयारमा गुणठाणा सुधी मारु प्रबल जोरछे. कोह विरलो जीव माराथी बची जायछे. अरे तमो तीर्थकरना भक्तो साधुओने पूजोके तमो कोनाथी विशेष डरोजो. प्रत्युत्तर मळशे के-मोहथी अमो डरीए छीए. जुओ चकलो, चकली, मोर, पोपट, कबुतर, सिंह, शृंगाल, विगेरे तीर्थच जीवो पण मोहावेशथी केवी स्थिति प्राप्त करेछे.

चकलो, चकली,पोतानां इंडांपर केवो मोहधारण करेछे. मयूर मयुरीनो विरह थतां केवुं आक्रंद करेछे. गौ माहिषी पोतानां वचाने जुभो मोहना आवेशथी केवां चाटेछे: कूनी कुरकुरीयांने पोतानां मानी केवुं हेतधारण करेछे. वळी धनना मोहथी प्राणीओ मरी परभवमां मूषक सर्प विगेरेना अवतार धारण करेछे. पुत्रना मरणथी मातपिताने अत्यंत रूदन करावनार हुं हुं. स्त्रीना मरणथी तेना पतिने शोक करावनार हुं हुं. सत्यनेपण असत्य तरीके देखावनार हुं हुं. मारा वशमां आवेला जीवोने चोराशीलाख जीवायोनिमां भटकावनार हुं हुं. मारा वशमां पतित प्राणीओ हिंस्र करेछे. असत्य वदेछे. चोरी करेछे. परस्त्री सेवन करेछे. इत्यादि सर्व मारी सत्ताथी थायछे.

(३८०)

कर्मराजां अने धर्मराजांनुं बुद्ध.

पृथुराजे स्त्रीना मोहथी जयचंद्र साथे भारे क्लेश कर्यो. पृथुराज उपर शाहबुद्दीन घोरी चढी आव्यो, तेमां अंते मृत्यु पाम्यो कर्णघेलाए स्त्रीना मोहथीराज्य खोयुं, मनुष्य परदेश भ्रमण करेछे. जळमां प्रवेशेछे, इत्यादि सर्व मारुं कार्येछे. अंत जीवोने हुं संसारमां अनादिकाळथी भटकावुं छुं. अने भटकावीश. धर्मराजानो विवेक रूपी थोद्धो पण माराथी बीवेछे. कया जीवमां हुं व्यापीरह्यो नथी.

बीतरागदेवना साधुओने लाग साथी मारा फंदमां फसावी दउछुं. जुओ मारी केवी शक्ति! जीवोने संसारमां सार देखाडी चा रित्र लेवरावतो नथी. सर्व जीवोने संसारमां अनादिकाळथी फेरवुं छुं अने वळी फेरवीश अधर्मी बनावुंछुं. अनेक प्रकारनो वेपो करी जीवोनो हुं माराफंदमां फसावुं छुं. कोइनामां व्यक्तपणेतो कोइनामां अव्यक्तपणे हुं वसुंछुं, सर्व संसारी जीवोनेहुं पूतळांनी माफक नचावुं छुं, मारी घेनमां सर्व जीवो मुंझाणाछे. ज्यां त्यां हुं मोह व्यापी रह्यो छुं मोह घाटीनुं भेदन करवु महा दुष्करछे. एम दरेक महात्माओ पुस्तकमां लखेछे. दरेक जिवनुं: भान भूलावनार अने परस्वभावमां रमण करावनार हुं मोह जीवोमां पेठो के ते बीचारा परवश थइ जायछे मारा आगळ सर्व जीवो कीटक समानछे, मारी शक्तिथी ज्ञानीओ पण गभरायछे, हुं सदाकाल चोराशी लाख जीवयोनिमां रहेला जीवोनी पासे रहुंछुं. महादेव सरखाने पण पार्वतीना मोहमां फसावनार मारा विना बीजा कोण! देशाभिम नथी दुनीयानी प्रजाने परस्पर बैर करावनार मारा विना बीजो कोइ नथी. मोह गर्भित वैराग्यमां पण मारु अस्तित्वछे, मतमतांतर मिथ्यात्वादिनी वृद्धि माराथी थायछे. जुओ मारी शक्ति. !!!

आवां मोह सचिवनां वचन सांभळी कर्मराजाए मोह प्रधानने शाबाशी आपी कहुं के धन्यछे मारा शूरा मोह प्रधान मारे तारा

परमात्मदर्शन.

(२८१)

जेवो बीजो कोइ प्रिय नथी.

हवे कर्मनृपतिनो पुत्र अज्ञान स्वकीय स्वरूप सभा समक्ष कथेछे. अरे हुं मोहराजानो पुत्रछुं. अज्ञान मारुं नामछे, पंडित लोक मारा वैरीछे. चउद राजलोक मारुं स्थानछे. सर्व जीवोने में अंध कर्याछे. ज्ञानावरणीय कर्म करी हुं सर्व जीवोमां वसुंछुं, धर्मराजा तथा मोक्षनगरीनुं भान हुं थवा देतो नथी. सत्यासत्यनुं स्वरूप जीवोने जाणवा देतो नथी, सत्यदेव गुरुधर्मनुं ज्ञान मारी सत्ताथी जीवो करी शकता नथी.

तीर्थकरनां सूत्रो तथा तेमनी आज्ञा प्रमाणे मोक्ष नगरी प्रति-गमन करनार मुनिवरो पण मारा वशमां रहेला जीवोने समजावी शकता नथी. जे समजुछे तेने साधुओ समजावी शके, पण हुं ज्यां वसुं छुं त्यां तेओ गमे तेटलो उपदेश आपे तोपण, उखरभूमां वर्षा-नीपेटे निष्फल जायछे. चारगतिना जीवो मारा वशमांछे. पशुपंखी आदिजीवोनी में केवी अवस्था करीछे; माटे हे कर्मनृपति मारा जेवा पुत्रो छतां आपने चिंता करवी योग्य नथी.

अज्ञान पुत्र आ प्रमाणे कहीने मौन रह्यो, त्यारे कर्मनृपतिनी निंदा नामनी पुत्री सभासमक्ष कहेवा लागी के—

निंदाभाषण.

हे पिताजी ! हुं आपनी निंदा नामनी पुत्री छतां आप केम उदास थाओछो. सर्व जीवोने हुं वश करुंछुं. अदेखाइ नामनी मारी माताए जन्म आप्योछे. सर्व जीवोना गुणोने हुं तेमां पेसतां भस्म करुंछुं. ज्यां माता अदेखाइनो प्रवेश थयो. त्यां हुं त्वरित हाजरी आपी प्रवेश करुंछुं.

श्रुनियो पंडितो के जे अमृत सरखां वचन वदेछे तेना मुख-मांथी खराब वचनोरुही विष्टा कडावुंछुं. जे मनुष्यो परपुरुषना

(२८२)

कर्मराजा भने धर्मराजानुं युद्ध.

गुणनी प्रशंसारूप जळथी पोताना आत्माने पवित्र करेछे. ते पुरुषो मारा वशमां थवाथी परनिंदारूप कर्मकादवथी तेओने मलान करुं छुं. निंदा चतुर्थ चंडालछे एम सर्व लोको जाणेछे छतां निंदा कर्या बिना छूटको थतो नथी.

सामासामी एक बीजानी निंदा करावी परस्पर वैर करावुंछुं, लडावुंछुं, अने नरक निगोदमां जीवोने घसडी लेइ जाउछुं. लोको सर्वना करतां मने विशेष बळवान् गणेछे, कारण के परस्पर एक बीजानी निंदा करवाथी एक बीजानां मस्तकोने पण दडानी माफक मनुष्यो उडावी देछे, माटे हे कर्मराजाजी!!! तमारी पुत्री छतां तमो केम चिंता करोछो.

आवां निंदानां वचन सांभळी अदेखाइ नामनी कर्मराजानी स्त्रीनो पुत्र कुसंप नामनो हतो ते बोलवा लाग्यो के—हे पिताजी मारा जेवो आपणा सुभटो छतां धर्मराजाना सुभटोनुं कंड चालवानुं नथी. चार गतिना जीवोमां हुं व्यापी रह्याछुं, मारा सखुं कोइनुं बळ नथी, वकील वकीलने कुसंप, राजाराजाने कसंप, मुनि मुनिने कुसंप, वेश्या वेश्याने कुसंप, भीखारी भीखारीने कुसंप, वेपारी वेपारीने कुसंप, कूतरा कूतराओने कुसंप. एम सर्व जीवोने मांहोमांहे कुसंप करावनार हुं छुं, हे कर्मराजाजी हुं कुसंप नामनो महायोदो हिंदुस्तानना रहेवाशीओमां पेठो त्यारथी हिंदुस्तानना लोकनी दुर्दशा थइ गइछे.

जयचंद्र अने पृथुराजने लडावी मारनार पण हुंछुं. मुसलमानोए दिल्लीनी गादी लीथी ते पण मारा प्रतापथी. कारण के ज्यारे हिंदुस्तानना राजाओने मांहोमांहे कुसंप थयो त्यारे मुसलमानोए हिंदुनुं राज्य सर कर्युं. मोक्षमार्गमां चालनार साधुओनो पण कसंप करावी कुमार्गे चलावनार हुंछुं ज्यां पेठो कुसंप त्यां

परमारमदर्शन.

(२८३)

जर्रा नहि जंप, ए वचन हुं सत्य करुंछुं. कुसंपथकी मांहोमाहे मनुष्य लढेछे एक बीजानां मस्तक छेदेछे, एक बीजानी निंदा करेछे, क्रोध, मान, माया अने लोभ पण ज्यां हुं कुसंपछुं त्यां वासो करेछे, चोरासी लाख जीवयोनीना जीवोने हुं अनादिकाळथी मारा वशमां राखुंछुं. हाल हिंदुस्तान देशनी नबळी स्थीति करनार पण हुंछुं. ज्यां में प्रवेश कर्यो त्यांथी संप नामनो योद्धो पण पोबारा गणी जायछे, कोइ वखत कोइ देशमां वधारे रहुंछुं अने कोइ वखत कोइ देशमां थांडो रहुंछुं, जीवो विचारा संप करवाने घणी महेनत करे, कोन्करन्स भरेछे, सभाओ स्थापेछे अने बीजाओने कहेछे, के भाइओ संप करो पग माहं मूळ काढवुं घणुं मुश्केलछे, ज्यांथी कुसंप काढवानी तैयारी संप योद्धाओनी होय त्यां तो कुसंप भयरहीत रहेछे. मोटा मोटा मुनिराजो भाषणो आपीने थाक्या पण माहं मूळ कोइ उखेडी शक्युं नहि. वखते मुनिओमां पण हुं लाग जेइने पेसी जाउंछुं अने मुनि मंडळमां पग कुसंपनी सत्ता चलावुंछुं, जे जीवो मारा वशमांछे तेमने काष्टनी पूवळीनी पेठे चारगातेमां नचावुंछुं, मारी अदेखाइ माता विना हुं एकलो रही शकतो नथी.

अमेरिका इंग्लंड बगेरमां कुसंप नथी तो ते लोको सुखीछे पण ज्यारे हुं त्यां पगलां भरीश त्यारे ते लोकोना चार वगाडीश, संपीने जीवो वर्ते ते मने साहं लागतुं नथी. नबळा मनना माणस उपर हुं विशेष सत्ता चल वुंछुं. विशेष थुं. पर्वत उपर, रणमां, अग्नि विगेरेमां हुं जीवोने प्रवेश करावुंछुं. हे कर्मराजाजी मारा जेवो पुत्र छतां आम कंम चिंता करोछो.

आवुं कुसंपनुं वचन सांभळी अदेखाइ नावनी तेनी माता सभा समक्ष भाषग करवा लागी के, हे माता प्रागमिय तपो मारा छतां कंम चिंता करोछो.

(१८४)

कर्मराजा अने धर्मराजाजुं शुद्ध.

अदेखाइ परस्पर कराववी ए मारो धर्मछे. गुणीना गुण देखी माणसो अदेखाइ करेछे. चारगतिना जीवोमां हुं आविर्भावे वा तिरोभावे वसुंछुं.

वेपारी वेपारीने, राजा राजाने, वकील वकीलने, साधु साधुने हुं मांहोमांहे अदेखाइथी कर्मबंध फळ प्राप्त करावुंछुं.

मारा वश थएला जीवो नरक निगोदमां जइ दारुण भोगवेछे इत्यादि अदेखाइना वचन सांभळी कर्मराजा खुशी थयो. तेवामां सभामां विराजमान मिथ्यात्व नामनो कर्मराजानो योद्धो बोली उठयो के, हे कर्मराजाजी मारा छतां आप केम चिंता करोछो. हुं मिथ्यात्व नामनो योद्धो संसारमां प्रख्यातछुं, कर्मबंध जीवोने करावनार मुख्यताए हुं छुं, मारी सत्ता संसारी जीवोपर सारी रीते बेठेलीछे. मारु मुख्य काम ए छे के, भव्य जीवोने शुद्ध देव शुद्ध गुरु अने शुद्ध धर्मनी श्रद्धा थवा देवी नहीं, कोइ विरला माणी तीर्थकरनो कहेलो सत्य मार्ग जाणी शकेछे, जुओ में केटला जीवोनी एवी ता बुद्धि करी नाखी छे के ते विचारा पंच महाभूत स्वरूप जीवछे ते थकी अन्य आत्मा नथी एवं विचारा मानी चार्वा किमतरूप राक्षसना मुखमां प्रवेश करेछे

में केटलाक जीवोने एवा तो फसाव्याछे के- ते पामर जीवो जीव अजीव पुण्य पापने स्वीकारता नथी, मोक्ष मानता नथी. खावुं पीवुं, हरवुं, फरवुं इत्यादि कार्यमां धर्म मानेछे-केटलाक जीवोने एवा तो में फसाव्याछेके-अज्ञानपणामां मुख मानेछे. अने तेओ अज्ञानवादी भ्रभावेछेके-अज्ञानमां सुखछे ज्ञानथी राग द्वेष उत्पन्न थायछे. एम मानी पामर चतुर्गति संसारमां अनंतशः परिभ्रमण करेछे.

वळी में केटलाक जीवोने एवातो फसाव्याछे के- बौध धर्म

परमात्मदर्शन.

(२८५)

स्वीकारी पोताने सुखी मानेछे अने ते पामर प्राणी मारा पासमां थी छूटी शकवाना नथी.

वळी में केटलाक जीवने एवीं रीते फसाव्याछे के ते इशुए षढावेला इशुखीसत धर्मरूप अन्याय कूपमां गाडरीया प्रवाहनी पेठे टपोटप कूदी पडेछे अने त्यां अत्यंत दुःख भोगवता सदा काळ जीवन गुनारेछे. वळी में केटलाक जीवोन एवा तो मुंझाव्याछे के बीचारा धनना, स्त्रीना, पुत्रना लोभमां तत्त्व मानेछे अने ते पोताना आत्मानुं हित साधी शकता नथी. वळी में केटलाक जीवोने एवा तो फसाव्याछे के-सत्य जैनधर्म पाम्यां छतां पण तेमां शंकादिक करी आपगी सत्तामां वर्तेछे. वळी हुं तत्त्व समज्या जीवोने पण मिथ्यात्वमां घेरुंछुं. जेटला संसारमां मतमतांतर उत्पन्न थायछे ते मारी सत्ताथीज थायछे. संसारी सर्व जीवोने हुं मारा वशमां राखुंछुं. माराथी छटकी कोइ वीरपुरुष मुक्तिमां जइ शकेछे. हुं सर्व जीवोमां व्यापीने रह्योछुं. इत्यादि मिथ्यात्व योद्धानां वचन सांभळी कर्मराजा हर्ष पाम्यो. तेवामां अविरतिनामना मोहराजाना योद्धाए भाषण कर्तुं के अरे सभाजनो हुं कोने संसारमां भटकावतो नथी. चोथा गुणठाणा सुधी तो मारु स्वतंत्र राज्यछे देवताओ तथा नारकी जीवो तथा तिर्यंच जीवो प्रायः सर्व मारा वशमां वर्तेछे. मनुष्योमां पण आर्यजनो कोइ मारा झपाटामांथी बची गया इशे. आवुं अविरतिनुं बोलवुं सांभळी कषाय नामनो योद्धो छाती ठोकीने बोळी उठयो के, अरे ज्यां सुधी कषाय एवुं मारुं नाम दुनियामां विद्यमानछे त्यां सुधी कोइनो भय राखवो नहीं, मारुं रहेठाण चौद राजलोकमांछे, हुं कोइ जीवने मुक्तिनगरीमां जवा देतो नथी, सर्व जीवो कषायना वश थइ पोतानुं आत्महित करवुं चुकेछे. सामासामी जीवोने हुं लडावी मारुंछुं एक बीजानां मस्तक

(२८६)

कर्मराजा अने धर्मराजांनुं युद्ध.

कपावुंछुं सामासामी वेर करावुंछुं, माता, पुत्र, स्त्री विगेरनो निकट संबंध करावी आपनार हुंछुं संसारी जीवोने उपरना गुणठाणे चढवा देतो नथी. संसाररूपी वृक्षनुं बीज हुंछुं. हुं अनादिकाळथी संसाग्मां वसुंछुं कोइपण काळेसंसारमांथी मारुं रहेठाण दूर थवानुं नथी. आ प्रमाणे कषाय सुभटनां वचन सांभळी कर्मराजा खुशी थयो. त्यारे योग नामनो सुभट बोल्यो के मारुं पराक्रम कोण नथी जाणतुं. हुं सर्व जीवोने पाप बंधात्री चोराशी लाख जीवयोनिमां भटकावुंछुं हुं सूक्ष्म रीते दरेक जीवोने व्यापीने रहुंछुं हुं आत्मानी परमात्मादशा थतां विखुटो पडुंछुं, माटे हे कर्मराजाजी तमो जरा मात्र पण भय पामशो नहि. इत्यादि सुभटोनुं बोलवुं सांभळी कर्मराजाने जुस्सो चढयो. हिंमत आवी.

सर्व सुभटोने कर्म राजाए हुकम कर्यो के तमो हवे सर्व संसारी जीवोने वशमां राखो के जेथी धर्मराजाना सुभटोनुं कंड पण चाली शके नहि. अने सर्व जीवोमां व्यापी संसारी जीवोने धर्म करतां अटकावो.

आवां कर्मराजानां वचन सांभळी सर्व सुभटो जुस्साभेर पोत पोतानुं कार्य बजाववुं तत्पर थया.

हवे आ वखते धर्म शूं करेछे ते कीचे मुजबः-

धर्मराजा

विवेकसभा, दयामाता, धैर्यपिता, शांतिस्त्री, उपयोगमंत्री, समकितसेनापति, क्षमापुत्री, ब्रह्मचर्यपुत्र, क्षमादिधर्मनृपतिनासुभटो, मुक्तिनगरी.

एकदीवस धर्मराजा विचार करेछे के-अहो हुं सर्व जीवोने मुक्तिनगरीमां क्यारे लेइ जइश. अनादिकाळथी हुं संसारी जीवोने मुक्तिपुरीमां लेइ जाउंछुं. तोपण अद्यापि पर्यंत पार आवतो नथी.

परमात्मदर्शन.

(२८७)

कर्मराजाना सुभटो जीवोने एवातो सपडावेछे के-भाग्ये जावो मारा नगरमां आवी शके-सर्व जीवोमां कर्मराजाना सुभटो व्यापी रखाछे. कर्म सुभटोए संसारी जीवोने एवी रीते अंध कर्याछे के-ते जीवो मुक्तिनगरीमां आववा इच्छा पण करता नथी. अरे हवे केम करवुं. आम धर्मराजा उंडो विचार करी चिंता करेछे.

त्यारे उपयोगमंत्रीए इंगिताकारथी जाणीने पूच्छयुं के-हे प्रभो आज आप मोटी चिंतामां पडया होय तेम देखाओछो. ते चिंता शीछे ते कृपा करीने कहो—

एम उपयोग मंत्रीनी प्रार्थनाथी धर्म नृपतिए सर्व हकीकत कही संभळावी—

त्यारे उपयोग मंत्री बोल्यो के-हे प्रभो मारा छतां आपने चिंता करवी घटे नहि. विवेकसभा भरावी धर्मराजा निस्पृह सिंहासन उपर बिराजमान थया. मुख्य उद्देशथी धर्म राजाए वातचर्ची अने कहुं के-हे सुभटो तमो आळसु थइ केम बेशी रखाओ. कर्म राजाना सुभटो सर्व जीवोने भमावी चारगतिमां परिभ्रमण करावेछे. सत्यमोक्षमार्गनी समजण पडवा देता नथी. तमो मारा खरा सुभटो होय तो कर्मराजानो नाश करी भव्यजीवोने मुक्तिपुरीमां लेइ जाओ. आ मारी सभा समक्ष हितशिक्षाछे. आवां नीतियुक्त मिष्ट वचनामृतनुं श्रवण करी धर्मराजानो अनादिकाळनो उपयोग मंत्री गंभीर बाणीथी सभा समक्ष कहेवा लाग्या के—

हे धर्मनृपति, हुं निरंतर आपनी सेवामां हाजरछुं. ज्यां आप धर्मराजा त्यां हुं उपयोग अवश्य.

आपनो सर्व कारभार हुं करंछुं. माटे कहेवायछे के-उपयोगे धर्म-उपयोगविना आप धर्मनृपति नथी. एम अनुवाद प्रसिद्धछे. हुं आविर्भावे तथा तिरोभावे आपनी साथे सदाकाळ जीवोमां वसुंछुं.

(૧૯૯)

કર્મરાજા અને ધર્મરાજાનું યુદ્ધ.

મારી શક્તિ પ્રગટ થતાં મોહાદિ શત્રુઓ નાશ પામે છે. જીવને ક્ષપક શ્રેણિ ઉપર હું ચઢાવું છું. ક્ષપકશ્રેણિ ચઢતાં કર્મશત્રુનો નાશ થાય છે. મોક્ષપુરીમાં પણ પ્રત્યેક આત્માની સાથે ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપે હું વસું છું. મારાથી દરેક આત્માઓ સ્વપરને જાણી શકે છે મારો નાશ કોઈથી થતો નથી. માટે હે ધર્મરાજાજી આપ જરામાત્ર ચિંતા કરશો નહિ. આવાં ઉપયોગ મંત્રીનાં વચનો સાંભળી ધર્મરાજા खुशी થયો, ત્યારે ધર્મરાજાની માતા દયા સભા સમક્ષ બોલવા લાગી કે—હું જ્યાં સુધી વિદ્યમાન છું. ત્યાં સુધી કોઈનું કંઈ ચાલનાર નથી. હું સર્વ જીવોમાં પ્રથમ વાસ કરું છું. હું જ્યાં છું ત્યાં તારી હયાતી છે. દ્રવ્ય અને ભાવથી મારું બે પ્રકારે વસતું થાય છે. દયા, ધર્મની માતા જગતમાં કહેવાય છે. તું મારો પુત્ર છે હું જ્યાં છું ત્યાં ત્હારી હયાતી કહેવાય છે, મારાથી હિંસા વિગેરે કર્મ રાજાનો પરિવાર દૂર નાશે છે, સર્વ પ્રાણીઓમાં થાડી ઘણી સ્થિતિ કરું છું, અને મોક્ષપુરી જીવો ન પમાડું છું, માટે હે પુત્ર સુલેથી રાજ્યધુરા ધારણ કરો. ઇત્યાદિ દયાના વચનો શ્રવણ કરી ધર્મરાજાના મનમાં ધૈર્ય સ્ફુર્યું. તેવામાં ધૈર્ય પિતા ધર્મ પુત્ર ઉપર સ્નેહદૃષ્ટિ વર્ષાવતાં વચનામૃતનો વરસાદ વરસાવવા લાગ્યો હે ધર્મ પુત્ર ધૈર્યથી તારી ઉત્પત્તિ છતાં તમે કેમ અધીરા બનો છો. કર્મશત્રુઓ સાથે હું હિંમતથી લડી જીવોને ક્ષપકશ્રેણિ પ્રાપ્ત કરાવી આપું છું. હે ધર્મ તારા સુખદોને ધૈર્ય આપું છું અને રણસંગ્રામમાં કર્મનો પરાજય કરું છું, કર્મરાજાની સાથે યુદ્ધ થાય છે, અને તેના નગરમાંથી અનેક જીવોને મુક્તિનગરીમાં લેઈ જઈ જીવે. માટે ધૈર્ય ધારણ કરો. ત્યારબાદ શાંતિ સ્ત્રી પોતાના સ્વામી ધર્મરાજાને નમ્રતાપૂર્વક વિનયથી કહેવા લાગી કે—હે સ્વામિનાથ આપ ચિંતા કેમ કરો છો, મારો હું ધર્મ સદાકાલ બજાવું છું, હું સર્વ જીવોને મોક્ષ નગરી તરફ લેવું છું. સર્વ જીવ કર્મના અધીન થયા છે તો પણ મારી સંગત કરવાં ઇચ્છો. હું તેમને શાંતિ મેળવવા લલ-

परमात्मद्वीज.

(२८९)

चावी कर्म प्रपंचथी दूर रहेवा वारंवार मनोद्वारा कहुंजे जे जीवो संसारनी हवाथी दूर रहेछे अने संसारने बळता अग्नि समान गणेछे ते जीवोमां हुं वास कहुंजे अने ते जीवोने शाश्वतपद प्राप्त करवामां स्थायी बनहुंजे. घणा जीवो मारी स्थायथी मुक्तिनगरीमां गया जायछे अने जशे. माटे आप निश्चित रहो. त्यारबाद सकल धर्म सेनानो उपरी “सम्यक्त्व सेनापति” धर्मराजाजीने नमन करि मधुरवाणीथी सभाजनने आश्चर्य पमाडतो कहेवा लाग्यो के हे धर्मराजाजी आपनी सेनानो हुं उपरीहुं. मारो वास सकळ भव्यात्माओमांछे. मारा विना कर्मना राजा योद्धाओ रणभूमिमांथी पाछा हठता नथी, सकळकर्म सैन्यनोहुं नाश कहुंजे. जे आत्मांमां हुं उत्पन्न थाउंहुं त्यांथी मिथ्यात्व योद्धो नाशी जायछे. पछी भव्यात्मा सरळताए गमन करतो छतो मुक्ति नगरीमां पहोचेछे. मिथ्यात्वनो नाश करवो एज मारुं मुख्य कामछे. जे जीवो मिथ्यात्वना जोरे दुनीया परमेश्वरे बनावीछे, पाछो प्रलयकालमां दुनीयानो नाश थायछे परमेश्वर जीवोने सुख दुःख आपेछे एम मानी चारगतिमां भटकनारा जीवोने सुखदुःख आपेछे ते जीवोनो हुं उद्धार कहुंजे. हुं ते जीवोमां वास करी तेमनी सारी बुद्धि कहुंजे परमेश्वर जगतनो बनावनार नथी, जगत् अनादिकाळथीछे जीवो सर्व परमात्मा सदृशछे, कर्मनायोगे जुदी जुदी गतिमां भमेछे जीवोने कर्म अनादिकाळथी लागुंछे. जीवो अनंतछे अनादिकाळथीछे कर्म नाश थतां जीवनी मुक्ति थायछे. आ प्रमाणे जीवोनी सारी बुद्धि करी मिथ्यात्वनो संग दूर करावी मोक्षनगरीतरफ गमन करावुंहुं. केटलाक जीवो मिथ्यात्व योद्धाना संसर्गे ब्रह्म ब्रह्म स्वीकारी अन्यने माया तरीके कल्पी भवब्रह्मांडमां भटकैछे. तेमने हुं शुद्धश्रद्धा अर्पि आत्महितार्थे आत्मा अने तेने

(૧૧૦)

કર્મરાજા અને ધર્મરાજાનું વુદ.

ઘટકાવનાર કર્મછે એવી શ્રદ્ધા કરાવી કર્મ નાશ કરવા તરફ તે
 જીવોની વૃત્તિ લક્ષુઁ. વઠ્ઠી હું ઇગુ-પરમેશ્વરનો દીકરોછે તેને સેવો
 તે તારજે ઇત્યાદિ ભ્રમવાશમાં ફસાણા જીવોને વિવેકચક્ષુ અર્પિ
 સત્ય મોક્ષમાર્ગ દેખાડી આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરાવી શુદ્ધ
 બુદ્ધિથી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે તેમ યોજુઁ, વઠ્ઠી હું કેટલાક જીવોને
 આત્મા ક્ષણિકછે. ક્ષણમાં ક્ષણમાં જુદો જુદો આત્મા ઉત્પન્ન થાયછે.
 એમ માનનારા જીવોનું મિથ્યાત્વ સંહરી સત્યમતિ અર્પી આત્મા ક્ષણિક
 નથી. આત્મરૂપ વ્યક્તિનો નાશ થતો નથી જ્ઞેયના પલટવે જ્ઞાનનું
 પલટાવવું થાયછે તેથી આત્મામાં થતો ઉત્પાદ વ્યય તેની અપેક્ષાઈ પર્યા-
 યાર્થિક નયમતે આત્મા અનિત્યછે એમ સમ્યક્બોધ જીવને અર્પુઁ અને
 દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાઈ આત્મા નિત્યછે એમ શુદ્ધબોધ સમર્પી ભવ્ય
 જીવોને મુક્તિ નગરી દુઃખાપ્યા પ્રાપ્ત કરાવું. વઠ્ઠી હું કેટલાક જીવો
 દ્વિધશત્ત્વ સુખટનો સંગ પામી પંચભૂત વિના વ્યતિરિક્ત આત્મા નથી
 એમ સ્વીકારીછે તેવા જનોને શુદ્ધ શ્રદ્ધા સદ્ગુરુ સંગે કરાવી આ-
 ત્મા પંચભૂત ધકી ન્યારોછે સુઃખ દુઃખ ભોક્તાછે કર્મનો કર્તાછે એમ
 સમ્યક્ત્વ રત્ન અર્પી મોક્ષ માર્ગ વાહી કરું. વઠ્ઠી જે જીવો નિત્ય
 એકાંત આત્મતત્ત્વ માની આત્માને કર્મબંધ સ્વીકારતા નથી આત્માકર્મનો
 કર્તા નથી અને ભોક્તા નથી ઇત્યાદિ વક્તાઓને પણ અપેક્ષાઈ સત્ય
 સમજાવું કર્મનો કર્તા અને ભોક્તા આત્માછે, આત્મા એકાંત
 નિત્ય નથી એકાંત નિત્ય વસ્તુ આત્મા જો હોય તો પછી નાના વિધ
 જ્ઞરીરમાં વજનનારા જીવો સુખી દુઃખી અવસ્થાવાળા દેખાયછે તે કેમ
 બની શકે, માટે આત્મા એકાંત નિત્ય નથી, જો એકાંત નિત્ય આત્મા
 માનીઈ તો પછી ત્રિર્ષમુંડન વ્રતારોપ વિગેરે પણ શા કારણથી
 કરવું જોઈઈ. માટે આત્મા સ્વવ્યક્તિથી નિત્યછે અને

परमात्मदर्शन

(२९१)

पर्यायना पलटवै करी अनित्यछे नित्य अने अनित्य एवै धर्मवाळो आत्माछे. तेने कर्म लागेछे कर्मपण मिथ्यात्व अविरति कषाययांगे करी लागेछे ए कर्मनो नाश यतां आत्मा परमात्मपद प्राप्त करेछे ए आदि शुद्धज्ञान अर्षी साध्य-मुक्तिपदार्थे जीवोने मेरुं. अने स्वस्वरूपने प्राप्त करारुं केटकाक जीवो स्त्री पुत्र धन आदिथी पोताने सुखी मानेछे ते जीवोनी दृश्य क्षणिक पदार्थोमांथी सुखनी बुद्धि दूर करी अदृश्य आत्मतत्त्वमांज सुखछे एम शुद्धबोध देइ आ क्षणिक पदार्थोमां मिथ्या भ्रम यतो दूर करारुं अने काम क्रोध लोभ भय हास्य शोक विगेरेथी जीवोने पृथक् करी स्वस्वरूपे निष्ठा करारुं.

अहितमां हितबुद्धि अने हितमां अहित बुद्धिरूप जे मिथ्याज्ञान तेनो हुं नाश करुं दरेक जीवोने हुं सम्यक्ज्ञान अर्पुं एम अनंता जीवोनुं भूतकाळे मुक्ति प्रति लक्ष दोरुं अने वर्तमानकाळे लक्ष दोरुं अने भविष्यकाळे दोरीश हुं दरेक जीवव्यक्तिमां वसुं मिथ्यात्व सैन्य मारार्थी नाशभाग करेछे. जेम सूर्यनो उदय यतां अंधकारनो नाश थाछे अने ते अंधकार कयां गयो ! तेनी जेम मालूम पडती नथी तेव सूर्यसम मारा प्रकाशार्थी मिथ्यात्व भागी जायछे हुं भव्य जीवोमां सदा वसुं. सम्पत्त्व विना कोई माणस मुक्ति पामी शकतो नथी कर्मराजानुं सैन्य मारार्थी दूर नासेछे माटे हे धर्मराजाजी ! तमो सुखेथी निश्चित रहो आ प्रमाणे सम्पत्त्व सेनापति बद्या बाद धर्मराजानी क्षमा नामनी पुत्री सविनय पिताजीने नमन करी मधुर भाषाए कहेवा लागी के-हे धर्मपिताजी हुं एक आपनी नानी पुत्रीहुं आपनी पवित्रसेवा हुं दरेक आत्माओमां स्थिति करती बजारुं. हुं अनारिकाळथी भव्य जीवोमां वसुं हुं

(૨૧૨)

કર્મરાજા અને ધર્મરાજાનું યુદ્ધ.

બ્યવહારે કરી દ્રવ્યક્ષમા ભાવિક્ષમા ઉપકારક્ષમા અપકારક્ષમા इत्यादि
 રૂપાંતરે કરી ઓઢલાઉછું. તીર્થંકર મહારાજાએ મુક્તિમાર્ગ પ્રરૂપ્યો
 તેમાં મને યતિના ગુણોમાં મુખ્ય કરી સ્થાપીછે પુહ્લિંગતાથી ઓઢ-
 સ્વાતો ક્રોધ નામનો સુખટ મારાથી નાશ પામેછે. અનેક કર્મના યો-
 દ્ધાઓ મારાથી સમૂલા નાશ પામેછે. જે જીવોમાં મારો વાસ છે, ત્યાં
 ક્રોધ અહંકાર અદેસ્વાઈ હિંસા વિગેરેનું જોર ચાલતુ નથી. દુનીયા-
 માં હું સત્પુરુષોમાં વાસ કરુંછું. અને મારાથી દરેક જીવો પ્રતિષ્ઠા
 પામી કર્મદલ હળી ક્ષપકશ્રેણિ પ્રાપ્ત કરી સમ્યક્ત્વ સેનાપતિદ્વારા
 મુક્તિપુરીમાં સુખે પહોંચેછે. મુક્તિનગરીમાં જવાની ઇચ્છાવાઢા પહેલાં
 મારું સેવન કરેછે અપરાધી જીવોપર ગુસ્સે થતા નથી અને તેમના
 અપરાધો માફ જીવો કરેછે તે પળ મારા પ્રસાદથીજ સમજવું. ક્ષમા
 થકી જીવો શાન્તિને પામેછે ક્રોધનો નાશ થાયછે દરેક જીવો
 ઉપર દયાના આર્દ્રભાવ થાયછે. પરસ્પર જીવોના વૈર વિરોધને હું
 ઢાલુંછું. દરેક મનુષ્યનું પ્રસન્નમુખ રાખુંછું. અને મુક્તિનગરીમાં જવા
 માટે મારાથી બને તેટલું અવશ્ય કરુંછું. મારી સ્હાયથી અનંતા જીવો
 મુક્તિ ગયા, જાયછે અને જશે. માટે હે પિતાજી ! તમો હર્ષાઓ
 અને શોક ત્યાગો. આ પ્રમાણે ક્ષમા પુત્રી બોલીને તુળ્ણીભાવને પામી
 વાદ જ્ઞાન નામનો મહાવલવાન રાજ્યધુરાવાહી યથાયોગ્ય વિનયપૂ-
 ર્વક પિતાજીને નમન કરી હર્ષચિત્તે પ્રસન્નવદને ગંભીર વાણીથી
 સભાને ચમત્કૃતિ પમાડતો બોલવા લાગ્યો કે-હે પિતાજી ! અને હે
 સભાજનો ! હું ધર્મરાજાનો પુત્ર છું એમ આ વાઢગોપાઢ સર્વ જગત્ત્નિ-
 વાસીઓ જાણેછે. મારું વઢ કેટલુંછે તે કંઈ વિશેષ સ્વમુખે કહેવાથી
 શું ? તોપણ હું સ્વપરજો કેવી રીતે અદા કરુંછું તે સભા સમક્ષ
 નિવેદન કરુંછું, હું દરેક જીવોમાં આવિર્ભાવે કરી વાં તિરોંભાવે

परमात्मदर्शन.

(२९३)

करी स्थिति करुंछुं. हुं अनादिकाळथी आत्मव्यक्तिओमां बसुंछुं, ज्ञानावरणीय कर्मना घणा जोरथी पण नरकनिगोद तिर्यंचादि भवोमां हुं समूळ नाश पामी शकतो नथी. तेम हुं पण जेमां सदाकाळ रहुंछुं. एवुं आत्म व्यक्तिरूपस्थान असंख्य प्रदेशी कदापि नाश पामी शकतुं नथी. तेम आप पण आत्मस्थानमांथी नाश पामता नथी. काळ लब्धियोगे हुं ज्ञानावरणीयादि कर्मने हडावतो मारुं शुद्ध स्वरूप तथा आत्मानुं शुद्ध स्वरूप समजी कर्मनो नाश करुंछुं. आकाशस्थित सूर्यप्रकाशथी प्रत्येक वस्तुओ स्पष्टपणे भासे छे. तेम मारी शक्तिथी लोकालोक स्पष्टपणे भासेछे. हुं प्रत्येक वस्तुओनुं यथातथा स्वरूप जाणुंछुं अने मारी सत्ता थया बाद कर्मना सुभटोनो समूळथी नाश करुंछुं. कर्म आठ प्रकारनांछे. १ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयुष्य, ६ नामकर्म, ७ गोत्रकर्म, ८ अनरायकर्म. ए पूर्वोक्त कर्म रागादिक योगे आत्मा आकर्षेछे. कर्म जडछे, चतुर्गति आमककर्म छे. जगत्मां आत्माओ अनंताछे प्रत्येक आत्मामां अनंति शक्ति रहीछे, शाश्वत, अज, अमर, निर्लेप, निस्संग आत्मस्वरूपछे.

जीव तथा अजीव तत्त्वने हुं जाणी शकु छुं. हुं व्यवहारे करी मतिज्ञान २ श्रुतज्ञान ३ अवधिज्ञान ४ मनःपर्यवज्ञान ५ केवलज्ञान आदि रूपांतरो पामुं छुं. मारु शुद्ध स्वरूपतो केवलज्ञान रूपछे. लोकालोकनुं स्वरूप पण हुं जाणुंछुं. कर्मनो नाश पण हुं करुं छुं. स्याद्राद धर्म आत्मामां रहेलोछे तेपण माराथी जगाय छे. मिथ्यात्व ते पण हुं जाणी तेनो त्याग करी आत्माने कर्म थकी छोडावुं छुं. मिथ्यात्व, अविरति, कगाय, अने योग पण मारी प्रबळ सत्ताथी नासेछे इच्छा, मोह, माया, क्राम, क्रोध, लोभ, पण मारा ती नाश

(२९४)

कर्मराजा अने धर्मराजानुं युद्ध

पामेछे हुं पोतानो पण पोतानी मेळे प्रकाश करुं माटे लोको स्पर्शनी उपमा मने आपेछे, कर्म रिपु सकळ सैन्यनो हुं कल्पांत काल वायुनी पेठे क्षणमां नाश करुं. में अनंता जीवोने मुक्ति नगरी प्राप्त करावी, करावुंछु, ने करावीश, माटे हे पिताजी ! मारा वेठा आप चिंता करो ते अनुचितछे, आ प्रमाणे ज्ञानपुत्रे भाषण कर्तुं. त्यारबाद ब्रह्मचर्यनामनो धर्मराजानो पुत्र महा पराक्रमी प्रख्याति पामेळ सविनय पिताजीने नमन करी गंभीर वाणीयी बोल्यो के आ दुनियामां—ब्रह्मचर्य नामे करी हुं प्रसिद्धताने पाम्यो छुं.

परस्पर मैथुन संबंघनो हुं त्यांग करावुंछुं. हुं अनादिकाळयी जीवोमां वास करुंछुं ज्यां मारो विरति नामनो नेता वसेछे तेनी साये हुं पण वसुंछुं. ज्ञान तथा वैराग्य मित्र मने साहाय्य आपेछे. नवविध ब्रह्मचर्य गुप्ति धारक जीवो कामनो पडकपां पराजय करे छे. मारा वासथी प्रत्येक मनुष्योना शरीरनी आरोग्यता वृद्धि पामेछे, धर्म कृत्यमां धैर्यता प्रेरक हुंछुं. सर्व व्रतोमां समुद्रनी उपमाने हुं धारण करुंछुं. मारा वासथी मनुष्यो वचन सिद्धि कीर्तिमान् अष्ट सिद्धि आदि प्राप्त करेछे. मोहादि शत्रुओ पराङ्मुख थायछे. आसन्न भव्य जीवोमां हं विशेषतः वास करुंछुं, मारु अवलंबन करी अनंत जीवो मुक्ति गया जायछे. अने जशे, माटे हे पिताजी ! आप चिंतात्यागी धैर्य धारण करो अने सर्व सुभटोने धैर्य आपो.

आम ब्रह्मचर्यना कथन पश्चात् संवरसंज्ञक महारथि योध शौर्य वाणीयी सभा समक्ष बोल्यो के—हे धर्म राजाजी ! हुं सत्तावन रूप करी कर्मारिनो समूलतः नाश करुंछुं जे छिद्र द्वारा कर्म सैन्य जीवोमां प्रवेशेछे ते छिद्रोनो हुं रोध करुंछुं. तेथी कर्म सैन्यनुं कां

परमात्मदुर्लभ.

(३९५)

चालतुं नथी, मन वचन अने कायाना व्यापारो जे अशुद्ध परिण-
तिमां परिणम्याछे तेनो हुं नाश करुं.

मारी हयातीमां पाप अने पुण्य आत्माने लागी शकतां नथी.
कर्मनो पराजय करी क्षपक श्रेणि उपर चढावी त्रयोदशम गुणस्थ
नक प्राप्त करावी मुक्ति नगरमां प्रवेश करावुंछुं मारो वास पंचेद्विष
गर्भज मनुष्योमां विशेषतः आविर्भावेछे. क्रोध, मान, माया, लोभ,
अने हास्यषट्कनो त्वरित नाश करुंछुं. आर्तध्यान अने रौद्रध्यान
रूप योद्धाओनो हुं क्षणमां नाश करुंछुं. कृष्ण लेश्या, कापोत लेश्या,
नील लेश्या, विगेरेनो समूलतः नाश करुंछुं, आत्मानो हुं शुद्ध स्व-
भाव अर्पुंछुं, कर्म रहीत करी जीवोने शिवस्थान प्रति मोहलवानुं
हुं कार्य बजावुंछुं, मारा अवलंबनथी अनंतजीवो मुक्तिपद पाम्या अने
पामये, पण अभय जीवोने हुं मुक्तिपद पमाडी शकतो नथी. निरु-
पाधिमय मारो स्वभावछे, माराथी कर्मशत्रु धरधर धुजेछे. ज्यां मारो
प्रवेश त्यां उपशम विवेक विनय शांति विगेरेनो प्रचार थायछे, इ-
त्यादि वाणी बदी संवरयोद्धो तुष्णीभाव पाम्यो त्यारे निर्जरानामने
महायोद्धो विनयपूर्वक धर्मराजाने नमन करी बोल्या के-हे धर्मरा-
जाजी ! आप सेवकनी वाणी प्रसन्नचित्तथी सांभळो. हुं आपनो योद्धोछुं

हुं आपनुं कार्य सदाकाल बजावुंछुं, बाह्य अने आभ्यंतर एबे रूपां-
तरने हुं पाभुंछुं अनंतकर्मनो नाश हुं क्षणमां करुंछुं. निकाचित कर्म
पण माराथी क्षय पामेछे आत्माओमां मारुं रहेवानुं स्थानछे. काष्टस-
मूहने जेम अग्नि बाळी भस्म करेछे तेम कर्मरूप काष्ठसमूहने पण
हुं बाळी भस्म करुंछुं. तदभव मुक्ति पामनार तीर्थकरो पण मारो
आश्रय करी कर्म नाश करे छे. नरसुरपट्टीओनां सुख पण मारा आलं-
बनथी पमायछे, माराथी मनुष्यो अष्टसिद्धि अने नवनिधि प्राप्त करेछे.

(१६६)

कर्मराजा अने धर्मराजानुं युद्ध.

पण याद राखवुं के जे जीवो मने सेवेछे. तेओनां क्रोध, छिद्र, देख्या करेछे. अकाम अने सकाम ए वे भेदे मारु प्रवर्तनछे. चार इत्या-कारक जीवोनो पण माराथी उद्धार थायछे. अनंताजीवो कर्म क्षपावी मुक्तिपद पाम्या अने पामशे तेमां मारो प्रभाव जाणवो. माटे हे धर्म-राजाजी ! आप स्वस्थ थाओ. आपणुं सैन्य एवुंतो बळवान् छे के त्यां कर्मराजानुं कांइ चालवानुं नथी.

आ प्रमाणे धर्मराजाना सुभटोए पोतपोतानुं पराक्रम वर्णव्युं. त्यारे धर्मराजा अत्यंत हर्षायमान थयो अने मनपां समज्यो के मारु सैन्य प्रबलछे.

आ प्रमाणे अत्र धर्मनृपनी सभामां वृत्तांत चालेछे त्यारे कर्म-राजानी सभामां ते प्रमाणे धामधूम चाली रहीछे. मिथ्या चेतना नामनी कर्म राजानी दासीए कर्मने धर्मनी सभामां बनेली सर्व ह-कीकत कही. त्यारे सम्यक् चेतना दासी धर्मनी अग्रे कर्म नृप सभा-मां बनेली सर्व हकीकत कही. परस्पर युद्ध कार्यनी सर्व सामग्रीओ तैयार थवा लागी. धर्मनृपे पोताना सुभटोने कहुंके-मारा प्रिय सुभ-टो ! तमो शत्रु सैन्यनो पराजय करो, मारुनाम अमर राखशो, बळीत-मारा जेवा शूरा सुभटोनुं पराक्रम रण संग्राममां मालुम पडशे. माटे चतुराइथी युद्ध करवुं.

ते प्रमाणे कर्म राजाए पण सर्व सुभटोने वीर रसनां वाक्यो कथी शूर चढाव्युं. सुभटो पण परस्पर पराक्रम बताववा आतुर थइ रखा-परस्पर युद्ध चाल्युं तेमां श्रद्धा रूपी सुभटे मिथ्यात्व रूपी योद्धाने हराव्यो. समकित रेनापतिए मोह प्रधाननी शक्तिनो नाश कर्यो, क्षमा पुत्रीए क्रोधनो नाश कर्यो, जीव चोथा गुणठाणा आदि गुणस्थानक चढवा लाग्यो. विरतिए अविरतिनी शक्ति नाश करी.

परमात्मदर्शन.

(२९७)

ज्ञाने अज्ञाननो नाश कर्यो. दयाए हिंसानो नाश कर्यो, शान्तिथी तृष्णा नाश पामी. कर्म राजानुं सैन्य नाश पामतुं पाळुं हठवा लाग्युं. ब्रह्मचर्य पुत्रे अब्रह्मचर्यनो सर्वथा नाश कर्यो—परगुण प्रशंसाए निर्दानो नाश कर्यो. ज्ञाने कषायनो पण स्थिर परिणामने साहाय्य आपी नाश कराव्यो. धर्म ध्यान रूप योद्धाए आर्तध्यान अने रौद्र ध्याननो नाश कर्यो. संतोषे तृष्णानो नाश कर्यो, क्षायिक समकित पामी जीव स्वस्वभाव शक्ति पामी आत्म रूप प्रकाशवा लाग्यो. हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगंछा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, वेद रूप कर्म सैन्यनो नाश अप्रमाद तथा ध्यान योद्धाए कर्यो. पंच प्रकारनी निद्रानो तथा चक्षु दर्शनावरणी आदिचारनो तथा ज्ञाना वरणोय कर्मनो तथा अंतरायनो नाश उपयोग मंत्रीनी साहाय्यथी शुद्ध्याने कर्यो. आत्मा तेरमे गुणठाणे जइ अनंत चतुष्टयथी शोभवा लाग्यो. अंते अघाती कर्मनी प्रकृतिनो पण नाश करी मुक्ति पुरीमां गयो. एम धर्म राजानो जय जयकार थयो अने कर्म राजानुं सैन्य नाश पाम्युं. आत्मा परमात्म दशा पामी निर्भय थयो. अनंत जीवो एम कर्मनो नाश करी मुक्तिमां गया अने अनागत काले अनंत जीव मुक्तिमां जशे. कर्मनो नाश उपयोग दशाए अनंता जीवो करेछे अने करशे. जीव कर्मनो नाश करतो क्षायिक भावनी नवलब्धियो पामेछे.

क्षायिक भावनी नव लब्धियोनां नाम.

१ क्षायिकसमकित, २ क्षायिकचारित्र, ३ अनंतज्ञान, ४ अनंत दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग अने वीर्य ए रीते नवलब्धियोनी प्राप्ति गुणठाणानी हद्द प्रमाणेछे.

हवे संबंध दर्शावतां कथायछे के—उद्यमथी कर्मनो क्षय थायछे. उपशमभाव क्षयोपशमभाव अने क्षायिकभावनी प्राप्ति पण उद्यमथी

(૨૬૮)

અધ્યમ.

થાયછે. શાસ્ત્રાભ્યાસનો ઉદ્યમ કરતાં પંચમકારે સ્વાધ્યાય કરતાં જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો ક્ષયોપશમ થાયછે. તેમ પ્રત્યેક ઘાતીકર્મનો નાશ ઉદ્યમથીછે. ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનરૂપ ઉદ્યમથી જ્ઞાનીઓ કૃત્સ્ન કર્મનો ક્ષય કરેછે. ચારિત્રનો રૂપ કરતાં ચારિત્ર મોહનીયનો પણ નાશ થાયછે. માટે પંચમકાલમાં પણ ભવ્યજીવો પુરુષાર્થ કરવો. પુરુષાર્થના પણ અનેક ભેદછે. માટે સત્યપુરુષાર્થ ગ્રહવો જોઈએ. સમકિતની પ્રાપ્તિ વિના સવલ્લી પરિણતિ થતી નથી. અને સમકિત વિના પુરુષાર્થ નિષ્ફલ જાણવો. સમકિત મોક્ષનગરનું દ્વારછે. સમકિતવિના કોઈ જીવ મોક્ષમાં ગયો નથી. અને જવાનો નથી. સમકિત વિના જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ પણ અજ્ઞાન તરીકે છે-સ્વાયછે. ઘટલે મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ મતિ અજ્ઞાન તરીકે ગણાયછે. શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ શ્રુતઅજ્ઞાન તરીકે છેસ્વાયછે. અને અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ વિભંગ જ્ઞાન તરીકે ગણાયછે. અને ઝ્યારે સમકિતની પ્રાપ્તિ થાયછે ત્યારે તેનો ક્ષયોપશમ સવલ્લો પરિણમેછે. અને તે મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અવધિ જ્ઞાન તરીકે ગણાયછે. સમકિત વિના અભવ્ય જીવ મુક્તિ પામતો નથી. બાહ્ય ચારિત્ર પાલોને અભવ્ય જીવ નવગ્રૈવેયક પર્યંત જાયછે કિંતુ સમકિતવિના ભાવચારિત્ર પામી શકતો નથી અને તેથી તે ચતુર્ગતિમાં પુનઃ પુનઃ પરિભ્રમણ કરેછે, સમકિતનો મહિમા અપૂર્વછે, પંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વનો નાશ થવાથી સમકિતની ઉત્પત્તિ થાયછે. પંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વનો નાશ જિનાગમ સાંબલ્લવાથી થાયછે, સદ્-ગુરૂની શ્રદ્ધા ભક્તિથી ઉપદેશ શ્રવણ કરતાં મિથ્યાત્વ નાશ પામેછે, સમકિતની પ્રાપ્તિ માટે આગલ ષટ્સ્થાનક કહેવામાં આવશે. સમકિતના પંચપ્રકારછે.

૧. ઉદ્ગમ સમકિત, ૨. ક્ષયોપશમસમકિત, ૩. ક્ષાયિકસમકિત,

परमात्मदर्शन.

(२९९)

४ वेदसमकित, ५ सास्वादनसमकित, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया अने लोभ तेमज समकित मोहनीय मिश्र मोहनीय, मिध्यात्व, मोहनीय ए सात प्रकृति सर्वथा क्षय यतां क्षायिक समकितनी प्राप्ति थायछे.

श्री जिन वचनज तत्त्वरूपछे बीतराग होवाथी एम सामान्य रुचिवाळा जीव ने द्रव्य सम्यक्त्व पणुं स्फुट थायछे. अने नय निक्षेप प्रमाणना विचारथी तत्त्व श्रद्धावाळा जीवने भाव सम्यक्त्व पणुं स्फुट थायछे अहिं द्रव्य शब्दार्थ कारणता अने भाव शब्दार्थ कार्यता रूप जाणवो एम श्री हरिभद्रस्वरि कहेछे.

श्री उत्तराध्ययन सूत्रानुसारे दशविध सम्यक्त्व कहेछे.

- १ सत्य अर्थनी साये संमतिवडे जीवाजीवादि नव पदार्थ संबंधी जे रुचि ते निसर्ग रुचि जाणवी.
 - २ परोपदेशवडे प्रयुक्त जीवाजीवादि पदार्थ विषयनी जे श्रद्धा ते उपदेशरुचि कहेवायछे.
 - ३ रागद्वेष रहित एवा पुरुषने आज्ञा वडे धर्मानुष्ठानमां रुचि थाय तेने आज्ञारुचि समकित कहेवायछे.
 - ४ सूत्रना अध्ययन तथा अभ्यासथी उत्पन्न थएला विशेष ज्ञान वडे जीवाजीवादि पदार्थना विषयमां रुचि थाय तेने सूत्र रुचि समकित कहेछे.
- सूत्र रुचि उपर गोविंदाचार्यनुं दष्टांत जाणनुं.
- ५ एकपद वडे अनेकपदतथा तेना अर्थना अनुसंधान द्वारा जलमां तेलना बिंदुनी जेम रुचि प्रसरि जाय तेबीजरुचि सम्यक्त्व कहेवायछे.
 - ६ जेने सर्व सूत्रना अर्थनुं ज्ञान उत्पन्न थाय ते अभिगम रुचि सम्यक्त्व कहेवायछे. त्यारे अत्र शंका भशे के अभिगम रुचि

(૩૦૦)

સમ્યક્ત્વરુચિ.

અને સૂત્રમાં શોફેર-પ્રત્યુત્તરમાં સમજવાનું, કે-આ અભિગમ રુચિ અર્થ સહિત સૂત્રના વિષયમાં આવેછે. અને તે સૂત્રરુચિ કેવલ સૂત્રના વિષયમાંજ આવેછે એટલો તે બંનેમાં ભેદછે. કેવલ સૂત્ર મૂલ કથાયછે.

૭. સર્વ પ્રમાણ તથા સર્વ નયથી ઉત્પન્ન થઈ સર્વ દ્રવ્ય અને સર્વ ભાવના વિષયની રુચિને વિસ્તાર રુચિ સમ્યક્ત્વ કહેવાયછે તેથી વિશેષ લાભ પ્રાપ્તિ થાયછે.
૮. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વિનય વૈયાટ્ય આદિના આચરણ સંબંધી રુચિ તે ક્રિયારુચિ કહેવાયછે.
૯. જેણે કુદૃષ્ટિનો અભિગ્રહ કર્યો ના હોય અને જે પ્રવચનમાં પ્રવીણ ન હોય તેવા પુરુષને માત્ર નિર્વાણ પદ સંબંધી રુચિ તે સંક્ષેપ રુચિ જાણવી જેમ ઉપશમ સંવર અને વિવેક આ ત્રણ પદની રુચિ ચિલાતી પુત્રને થઈ હતી તેમ સમજવું.
૧૦. ધર્મપદ શ્રવણથી ઉત્પન્ન થઈ જે ધર્મપદવાચ્ય સંબંધી રુચિ તે ધર્મરુચિ કહેવાયછે.

સમાકિતરત્નની પ્રાપ્તિ દુર્લભછે-સમાકિત પામ્યા પશ્ચાત્ સંસાર સમુદ્ર ચુલુક પ્રમાણ સમજવો. આ સંસારચક્રમાં અનંતશઃ પરિભ્રમણ કરી અનંતવાર અનંતદુઃખ પામ્યો. અનેક દેહો ધારણ કર્યા. પ્રત્યેક ભવમાં અનેક દુઃખ ભોગવ્યાં. જન્મ જરા મરણાદિ દુઃખોનો ભોક્તા ઘણીવાર થયો. પળ પાર આવ્યો નહિ. જીવ પુનઃ પુનઃ પરસ્વભાવમાં રમણ કરી કર્મ ગ્રહેછે. આત્મસ્વભાવમાં રમણ કરવાથી કર્મ નાશ પામેછે. કમ્પપયડી આદિ ગ્રંથોમાંથી વિશેષ સ્વરૂપ જ્ઞાણવું. કર્મનો નાશ કરી મોક્ષનગરમાં જવાની ઇચ્છા હોય તો અનુભવ જ્ઞાનનો સ્વપ કરો. મતિશ્રુત જ્ઞાનનું ઉત્તર ભાવી અને કેવલજ્ઞાનનું પૂર્વભાવી અનુભવજ્ઞાન છે. દૃષ્ટાંત જેમ સૂર્ય કેવલજ્ઞાન છે

अने सूर्योदय यतां प्राक् जे अरुणोदयछे ते दृष्टान्ते अनुभवज्ञान जाणवुं. अनुभवज्ञान साक्षात् परमात्मपदनी प्राप्ति करावेछे. भव्य-जीवो अनुभवज्ञानथी जाणेछे. अनुभवज्ञान साक्षात् सूर्य समानछे. शास्त्रोनुं अध्ययन करतां, ध्यान करतां अनुभवज्ञाननी प्राप्ति थाय छे. अनुभवज्ञानीओ उपयोग पोताना आत्माना असंख्यात प्रदेशे स्थापी पुद्गलवस्तुमां उघेछे. मारो शुद्ध आत्मस्वभाव तेज मारुं धनछे. बाकी आ बाह्य देखातुं धन मारु नथी. एम भिन्नता पाडी शुद्ध गुणमां परिणमेछे. अनुभवज्ञानी सिद्धांतनो साररूप मकरंद पीवेछे. अनुभवज्ञानी समता भुवनमां सदा सुखमां म्हालेछे. अरूपी आत्माने दृष्टिगोचर करवानुं स्थान अनुभवज्ञानछे. माटे सम्यग् ज्ञानना अर्थी जीवोए पुनः पुनः सत्शास्त्र अने सदगुरूनो परिचय करी अंतर्दृष्टि करी बाह्यदृष्टिनो त्याग करवो.

कहुं छे के—

बाह्यदृष्टिए गुणठाणे चडवुं, ते तो जडना भांमा;
संयमश्रेणि शिखरे चढावे, अंतरंग परिणामारे. लोका भो-
ळवीया मत भूलो. ?

ए उपरथी सार लेवानो के—बाह्यदृष्टि नाम बहिरात्मदर्शनी गुणस्थानके चडवुं एम तो जडजीवोनी भ्रमणाछे, अंतरंग परिणामरूप अंतर्दृष्टि संयमश्रेणिना शिखरे चढावेछे. माटे भव्य लोको भोळवीया तमे भूलो नहीं सत्य तस्वमां रक्षण करो. अने ध्याननी इच्छा करो. आत्मगुणनी विचारणा करो. आत्माना स्वभावमां ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्यादि अनंतगुणछे, वळी गुण गुण प्रति भिन्न भिन्न स्वभाव आत्मांमां रहाछे, ज्ञाननो जाणवारूप स्वभाव, दर्शननो देखवारूप स्वभाव, चारित्रनो स्थिरतारूप अने वीर्यनो स्फुरणा शक्तिरूप स्वभाव एम अनंतगुणो आत्मांमां तिरोभाव रखाछे. पण

(૩૦૧)

સ્થિતિ.

શક્તિભાવથી આત્માનું કાર્ય સરે નહિ. જેમ અરણિ કાષ્ટમાં શક્તિ-
ભાવે રહીએ પણ અરણિના કાષ્ટને કાથ ખીટવાથી ટાઢ નાશ પામે નહિ
તે દુર્ઘાતના અનુસારે શક્તિભાવે રહેલો આત્માનો ધર્મ જ્ઞાનથી જા-
ણી વીર્યથી પ્રગટ કરીએ તો ચતુર્ગતિનાં અનંતશઃ જન્મ જરા મરણ
ટલી જાય. આત્માના ગુણ પર્યાયનું વ્યક્તિરૂપે પ્રગટવું તેજ સ્વભાવ
લાભ જાણવો.

પ્રશ્ન—ઘાતીકર્મનો નાશ શાવડે ત્વરિત થાય.

ઉત્તર—જ્ઞાન અને ધ્યાનથી પ્રમાદના ત્યાગપૂર્વક આત્મોપયોગે
સ્થિરતાથી કર્મનો નાશ થાયએ. પર્વતની ગુફામાં નિવિઢ
અંધકાર હોયએ તેનો નાશ દીપકથી થાયએ તેમ અજ્ઞાન તથા
કર્મનો નાશ પણ આત્મજ્ઞાનથી થાયએ. મોટી તૃણની ગંજી
પણ અગ્નિના સ્વલ્પ કળીયાથી નાશ ક્ષણમાં પામેએ તેમ અનંત
ભવોપાર્જિત ઘાતીકર્મનો નાશ પણ આત્મજ્ઞાનથી સ્વલ્પકાલમાં
થાયએ. શ્રીપાલના રાસમાં દેશનાની ઢાલમાં કણું છે કે—

શ્રીઃયશો વિજય ઉપાધ્યાય.

ક્ષણ અર્ધે જે અઘટલે, તેન ટલે ભવની કોડીરે,
તપશ્યા કરતાં અતિઘણી, નહીં જ્ઞાન તળીએ જોડીરે.

જ્ઞાની પુરુષ અર્ધક્ષણમાં જે પાપનો નાશ કરેએ તે કોટી ભવ
પર્યંત કઠીન વિચિત્ર છઠ અઠમ માસ બે માસ વિગેરેની તપશ્ચર્યા ક-
રતાં ટલે નહીં. માટે જ્ઞાનની કોઈ જોડી ઇટલે તે સમાન કોઈ નથી
માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ
સર્વ કર્મને બાલી ભસ્મ કરેએ. ષટ્દ્રવ્ય સાત નય તથા નિક્ષેપ દ્રવ્યા-
દિકના જ્ઞાનથી સ્વપર વિભાગ થાયએ અને પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ
કરેએ અર્થાત્ અસંહ્ય પ્રદેશરૂપ જે ઘર તેમાં આત્માઉપયોગપણે
પરિણમી અશુદ્ધતાનો પરિહાર કરેએ, પોતાના ઘરમાં આવતાં આ-

परमात्मदर्शन.

(३०३)

त्पाए अनुभवदृष्टिथी सर्व सिद्धि जोइ त्यारे विचार्यु के-अहो भे अमंत भवचक्र काल अज्ञान रूप निद्रामां निर्गमाव्यो. मारी भूछे हुं जन्म जरा मरणनां दुःख पाम्यो हवे भ्राति भागी आ शरीररूप नगरीमां असंख्य प्रदेशी आत्मानी प्रतीति थइ, असंख्य प्रदेशीरूप आत्मा हुं अरूपी छुं. श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण, ए पुद्गलतुं रूप छे पण हुं तो पुद्गलथी भिन्नछुं माटे रूपातीतछुं, मारामां गंध स्पर्श नथी. शब्दथी मारु ज्ञान थाय छे पण हुं शब्दथी न्यारो छुं मारु कोइ नाम नथी. तेथी हुं अनामी कहेवाउछुं.

हुं कीर्ति वा अपकीर्तिवाळो नथी-कारण के बहिरात्मदशामां कीर्तिनी वासना जीवने रहेछे अने तेथी ते अनेक प्रकारना कीर्ति माटे उद्यमो करेछे. पण तेथी कंइ कल्याण थतुं नथी. जेम बंध्याने स्वप्नानी अंदर पुत्रनो प्रभव थयो. अने ते पुत्रने मोटां थतां परणाव्यो. बंध्या बहु आनंद पामी. एवामां बंध्यानो पुत्र मरण पाम्यो त्यारे बंध्या रोवा पीटवा लागी. केश तोडवा लागी. बंध्यानी आंख उघडी गइ अने जुवे छे तो कंइ नथी. मिथ्याभास थयो एम जाण्युं तेम अज्ञानी जीव साधु वा गृहस्थना वा कोइपण अवस्थामां कीर्तिनी वासनाथी अनेक कार्यो करेछे. किंतु आंख मींचाया बाद कंइ पण तेमांतुं देखातुं नथी. माटे ज्ञानयोगी आत्मा कोइ कीर्ति करे वा कोइ अपकीर्ति करे तोपण समभावे रहेछे. कारण के-ज्ञान योगी आत्मा जाणेछे के कीर्तिनाम कर्मना बंधनथी जगत्मां कीर्ति प्रसरेछे. अने अपकीर्तिनाम कर्मोदयथी अपकीर्ति प्रसरे छे-माटे ते कीर्ति अने अपकीर्ति बन्ने पौद्गलिकछे. कीइनी कीर्ति प्रसरवाथी ते धर्मी कहेवातो नथी. तेम अपकीर्ति प्रसरवाथी ते अधर्मी कही शकातो नथी. अंतरंग शुद्धात्म वृत्तिथी धर्मी कहेवायछे. अने अंतरंग अशुद्धात्म वृत्तिथी अधर्मी जाणवो. मान पूजा आदि वास-

(३०४)

वचस्थिति.

नाओथी पण आत्मा भिन्नछे. कारण के मान अने अपमान एह बहिरात्मा दशावाळाने एटले जेणे दुनीयादारीमां सुखदुःखनी बुद्धि धारण करीछे तेवा जीवने वर्तेछे, पण जेणे शरीरथी भिन्न आत्मा निराकार ज्योतिमय जाण्योछे तेवा अंतरात्म्य दशावाळा जीवने माननी वासना रहेती नथी. शुद्धात्मा सदा मानवंतछे. पुद्गलरूप देह कंड मान्य योग्य नथी. वळी कोइ अपमान करे तो समजे के-देहनुं अपमान के तेनी अंदर रहेला आत्मानुं अपमान नथी. देह तो जडछे अने आत्मा तो अदृश्यछे, तेथी तेनुं अपमान थइ शक्तुं नथी. माटे ज्ञानयोगी महात्माने मान अपमान बे सरखांछे. वळी ज्ञान योगीनी कोइ निंदा करे. वा कोइ वंदन करे तोपण ते समभावमां वर्ते छे. कारणके ज्ञानी जाणे छे के-मारो आत्मा अलक्ष्यछे. पोताना स्वभावे शुद्ध निर्लेपछे. एम उपयोगमां वर्ततो कोइना उपर राग वा कोइना उपर द्वेष करतो नथी. कनक अने पाषाणने पण ज्ञानी आत्मा सरखा जाणेछे, कनक अने पाषाण पृथ्वीकायनां दळीयां पौद्गलिकछे. अने ते कनक पाषाणरूप अचित्त पुद्गल स्कंधरूपीछे. अने हुं आत्मा तो अरूपीछुं. कनक पाषाण पुद्गल स्कंध जडछे अने हुं आत्मा तो ज्ञान गुणमयछुं, मारी अने एनी भिन्न जातिछे. वळी कनक पाषाणमां सुख नथी. तो ते उपर केम दृष्टि आपुं? एम समजी ज्ञानी आत्मार्थी समभावमां रहेछे. अने शुद्धा-त्म स्वरूपमां उपयोग दृष्टि आपेछे.

संसारना संसर्गमां आवतो पण ज्ञानी आत्मा जलमां कमलनी पेठे भिन्नपणे वर्तेछे, हर्ष शोक धारण करतो नथी. एम प्रमादस्थाननुं निवारण करतो विरतिव्रत अंगीकार करतो अंतरथी द्रव्यक्षेत्र का-ळभावथी आत्म स्वरूप विचारतो अने तेम आत्माना गुणपर्यायने भिन्नाभिन्नपणे विचारतो मति अने श्रुतज्ञानना क्षयोपशमे वीर्य श-

परमात्मद्रोणः

(६५)

क्ति फोरवतो संयम श्रेणि आरोहण करतो घातीकर्मनो क्षय करी यान्तु अघातीकर्मनो क्षय करी पंचम गति जे मुक्तिस्थान तेमां सादि अनंतमा भागं बिराजे छे. त्यां मुक्तिस्थानमां शरीरनो त्रीजो भाग टाळी वे भागनी अवगाहना रहंछे. मुक्तिमां स्वामी सेवकभाव नथी, मुक्तिमां गण्ड आत्मा पश्चात् संसारमां आवतो नथी, अने तेथी जन्म जरा मरणनां दुःख पामतो नथी, आ प्रमाणे कर्मना नाशे मुक्ति पासेली पासेछे किंतु आत्मध्यानरूप पुरुषार्थमां प्रमाद थवाथी पुनः पुनः संसारमां परिभ्रमण करवुं पडेछे मन, वचन अने कायाना योगो स्थिर करी आत्म स्वरूपमां स्थिर थवुं अने बाह्य मार्गमां वृत्ति देतां आगळ वध्या करवुं. तेम करवाथी आनंदनी खुमारी प्रगट थशे अने स्थिरता योगे चारित्र मोहनीयनो नाश थशे, अने आत्मा मतिज्ञान अने भुतज्ञानना क्षयोपशमयोगे प्रत्येक गुण स्थानकनी हदे विचित्र अनुभव प्रगट करतो देखाशे अने आत्मतत्त्वनो निर्धार भास थशे. आ अचळ सिद्धांतनी श्रद्धा तथा तेनो आदर जे आत्मा अल्पभवमां मुक्ति जवानोछे तेने प्राप्त थायछे. अने परमपद प्राप्तिनी तीव्रेच्छा प्रगट थया विना तेना उपर लक्ष्य लागतुं नथी अने ते प्रति लक्ष्य ला-ग्ग्या विना आत्म कल्याण नथीज. जे भव्यने जे वस्तुनी इच्छा होयछे ते प्रति तेनो उद्यम वर्तेछे. सर्व करतां शुद्ध स्वरूपनी इच्छा श्रेष्ठ गुणावहा जाणवी. हवे ते आत्मगुणनी प्राप्तिकरवा मन शुद्ध करवुं जोइए. मननी शुद्धता थया विना सच्चिदानंद प्रति वलण थतुं नथी, प्रथमतो मन इंद्रियोना विषयमां भटकतुं होयछे तेने पाळुं वाळुं अने आत्मरमणमां जोडवुं एम थवाथी राग द्वेषादिक श-त्रुओ तेनी मेळे नाश पामशे. आम वर्तन करवाथी गुणोनी प्राप्ति थायछे कोइ भव्यो बोलवामां एवुं बोले के-जाणे महा तत्त्वज्ञान

(૬૦૬)

૩૪૫.

પ્રાપ્ત થયું પણ અંતરમાં કંઈ હોતું નથી, માટે વર્તન આત્મ સ્વભાવમાં થવું જોઈએ, એમ કરવાથી અનુક્રમે આત્મા કર્માણ્કનો નાશ કરી મુક્તિપદ પામે છે. અતીત કાળે અનંત જીવો મુક્તિ ગયા જાય છે અને જશે એવું સમગ્ર વિષય સંપૂર્ણ.

૮ અષ્ટમવિષય.

સંસારમાં આત્મા ક્યારથી છે-- ?

સંસારમાં આત્મા અનાદિકાઢથી છે. જેની આદિ હોય છે તે ઉત્પત્તિમાન પદાર્થ હોય છે. અને જે ઉત્પત્તિમાન હોય છે તે કાર્યરૂપ કહેવાય છે, અને જે પદાર્થ કાર્યરૂપ હોય તે સમવાય નિમિત્ત આદિ કારણોની સામગ્રીદ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી તે કાર્યરૂપ પદાર્થ અનિત્ય કહેવાય છે. અને જે પદાર્થ અનિત્ય હોય છે તે વિનાશ પામે છે. આત્માને કોઈ ઉત્પન્ન કર્યો નથી અને તેથી તે અનાદિ કહેવાય છે.

જે પદાર્થની આદિ નથી તેનો અંતપણ નથી. તે પ્રમાણે આત્મા અનાદિ છે અને અનંત છે. જે વસ્તુનો કોઈ બનાવનાર નથી તે વસ્તુ નિત્ય કહેવાય છે. તેમ આત્મા તેનો બનાવનાર કોઈ નથી તેથી આત્મા નિત્ય કહેવાય છે. જે નિત્ય વસ્તુ હોય છે તે ત્રણ કાલમાં નાશ પામતી નથી. તેમ આત્મા પણ નિત્ય છે તેથી ત્રણ કાલમાં નાશ પામતો નથી, જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે તે કારણ પૂર્વક હોય છે, જેમ ઘટવસ્તુ મૃત્તિકા દંડ ચક્ર કુલાલાદિ પૂર્વક છે. અને જે વસ્તુનો કોઈ ઉત્પન્ન કર્તા નથી. તે કારણ વિના સ્વયં સિદ્ધ હોય છે જેમ આકાશ તે પ્રમાણે આત્મા પણ કારણ વિનાનો છે. અર્થાત્ તે કોઈનાથી બન્યો નથી.

परमात्मदृष्टान्त.

(१००)

ईश्वरवादी—सर्व जीवोने ईश्वरे बनाव्याछे तो जीवोનો कर्त्ता ईश्वर कारणी भूत मानवो जोइए.

तत्त्ववादी—जीवोनों कर्त्ता ईश्वर नहीं, ईश्वर अरूपीछे. रागद्वेष र-
हीतछे, संसारनी खटपट रहीतछे. तेवा ईश्वरने जीवो बना-
ववानुं थुं प्रयोजन ते बतावो अने ज्यारे ईश्वरे जीवो नहोता
बनाव्या ते पूर्वे ईश्वर थुं करतो हतो वळी बतावो के जी-
वोनुं उपादान कारण कोण अने जीवरूप कार्यनुं निमित्त
कारण कोण ?

प्रथम सामान्य माध्यस्थ बुद्धिथी विचारतां पण मालुम पडेछे
के रागद्वेष रहीत एवा प्रभु वा जे ईश्वर सिद्ध तेमने जीवो बनाव-
वानुं कंड प्रयोजन नहीं, एकने सुखी बनाववो अने एकजी-
वने दुःखी बनाववो एवुं अन्यायनुं कार्य ईश्वर करतो नहीं. जीवो
बनाव्या विना पूर्वे ईश्वरने गमतुं नहोतुं ते पण कंड कही शक्यातुं
नहीं, अने जीवो बनाव्या पूर्वे ईश्वर कर्तृत्व शक्ति रहीत हतो के केम
ते कही शक्यातुं नहीं. कर्तृत्व शक्ति ईश्वरनी अनादिनी मानो तो
जीवो पण अनादि ठर्या. त्यारे वदतोव्याघातदूषण प्राप्त थयुं. कर्तृत्व
शक्ति ईश्वरनी जो अनादि न मानो तो शक्तिनी अनित्यताए
ईश्वर पण अनित्य ठर्यो. वळी जीवोनी पूर्वे ईश्वर छे ते पण सिद्ध
थतुं नहीं. वळी जीवोनुं उपादान कारण पण ईश्वर कही शक्यातो
नहीं, कारणके उपादान कारणथी कार्य भिन्न नहीं. यथा तंतवः
पटस्य जेम पटनुं उपादान कारण तंतु ते पटरूपज छे तेम जो
जीवोनुं उपादान कारण ईश्वर मानीए तो सर्व जीवोथी अभिन्न
ईश्वर ठर्यो. अने ज्यारे सर्व जीवमय ईश्वर ठर्यो त्यारे राजा पण
ईश्वर पापी पण ईश्वर चोर पण ईश्वर विडाल पण ईश्वर सर्व पण
ईश्वर पोतानी मेळे ईश्वर उपाधिमय बन्यो कोनुं भजन करवुं. कोनुं

(३०८)

ब्रह्मस्वरूप.

बषन, कीनी मुनित, ते पण असत्य ठर्युं, तप जप दान क्रिया सर्व असत्य ठरी. माटे जीवोनुं उपादान कारण ईश्वर सिद्ध यती नथी. तेम निमित्त कारण पण ईश्वर कही शकतो नथी, कया कया मसाला लावीने ईश्वर जीव बनाव्यो. जो कदेशो के पंचभूतरूप मसालाथी जीव बनाव्यो तो ते वात पण आशाश कुसुमवत् असत्य ठरेछे. कारण के पंचभूततो जडछे. अने आत्मा तो ज्ञान गुणी छे माटे ते पंचभूतनुं कार्य नथी. माटे जीवनुं उपादान कारण पंचभूत कदी ठरतां नथी. अने निमित्त कारण जीवतो ईश्वर ठरतो नथी. माटे जीव अकारण होवाथी नित्य सिद्ध ठर्यो. अने तैथी ते अनादिकाळथी छे एम सिद्ध ठर्यो. श्री केवलज्ञानी वीरप्रभुए जीवो अनादिकाळना छे एम सत्य कथ्युंछे. हवे ब्रह्ममांथी जीवोनी उत्पत्ति माननाराओ प्रति प्रश्न पूर्वक तेमनी भूल दूर करायछे.

शिष्य—हे सद्गुरो कोइ एम कहेछेके आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् अर्थ आ दुनीयामां प्रथम ब्रह्म एकज हतुं अने तेमांथी आ सर्व प्रपंच बन्योछे आ वातमां शुं सत्य समायुंछे. ते कृपा करीने कदेशो ?

सद्गुरु—हे सौम्य श्रवण कर. ब्रह्ममांथी जीको माया विगेरे सर्व प्रपंच बन्यो एम मानवुं युक्तिहीनछे. ते नीचे मुजव. ब्रह्मथी दुनीयानो प्रपंच भिन्न मानशो तो एकांत भिन्न प्रपंचरूप वस्तु ब्रह्मथकी उत्पन्न थायछे तेम मानवुं मंडूक जटावत् असत्य ठरेछे, कारण के जेम घटथकी एकांत भिन्न पटनी उत्पत्ति जोवामां आवती नथी. एम प्रत्यक्ष विरोध आवेछे, वळी ब्रह्मथकी एकांत अभिन्न जगतरूप प्रपंच मानशो तो ते पण मुनित विकल आकाश कुसुमवत् असत्य ठरेछे.

परमार्थदर्शन.

(६२६)

ब्रह्मथी एकति अभिन्न जगत् प्रपंच ब्रह्मस्वरूप ठैयी, त्यारे माता, स्त्री, पुत्र, सर्प, सिंह, आदि सर्व ब्रह्मरूप ठैरु, त्यारे तेमाथी भिन्न वा तेथी मुक्त थवाशेज नहि, वळी अमो ब्रह्मवादीने पुळी ए छीए के-ब्रह्म जे ते जगत् प्रपंचनु उपादान कारणछे के निमित्त कारण ? प्रथम पक्षमां जो ब्रह्मने उपादान कारण मानवामां आवे तो कारण जेवुं होय तेवुं कार्य थाय जेम पटनुं उपादान कारण तंतु रक्त होय तो पट पण रक्त थायछे. तेम जो ब्रह्म सत्छे अने उपादान कारणछे तो उत्पन्न थनार जगत् प्रपंचरूप कार्य सत् थवुं जोइए. अने ते कदी नाश पण पामे नहि, पण जगत् प्रपंच सत् नथी एम प्रत्यक्ष विरोधापत्ति प्राप्त थती देखायछे वळी ब्रह्मने रूपी वा अरूपी मानतां विरोध दर्शावैछे. प्रथम पक्ष ब्रह्मने रूपी मानतां आगम विरोध आवैछे. द्वितीय विकल्पमां ब्रह्मने अरूपी मानतां ब्रह्मथी उत्पन्न थनार जगत् प्रपंच रूप कार्य अरूपी थवुं जोइए. पण घटपटादि वस्तुरूपी देखायछे ए पण महाविरोध आवैछे. वळी ब्रह्मने नित्यमान तां ब्रह्मथी उत्पन्न थनार जगत् प्रपंच पण नित्यपणे उपलब्ध थवो जोइए पण जगत् प्रपंच तेथी उलटो विनाश पामतो देखायछे, तेथी तेम मानतां पण विरोध प्राप्त थायछे, माटे जगत् उपादान कारणपणे मानेलुं ब्रह्म नित्यपणे पण कहीशकातुं नथी. ब्रह्मने अनित्य मानतां आगम विरोध आवैछे वळी ब्रह्मने एक अने ते सर्वत्र व्यापकछे एम मानशोतो जीवोनो बंध मोक्ष मानवो असत् ठरेछे. तेम सुख दुःख पण असत् ठरशे. इत्यादि विकल्पोथी ब्रह्मनी सिद्धि पण थती नथी. तो वळी ब्रह्ममांथी जीवो उत्पन्न थया तेम मानवुं ते तो सर्वथा असत् ठरेछे.

प्रश्न—आनंद ब्रह्मगो विद्वान् नविभति कुतश्चन—ब्रह्मना आनंदने जाणनार पुरुष कशाथी मय पामतो नथी. एम वृहद् आर-

(३१०)

ब्रह्मस्वरूप.

एक तथा तैत्तिरीय श्रुतिमां कणुंछे तेनुं केम-?

उत्तर—ब्रह्म शब्दार्थनुं सम्यग् ज्ञान न यवाथी तत्त्वनी प्राप्ति यती नथी. केडलाक वार्दीओ ब्रह्म विषे सर्व जीवोनो छय थायछे. अने वळी ब्रह्ममांथी सर्व जीवो उत्पन्न थायछे एम समजी तत्त्व पामी शकता नथी कारणके—सम्यग् ज्ञान विना सम्यग् क्रिया थइ शकती नथी. अने ते विना भवांत यतो नथी. अर्थात् कर्मनो नाश करी मुक्तिपद पमातुं नथी. पण आत्मारूप ब्रह्मनो भावार्थ ज्ञानथी सम्यक समजनार कशाथी भय पामतो नथी. माटे सम्यग्दृष्टिपणुं प्राप्त यतां एकांत हठ टळेछे.

प्रश्न—श्लोक भिद्यते हृदयग्रंथीः छिद्यंते सर्व शंसयाः

क्षीयंते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे. १

ब्रह्मने साक्षात्कार जाणवाथी हृदय ग्रंथी भेदायछे. अने सर्व संशयो छेदायछे. कर्मो नाश पामेछे. ते ब्रह्मने देखतां—आम मुंडको पनिषद् विगेरेथी जणायछे तो ब्रह्मने असत्य केम कहेवाय?

उत्तर—हेभव्यजीव हजी अमारु कथन तमाराथी समजायुंनथी— ब्रह्मशब्दनो अर्थ ज्ञानवान् आत्मा अनेते ज्ञानीजीव प्रतिशरीर भिन्नभिन्न-तेमज कर्मरहीत ज्ञानीजीवो—व्यक्तिथी भिन्नभिन्नछे तेवारूपे अमो ब्रह्मने सत्य मानीएछीए—पणजे एक ब्रह्म अने तेमांथी जगत् पेदाथवुं तेवा ब्रह्मशब्दना अर्थने अमो सत्यरूपे मानतानथी. तेनासंबंधे अत्रसंभाषण थायछे—अत्रसमजवानुंके—सर्वत्र ब्रह्मछे, ब्रह्मथकी अन्य कोइपदार्थ नथी एम मानवुं ते ज्ञानविरुद्धछे—अने एम कोइमानेतो तेमां अन्यनुं जोरनथी—पण समजवानुंके—उपरना श्लोकथी द्वैतपणानी एटछे बे तत्त्व—जीव अने अजीव तेनी सिद्धि थायछे—अस्य

परमात्मवेक्षण.

(३११)

कर्माणि क्षीयन्ते—आनां कर्म नाशपामेछे. आनां एट्छे आत्माना आत्मानी साथे ज्ञानावरणीयादी अष्टकर्म अनादिकाळथी क्षीर नीरवत् लाग्यांछे. ते कर्म, आत्मानुं स्वरूप स्याद्वादपणे देखी आत्म स्वभावमां रमवाथी नाशपामेछे. आत्मा अने कर्म एम बे वस्तुनी सिद्धि थइ, एक आत्मद्रव्यनी द्वितीय कर्मरूप पुद्गल द्रव्यनी अनायासे सिद्धि थइ, कर्मजड अने, अजीवछे, तेथी जीवतत्त्व एम बे तत्त्वज्ञानी प्रभुश्रीमहावीरस्वामीए कथ्यां छे तेनी सिद्धि थइ कदापि सामो प्रश्न एम करवामां आवे के कर्म पण ब्रह्मथी भिन्न नथी अने ते ब्रह्मस्वरूपछे. तो उत्तर तरीके कहेवामां आवशे के कर्म ज्यारे ब्रह्मस्वरूप ठर्युं. त्यारे कर्मनो नाश थतां ब्रह्मनो पण नाश थशे.

वळी विचारोके कर्म छे ते ब्रह्मथकी भिन्न छे अभिन्न? प्रथम पक्षमां ब्रह्मथकी कर्मएकांत भिन्न मानतां पटथी एकांत भिन्न घटनी पेटे बे पदार्थ ब्रह्म अने कर्म भिन्न छे तेनी सिद्धि थइ, द्वितीयपक्षमां ब्रह्मथी कर्म अभिन्न छे एम मानतां ब्रह्म अने कर्म एक स्वरूप थइ जशे अने कर्मनो नाश पण थशे नहि.

वळी विचारो के कर्मसत्छे के असत्छे. कर्म असत् मानवामां आवे तो सत्ब्रह्म अने असत् कर्मनो संयोग थाय नहि, कारण के सत्नी साथे जे वस्तुरूपे ना होय तेनो संयोग घटे नहि. अने बेनो संयोग मानवामां आवशे तो बे पदार्थ भिन्न स्वभाववाळा भिन्न ठर्यां, त्यारे एक एव ब्रह्म आवाक्यनो नाश थयो एम अवश्य सिद्ध ठरेछे. स्याद्वादपणथी तो ते सर्व जिन दर्शनमां यथार्थ घटेछे अने आत्मानी सिद्धि थायछे अने कर्मनी सिद्धि थायछे. आत्मा ज्ञानादिके करी सत्छे अने कर्मरूप पुद्गलनी अपेक्षाए असत्छे. पण पुद्गल द्रव्य पोताना स्वरूपे सत्छे. आत्मा अने कर्मनो संयोग अनादिका-

(૧૧૨)

બ્રહ્મસ્વરૂપ.

કથી છે. આત્મા અને કર્મ કે ક્ષીરનીરવત્ પરિણામી છે, આત્મા ક્યારે સ્વસ્વભાવમાં રમણ કરે છે. ત્યારે કર્મરૂપ પુદ્ગલો આત્માના પ્રદેશોક્ષી વિચરે છે, અને આત્મામાં રહેલું અનંતજ્ઞાન અવિર્ભાવે પ્રકાશે છે. અને આત્મા પરમપદ પામતાં અચલ ધાય છે. જન્મ જરા મૃત્યુનો નાશ કરી અજરામર પદ પામે છે તેમાં નપુનરાવૃત્તિ: શિવ અર્થાત્ મોક્ષ પામેલા જીવો સંસારમાં પાછા આવી જન્મ ધારણ કરતા નથી. વઢી સર્વ જીવો બ્રહ્મના અંશ છે એમ માનીએ તો પુણ્ય પાપ બંધ મોક્ષ આદિ ઘટી શકતું નથી. કારણ કે-સર્વસ્ય બ્રહ્મસ્વરૂપત્વાત્ સર્વ પ્રદાર્થને બ્રહ્મસ્વરૂપ માન્યાથી ધર્મ અધર્મ મુક્તિ વિગેરે અસત્ય ઠરે છે. તેમાં આ વાક્ય પ્રયોગ ષષ્ટીના વહુ વચનનો છે, તેથી આત્મા અનંત છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. ને ફરીથી સંસારમાં આવતા નથી. એમ કહેવાથી પ્રલય કાળ થયા વાદ કેટલાક માને છે કે મુક્તિમાંથી સંસારમાં જીવ પાછા આવે છે તથા દયાનંદ સરસ્વતિ જે આર્ય સમાજનો પ્રકાશક છે તે સ્વકલ્પનાથી એમ માને છે કે મુક્તિમાંથી જીવ સંસારમાં પાછો આવે છે. એમ તે વાદિયોનું માનવું અસત્ય ઠરે છે. અને તે મિથ્યા જ્ઞાન છે એમ સિદ્ધ કર્યું. વઢી ની-ચેની વેદશ્રુતિયો પણ સમ્યગ્જ્ઞાન વિના અસમંજસ માસે છે.

તથાચ

इदं सर्वं यदयमात्मा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म ॥

अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि ॥

इत्यादि वेद श्रुतियोपण सम्यग्ज्ञान विना प्रमाणीभूत नथी. सर्वं एटले सर्वं खलु एटले निश्चयथी आ ब्रह्मले. घट, पट, दंड, चक्र, वृक्ष, सर्प, जगत् सर्वं ब्रह्मले तो सिद्ध थयुं के ह्यी पण ब्रह्म स्वरूप. माता पण ब्रह्मस्वरूप. पुत्री पण ब्रह्मस्वरूप. पोते वक्ता पण ब्रह्मस्वरूप. त्यारे कोने नमस्कार करवो ? कोनुं स्मरण करवुं ? अने वळी स्मरण करवानुं थुं प्रयोजन ? तेनी सिद्धि ઠરતી નથી. શ્વા પુત્ર

परमात्मदर्शन.

(३१३)

ब्रह्मस्वरूप, अने विष्णु पण ब्रह्मस्वरूप. सर्प पण ब्रह्मतो प्रत्येकने नमस्कार करवो जोइए. पण ब्रह्मवादी पण सर्वने ब्रह्मस्वरूप मानी भेदभाव राखेछे ते आकाश जेवडी मूल गणाग, माटे ब्रह्मने एक मानतां पूर्वोक्त दूषण प्राप्त थायछे. सम्यग्दृष्टि तेवोज अर्थ सम्यग्पणे ग्रहण करेछे. आ सर्व जगत् अनंतजीवोथी परिपूर्ण व्याप्तछे, अने जे आ शरीरमां छे ते आत्माछे, अने आत्मा ज्ञानमयछे. दुनीयानी सर्व वस्तुओ ज्ञानमां विषयीभूत थायछे. अनंतज्ञेयनो ज्ञाता अनंत ज्ञानमय आत्माछे तेने ब्रह्म कहो वा चैतन्य कहो. वा परमात्मा कहो, नामभेद पण अर्थतो एकनो एकछे—सिद्ध परमात्माओ सदृश शरीरमां रहेलो आत्मा पण सर्व रूद्धिमयछे पण कर्मावरणथी सर्व रूद्धि तिरोभावेछे—आत्मा अजछे. अविनाशीछे. अनादि अनंत, अक्षय, अक्षर, अनक्षर, अचल, अटल, अमल, अगम्य, अरूपी, अकर्मा, अवंधक, अनुदय, अनुदरीक, अयोगी, अभोगी, अरोगी, अभेदी, अवेदी, अछेदी, अलेपी, अखेदी, अकषाई, अलेशी, अशरीरी, अणाहारी, अव्याबाध, अनवगाही, अगुरूलघुपरिणामी, अप्राणी, अयोनि, असंसारी, अमर, अपर, अपरंपर, ज्ञानगुणापेक्षाए व्यापक अनाश्रित, अकंप, अनाश्रव, अशोकी, असंगी अनाहारी लोकालोक ज्ञायक, अनंत मुखमय, आदि गुणोथी बिराजमान प्रत्येक शरीरमां रहेला आत्माओ छे. किंतु कर्मनायोगे सर्व रूद्धि ढंकाणी छे, आ शरीरमां पण कर्मथी बंधाएल हे आत्मातुंछे. जेवा सिद्ध भगवान् छे तेवो तुं छे. एम सम्यग् अर्थ ग्रही प्रयत्न करायतो मुक्तिपद पामी शक्याय. पण सम्यग्ज्ञान विना संसारी जीवो मोहमायां मस्तान थइ संसारमां परिभ्रमण करेछे. माटे सत्य तत्त्वनी प्राप्ति करवी. एज मोक्षमार्ग जाणवो. श्री सर्वज्ञ प्रभुए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीव द्रव्य

(૩૧૨)

અધ્યતિથિ.

અને ક્લાલ આ ષટ્કવ્ય કથન કર્યાં છે. કેવલજ્ઞાનમાં જેવું જાણ્યું તથા કેવલ દર્શનમાં જેવું સામાન્યોપયોગથી દેખ્યું. તે પ્રમાણે પદાર્થોનું પ્રતિષાદન કર્યું છે. તેનું જ્ઞાન થવાથી સત્ય આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. મિથ્યાજ્ઞાનથી મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ થાય છે. —યત ઉક્તં

શ્લોક.

નમિથ્યાત્વસમઃ શત્રુ, નમિથ્યાત્વસમંવિષં ॥

નમિથ્યાત્વસમોરોગો, નમિથ્યાત્વસમંતમઃ ॥ ૧ ॥

દ્વિષદ્વિષતમો રોગૈ, દુઃસ્વમેકત્ર દીયતે ॥

મિથ્યાત્વેન દુરંતેન, જંતોર્જન્મનિજન્મનિ ॥ ૨ ॥

વરં જ્વાલાકુલે ક્ષિપ્તો, દેહિનાત્મા હુતાશને ॥

નતુ મિથ્યાત્વસંયુક્તં, જીવિતવ્યં કદાચન ॥ ૩ ॥

મિથ્યાત્વ સમાન કોઈ શત્રુ નથી. કારણકે મનુષ્યરૂપ શત્રુઓ બાહ્યવૃદ્ધિ બા બાહ્યપ્રાણનો નાશ કરે છે. અને મિથ્યાત્વરૂપ શત્રુ તો આત્માની અનંતિરુદ્ધિનો નાશ કરે છે. અને મિથ્યાત્વ સમાન કોઈ મોટું વિષ નથી. અને મિથ્યાત્વ સમાન કોઈ રોગ નથી. અને મિથ્યાત્વ સમાન કોઈ અંધકાર નથી. જ્વાલાથી દેદીપ્યમાન અગ્નિમાં બઢી મરવું તે સારુ કિંતુ મિથ્યાત્વપણાથી જીવવું સારુ નથી. બઢી ઉપરના બીજા શ્લોકમાં જણાવ્યું કે—શત્રુ વિષરોગ તેથી તો એકવાર દુઃસ્વ પમાય છે અને દુઃસ્વે કરી જેનો નાશ થાય છે એવા મિથ્યાત્વથી તો ભવોભવ દુઃસ્વની પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે, માટે સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો, શ્રીવીરપ્રભુજીવો અનાદિકાલના છે એમ કેવલજ્ઞાનથી જાણી પ્રરૂપણા કરી છે તે સત્ય માનવી. શ્રદ્ધા કરવી.

परमार्थदर्शन.

३१५)

९ नवमविषय.

आत्मा निर्मलपद (मोक्ष) शायी पामे;

ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्षमार्गः ज्ञान दर्शन अने चारित्र मोक्षनो मार्गछे. श्रीतत्त्वार्थसूत्रमां ज्ञान दर्शन चारित्रनुं विशेषतः प्रतिपादन कर्युंछे. त्यांथी जिज्ञासुजनोए तेनुं स्वरूप गुरुगमद्वारा धारवुं. अत्र ए त्रणनो विशेष विस्तार करवाथी ग्रंथ गौरवता वृद्धि पामे माटे कर्यो नथी. पूर्वे ज्ञाननुं सामान्यतः वर्णन कर्युंछे. दर्शननुं पण वर्णन कर्युंछे. चारित्रनुं पण सामान्य स्वरूप आगळ कहेवाशे. अष्टकर्मना समूहनो जे नाश करे तेने चारित्र कहेछे. चारित्रना बे प्रकारछे. व्यवहार चारित्र द्वितीय निश्चय चारित्र तेमां व्यवहार चारित्रना बे भेदछे. १ देशविरतिरूप-द्वितीय सर्व विरतिरूप.

तेमां श्रावकनां बारत्रत अंगीकार करवां. तथा तेनुं पालन करवुं तेने देशविरति चारित्र कहेछे.

सर्वथी पंचमहाव्रतनो शास्त्राज्ञापूर्वक स्वीकार करवो अने वीतराग आज्ञा प्रमाणे वर्तन करवुं तेने सर्वथी चारित्र कहेछे-सर्व विरतिरूप भागवती दीक्षाथी कर्मनो नाश थायछे-शास्त्रोमां दीक्षानुं बहु माहात्म्यछे कहुंछे के-तथाच

श्लोक.

सर्वेषामपि पापानां, प्रव्रज्या शुद्धिकारिका ॥

जिनोदिता ततः सैव, कर्तव्या शुद्धिमिच्छता ॥१॥

ददति ब्राह्मणादिभ्य, एके पाप विशुद्धये ॥

गोदानं स्वर्गदानं च, भूमिदानान्यनेकधा ॥ २ ॥

(३१६)

शुद्धि.

आत्मशुद्धयर्थमेवान्ये, कारयन्ति व्रतानपि ॥
 जुह्वत्यमौ पशूंस्तत्र, अश्वार्दींश्च सहश्रशः ॥ ३ ॥
 अमेध्यभुग् गवामेके, पृष्ठभागं स्पृशन्ति च ॥
 गवां मूत्रं पिवन्त्यन्ये, अन्ये पंचगवं तथा ॥ ४ ॥
 शुद्धयर्थं स्नांति तीर्थेषु, प्रविशन्त्यन्ये हुताशने ॥
 तथापि नैवशुध्यन्ति, विनादीक्षां जिनोदितां ॥५॥
 किंच शौचं विनाशुद्धिं, जायते न कदाचन ॥
 सत्स्वार्हिसादिकं तच्च, यतः प्राहुर्मनीषिणः ॥ ६ ॥
 सर्वजीवदयाशौचं, शौचं सत्यप्रभाषणं ॥
 अचौर्यं ब्रह्मचर्यंच, शौचं संतोष एवच ॥ ७ ॥
 कषायनिग्रहः शौचं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥
 प्रमादवर्जनं शौचं, ध्यानं शौचं तथोत्तमं ॥ ८ ॥
 दुष्टयोगजयः शौचं, शौचं वरविवेकिता ॥
 तपो द्वादशधाचैवं, शौचमाहुर्मनीषिणः ॥ ९ ॥
 सर्वज्ञाक्तेदीक्षायां, एतत् सर्वदयादिकं ॥
 शौचं संपूर्णं मेवास्ति, सदांतरात्मशुद्धिकृत् ॥१०॥

भावार्थ—सर्व पापोनी शुद्धिकारिका दीक्षाछे. माटे जिनेश्वरे कयेली दीक्षा आत्मशुद्धि इच्छनारे अंगीकार करवी. दीक्षा अंगीकार करवाथी सर्वथा प्रकारे कर्पनो नाश थायछे.

केचित् जीवो ब्राह्मण विगेरेने स्वर्णदान गोदान भूमीदान वि-
 गेरे आपेछे अने वे.टलाक आत्मानि शुद्धिने माटे व्रतो करेछे अने

परमात्मदर्शन.

(३१७)

करावेछे. अने होममां पशुओने होमेछे. वे.टलाक आत्मकल्याण माटे गायनुं अमेध्य भक्षण करेछे, तथा तेना पृष्ठ भागने स्पर्शेछे अने वळी गायनुं मूत्र पीवेछे, तथा पंचगवनुं भक्षण करेछे. वे.टलाक आत्मशुद्धि माटे गंगा यमुना आदि तीर्थोमां स्नान करेछे. वे.टलाक अग्निमां प्रवेश करेछे, तोपण ते अज्ञानपणाथी आत्मशुद्धि प्राप्त करता नथी. पण ज्यारे वीतराग सर्वज्ञे कयेली भागवती दीक्षा अंगीकार करवामां आवेछे त्यारे आत्मा निर्मल थायजे.

वळी ते भागवतीदीक्षामां शौचविना शुद्धि थती नथी. हवे ते शौच दर्शावेछे. सर्वजीवदयाशौचं-सर्व जीवोनी दया करवी तेने शौच कहेछे. दया विना धर्म होतो नथी. अहिंसा परमोधर्मः अहिंसा मोटो धर्मजे. अने शास्त्रमां पण कहंछे के-

नय तिहुअणेवि पावं, अन्नं पाणाइवायओ गरूयं ॥
जं सव्वेविय जीवा, सुहेसिणो दुस्कभीरूय ॥ १ ॥

त्रलोकमां हिंसा करतां मोटुं कोइ पाप नथी. सर्वे जीव सुख इच्छेछे. अने दुःखथी बीवेछे.

श्लोक.

नसादीक्षा नसाभीक्षा, नतद् दानं नतत्तपः ॥
नतत्ज्ञानं नतद्ध्यानं, दयायत्र न विद्यते ॥ १ ॥

भावार्थ-एवी कोइ दीक्षा, भिक्षा, दान, तप के ध्यान नथी के-जेमां दया नहीं होय.

श्लोक.

अहिंसैव मता मुरुषा, स्वर्गमोक्ष प्रसाधनी ॥
अस्याः संरक्षणार्थं च, न्याय्यं सत्यादिपालनं

(३१८)

उद्यम.

स्वर्ग अने मोक्ष आपनारी दयाज (अहिंसा) दयाज मुख्य-पणे मनायलीछे. अने एने राखवा माटेज सत्यादिकनुं पालन व्याजबी गणायछे. वळी आचारांग सूत्रमां कहुंछे के-तथाच पाठः

सेवेमि जेअइया जेय पडुपन्ना जे आगमिस्सा अरहंता भग-वंतो ते सव्वे एव माइहखंति, एवंभासंति, एवंपन्नवंति, एवंपरुवंति, सव्वेपाणा, सव्वेभूया, सव्वेजीवा, सव्वेसता, नहंतव्वा, नअज्जावेय-व्वा, नपरितावेयव्वा, नउद्देवेयव्वा, एसधम्मं सुद्धे निइए सासए समिच्चलयं खेयन्नेहिं पवेइयं.

आचारांगसूत्र भावार्थ

हुं कहुं छुं के जे तीर्थंकर भगवान थइ गया अने जे हाल वर्ते छे, अने जे आवता काळमां थशे ते सर्व आ रीते कहेछे जणावेछे तथा वर्गवे छे के सर्वमाण, सर्वभूत, सर्वजीव, अने सर्व सत्त्वने हणवा नहि, तेमना उपर हकुमत चलाववी नहि. तेमने क-बजे करवा नहि. तेओने मारी नाखवा नहि, अने तेओने हेरान करवा नहि, आवो पवित्र अने नित्य धर्म लोकोना दुःखने जाणनार भगवाने बताव्योछे.

अने वळी कहुं छे के-

जयंचरे जयंचिठे, जयमासे जयंसए ॥

जयं भुजंतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधइ ॥ १ ॥

श्री शय्यंशभस्वरि कहेछे के यतनाथी चालवुं. जीवनी दया सचवाय देग उभा रहेवुं. यतनाथी बेसवुं, अने यतनाथी सूनुं. अने यतनाथी बोळवुं, एम करतां पाप कर्म बंधाशे नहि. वळी कहुंछे के-

गाथा.

मल मइल पंक मइला. धूली मइला नते नरा मइला

परमात्मदर्शन

(११९)

जे पावपंक मइला, ते मइला जीवलोयांमि ॥ १ ॥
 खणमित्तं सलिलेहिं, सरीरदेसस्स शुद्धिजणगंजं
 कामंगंति निसिद्धं, महैसिणंतं नणु सिणाणं ॥२॥

भावाथी=मलथी मेला, कादवथी मेला थएला, अने धूलथी मेला थएला माणसो मेला नहि गणाय. पण जे पापरूप वंकथी मेला थएल होय ते जीवो आ लोकमां मेला जाणवा—

वळी स्नानमां जलवडे क्षणभर शरीरना बहिर्भागनी शुद्धि थायछे, अने जे जल स्नान कामनुं अंग गणायछे ते जलथी महर्षियोने स्नान करवानो निषेधछे—

उक्तंच श्लोक.

स्नानं मददर्पकरं, कामांगं प्रथमं स्मृतं ॥

तस्मात् कामं परित्यज्य, नैव स्नांति दमे रताः १

स्नान ए मद अने विषयाभिलाषनुं कारण होवाथी कामनुं पहेलुं अंग गणायछे. माटे कामने त्याग करनार अमे इंद्रियोने दमवा तत्पर थएला यतिजनो बीलकूल स्नान नथी करता. वे.टलाक लोको समज्या विना एम बोलेछे के जैनना मुनियो स्नान करता नथी. तेमने कहेवानुं के जैनना साधु शास्त्राज्ञा मुजब वर्तेछे तेथी विषयाभिलाषजनक स्नाननुं तेमने कंइ प्रयोजन नथी. ब्रह्मचारी सदासुचिः ब्रह्मचारी पुरुष सदा पवित्रछे. तेने दातण स्नाननी कंइ जरूर नथी वळी श्रीकृष्ण, पांडु पुत्रने नीचे मुजब उपदेश आपेछे.

श्लोक.

आत्मानदी संयमतोयपूर्णा, सत्यावहा शीलतटा दयोर्मिः
 तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र, नवारिणा शुद्धयति चांतरात्मा १

(३१०)

उच्चारित्ति.

भावार्थ—आत्मारूपी नदीछे तेमां संयमरूपी पाणीपरिपूर्ण भरे-
लछे, त्यां सत्यरूप शीलरूप तेना तटछे, त्यां द्यारूप तरंगोछे
माटे हे पांडुयुत्र तेमां स्नान कर. कारण के शरीरनी अंदर रहेलो
अरूपी आत्मा कंड पाणीथी शुद्ध थतो नथी हवे त्यारे पवित्र कोण
कहेवाय ते जणावेछे.

गाथा.

अखंडिय वयनियमा, गुत्ता गुत्तिंदिया जियकसाया-
अइशुद्ध बंभचेरा, सुइणो इसिणो सयानेया १

भावार्थ—अंगीकार करेलां व्रत अने नियमने अखंडित राख-
नारा अने जेणे पोतानी इन्द्रियो वश करीछे तथा वळी क्रोध, मान,
माया, लोभ, ए चार कषायोने जीतनारा तथा निर्मल ब्रह्मचर्य पाळ-
नार मुनियो (ऋषियो) सदा पवित्र जाणवा.

तथा वळी कहुंछे के.—

श्लोक.

नोदकक्लिन्नगात्रोऽपि, स्नात इत्यभिधीयते;
स स्नातो योदमस्नातः स बाह्याभ्यंतरः शुचिः १

भावार्थ—पाणीथी भीजायल शरीरवाळो कंड न्हाएलो नहि
कहेवाय. किंतु जे पोतानी पांच इंद्रियोनो वश करनारो थइ अभ्यं-
तर अने बाह्यथी पवित्र होय तेज न्हाएलो कहेवाय. वळी कहुंछेके—

श्लोक.

चित्तमंतर्गतं दुष्टं, तीर्थस्नानैर्न शुद्ध्यति;
शतशोऽपिजलैर्धौतं, सुराभांडमिवाशुचिः १

परमात्मदर्शन.

(३२१)

भावार्थ—अंतरनुं दुष्ट चित्त कंड तीर्थ स्नानथी शुद्ध थतुं नथी केमके मदिरानुं वासण सेंकडो पाणीथी धोइए तोपण ते अपवित्र ज रहेछे. माटे सारांश के—जलथी मात्र स्नान कर्याथी पवित्रता प्राप्त थती नथी. परंतु दयारूप शौचथी पवित्रपणुं प्राप्त थायछे. माटे दीक्षा अंगीकार करी प्रथम अहिंसा व्रतनुं पालन करवुं जोइए. कोइ पण जीवनी हिंसा करवी नहि. मुनिने वीस वशानी दया होयछे. अने श्रावकने सवावशानी दया होयछे. मांसनुं भक्षण करनार, मांस वेचनार, जीवो, पापी जाणवा संसारनो त्याग करनारा मुनीश्वरो अहिंसा व्रतनुं पालन करी शिव पाम्या अने पामशे. जीवनी हिंसा करवाथी थएल दारुण दुःख यशोधर चरित्रथी जाणवुं. हवे दीक्षा अंगीकार करी बीजुं सत्य बोलवुं, मृषावाद एटछे जूठुं कदी बोलवुं नहिं. तद्रूप सत्यव्रतनुं परिपालन करवुं. त्रीजुं महाव्रत अंगीकार करी कोइनी नजीवी वस्तु पण कब्जा विना लेवी नहिं. पोतानी वा पारकी सर्व स्त्री वर्गनो त्याग करवो. मनमां पण भोग भोगववानी इच्छा करवी नहिं. स्त्रीना सामुं सराग दृष्टिथी जोवुं नहि. नव प्रकारे ब्रह्मचर्य व्रतनी गुप्ति पाळवी अने मैथुननो सर्वथा त्याग करवो तेने चोथुं ब्रह्मचर्यव्रत कहेछे. सर्व व्रतो नदीओ समान छे अने ब्रह्मचर्यव्रत समुद्र समानछे, ब्रह्मचारी पुरुषोनी कीर्ति वधेछे. ज्यां जायछे त्यां तेने मान मळेछे. देवताओ पण ब्रह्मचारी पुरुषोने साहाय्य करेछे. मंत्रनी सिद्धि पण शीलव्रत पाळनारने तुरत फळेछे. देवताओ, यक्षो, राक्षसो पण ब्रह्मचारी मुनिने नमस्कार करेछे. ब्रह्मचारी मुनीश्वरने वचन सिद्धि संप्राप्त थायछे, ब्रह्मचारी पुरुषनो संकल्प सिद्ध थायछे. कोइ मनुष्य सुवर्णनां मोटां देरासर करावे अने कोइ ब्रह्मचर्यव्रत अंगीकार करे तो पण ब्रह्मचारी पुरुषनी बरोबर सुवर्णनां देरासर

(૩૨૨)

બ્રહ્મચર્ય.

કરાવનારને ફલ થતું નથી. ચારિત્રનું મૂલ્ય બ્રહ્મચર્યવ્રતછે જ્યાં બ્રહ્મચર્યવ્રત નથી ત્યાં ચારિત્રની શુદ્ધિ ક્યાંથી અર્થાત્ બ્રહ્મચર્યવિના ચારિત્ર નથી. ગ્રહસ્થ પુરુષ પળ પોતાની સ્ત્રી વિના અન્ય સ્ત્રીનો ત્યાગ કરેછે. બ્રહ્મચર્યમાં ઘણા ગુણ સમાયાછે, સુદર્શનશેઠને શૂલી પળ સિંહાસનરૂપે થઈ તેમાં બ્રહ્મચર્યનું માહાત્મ્ય જાણવું. નવનારદ બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી સત્ય સુખલીલા પામ્યા. વઢી પારકી સ્ત્રીના ઉપર રાગ કરનાર રાવળને લક્ષ્મણે માર્યો, અને રાવળ મરીનરકમાં ગયો. અને સીતા સંતીનો યશ જગત્માં ગવાયો. વિષય લંપટી જીવો સદાકાલ આકુલ વ્યાકુલ દુઃખી રહેછે. લંપટી જીવો આ ભવમાં પળ દુઃખ પામેછે. અને પરભવમાં પળ દુઃખ પામેછે. લંપટી જીવોની જગત્માં અપકીર્તિ થાયછે અને વિષયલંપટી જીવો પકડાય છે તો સરકાર તેનો મોટો દંડ કરેછે. અને જગત્માં તેનું અપમાન થાયછે. વિષય લંપટી જીવો એવા તો આંધળા હોયછે કે-તેમને ધર્મ વા અધર્મની સમજણ પડતી નથી. માટે ભવ્ય જીવોએ બ્રહ્મચર્યવ્રતનું સમ્યક્ પરિપાલન કરવું. વારંવાર મનુષ્ય જન્મ મળનાર નથી. સ્ત્રીનું શરીર સાત ધાતુથી ભરેલુંછે તેના શરીરમાં લોંહી માંસ, હાડકાં, ખેદ, મજ્જા, મૂત્ર, વિષ્ટા ભરેલીછે. નાકમાંથી લીંટ વહ્યા કરેછે. આંખમાં પીયાના થોક વાજેછે. કેશમાં જુઓ, લીંચો-ના સમૂહ પડ્યા કરેછે. શરીરદ્વારોથી અશુચિ વહ્યા કરેછે. વઢી જુવાન અવસ્થા ઉતર્યા વાદ વૃદ્ધાવસ્થા થાયછે. ત્યારે શરીર સ્વરાષ લાગેછે. શરીરનો રંગ ઉતરી જાયછે. અલગત તેના સામું પળ જોવાનું મન થતું નથી એવી સ્ત્રીના શરીરમાં શો સારછે કે તેના ઉપર રાગ થાય. વઢી સ્ત્રી જાતિ કપટથી ભરેલીછે. મનુ-હરિ જેવા રાજાને મૂકી તેની રાણી ચાકરની સાથે સંબંધવાઢી થઈ હતી. તે વાત જ્યારે મનુહરિરાજાએ જાણી ત્યારે મનમાં ઘણો

परमात्मदर्शन.

(३१३)

खेद थयो अने विचारवा लाग्यो के—अहो जे पिंगलाने हुं पटराणी तरीके मानतो हतो अने जे मारी प्राणाप्रिया हती. अने हुं जेना उपर पूर्ण विश्वास राखतो हतो ते पिंगलाराणी पण अंते मारी थइ नहि. अने तेणीए कामना आवेशथी नीचनी साथे संबंध कर्यो माटे तेने धिक्कार थाओ. अहो जगत्ना जीवो कामावेशथी पुण्य पाप गणता नथी. एवा कामने पण धिक्कार पडो अने आ संसारमां हुं जेने सारभूत मानतो हतो एवी पिंगला पण मारी थइ नहि. अहो ज्ञानीओए संसारने असार कह्योछे तेमां जरा मात्रपण असत्य नथी. एम चिंतवी तापसी दीक्षा अंगीकार करी पर्वतनी गुफामां चाल्यो गयो, अने तेमणे भर्तृहरि शतकनी रचना करी. माटे संसारमां सारभूत धर्म विना अन्य कशुं जणातुं नथी. माटे भव्यजीवोए पण सांसारिक मोहमायाथी दूर रही आत्मिक धर्मा-राधनमां तत्पर थइ धर्मारोधन करवुं, अने स्त्रीविषयाभिलाषनो त्याग करवो. शास्त्रमां विषयने विषनी उपमा आपीछे त्यारे वळी एक महात्मा कहेछे के, विषयने विषनी उपमा आपवी ते योग्य नथी. कारण के, विष तो एक भवमां भक्षतां प्राण हरी दुःख आपेछे अने विषयो तो अनेक भव पर्यंत परिभ्रमण करावी दुःख आपेछे. माटे विषना करतां पण मोटी उपमा आपवी जोइए. विषयथी थतुं सुख स्वप्नसुख समान मिथ्या कल्पना मात्रछे.

तथाच श्लोक.

स्वप्ने दृष्टं यथापुंसः क्षणमात्रं सुखायते

प्रबुद्धस्य नतत्किंचित् एवं विषयजं सुखं. १

स्वप्नमां देखेलो पदार्थ पुरुषने क्षणमात्र सुख आपेछे अने ज्यारे ते मनुष्य जागेछे त्यारे कंइपण देखातुं नथी ए प्रमाणे विष-

(३२४)

ब्रह्मस्वरूप.

षट् सुख क्षणमात्र आभास मात्रछे अंते वस्तुतः विचारतां कइ सुख नथी. वळी विषयी पुरुषोनी केवी स्थिति थायछे ते जणावेछे.

श्लोक.

विषयेषु विषीदंतो, न पश्यंति हिताहितं

शृण्वन्ति न हितं वाक्यं, अंध बधिरसंनिभाः १

विषयोमां विषाद पामेला जीवो हित वा अहितने देखता नथी. तेम वळी हितवाक्य कोइ कहे तो ते सांभळता नथी. खरे-खरविषयलालचु जीवो अंध अने बहेरा सरखाछे. अने वळी कहेछेके,

श्लोक.

विषयेषु रतोजीवः, कर्म बध्नाति दारुणं

तेनासौ क्लेशमाप्नोति, भ्राम्यन् भीमे भवोदरे २

विषयोमां आसक्त थएल जीव दारुण कर्म बांधेछे अने तेथी ते जीवो भयंकर संसारमां परिभ्रमण करतो क्लेश पामेछे. वळी विषयमां मोह पामेला जीवो शुं करेछे ते कहेछे.

श्लोक.

अहो मोहस्य माहात्म्यं, विद्वांसोऽपियतो नराः

मुह्यन्ति धर्मकृत्येषु. रताः कामार्थयोर्दटं १

अहो मोहनं प्राबल्य केवुं छे के जे विद्वान् मनुष्यो पण काम अने अर्थमां आसक्त थया छता धर्मकृत्यमां मुंझायछे. आवुं मोहनं जोर तोडी श्रीजंबुकुमार कोटी धन, स्त्री, परिवारनो त्याग करी दीक्षा अंगीकार करी. तेमज धन्नाकुमार तथा शाळीभद्रे मोहनो नाश कर्यो. श्री स्थुलीभद्र के जे पाटलीपुरमां शकटाल मंत्रीना पुत्र हता अने जे बार वर्ष वैश्याना घेर रखा हता. तेमणे स्त्रीनो त्याग करी दीक्षा अंगीकार करी. अने वैश्याने गृहे चातुर्मास

परमात्मदर्शन.

(१२५)

कर्युं. त्यां वेद्याए पोतानुं शरीर देखाय अने विषयाभिलाष थाय तेम नाच कर्यो, कामोत्पादक अनेक प्रकारनां गायनो गायीं. तो पण मुनिवर्यश्री स्थुलीभद्र जरा चलायमान थया नहीं अने विषयमां रागी एवी वेद्याने पण वैरागी बनावी. अने ते वेद्याने श्रावकनां बार व्रत उच्चराव्यां. अहो आश्चर्यनी बात छे के, कामनो नाश करवा महासुनियो पर्वतनी गुफाओमां तथा एकांत जग्याओ मां गया, केमके त्यां काम आवी शके नहि माटे. तयारे स्थुलिभद्र मुनिवर तो कामना गृहमां प्रवेशी कामनो नाश कर्यो. अहो केटलुं तेमनुं सामर्थ्य ? एवी रीते भव्यजीवोए उत्तम चरित्र श्रवण करी विषय, काम, मोहनो नाश करवो. अने ते प्रति जरा मात्र पण इच्छा करवी नहीं अने मन, वचन, कायाथी शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत पाळवुं.

हवे पांचमुं सर्वतः परिग्रह परिमाण विरमण व्रत कहेछे. श्री मुनीश्वर महाराजा धनधान्यादिक नव विध परिग्रहलो त्याग करे छे, कारण के विकल्प संकल्पनुं कारण परिग्रहछे. परिग्रहथी क्रोध, मान, माया, लोभनी उत्पत्ति थायछे. जेम बहाण अतिशय भारथी समुद्रमां बुडेछे परिग्रहनी वृद्धिथी रागद्वेषनी वृद्धि थायछे. परिग्रहथी दुनीयामां मनुष्य एटली बधी गुंचवणमां आवी पडेछे के तेने जरामात्र पण शांति मळती नथी. वळी धनधान्यादिकनी वृद्धिथी मोटाइ वधेछे. मनमां मान आवेछे. वळी अदेखाइ पण प्रगट थायछे. वळी परिग्रहनी प्राप्तिना कारणथी प्राणातिपात, असत्य, चोरी, आदि पापस्थान कोनुं सेवन करी कर्मार्जन करी जीव अधोगातिमां अवतरी त्यां छेदन भेदन ताडन तर्जन शोक, वियोग क्षुधा, तृवा, आदि विविध दुःखो भोगवेछे. वळी परिग्रहथी अज्ञानीजीव धर्म साधन करी शकतो नथी परिग्रह मेळववामां केवळ

(३२६)

परिग्रह.

दुःखज समायुंछे. वळी परिग्रह धन उपर ममता भाव राखी मनुष्य मरण पामी सर्प, उंदर, गीरोलीना अवतार पामेछे. वळी परिग्रहनी ममताथी मातपिता भाइ परस्पर लडी मरेछे. वळी परिग्रह धनरूप वृद्धि पामेछे त्यारे तेने साचववानी पण चिंता रहेछे. रखेने चोर विगेरे लइ जाय एवी चिंता तेना मनमां रहेवाथी सुखे करी उंचपण आवती नथी, परिग्रहथी आरंभ, समारंभ करी कर्मोपार्जन जीव करेछे. परिग्रहधारी खरेखर जडवस्तुने पोतानी मानी छेतरायछे. माटे वैरागी आत्मार्थी जीवो परिग्रहनो त्याग करी दीक्षा ग्रही पंचमहाव्रत अंगीकार करेछे. अने पुत्र स्त्री मातपिता विगेरे संसारी कुटुंबनो संबंध छोडेछे अने स्वस्थ चित्ते हुं एकलो छुं. आत्माथी अन्य मारू नथी अने हुं कोइनो नथी एम अदीन मना थइ आत्माने शिखामण आपेछे. सद्गुरुने धारण करेछे. संयमनी रक्षा अर्थे वस्त्र, पात्र, पुस्तक, रजोहरण, मुखवस्त्रिका, धारण करेछे. संयमनां उपकरण राखवाथी परिग्रह कहेवातो नथी. कहुंछे के मुच्छापरिग्रहोवुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा;

श्री ज्ञानपुत्र वीरप्रभुए मूच्छाने परिग्रह ग्रहोछे. माटे हठ कदाग्रह करवो नहीं. एम मुनीश्वर परिग्रहनो त्याग करी निर्विकल्प मन करी आत्मज्ञानमां मग्न रहेछे, अने मुनीश्वर विचारे के आवाह परिग्रह त्यागी मुनि आत्मानी रूद्धि तरफ लक्ष आपी जुवेछे तो त्यां अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, आदि रूद्धि भरेली छे अने ते रूद्धि अविनाशीछे. पोतानाथी कदी जुदी पडवानी नथी अने ए रूद्धि प्राप्त थवाथी सहज शांति अनुभवायछे, एम आत्मा ए जाण्युं त्यारे आवाह जड रूद्धिरूप परिग्रहनो त्याग करी. अने आत्मिक रूद्धि मेळववा प्रयत्न करवा लाग्या, ध्यानादिकनो अभ्यास करवा लाग्या, ए पांचयुं परिग्रह विरमण व्रत दी-

परमात्मवृत्तान.

(३२७)

क्षा अंगीकार करी मुनिवर्यो मनवचन अने कायाथी परिग्रह धारण करवो नहीं परिग्रह धारण कराववो नहीं. अने परिग्रह धारण करता होय तेनी अनुमोदना करवी नहीं.

छटुं रात्रीभोजन विरमणव्रत कहेछे. रात्रीना समयमां मुनीश्वर अशनपान, खादिम अने स्वादिम ए चार प्रकारना आहारनो त्याग करेछे. श्रीवीरप्रभुए रात्रीभोजनमां महा दोष कथ्योछे, माटे आत्मार्थी जीव रात्रीभोजन करे नहि. योग शास्त्र, वर्धमान देशना, आदि ग्रंथोमां तथा सूत्रोमां रात्रीभोजन करवाथी महादोष बताव्याछे. वळी अन्य दर्शनीओना शास्त्रमां पण रात्रीभोजन करवाथी दोष बताव्याछे. माटे मुनिवर्यो दीक्षा ग्रही रात्रीभोजननो त्याग करेछे. ए रीते पंच महाव्रत अने छटुं रात्रीभोजन विरमणव्रतनुं अत्रतो संक्षेपथी स्वरूप प्रसंगोपात देखाडयुं. आ प्रमाणे मूल व्रत अंगीकार करे, अने चरण सित्तरी करण सित्तरीरूप उत्तर भेदनुं आराधन निर्ग्रंथ मुनिवर्य करे. श्रीसिद्धसेन दिवाकरसूरिकृत प्रवचन सारोद्धारमां चारित्रना मूल भेद उत्तरभेदनुं तथा चारित्रना उपकरणोनुं विशेषतः वर्णन कर्युंछे त्यांथी जिज्ञासुए विशेष अधिकार जाणवो. हवे दीक्षा अंगीकार करी कषायना निग्रहरूप शौच मुनीश्वर धारण करेछे. क्षमाथी क्रोधनो पराजय करेछे. अने नम्रताभावथी माननो पराजय करेछे अने सरलताथी मायानो नाश करेछे. अने संतोषथी लोभनो नाश करेछे. वळी पांच इंद्रियोना विषयो जीतवारूप शौच मुनीश्वर धारण करेछे. प्रमादनो त्याग करवो ते रूपशौचने दीक्षा अंगीकार करी धारण करेछे. प्रमादथकी चौद पूर्वी पण संसारमां पडया माटे आलस्य, निद्रा, विकथा, पारकी निंदा आदि प्रमादनो नाश करी मुनीश्वर अप्रमत्तपणे रहेछे. वळी मुनीश्वर ध्यानरूप शौच जे

(૩૨૮)

પ્રજ્ઞસ્વરૂપ.

સર્વ શૌચોમાં ઉત્તમ છે તેને ધારણ કરે છે. ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાન એ બે ધ્યાન આત્મકલ્યાણકારી છે. તેમાં શુદ્ધધ્યાન મુક્તિ પ્રદાતા છે. મન વચન અને કાયાના દુષ્ટ યોગનો જય કરવો તેને શૌચ કહે છે. વહી હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેયનો વિવેક તેને ઉત્તમ વિવેક કહે છે. તે શૌચને દીક્ષા અંગીકાર કરી મુનિવર્યો ધારણ કરે છે. બાર પ્રકારે તપ કરવો તે પણ શૌચ જાણવો, શ્રી સર્વજ્ઞ કથિત દીક્ષામાં દયાદિક સર્વ કૃત્ય શૌચરૂપ શરીરની અંદર રહેલા આત્માની શુદ્ધિ કરનાર છે. નિશ્ચય ચારિત્ર આત્મસ્વભાવમય છે એટલે આત્માથી ભિન્ન નથી તે ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે વ્યવહાર ચારિત્રકારણી ભૂત છે.

આ સંસારમાં કેટલાક જીવો ધર્મનું નામ પણ જાણતા નથી અને તદનુકૂલ પ્રયત્ન પણ કરતા નથી. સંસારમાં મોટા કહેવાળા એટલે પોતાને ધન્ય માને છે. પણ પોતે જીવાદિક તત્ત્વ જાણતા નથી અને સાંસારિક કાર્યોમાં અહર્નિશ ગુંથાયા રહે છે, પણ ધર્મારાધન પરાયણ થતા નથી. ધર્મનું આરાધન કરી આત્માને કર્મબંધનથી છોડાવવો એજ ઉત્તમ પુરુષોનું લક્ષણ છે. બાકી ધન, પુત્ર, લક્ષ્મીની વૃદ્ધિથી પોતાની વૃદ્ધિ માની અહંભાવમાં વર્તવું તે તો અધમ પુરુષોનું લક્ષણ છે. શ્રી ભરતરાજા, રામ, પાંડવો વિગેરે એ અંતે આ સંસારને અસાર સમજી આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરી તેમ ભવ્ય જીવો પણ અધુના સારમાં સાર દીક્ષાનું અવલંબન કરવું જોઈએ. દીક્ષા ગ્રહ્યા વિના આશ્રવમાર્ગનો રોધ થતો નથી. આ સંસારને જ્ઞાની પુરુષો પણ બલ્લતા અગ્નિ સમાન કહ્યો છે, બાજીગરની બાજી જેવું આ સંસારનું સ્વરૂપ જાણી વિવેકી મનુષ્ય ચારિત્રમાર્ગ ગ્રહણ કરે છે. મારુ મારુ માનતા એવા અનેક જીવો માયાના વશ જ્ઞાનલક્ષ્ય સત્ય આત્મસ્વરૂપ ભૂલી યમરાજ વશ થયા અને થાય છે. જેમ સમુદ્રમાં પાણીના અનેક તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે અને પશ્ચાત્ બિલય

परमात्मबोधः.

(३२६)

पामेछे तेनी पेठे अनादिकालथी आसंसारसमुद्रमां देव मनुष्य तिर्यंच अने नारकी तरंगे करी जीव अनेकशः शरीर छोडतो अने अनेकशः शरीर धारण करतो वर्तेछे. पण अज्ञान दशाथी पामर जीवनी सु-
 क्ति थइ नहीं. पण ज्यारे आत्मानुं स्वरूप जाणवामां आवेछे त्यारे आत्मा संयममार्गयोगे धर्मना आविर्भाव अर्थे प्रयत्न करेछे, ज्यारे चारित्रमोहनीय प्रकृतिनो क्षय थायछे त्यारे चारित्र आत्मां प्रगटे छे. कोइ जीव चारित्र मोहनीयने उपशमावेछे. कोइ चारित्र मोहनीय-
 नो क्षयोपशम करेछे. कोइ जीव क्षायिकसमकितयोगे आठमा गुणठाणाथी क्षपकश्रेणि आरोहण करी चारित्र मोहनीयनो क्षायिक भाव करेछे. कोइ जीव उपशम श्रेणि चढी चारित्र मोहनीयकर्मनी प्रकृतिने अगीयारमा गुणठाणे उपशमावेछे अने त्यांथी पाछा पडे छे. अने यावत् मिथ्यात्व गुणठाणा सुधी आवेछे.

कोइ उपशम समकित पामी आठमागुणठाणाथी उपशमश्रेणिएं चढेछे अने कोइ क्षायिक समकित पामी आठमा गुणठाणाथी उपशम श्रेणि चढी अगीयारमे गुणठाणे जइ मरे तो अनुत्तर विमानमां जायछे. अने कोइ उतरता गुणठाणे पण मरण पामेछे. अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया अने लोभ तेमज समकित मोहनीय अने मिश्रमोहनीय अने मिथ्यात्वमोहनीयनो क्षायिकभाव कर्या पूर्वे आवता भवतुं आयु बांधी पाछळथी क्षायिक समकित पाम्यो होय ते जीवने बद्दायुक्षायिक समकित जाणवुं. आयुष्य बंधनी अपेक्षाएं आवं क्षायिक समकित कहुंछे, तत्त्ववात बहुश्रुतवा केवळी जाणे. ते अशुद्ध क्षायिक समकित जीव उपशम श्रेणि करे एम कहे-
 वायछे. क्षायिक समकित जीव दशमा गुणठाणे यथाख्यात चारित्र पामी बारमा गुणठाणे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अने अंतरायकर्मनो क्षायिकभाव करी अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य अने क्षायिकभावना

(૩૩૦)

લલ્લિલ્લિ.

પંચલલ્લિ પામેલ્લે. તે નીચે મુજલ્લ, અનંતદાનલલ્લિ, અનંતલાભલલ્લિ, અનંતભોગલલ્લિ, અનંતલ્લપભોગલલ્લિ અને અનંતવીર્યલલ્લિ સંપ્રાપ્ત થાયલ્લે. અંતરાયકર્મ ક્ષય થયુંલ્લે ઁવા પરમપરમેશ્વર પુરુષ સદા સુલ્લવી લ્લે. મુલ્લ્યપણે તો તે લલ્લિલ્લિયોની પ્રાપ્તિ આત્મસ્વભાવેલ્લે. કેમકે તેની ક્ષાયિકભાવે પ્રાપ્તિલ્લે. અને જે અનંત સામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિરૂપે હતું તે વ્યક્તિરૂપે થઈ પ્રકાશેલ્લે, અને આત્માના અનંત-ગુણોનો આલ્લિભાવતેરૂપ દાન, આત્મા પોતે પોતાને આપ્યું તે દાન-લલ્લિલ્લિ જાણવી. તેમજ અનંત આત્મ સામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્ માત્ર વલ્લિયોગનું કારણ રહું નથી. તેથી અનંતલાભ લલ્લિલ્લિ કહેવાયલ્લે.

વલ્લિ અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પરમાનંદ સ્વરૂપે અનુભવાયલ્લે. તેમાં કિંચિત્ માત્રપણે વલ્લિયોગનું કારણ રહું નથી તેથી અનંતભોગલલ્લિ જાણવી.

તથા અનંત આત્મ સામર્થ્ય સંપૂર્ણપણે પરમાનંદ સ્વરૂપે સમયે સમયે પરિણમેલ્લે તોપણ તેમાં કિંચિત્ માત્ર પણ વલ્લિયોગનું કારણ રહું નથી. તેથી અનંત લ્લપભોગલલ્લિ કહેવા યોગ્યલ્લે. તેમજ અનંત આત્મસામર્થ્યની પ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે થયા લ્લતાં તે આત્મસામર્થ્યના યોગથી આત્મશક્તિ થાકે કે તેનું સામર્થ્ય ન ક્ષીલ્લિ શકે, વહન ન કરી શકે, ઁમ લ્લેજ નહીં. સદાકાલ તે સામર્થ્યલ્લે તેમાં જરા માત્ર પણ ન્યુનાધિકપણું થવાનું નથી. ઁવી જે વીર્ય શક્તિ ત્રિકાલ સંપૂર્ણપણે વર્તેલ્લે તે અનંતવીર્યલલ્લિ કહેવા યોગ્યલ્લે.

ક્ષાયિકભાવની દૃષ્ટિથી જાતાં ઁપર કહ્યા પ્રમાણે તે લલ્લિલ્લિનો પરમપુરુષને ઁપયોગ હોયલ્લે. વલ્લિ ઁ પાંચલલ્લિલ્લિ હેતુ વિશેષથી સમ-જાવા અર્થે જુદી પાડીલ્લે નહીં તો અનંતવીર્યલલ્લિલ્લિમાં પણ તે પાંચેનો સમાવેશ થઈ શકેલ્લે. ઁમ તેરમા ગુણઠાણે ક્ષાયિકભાવની નવલલ્લિલ્લિ ભોગલ્લતો પરમપુરુષ શૈલ્લેશીકરણ કરી ચઁદમા ગુણઠાણે અઘા-

परमात्मदर्शन.

(३३१)

तीकर्मनी ते गुणठाणे खवाववा योग्य जे प्रकृतियो बाकी रही ह्ती ते चउदमा गुणठाणे खपावी सिद्धशिलानी उपर एक योजनना चौबीस भाग करीए तेना त्रेवीस भाग नीचे मूकी चौबीसमा भागे अवगाहनाए संयुक्त ते मोक्षस्थानमां आदिअनंतमे भांगे बिराजमान थायछे, चारित्रथी पूर्वोक्त मोक्षस्थाननी प्राप्ति थायछे.

अथ दशमविषय.

१० कर्मनो कर्ता तथा भोक्ता आत्मा, कर्मनो नाश शी रीते करे ?

प्रत्युत्तर—आत्मा स्वरूपमां रमण करे तो कर्मनो नाश थायछे,

परस्वभावमां रमण करतो आत्मा कर्म बांधेछे अने, स्वस्वभावमां रमण करतो कर्मनो नाश करेछे, अनंतजीवोए भूतकालमां कर्मनो नाश कर्यो अने अनंतजीवो भविष्यकाले करशे, जीव बे प्रकारनाछे. १ भव्यजीव २ अभव्यजीव.

जेनामां मोक्ष जवानी योग्यताछे तेने भव्यजीव कहेछे. अने जेनामां बिलकुल मोक्ष जवानी योग्यता नथी तेने अभव्यजीव कहेछे. अभव्य जीव कदी मोक्ष पामी शकतो नथी.

आत्मा कर्मनो नाश शी रीते करे तेनुं घणुंखरं विवेचन पूर्वे प्रायः कथ्युंछे तेथी अत्र स्थले विशेष विवेचन कर्युं नथी. हवे विचारोके—मोक्षतरु बंधविना संभवे नहीं. अने जेवडे बंध ते कर्म एम आत्मा अने कर्मनो संबंध जेवो जिनदर्शनमां घटेछे. तेवो अन्यत्र घटतो नथी. कर्मथी मुक्त आत्मा सिद्धस्थानमां सादि अनंतभंगीए रहे छे, त्यां परमात्मपणे समये समये अनंतमुखनो भोक्ता आत्मा बनेछे. कोइ दर्शनी दुःखात्यंताभावरूप मुक्तिमानेछे पण तेम नथो. आत्माने कर्मनायोगे दुःख थायछे, ते विभाविकछे

(૩૧૨)

મોક્ષ.

દૃષ્ટિ વિભાવિક વસ્તુ સ્વરૂપ જે દુઃખ તે આત્માથી દૂર થાય છે. અને આત્મામાં સુખ છે તે સ્વભાવિક છે. સ્વભાવિક વસ્તુ કદી ટક્તી નથી. તેમ આત્મામાં જે સુખ છે તે સ્વભાવિક છે દૃષ્ટિ આત્માનો સુખ શુદ્ધગુણ છે અને આત્માગુણી છે. માટે તેનાથી દૂર થતો નથી. કોઈ વાદી જડસ્વરૂપ મુક્તિ માને છે મુક્તદશામાં આત્માને કોઈપણ વસ્તુનું બાન નથી. આમ તે વાદીનું માનવું છે તે અજ્ઞાન વિશિષ્ટ છે. કારણકે—જડસ્વરૂપ મુક્તિ હોત તો કોઈ મુક્તિ પામવાની જરામાત્ર પણ ઇચ્છા કરે નહીં. પરંતુ સ્યાદ્વાદ સત્યદૃષ્ટિથી સમજો કે મુક્તિપદ પામેલો આત્મા કેવલજ્ઞાનથી દરેક પદાર્થને જાણે છે. સમસ્ત વસ્તુનું જ્ઞાન સિદ્ધાત્મામાં સમયે સમયે પ્રવર્તે છે, વહી સામાન્ય ઉપયોગરૂપ કેવલદર્શનથી સિદ્ધાત્મા સર્વજગત્ને દેખે છે. અને મુક્તાત્મા અવ્યા-માધગુણથી અનંત સુખ ભોગવે છે, માટે જડસ્વરૂપ મુક્તિ નથી. જ્ઞાન સ્વરૂપ જે આત્મા તે જડરૂપ બની જાય તો તે મુક્તિ કહેવાય નહીં, વહી આત્મા જ્ઞાનગુણથી ભિન્ન થાય નહિં. કારણકે—આત્માનો સ્વ-ભાવિક જ્ઞાનગુણ છે. તે જ્ઞાનગુણ આત્માથી ત્રિકાલે પણ જુદો પડે નહીં.

વાદી—જો મુક્તિમાં આત્માને જ્ઞાનગુણવાળો માનીય તો મુક્તાત્મા જ્ઞાનથી સર્વ જગત્જીવોને થતું દુઃખ જાણે, ત્યારે તે દુઃખ મુક્તાત્માને થાય, માટે જ્ઞાનગુણ મુક્તિમાં માનવો અયુક્ત છે.

સુગુરુ—હે સત્ય તત્ત્વાકાંક્ષી ભવ્ય—જરા વિચાર કરશો તો માલુમ પડશે કે—મુક્તાત્માને અનંતજ્ઞાનથી તેમાં કિંચિત્ વિરોધ આવતો નથી. જેમ દૃષ્ટાંત—કોઈ મનુષ્ય કોઈસ્થાને પહેલું તાલપુ-ટવિષ જાણે અને તેને દેખે તેથી તેને કંઈ દુઃખ થતું નથી, તેમ સિદ્ધપરમાત્મા કેવલી ભગવાનને પણ જગત્ના જીવોને દુઃખી જાણવાથી તે દુઃખ પોતાને લાગતું નથી. તેમ જગત્ના જીવોમાં જ્ઞાતાવેદની જોવાથી તે જ્ઞાતાવેદનીય કંઈ સિદ્ધપદ્ધના

परमात्मदर्शन.

(३३३)

आत्माने लागती नथी—कारणके वस्तुओ थकी पोतानो आत्मा न्यारोछे, तेथी ते विरोध सिद्धभगवान्मां घटतो नथी.

आशंका—सिद्धात्माओ अनंत सुख समये समये भोगवेछे ते केवल ज्ञानथी के, केवलदर्शन गुणथी—

समाधान—सिद्धात्माओ केवलज्ञानथी सर्व वस्तु जाणेछे अने केवलदर्शनथी सर्व पदार्थोने देखेछे. अने सिद्धात्माओ सुख भोगवेछे ते अव्याबाध नामना गुणथी भोगवेछे तेथी पूर्वोक्त विरोधनो सर्वथा नाश थायछे.

ते उपरथी सिद्ध स्पष्ट भासेछे के जडस्वरूप मुक्ति नथी परंतु शुद्ध चैतन्य स्वरूप मुक्तिछे.

कोइवादी आकाशनी पेटे सर्वत्र व्यापिनी मुक्ति मानेछे ते पण यथार्थ घटना बहिर छे. कारणक, मुक्तआत्मा आकाशनी पेटे सर्वत्रव्यापक नथी. सर्वत्रव्यापक आत्माने मानतां बंध मोक्ष व्यवस्था घटती नथी. जेम आकाश सर्वत्र व्यापक छे तो ते कोइनाथी बंधाय पण नहीं अने बंधावाना अभावे मोक्ष पण घटे नहीं. तेम आत्माने कर्मपण सर्वत्र व्यापक मानवाथी बंधाय नहीं अने बंधाभावे मोक्ष पण कहेवाय नहि एम दोष स्पष्ट भासेछे, माटे सर्वत्र व्यापिनी मुक्ति सिद्ध ठरती नथी. सर्वव्यापिनी मुक्ति मानतां प्रथम सर्वत्रव्यापक आत्मा मानवो पडसे. अने सर्वत्रव्यापक एवा आत्माने बंध मोक्ष घटतो नथी. वळी सर्वत्रव्यापिनी मुक्ति मानवामां अनेक विरोध आवेछे, माटे त्रिशलातनये श्री सर्वज्ञमहावीरे प्ररूपेली मुक्ति यथातथ्य सत्य छे. अने ते प्रमाणे मानवामां कोइ जातनो विरोध आवतो नथी.

वळी कोइ मतवादी मुक्तिमां स्वामी सेवक भाव स्वीकारेछे ते पण युक्तिहीनछे. कर्म खण्याथी सर्व आत्माओ मुक्तिमां सरखा

(૩૩૪)

મોક્ષ.

છે. સર્વ આત્માઓ પોતપોતાના સ્વરૂપે પરમાનંદ સુખવિલાસી છે. સર્વ સિદ્ધાત્માઓમાં ફવલજ્ઞાન અને ફેવલદર્શન છે. કોઈ નાનું મોઢું નથી. અઠ્ઠકર્મ સ્વપ્ચાથી અઠ્ઠગુણ સિદ્ધના જીવોમાં પ્રગટ્ચા છે. પોતાના ગુણના કર્તા પ્રત્યેક સિદ્ધ ભગવાન છે. વિભાવદ્શાથી રહિત સ્વસ્વભાવભોગી થયાછે માટે પરનું કર્તાપણું લેશ માત્ર નથી. વઢી સિદ્ધના જીવોને શરીર નથી, લેશ્યા નથી, મન નથી, કાયા નથી, ઁક પુદ્ગલ પરમાણુ સરસ્વો પળ સિદ્ધના જીવોમાં રહ્યો નથી અલેશી, અશરીરી, અચલ, સિદ્ધના જીવોછે.

ઁમ માનેછે કે, મુક્તિમાં કેટલાક વર્ષ પર્યંત રહીને જીવ પાછો સંસારમાં આવેછે. પળ તે યોગ્ય નથી. કારણકે કર્મનો નાશ થતાં સિદ્ધ સ્વરૂપતા પ્રગટે છે તે અવસ્થા સાદિ અનંતમેં માંગેછે. ઁટલે સિદ્ધમાં ગયાની આદિ છે પળ અનંત નથી અર્થાત્ સિદ્ધ થયા પછી સંસારમાં આવતા નથી. સંસારમાં આવવાનું કારણ કર્મ છે તે કર્મનોતો પ્રથમથોજ નાશ કરી મુક્તિ ગયાછે માટે સંસારમાં અવતાર લેવાનું કામ બિલકુલ નથી. વઢી કોઈ કહેશેકે, સિદ્ધના આત્માઓને નવાં કર્મ લાગે તે પળ જ્ઞાનહીન વચનછે કારણકે, કર્મ લાગવાનું કારણ આત્માને રાગ અને દ્વેષ છે અને રાગદ્વેષનો સર્વથા નાશ કરી સિદ્ધાત્મા થયા છે માટે નવાં કર્મ પળ સિદ્ધ પરમાત્માને લાગતાં નથી. સદાકાલ શુદ્ધ સ્વરૂપે નિજ ભોગવેછે, તેથી સિદ્ધના આત્માઓ કદાપિ કાલે સંસારમાં પાછા જન્મ ધારણ કરતા નથી. સિદ્ધના જીવ અનવતારી છે. કોઈ ઁમ કહેશેકે. જ્યારે તે પરમાત્મા થયા અને સિદ્ધ શિલાની ઉપર સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં રહ્યાછે અને ત્યાંથી પાછા દુનીયામાં આવવાના નથી. અને જગત્ના લોકોને દુઃસ્વમાંથી બચાવતા નથી ત્યારે તેમણે શો પરોપકાર કર્યો કહેવાય; તેના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે,

परमात्मदर्शन.

(३३५)

मुक्तात्मा के प्रकारनाछे. एक केवलज्ञान संपादन करी आयुष्य विशेषे रहेला अने बीजा चउदसुं गुणस्थानक स्पर्शी सिद्ध स्थानकमां गयेला. हवे तेरमा गुणस्थाककवर्ती केवलज्ञानी महात्माओ भाषा वर्णगाना पुद्गलयोगे उपदेश आपी तत्त्वस्वरूप समजावी जगज्जीवोनुं कल्याण करेछे. अने सिद्धमां गया बाद सिद्धस्वरूपे धतां जगत् जीवो सिद्धनुं ध्यान करी स्वस्वरूप प्रगटावेछे एटले तेमां पण कल्याण प्राप्तिमां जगज्जीवोप्रति सिद्ध परमात्मा निमित्त कारणीभूत छे, ते विना द्रव्यदयारूप उपकार करवा अर्थे ते सिद्ध परमात्मानि स्वाभाविक शक्ति नथी कारणक ते वीतराग थयाछे, सर्वजीवना कल्याणमां उपादान कारणनी अपेक्षाएतो पोतेज कारणछे. अन्य तो तेमां निमित्त कारण छे. आ बात सूक्ष्मदृष्टिथी सद्गुरु पासै समजतां यथातथ्य समजाशे.

कोइ जीव तो इंद्र आदि देवतारूपे थबुं तेनेज मुक्ति मानेछे. कारण के तेनार्थी आगळ सूक्ष्म ज्ञानदृष्टिथी जोवायुं नहि तेज कारण छे, जेम के इशुखीस्त आदि मतवाळा एम मानेछे के परमेश्वर सुवर्णना सिंहासन उपर बेठोछे अने तेना मस्तके मुकुट विगेरेछे एम कहेवाथी समजायछे के ते देवयोनि पैकी कोइ देवने परमेश्वर मानी विश्वासयोगे एममाने छे. कारण के पूर्व भवनो रागी अने संबंधी कोइ देव आ प्रमाण करी शके अने तेथी भ्रांतिमां फसावुं पडे. एम खीस्ति धर्ममां होय तो ते अप्रमाण कही शक्याय नहीं, माटे सर्वांशे परिपूर्ण अनुभवगम्य जिनदर्शनमां जे मुक्तिस्वरूपछे ते सत्यछे.

मुक्तिमां अनंत सिद्धोनी अवगाहना भेगी होयछे.

शिष्य—हे गुरो ! अवगाहनानुं थुं स्वरूपछे अने ते अवगाहनारूनी छे के अरूपी ?

(३३६)

उच्चस्थिति.

गुरु—हे विनेयशिष्य ! आत्मा ज्यारे शरीर त्यागीने मुक्तिमां जाय छे त्यारे शरीरना त्रण भाग करीए तेमांथी एक भाग त्यागीए. प्रमाणमान आकाशप्रदेशमां आत्मा असंख्य प्रदेशथी व्यापीने रहेछे त अवगाहना जाणवी. अने ते अवगाहना अरूपीछे.

शिष्य—एक सिद्धक्षेत्रमां अनंत आत्माओ केम करी समाय ?

गुरु—एक ओरडामां एक दीपक करीए छीए तो पण तेनी ज्योति समायछे. तेम हजारो दीपक कर्या होय तो ते दीपकोनी ज्योति (प्रकाश) पण सम यछे. तेमां कंइ हरकत पडती नथी. वळी दीपकना प्रकाशनां पुद्गलरूपीछे तो पण समाइ जायछे तो अरूपी एवा अनंत आत्माओ सिद्धक्षेत्रमां समाय तेमां किंचित् पण विरोध जणातो नथी.

शिष्य—त्यारे सिद्धात्मा त्यांथी अलोकमां केम जइ शकतो नथी;—

गुरु—सिद्धात्मा अक्रियछे. गमनागमन क्रियाथी विराम पाम्याछे तेथी उपर जइ शकता नथी. कारण के अक्रियपणुंछे अने अलोकमां धर्मास्तिकाय पण नथी. माटे सिद्धत्मा जइ शकता नथी. धर्मास्तिकाय तो फक्त गमनमां प्रवर्तेला पदार्थोने साहाय्य आपी शकेछे.

शिष्य—त्यारे आ आधिष्ठ्याधिउपाधिमय जगतमां थुं सारछे.

शाथी अनंत दुःख नाश पामे ?

गुरु—शिवपद आराध्य, जगत्मां समजवुं. अने तेज साध्य करवा लायकछे. ते पदनी संप्राप्तिथीज सर्व अखंड शाश्वत सुखनी प्राप्ति थायछे. श्री गुणस्थानक क्रमारोहमां कहुं छे. यथा

श्लोक.

यदाराध्यं चयत्साध्यं, यद्धयेयं यच्चदुर्लभं;

चिदानंदमयं तत्तैः संप्राप्तं परमं पदं.

१

परमात्मदर्शन.

(३६६)

भावार्थ—जे शिवपद अ.राध्य, साध्य, ध्येय, दुर्लभछे. ते पद ने ज्ञानीओए शुद्धध्यानथी प्राप्त कर्युंछे.

आत्मा तेज ब्रह्मस्वरूपछे. आत्माज शिवस्वरूपछे, आत्माज परमात्मरूपछे. सिद्धत्वपणुं आत्मानो शुद्ध पर्यायछे, सम्यग् मोक्ष स्वरूप वीतराग वचनोर्थी प्रतीत थायछे, ज्यारे बंधतत्वनो नाश थायछे. त्यारे मोक्षतत्त्वनी उत्पत्ति थायछे. मोक्षतत्त्वथी आत्मा भिन्न नथी. मोक्षमयी आत्माछे. ज्ञान, दर्शन अने चारित्र्यथी मोक्ष प्राप्तिछे. ज्ञान, दर्शन अने चारित्र्य गुणमय आत्माछे.

अज्ञानी जीव आत्मानो शुद्ध स्वभाव नहीं जाणतो छतो राग द्वेषादि करेछे, त्यारे ज्ञानी जीव आत्मस्वभाव जाणतो छतो राग द्वेषनो त्याग करी कर्मथी रहीत थइ मोक्षपद प्राप्त करेछे. ज्ञानी आत्माना स्वरूपमां सदाकाल रमण करी अखंडानंदानुभव प्राप्त करेछे. जेम हंसने मान सरोवरमां रतिछे तेम आत्मज्ञानीने आत्मस्वरूपमां रति होयछे. जेम चकोर चंद्रमांज प्रीति धारण करेछे. तेम आत्मज्ञानी आत्मस्वभावरमणतामां प्रीति धारण करेछे. सीतानी जेम राममां प्रीति तेम आत्मार्थीनी आत्मस्वरूपमां प्रीति रमणता भासना बर्तेछे. आत्मज्ञानीने शास्त्रकर्त्ता श्रमण कयेछे. श्रीआनंदघनजी महाराज पण कहेछे के—

आत्मज्ञानी श्रमणकहावे, बीजा तो द्रव्यलिंगीरे.

वळी श्रीयशोविजयजी उपाध्याय.कहेछेके, समाधिस्तकमां—

यथा

केवल आत्म बोधहे, परमार्थ शिवःपंथ

तामे जिनकुं मगनता, सोहि भाव निग्रंथ.

परमार्थ शिवनो पंथ केवल आत्मज्ञान छे तेमां जे भव्यात्माने मग्नताछे ते भाव निग्रंथ जाणवा. निक्षेप भेदथी निग्रंथ चार म-

(૩૬૫)

મંદાસ્વરૂપ.

કારતા છે. ૧ નામ નિર્ગ્રંથ. ૨ સ્થાપના નિર્ગ્રંથ. ૩ દ્રવ્ય નિર્ગ્રંથ. ૪ ભાવનિર્ગ્રંથ. પૂર્વોક્ત જ્ઞાર નિર્ગ્રંથમાં ભાવ નિર્ગ્રંથસર્વતઃ મોક્ષસાધક જાણવા. કારણકે, ભાવનિર્ગ્રંથપણાની પ્રાપ્તિ વિના કદાપિ કાલે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સર્વપર વસ્તુ વિષયોથી મનને સ્વેક્ષી આત્મસ્વરૂપના ધ્યાનમાં મનને સ્થિર કરે. શ્વાસોશ્વાસે આત્માનું સ્મરણ કરી ભવ્ય જીવો કર્મ સ્વપાવી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાની પુરુષ આત્મમાંજ સ્થિરતા કરે. અને આત્મભાવના સદાકાલઃ ભાવી અનંત સુખમય પોતાને લેખે નીચે પ્રમાણે આત્મભાવના ભાવે.

ગાથા.

एगो मे सासउं अप्पा, नाण दंसणं संजुओ,
सेसामे बाहिराभावा, सव्वे संजोग लस्कणा,

ભાવાર્થ-એક મારો આત્મા શાશ્વત છે. ત્રિકાલમાં પણ આત્માનો નાશ થતો નથી. વઝી આત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે. જ્ઞાનદર્શન સંયુતઃ જ્ઞાન અને દર્શનાદિ અનંતગુણમય આત્મા છે.

આત્માથી દૃશ્યમાન સર્વ પદાર્થો ભિન્ન છે. સર્વ પૌદ્ગલિક પદાર્થો સંયોગ વિનાશી ધર્મવાળા છે. તે પૌદ્ગલિક પદાર્થમાં મારાપણું કંઈ નથી. રૂપીપદાર્થથી ભિન્ન હું આત્મા શુદ્ધચૈતન્યમય લક્ષણ લક્ષિતહું. આત્માનો પ્રકાશ કરવાને અન્ય પદાર્થની જરૂર નથી. આત્મા પોતાની મેલે પોતાના સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. કંચુકના ત્યાગથી જેમ સર્પ નષ્ટ થતો નથી. તેમ શરીર નાશથી આત્મા નષ્ટ થતો નથી. ત્રિકાલમાં આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપથી ધ્રુષ્ટ થતો નથી.

મૂર્ખ મૂઢ મનુષ્ય શુક્તિમાં રજતની ઝ્રાંતિ ધારણ કરી જેમ મિથ્યાપ્રયાસ ધારણ કરે છે તેમ બહિરાત્મા, પરપુદ્ગલવસ્તુમાં આત્મક બુદ્ધિથી ઝ્રાંતિ ધારણ કરી મિથ્યા ચતુર્ગતિ ઝ્રમણરૂપ ક્લેશ ધનંત્ર બને છે.

परमात्मबंधन.

(१३९)

सहज स्वाभाविक आत्मिक गुणानंतनी आविर्भावतारूप सिद्धतांनु हेतु सम्यग्ज्ञानछे. सम्यग्ज्ञाननी प्राप्ति विना भवसंततिनी उच्छेद थतो नथी. तेम सम्यग्दर्शननी प्राप्ति विना सम्यग्ज्ञान कही शकातुं नथी. अनेकांत स्याद्वाद सत्तामय आत्मस्वरूपादि पदार्थोनुं यथार्थ भासनपणुं, श्रद्धानपणुं थाय त्यारे समकित कथायछे अने समकित पूर्वक जे जाणपणुं ते सम्यग्ज्ञान कहेवायछे. सम्यग्ज्ञाननी प्राप्ति रूपमूर्य जे भव्यजनना हृदयमां प्रगट्योछे तेने मिथ्यात्वरूप अंधकार आच्छादन करी शकतुं नथी. ज्ञानरूप मूर्योदयथी सर्व पदार्थोनी भास थायछे. त्यारे मोक्षमय आत्मा स्वयमेव प्रकाशेछे. अने कर्मनी नाश थायछे. नवतत्त्वमां जीवतत्त्व आदेयछे, संवर निर्जरा मोक्ष ए त्रण तत्त्व उपादेयछे, पुद्गल द्रव्य अजीवछे. पुण्य पाप पुद्गल स्कंधोछे. ते पुद्गल स्कंधोने आत्मा पोताना स्वरूपमां रमतो दूर करेछे. ज्यारे आत्माना असंख्यप्रदेशोनी साथे कर्मरूप पुद्गल स्कंधोनी एक परमाणु सरखो पण रहेतो नथी. त्यारे आत्मा निरावरण निर्ममपद प्राप्त करी सादि अनंत स्थिति पामेछे. एक समयमां गुणस्थानातीत थएल आत्मा आकाश प्रदेशनी समश्रेणिण अन्यप्रदेशोने स्पर्शविना सिद्धिस्थानमां विराजेछे. त्यां सिद्धमां किंचित् दुःख नथी. दुःख सर्व पुद्गलना संयोगथीछे. निर्मल परमात्माने परमाणु मात्रनो संबंध नथी. तेथी त्यां लेश पण दुःख नथी. आधि व्याधि अने उपाधि ए त्रण प्रकारनां दुःखथी रहित आत्मा अनंत सुखमय वर्तेछे. सर्वथा प्रकारे दुःखनी अभाव मुक्तिस्थानमां छे. अनंत सिद्धजीवो लोकना अग्रभागे विराज्याछे. अने तेओ सदाकाल आत्मस्वभावमां रमण करेछे. अनंत ज्ञानदर्शन चारित्ररूप रत्नत्रयीनी लहेरमां स्वगुण भोगवेछे, त्यांथी कदापिकाळे संसारमां पाछा आवी जन्म मरण धारण करता नथी. सर्व जगत्ने ज्ञानथी

(૩૪૦)

સિદ્ધ.

જાણેછે પણ તેથી તે સિદ્ધના જીવો સદાકાલ ન્યારા પ્રવર્તેછે.

પ્રશ્ન—સિદ્ધ ભગવાન કોઈ દુઃખીને દેખી દયા મનમાં લાવે કે નહીં ?

ઉત્તર—સિદ્ધ ભગવાને મન નથી. દુઃખી મનુષ્યાદિ સર્વને

જાણેછે પણ તેઓ કર્મથી રહીત થવાથી અક્રિય થયાછે. તેથી

કંઈ પણ કાર્ય કરતા નથી. અને દુઃખી મનુષ્યનું

દુઃખ દૂર કરવા સંસારમાં આવતા નથી. સર્વ જીવ પોતાના

કરેલાં શુભાશુભ કર્મથી સુખી દુઃખી થાયછે, કોઈનું દુઃખ

દૂર કરવા કોઈ સમર્થ નથી. કરેલાં કર્મ પોતાનેજ મોગવવાં

જ પડેછે. કેટલાએક મતવાદી એમ કહેછે કે, સિદ્ધ પરમાત્મા

અન્ય જીવોનાં દુઃખ દૂર કરવા સંસારમાં અવતાર લેછે એમ તેમનું

કથનછે. નિરંજન નિરાકાર પરમાત્મા ગમનાગમનની ક્રિયા રહિત

થયાછે. કર્મનો નાશ કરવાથી. માટે પરમાત્મા અવતાર ગ્રહણ

કરેછે એમ જે કોઈ કહેછે તે અજ્ઞાની જાણવો. સિદ્ધના જીવો

પોતાની અવગાહના લેઈ સદાકાલ અનંત સુખમાં મગ્ન રહેછે,

નિશ્ચય ચારિત્ર સિદ્ધના જીવોમાં સ્થિરતારૂપ સમયે સમયે

અનંત છે. સિદ્ધતા વિના સાંસારિક દશામાં પરસ્વભાવમાં

રમગતા કરવાથી કિંચિત્ પણ સુખ નથી કહુંછેકે—

હું એનો એ માહરો, એ હું એની બુદ્ધિ;

ચૈતન જડતા અનુભવે, ન વિમાસે શુદ્ધિ. આતમ!!૧!!

સાંસારિકભાવ એજ હું છું, અને તે મારાછે. આ વાહ્ય પદાર્થો

તેજ હું એવી બુદ્ધિથી ચેતન જડનો સંગી થઈ જડતા અનુભવેછે

અને પોતાના આત્માની શુદ્ધિ વિમાસતો નથી. એટી સંસાર દશામાં

રાગ, દ્વેષ, કલહ, મમતાનો સંગી થઈને જીવ કંઈ પણ સુખ પા-

મી શક્તો નથી. કોઈપણ જીવ વાહ્ય પદાર્થોથી સુખ પામ્યો નથી.

અને પામવાનો નથી, આ પ્રમાણે આત્માથી પુરુષો સમજી દૃઢ નિ,

परमात्मदर्शन.

(१४१)

इयथी आत्मध्यान स्थिरतारूप समाधिमां लीन थायछे. कोइ यो-
 ती ध्यानारूढ थतां तेना ध्यानमांथी एन भटकी जइ आहुं अवळं
 जाल्युं जायछे छे तेने शिक्षा आपतां योगी कहेछेके-

श्लोक.

मनः कुत्रोद्योगः सपदि वदमेगम्यपदवीं ॥
 नेखा नार्यांवा गमनमुभयत्राप्यनुचितम् ॥
 यतस्ते क्लीबत्वं प्रतिपदमहो हास्यजनकं ॥
 जनस्तोमं मागा स्त्वमनुसरहि ब्रह्मपदवीम् ॥ १ ॥

हे मन तारी क्यां जवानी इच्छाछे. तारे ज्यां जवानुं होय ते
 मने कथन कर. नरमां जवुं छे के नारी विषयमां जवुंछे. नर वा
 नारी ए बे ठेकाणे जवुं पण अयोग्यछे. कारण के तारु क्लीबत्वपणुं
 छे माटे पदपदमति नर वा नारीना विषयमां तारु गमन हास्य
 उत्पन्न करावनारछे. पुल्लिंग वा स्त्री जातिमां तुं नपुंसक थइने जाय
 छे ते योग्य नथी. माटे मनुष्यना समूहमां मा भटक, तुं नपुंसक
 तेवुं ब्रह्म पण नपुंसकछे माटे तुं ब्रह्मपदने अनुसर अथवा ब्रह्म-
 पदमां लीन था. वळीपरमात्मतत्त्व रमणतामां योगी लीन थइ
 समाधिभावने पायेछे. परमात्मतत्त्व आनंदरूपछे ते दर्शावेछे.
 परमानंद पंचविंशत्यां

श्लोक.

आनंदरूपं परमात्मतत्त्वं, समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तं;
 स्वभावलीना निवसंतिनित्यं, जानाति योगी स्वयमेवतत्त्वं
 परमाल्हाद संपन्नं, रागद्वेषविवर्जितम् ॥
 सोऽहंतुदेहमध्येऽस्मिन्, योजानातिसपांडितः ॥ २ ॥

(૩૪૨)

સિદ્ધ.

માર્વાર્થ-પરમાત્મતત્ત્વ સ્વાભાવિક સદાકાલ આનંદરૂપછે. વહ્લી શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી જોતાં પરમાત્મતત્ત્વ કેવા પ્રકારનુંછે તે જાણાવે છે કે-સમસ્ત પ્રકારના સંકલ્પ અને વિકલ્પથી રહિતછે, એવા પરમાત્મતત્ત્વમાં સહજ સ્વરૂપમાં લીન થઈલા ભવ્યો સદાકાલ વસેછે, એવું પરમાત્મતત્ત્વ યોગી પોતાની મેલે અનાયાસે જાણેછે. ઉત્કૃષ્ટ આલ્હાદથી સંપન્ન અને રાગદ્વેષરહિત આત્મા આ શરીરમાં વસ્યોછે તેજ હું પરમાત્માહું એમ જે જાણેછે તે પંડિત જાણવો. પરમાત્મસ્વરૂપ એવો આત્મા સંસારમાં પરિભ્રમણ કરેછે તેનું શું કારણ છે તે દર્શાવેછે.

ગાથા.

આયા નાણસહાવી, દંસણસીલોવિસુદ્ધસુહરૂવો ॥
સો સંસારે ભમઇ, એસો દોસો સુ મોહસ્ત ૧

આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી અને અનંત દર્શનગુણમયછે વહ્લી તે નિશ્ચયથી વિશુદ્ધ તથા અનંત સુલ્લાન છતાં સંસારમાં પરિભ્રમણ કરેછે તેમાં મોહનો દોષછે. માટે આત્માથી ભવ્ય જીવ મોહનો જય કરે. મનમાં વિચારે કે આ દુનીયામાંની સર્વ જડ વસ્તુઓ મારી નથી અને હું તેનો નથી એમ ભાવતાં મોહરિપુનો જય કરી શકાય છે. ત્યારે હવે મારું શું એમ જિજ્ઞાસા શિષ્યને થતાં ગુરુ મહારાજ કહે છે કે-

શ્લોક.

શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમેવાહં, શુદ્ધજ્ઞાનગુણો મમ
નાન્યોઽહંસિદ્ધબુદ્ધોઽહં, નિર્લેપોનિષ્ક્રિયઃ સદા ॥૧॥

સકલ પુદ્ગલના આશ્લેષથી રહીત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, અભ્યાસાદિ અનંત ગુણપર્યાયમયઅસંરૂપ પ્રદેશીશુદ્ધ

परमात्मदर्शन.

(३४३)

आत्मद्रव्य हुं छुं. सूर्य चंद्रादिकनी सहाय विना मारो शुद्ध ज्ञान-
रूप प्रकाश समये समये वर्तेछे. त्रण लोकना पदार्थनी उत्पादव्यय
ध्रौव्यतानी अनंतता मारा शुद्धज्ञानमां ज्ञेय स्वरूपे परिणमी समये
समये भासेछे, ते ज्ञानगुण मारोछे. हुं ज्ञानतुं पात्र छुं. धर्मास्ति-
कायादिकथी हुं भिन्न छुं. तनु-धनादिक पदार्थो माराथी भिन्नछे.
स्वद्रव्यादिकथी युक्त रत्नत्रयीनो स्वामी आत्मा तेज हुंछुं. आवुं
भेद ज्ञानरूप अस्त्र मोहनो नाश करेछे माटे सर्व परभावथी भिन्न
एवा आत्मां रमणता करवी. वळी जे भेदज्ञानीछे ते औदयिक
भावमां लेपातो नथी. जेम आकाश कादवथी लेवातुं नथी तेम
अत्र समजवुं.

वळी अध्यात्म बिंदु ग्रंथमां कथुं छे के-

श्लोक.

स्वत्वेनस्वं परमपिपर त्वेनजानन्समस्ता
न्यद्रव्येभ्यो विस्मणमिति चिन्मयत्वं प्रपन्नः
स्वात्मन्येवाभिरतिमुपनयन् स्वात्मशीली स्वदर्शी ॥
त्येवंकर्त्ता कथमपिभवेत् कर्मणो नैषजीवः ॥ १ ॥

जेणे आत्मां आत्मपणुं जाण्युंछे, अने पुद्गलादिकमां पर-
पणुं जाणी समस्त अन्य पदार्थोथी विराम पाम्योछे अने ज्ञानमय-
पणाने पाम्योछे. पोताना आत्मां आनंद पामी स्वस्वरूपनो दर्शी
थयोछे एवो आत्मा शी रीते कर्मनो कर्त्ता बनी शके? अर्थात् एवी
अध्यात्मदशामां रमण करनार जीव कर्मनो कर्त्ता बनतो नथी. पण
पोताना आत्मस्वभावनो कर्त्ता थायछे. आत्माना स्वरूपमां रमण
करनार योगीश्वरने जे सुख थायछे ते अनवधि सुख जाणवुं. पर-
स्वभावथी रहित एवा म्हुनीश्वरने जगत् तृणवत् जाणवुं. अर्थात्

(૩૧૪)

સિદ્ધ.

શુનીશ્વરને જગત્ નિસ્સાર લાગેછે. અને આત્મસ્વરૂપમાંજ સાર લાગેછે. કહ્યું છે કે-જ્ઞાનસારમાં દેવચંદ્રકૃત ટીકામાં

ગાથા.

તિણસંથારનિસિન્નો, મુણિવરો ભઠરાગમયમોહો ॥

જંપાવઙ્ મુત્તિસુદ્ધં, કત્તો તં ચક્રવટ્ટીવિ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ-નષ્ટ પામ્યાછે રાગ, દ્વેષ, મદ, મોહ, તે જેના એવાં મુનિવર્ય તૃણના સંથારમાં બેઠા છતાં જે સુખ પામેછે તે સુખ ચક્રવર્તિને પણ વ્યાપી હોય, અર્થાત્ મુનિવર્યને આત્મસ્વભાવે રમણ કરતાં જે સુખ થાયછે તે સુખનો લેશ માત્ર ચક્રવર્તિને નથી. પર-ભાવમાં રમણ કરનાર ચક્રવર્તિ સુરપતિને આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. કહ્યું છે કે-જ્ઞાનસારમાં દેવચંદ્રકૃત ટીકામાં.

ગાથા.

જેપરભાવે રત્તા, મત્તાવિસયેસુપાવ બહુલેસુ ॥

આસાપાસનિવઙ્ગા, ભમંતિ ચન્નગઙ્ મહારન્ને ॥

જે ભવ્યો પરભાવમાં મગ્ન છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયોમાં જે મત્ત થયા છે, અને આશાપાશથી જે બંધાયાછે તે ચતુર્ગતિરૂપ મહાઅરણ્યમાં પરિભ્રમણ કરેછે, પરભાવમાં આસક્ત જીવો સમયે સમયે સાત વા આઠ કર્મ ગ્રહણ કરી પુનઃ પુનઃ પુનર્જન્મ ધારણ કરેછે. માટે પર-ભાવમાં રમવું તે આત્માને યોગ્ય નથી. જડવસ્તુમાં કિંચિત્ પણ સુખ નથી. પરમાં થતો રાગભાવ તેને પરિહરી પોતાના આત્મામાં જે સ્વોજ કરેછે તે પરમ સુખ પામેછે. યથા સમાધિશતક-

રાગાદિકજબપરિહરી, કરે સહજગુણસ્વોજ;

ઘટમેં ભી પ્રગટે તદા, ચિદાનંદકી મોજ " ૧ ॥

परमात्मदर्शन

(३४५)

वळी भव्यपुरुषोए समजवुं के—अहं अने ममपणुं पोताना आत्मांमां नथी. ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप रत्नत्रयीनो स्वामी हुंछुं अन्य किंचित् वस्तु मारी नथी. आत्मिक धन तेज मारुंछे. अन्य मारु नथी. आत्मस्वरूप जडमां कल्प तो जन्मनी वृद्धि थायछे. अने आत्मस्वरूप आत्मांमांज धारी निश्चय करे, स्वस्वभावमां रमे तो मोक्षनी प्राप्ति थायछे. यथा समाधिशतक—
आपभावना देहमें, देहंतरगति हेत ॥

आपबुद्धि जो आपमें, सोविदेहपददेत ॥ १ ॥

भावार्थ—सारमां सार के—आत्मना स्वद्रव्यादिक चतुष्टयमां आत्मत्वपणुं धारण करी एक चित्तंथी आत्मध्यान करे ते संसार चक्रमांथी दूरेछे. आत्मा पोतेज परमात्मरूप वनेछे. ते बतावेछे.

समाधिशतक.

भविशिवपददे आपकुं, आपहि सन्मुखहोइ ॥

तातेंगुरुहे आतमा, अपनो ओर न कोइ ॥ १ ॥

आत्मा पोते पोताना सन्मुख थायछे, त्यारे पोते पोताने शिवपद आपेछे. ते माटे निश्चय नयथी जोतां आत्मा पोते पोतानो गुरु छे, आत्मानो अन्य कोइ गुरु नथी. निश्चयनयथी पोतानो गुरु आत्मा छे, पण तेवुं समजीने व्यवहारथी परमोपकारक सद्गुरुनुं आलंबन मूकवुं नहि. पोतानी साध्यदशमां सद्गुरुनुं आलंबन पुष्टिनिमित्त कारणछे. सद्गुरुना आलंबनथी आत्मानी शुद्धपरिणति थायछे. राग द्वेषमां परिणमवुं ते परपरिणति छे. बहिरात्मा परपरिणतिने पोतानी करी मानेछे. संयम अंगीकार करीने पण जे भिक्षु रागद्वेष परिणामयुत परपरिणतिमां राचेछे, मारुंछे ते द्रव्यसाधु जाणवो. कहुंछेके—

(૩૭૩)

આત્મસ્વભાવ.

પરપરિણતિગોતાનીમાને, ક્રિયાગર્વે ગહેલો ।
 ઝનકું જિનકહો કેમ કહીએ, સો મૂર્ખમે પહેલો--પરમ
 જૈનભાવે જ્ઞાને સવમાંહિ, શિવસાધન સદ્દહીએ;
 નામ ભેખસું કામ ન સીજે, ભાવ ઝદાસી રહીએ--પરમ
 જ્ઞાન સકલનય સાધન સાધો, ક્રિયા જ્ઞાનકી દાસી;
 ક્રિયા કરત ધરતુ હે મમતા, આઈ ગલેમે ફાંસી--પરમ

इत्यादि समजी स्वस्वभावमां रमण करवुं. एज सारमां सार
 आत्महित कर्तव्यनी पराकाष्ठा जाणवी. सर्व पुद्गलभावमांथी प्रीति
 हठावी एक आत्मां प्रीति जोडवी. सर्व जगत् प्रपंच दुःखमय छे
 एम आत्मांथीए सतत अंतःकरणमां भावना भाववी. प्रथम बाल
 जीवने बाह्य वस्तुमां सुख ज्यां त्यां लागेछे अने अंतरमां उतरवुं ते
 महा दुःख लागेछे, पण ज्यारे द्रव्यानुयोगनुं ज्ञान थायछे अने आ-
 त्मतत्त्वनी सम्यक् श्रद्धा थायछे त्यारे अंतरमां एटले आत्मस्वरूप-
 मां सुख लागेछे अने बाह्य जगत्मां दुःख भासेछे. अमृतरस भो-
 जनना करतां पण ज्ञानीने आत्मस्वभावमां अनंतगुणु विशेष सुख
 लागेछे. अमृतरसभोजननुं सुख क्षणिक छे अने आत्मसुख तो
 नित्यछे माटे ते अनुपमेय छे. आत्मसुखनुं वर्णन करोडो जिहाथी
 लाखो वर्ष सुधी वर्णन थतां पण कदापि पुरु थतुं नथी. आत्मिक
 सुख अवर्ण्य छे.

अनुभवज्ञाननी ज्यारे प्राप्ति थायछे त्यारे आत्मिकसुखनी
 सत्य निश्चय प्रतीति थायछे. अनुभवज्ञान विना सत्य सुखनी प्र-
 तीति थती नथी श्री चिदानंदजी महाराज पण अनुभवज्ञान विषे
 आनंदमां आधी मद्द्वारा विवेचन करेछे. यथा.

परमात्मदर्शन.

(३९५)

पद.

अबधु पियो अनुभवरसप्याला, कहत प्रेममतिवालाः अ०
 अंतर सप्त धातरस भेदी, परमप्रेम उपजावे
 पूरवभाव अवस्था प्रगटी, अजवरूप दर्शावे. अ०
 नखशिख रहत खुमारीजाकी, सजल सघनघन जेंसी;
 जिण ए प्याला पिये तिणकुं, और बात हे केंसी. अ०
 अमृत होय हलाहल जाकुं, रोगशोगनवी व्यापे;
 रहत सदा घरगाय नशासैं, बंधन ममता कापे. अ०
 सत संतोष हैयामां धारे, जनमनां काज सुधारे;
 दीनभाव हीरदे नहि आणे, अपनो विरुद संभारे. अ०
 भावदया रणथंभ रोपके, अनहद तुर बजावे;
 चिदानंद अतुली बलराजा, जीतअरि घर आवे. अ०

वली तेमज श्री आनंदघनजी महाराज पण कहेछेके—

आतम पियाला पीओ मतवाला, चिन्ही अध्यातम वासा;
 आनंदघन चेतन व्हे खेले, देखे लोक लोक तमासा-
 आशा औरनकी क्या कीजे.

अनुभवगम्य एवं आत्मिक सुख बाह्येन्द्रियथी कदी जणातुं
 नहीं. बहिर्गामी प्राणीओ आत्मिकसुखनो गंध पण अनुभवी शं-
 कता नहीं. साकरनो स्वाद जेम विषनो कीडो जाणी शकतो नहीं
 तेम अज्ञानी जीव आत्मिकसुखनो लेश पण जाणी शकतो नहीं.
 शाश्वत एवं आत्मिक सुख साध्य जाणी तेनी प्राप्ति अर्थे सदाका-
 ल चारित्र धर्मनी आराधना ज्ञानी मुनिवर्यो एकाग्र चित्तथी क-

(૧૫૬)

શનુભવ.

રેણે, ઝ્યાંસુધી વાહ્ય પૌદ્ગલિકસુખની ઇચ્છા હૃદયમાં પ્રગટેણે ત્યાં સુધી સમાકિતની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જ્ઞાનીઓ વાહ્યભાવને સ્વપ્નવત્ ધ્રાંતિ સમાન જાણી સત્યઆત્મિકસુખને માટે પ્રયત્ન કરેણે. પૂરપુદ્ગલવસ્તુમાં આત્મિકધર્મ નથી. સ્વસ્વરૂપમાં રમણતા કરવી તેમાંજ લયલીનતા કરવી, મનવચન અને કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ પરવસ્તુમાં થાયણે તે નિવારવી, અને બહિર્વાચા અને અંતર્વાચાનો સ્પર્શ કરી ભવ્યો મુક્તિ પામે માટે આત્મિકધર્મનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જ્ઞાનથી આત્મિકધર્મનો પૂર્ણ રાગ પ્રગટેણે તે સંબંધી કહેણે.

॥ દુહા. ॥

લાગ્યો ચોલ મજીઠનો, રંગ તે કબુ ન જાય;
ધર્મ રંગ લાગ્યો થકો, કદી ન દૂર થાય ॥ ૧૩૯ ॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર સહિત આત્માનું સ્વરૂપ સમજતાં પરપુદ્ગલ વસ્તુ ઉપરથી રાગ ઉતરી જાયણે, અને આત્માના સ્વરૂપપર રાગ થાયણે. આત્મા વિના કોઈપણ વસ્તુ પ્રિય લાગતી નથી. આત્માના ગુણ પર્યાયમાંજ રંગાવાનો રાગ થાયણે. એ આત્માની જ્ઞાનદૃષ્ટિ સ્વસ્વરૂપને યોગ્ય ગણેણે ને પરવસ્તુને હેય ગણેણે. આવી દશા થતાં આત્મા પરવસ્તુઓમાં અહંમત્વ ભાવથી છુટેણે. વિરતિ સન્મુખ થણો આત્મા ગુણસ્થાનકપર ચઢેણે. દશમા ગુણઠાળાએ રાગ પળ છુટી જાયણે અને તેરમા ગુણઠાળાએ કેવલજ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો ભોગી બનેણે અને અન્તે સિદ્ધબુદ્ધ બનેણે. આવી પરમાત્મદશાનું સ્વરૂપ દેસ્વાડનાર સદ્ગુરુ મહારાજણે. માટે સર્વ ઉપકારીમાં મુખ્ય એવા ગુરુના ઉપર પ્રીતિ ધારણ કરવી જોઈએ તે દર્શાવેણે.

परमात्मवर्षान्.

(३४९)

“ दुहा. ”

पुत्र पुत्रीदारा थकी, अधिको गुरुपर प्यार;
 प्राणाधिक गुरुप्रेम जास, ते भवजल तरनार ॥१४०॥
 एकज देव गुरु पिता, तेमां नही संदेह;
 धर्मगुरु ते एकछे, अन्य मुनि गुणगेह. ॥१४१॥
 धर्मगुरुनी चाहना, धर्मगुरुनी भक्ति;
 धर्मगुरु हृदय वदो, सेवो निजनिज शक्ति ॥१५२॥
 सेवे शाश्वत संपदा, देखे दळदर दूर ॥
 वंदे वंद्यपणुं वरे, गिरुआ गुरु जरूर. ॥१४३॥

भावार्थ:—पुत्र पुत्री अने स्त्री उपर मनुष्यने घणो प्यार होयछे तेना करतां पण अत्यंतराग सदगुरुपर थवो जोडए. पोताना प्राण करतां पण सदगुरु उपर अत्यंत प्रेमधारण करे. हृदयमां गुरु शब्द स्मरणनो मंत्र जाप करे. गुरुनी आज्ञा शीर्षपर धारण करे. एवो भव्यजीव जन्म जरा मरणथी पूर्ण समुद्र तरी शकैछे, अने मुक्ति पुरी प्राप्त करेछे. भव्यजीवोए समजवानुं के पिता एक होयछे सददेव पण एक होयछे, तथा समाकितप्रदधर्माचार्य सदगुरु पण एक होयछे. समाकितप्रदधर्माचार्य मुनिनो जे उपगार छे तेना तुल्य अन्य मुनिओनो उपगार नथी. अन्य मुनिओनो यथायोग्य भक्ति विनय साचववो. धर्म गुरुना सिन्नाय आचार्य उपाध्याय पण आत्माना मुख्य उपगारी नथी, माटे धर्मगुरु उपर विशेषतः भक्ति प्रीति धारवी. अने तेमनुं बहुमान करवुं. स्वकीय शक्तितः धर्मगुरुनुं आराधन करवुं. धर्मगुरुनी सेवाथी त्वरित शाश्वत शिवसंपदानी प्राप्ति थायछे, सदगुरुने देखवाथी दारिद्र.

(૩૫૦)

આત્મદષ્ટિ.

દૂર થાયછે. સદ્ગુરુને વાંદવાથી આત્મામાં વંચપણું પ્રગટેછે. ગુરુની ગુરુતા અલૌકિકછે. ગુરુની ગુરુતા વર્ણી શકાય તેમ નથી. મન્ય જીવો ગુરુની સેવા કરતાં ગુરુની ગુરુતા પ્રાપ્ત કરેછે. શ્રી સદ્ગુરુ કથિત અનંતગુણધામભૂત ચેતનમાં સદાકાલ રમવું તે દર્શાવેછે.

દુહા.

અજ અવિનાશી જીવછે, અલંક આનંદ પૂર;
 અંતર્દષ્ટિ દેખતાં, ચેતન નહીંછે દૂર. ॥૧૪૪॥
 ચેતનગત તુજ ધર્મ દેખ, બાહિર ક્યાં કર રુચાલ;
 બાહિર્દષ્ટિ દેખતાં, ભવની અરહટ્ટ માલ. ॥૧૪૫॥
 ધ્યાન ધારણા ધારીને, દેખો આત્મસ્વરૂપ;
 બહિરૂપાધિ ત્યાગતાં, શિવશાશ્વતચિદ્રૂપ ॥૧૫૬॥
 મૂઠ બન્યો માનવ કહે, ઓ જાણે જગમૂઠ ॥
 આતમ જ્ઞાની સુખ લહે, એ અંતરનું ગૂઠ. ॥૧૪૭॥
 રાગદ્વેષ પરિણામની, ગ્રંથિત્યાં છેદાય ॥
 શૂન્યદશા પુદ્ગલતણી, સહેજે શાંતિ પાય. ॥૧૪૮॥

ભાવાર્થ—અજ અને અવિનાશી એવો આત્માછે. આત્મા અનાદિ કાલથીછે માટે તે અજ કહેવાયછે. અને અનંતછે માટે અવિનાશી કહેવાયછે. અલંક અને આનંદથી પરિપૂર્ણ આત્માછે યત્ર આનંદછે તત્ર આત્માછે. આનંદનો જ્ઞાતા તથા આનંદનો ભોક્તા આત્માજછે. અંતર્દષ્ટિરૂપ જ્ઞાનદર્શનથી દેખતાં આત્મા શરીરમાંજ રહેલોછે. પોતાનાથી દૂર નથી. આત્માની શોધલોઝ માટે પરદેશ જવા જરૂર નથી. શરીરમાંજ વ્યાપી રહેલો આત્મા જ્ઞાનદષ્ટિથી

परमात्मदर्शन.

(३५१)

शोधतां जणायछे. बाह्यदृष्टिथी देखतां जडवस्तु जणायछे. अने जड-
वस्तुमां आत्मपणुं नथी. जडवस्तुथी भिन्न अरूपी आत्मानो निर्धार
करी स्वस्वभावमां रमवुं योग्यछे. जडवस्तुनो धर्म परिहरिने आ-
त्मानो धर्म देखवो जोइए. मनवाणी अने कायाना वेपारमां आत्म
धर्म नथी. आत्मानो धर्म त्रियोगनी क्रियाथी तथा लेश्याथी पण
भिन्नछे. धारणा तथा ध्यानरूप संयम अवलंबीने हे भव्यजीव आ-
त्मानुं स्वरूप देख. संयममां विघ्नभूत बहिरूपाधि परिहरिने स्वस्व-
रूपमां रमतां शाश्वतकल्याण ज्ञानमय आत्मा थायछे. आत्मज्ञानी
आत्मां रंगायछे त्यारे तेने बाह्यवस्तु भ्रांतिमय लागेछे. तेथी
तेने बाह्य वा वेपारमां आचारमां प्रेम रहेतो नथी तेथी जगत् लोको
आत्मज्ञानीने (उन्मत्त) गांडो वनी गयो एम जाणेछे, त्यारे आ-
त्मज्ञानी एम जाणेछे के जगत्ना लोको आंधळाछे. पोतानी रुद्धि
आत्मां नही देखतां जडवस्तुमां राचीमाची रहेछे. अरे तेवा अ-
ज्ञानी जीवो जन्मजरा मरणनां दुःख पामे तेमां शुं आश्चर्य ? एवं
ज्ञानीने अज्ञानीनी दृष्टिमां भेद पडेछे, अने एक बीजाने भिन्न दृष्टि-
थी देखेछे. आत्मज्ञानी अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रनो धामभूत आ-
त्माने मानतो आत्मांज स्थिरउपयोगथी रमणता करी क्षणेक्षणे
अनंतानंद भोगवेछे. आवी शुद्धदशामां रागद्वेषना परिणामनी
ग्रंथी छेदायछे, अने रागद्वेषना अभावे शून्यपणुं वर्तयछे.
अने आत्मानी सहजशांति प्रगट थायछे. ज्ञानीने आवी सहज
शांतिदशामां जे भान वर्तेछे ते जणावेछे:-

“ दुहा. ”

भासे एकज आतमा, सोऽहं सोऽहं ध्यान;

तत्त्वमसि आकारमां, त्रिदानंद भगवान् ॥१४९॥

(૩૫૨)

આત્મદશા.

આત્મદશા તેવી થઈ, થિસ્તા નિજ ગુણમાંહિ;
વશ વર્ત્યું મન માંકહું, દુઃખ દેખે નહિ ક્યાંહિ. ૧૫૦

માત્રાર્થ:-ઉત્કૃષ્ટનિર્મલધ્યાનદશામાં શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ ભાસે છે. સોડહં શબ્દથી આત્મધ્યાન કરાયછે. આત્મા તેજ હું હત્યેવંસોડહં શબ્દનો પરમાર્થછે તે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રમય તેજ તું આત્માછે. બીજો નથી. એમ તત્ત્વમસિ શબ્દનો પરમાર્થછે. સોડહં અને તત્ત્વમસિ વાક્યથી અનેકાંતધર્મમય ચેતનનું ધ્યાન ધરતાં આત્મા કેવલજ્ઞાન અને જ્ઞાયિક સુખ પ્રગટાવેછે, અને ત્રણ જગતમાં પૂજ્ય થાયછે. સોડહં અને તત્ત્વમસિના ધ્યાનમાં પોતાનો આત્માજ ચિદાનંદ ભગવાનરૂપ ભાસેછે. નિર્મલધ્યાનમાં શુદ્ધ આત્મદશા થતાં આત્માના ગુણોમાં સ્થિરતા થાયછે અને મનમર્કટની ચંચલતારૂપ સંકલ્પવિકલ્પ બંધ પડેછે. અર્થાત્ મન વશમાં થાયછે. તાદૃશીધ્યાનદશામાં દુઃખના ઓઘ વિલય પામેછે. કોઈ ઠેકાણે તેને તે કાલે દુઃખ દેખાતું નથી. ભવ્યજીવોએ નિર્મલધ્યાનદશામાં સ્વજીવન ગાઢું જોઈએ. અંતર્દૃષ્ટિ થયા વિના જે જીવો વાહ્ય આચારમાં ધર્મ માનેછે અને આત્માના ધર્મ તરફ લક્ષ રાખતા નથી તે પોતે ધર્મ પામી શકતા નથી, ને બીજાને ધર્મ પમાડી શકતા નથી.

“ દુહા ”

રાગે વાહ્યા જીવડા, આપ મતીલા મુંડ;
શૂતે ઢોંગી પાપીયા, લેઈ સાધુનું ઝૂંડ. ૧૫૧
સ્વાવું પીવું પહેરવું, વેશે માને ધર્મ;
સત્ય ધર્મ નવિ દાસવે, બાંધે ઉલટાં કર્મ. ૧૫૨
સત્ય દેવ નવિ ઓઢવે, દે મિથ્યા ઉપદેશ;
પ્રેટમરુ કદાગ્રહી, કુયુરુ પામે ક્લેશ. ૧૫૩

परमात्मदर्शन.

(१५३)

मनमाया मूके नहीं, पहेरे त्यागी वेष;

भगवा वस्त्रे भोळवे, लोको देशो देश.

१५४

धननी आशा राखता, ठगे ठगारा लोक;

टीलां टपके धर्म क्यां, आत्म विना सहू फोक. १५५

भावार्थ—अहंमत्त्वमां तळीन वनेला केटलाक, आत्मा अने परमात्मानुं स्वरूप नहि जाणनार ढोंगी पापिजीवो साधुनुं वृन्द लेइ गामोगाम फरी धन उघरावी दुनियाने ठगेछे, पण वस्तुतः जोतां विचारा ते ठगायछे. केटलाकतो खावामां; पीवामां अने वस्त्रवेषमांज एकांते व्यवहार निश्चयनय अवबोध्या विना धर्म माने छे. धर्मनुं शुं स्वरूप छे ते सापेक्षदृष्टिथी पांते जाणी शकता नथी तो अन्यने शी रीते जणावी शके. धर्मना नामे ढोंग करी मिथ्या उपदेश आपी पोते बुडेछे. अने अन्य जनोने पण संसाराब्धिमां बुडाडेछे. अष्टादश दोषरहित सत्य देवने ते जाणी शकता नथी. सत्यज्ञानना अभावे स्वच्छंदताथी मनमां जेम आवे तेम मिथ्या उपदेश आपेछे. एतादृश उदरपूर्तिस्वार्थसाधक अज्ञान कुगुरूओ बहिरात्मभावथी भवपरंपरा ग्रही क्लेश पामेछे. मनमां रहेलुं मिथ्या वस्तुओनुं ममत्व मूके नहि अने त्यागीनो वेष पहेर्यो तेथी शुं थयुं. ब्राह्मत्याग अने अन्तर् त्याग ए वे त्यागनी जरूछे. उपरना फक्त ब्राह्म त्यागथी त्यागीपणुं कहेवातुं नथी. तेमज ज्ञानगर्भितवैराग्य विना केटलाक परिग्रहादिक उपाधिमां रक्त होय छतां ब्राह्मत्यागनो अनादर करी अन्तर् त्यागी केहरावे ते पण अनेकान्तनय विरूद्ध छे. माटे ब्राह्मथी फक्त देखाता त्यागी भगवां वस्त्र पहेरी कुपंधनी जाल्मां लोकोने फसावेछे. धननी आशा धारक कुगुरूओ अलौकिक ठग जाणवा. आत्मज्ञान थया विना उपरनां टीलां टपकां मायाथी

(૩૫૪)

સત્ય બોધ.

કરવામાં આવેતો તેથી કંઈ આત્માની રુદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી, તેમજ જન્મજરા મરણના બંધનમાંથી છૂટાતું નથી. સાતનય અને ચારનિક્ષેપ પૂર્વક આત્મજ્ઞાન થાયતો મિથ્યાત્વ દેવગુરુ ધર્મના અસદ્ વિચારોનો નાશ થાય. સત્યજ્ઞાન થતાં આત્મજ્ઞાનિની વ.વી દશા થાયછે તે જણાવેછે.

“ દોહા. ”

ફોક કરીને લેખવે, સઘઠો દુનિયા સ્ખેલ;
 યોગાભ્યાસી થઈ સ્ખે, ટાઠે સઘઠો મેલ. ૧૫૬
 ટાઠે કર્મનો મેલ સહુ, કરતાં નિજગુણ સ્ખોજ;
 નિજઘટમા પ્રગટ તદા, ચિદાનન્દની મોજ. ૧૫૭
 અન્તર ઋદ્ધિ જ્ઞાનથી, પ્રગટપણે નિરસાય;
 બાહિર રુદ્ધિ બાપડા, મોઠા જન ભરમાય. ૧૫૮
 તનુ ધન યૌવન કારમું, વિદ્યુતના ચમકાર;
 પરભવ સાથ ન આવતું, મોઢ્યા મૂઢ ગમાર. ૧૫૯
 રાઘી રુદ્ધિ કારણે, જીવ હણે કેઈ લાસ;
 જીવન તેનું ધૂઠસમ, જાણો છેવટ રાસ. ૧૬૦

ભાવાર્થ—આત્મજ્ઞાનિસન્ત સાંસારિક મોહક પદાર્થોની રચનાને મિથ્યા જાણેછે. મોહક જડ પદાર્થોમાં આત્મત્વ લેશ માત્ર નથી. એવં સત્ય નિશ્ચય કરી યોગાભ્યાસમાં પ્રવૃત્ત થાયછે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિથી અષ્ટકર્મરૂપ મલિનતાનો નાશ કરેછે, ધ્યાન અને સમાધિદ્વારા શોધ કરતાં આત્મા પોતેજ પરમાત્મા બનેછે, પરમાત્મા બનતાં અનન્તમુગ્ધ

परमात्मदर्शन.

(१५५)

अविर्भाव थायछे, केवलज्ञानथी सर्व रूद्धि प्रत्यक्ष देखायछे एम आत्मज्ञानिमां परिपूर्ण निश्चय थायछे. आत्मज्ञानी विचारेछे के अज्ञानि पामर जीवोज उपाधिमय सुवर्णादिक बाह्यरूद्धिमां आसक्त होयछे. एवं सत्य अने असत्यतो ज्ञानी निर्णय करेछे. सम्यक्त्व जडवस्तुओ जेवीके तनु धन यौवनपणुं आदिने विशुत्ना चमकारानी पेठे क्षणिक गणेछे, परभव तेमांनुं कंड साये आवतुं नथी. अहो मोहमग्नपूर्वजीवो ! जडवस्तुओमां राची रहेछे. जे वस्तुओपर राग धारण करेछे ते वस्तुओ मृत्युवाद कद्दी साये आवती नथी. ज्यारे आ प्रमाणे छे तो आत्मानि रूद्धिविना बाह्य जड रूद्धिमां केम मूढनी पेठे राचीमाची रहुं. अलवत तेमां मूर्च्छाधारवी ते योग्य नथो एम ज्ञानी निश्चय करेछे, अज्ञानी पामर जीव बाह्य लक्ष्मीनी प्राप्ति माटे अनेक प्रकारना हिंसक व्यापारोमां लक्ष जीवोनो नाश करेछे. अज्ञानी जीव मत्स्य, सूकर, पशु, पंखीना जीवोनो आ जीविका माटे नाश करेछे. तादृशअज्ञानिजीवोनुं जीवुं पाप माटे जाणवुं. एतादृश पापी जीवो मृत्यु पामी नरकादि दुर्गतिमां जायछे. तेवा पापी जीवोनुं जीवन धूळ करतां अनिष्ट पृथ्वीमां भारभूत जाणवुं. तेवा पापिजीवो उपर करुणादृष्टिथी जोवुं योग्यछे. उपदेशा दिक्थी पापियोनो उद्धार करवो जोइए. राखमां पडेलुं घृत यथा नकासुं छे तद्वत् पापिजीवोनुं आयुष्य स्वपरापेक्षाए तेवी पापदशा वर्ते तावत् पर्यंत नकासुं जाणवुं. बाह्यमांज सुखनी बुद्धि धारण करनाराओनी अशुभ प्रवृत्ति दर्शावेछे.

“ दुहा. ”

असत्य वाणी बोलीने, जन वंचे धन हेत;
अशुभ कर्म पोठी भरी, जन्म जन्म दुःख लेत. १६१
बोरी चाडी चुंगली, परनिन्दा अपमान;

(૧૫૧)

અનંધિકારી.

- સ્વાર્થિક જન સંસારમાં, નરક ગતિ મેમાન. ૧૬૨
 આત્મ પ્રશંસા દાખવે, કરે ઘણો અભિમાન;
 ધર્મ મર્મ પામે નહીં, પાપી જન નાદાન. ૧૬૩
 પરાપકર્ષે ચિત્તહું, પરને દેવે આઠ;
 પાપારંભ કરે સુદા, દેવે ક્રોધે ગાઠ. ૧૬૪
 પાપ પુણ્ય સમજે નહિ, લે નહિ સદ્ગુરુ બોધ;
 નાસ્તિક વાદી જીવડા, કરે શું ચેતન શોધ. ૧૬૫
 મત એકાન્તે જે ગ્રહે, તે અજ્ઞાની જીવ;
 ભ્રમણ કરે ભવમાં અરે, લે નહિ શાશ્વત શિવ. ૧૬૬
- ભાવાર્થ—અજ્ઞાની મોહી જીવ, અસત્ય વચન વદીને ધનાદિક માટે મનુષ્યોને છેતરેછે, ચોરી, ચાડી, ચુગલી કરેછે. પાપાચરણોથી પાપકર્મ ગ્રહણ કરેછે, પરજીવોની નિન્દા કરેછે, પરનું અપમાન કરેછે. સ્વાર્થિક મનુષ્ય સંસારમાં અનેક જન્મ દુઃખ પરંપરા પામે છે, બાહ્યદષ્ટિધારકજીવ સ્વકીય પ્રશંસા કરેછે. અજ્ઞાની બાહ્ય ધન સત્તાદિકથી મનમાં અત્યંતાભિમાન ધારણ કરેછે, બાહ્યદષ્ટિજીવ જન્મમાંજ ધર્મ માનેછે તેથી આત્મધર્મનો મર્મ સમજતો નથી. મનુષ્યજન્મ પામી જે આત્મતત્ત્વની શોધ કરતો નથી અને મોહક પદાર્થોમાંજ અહંમત્ત્વ ધારણ કરેછે એવો જીવ મોક્ષથી પરાહુસ્ત રહેછે, આત્મધર્મની પ્રાપ્તિ દુર્લભછે, નવતત્ત્વનું સૂક્ષ્મજ્ઞાન થયા વિના આત્મજ્ઞાન થતું નથી, બાહ્યદષ્ટિજીવ અન્યને નીચો પાડવા પ્રયત્ન કરેછે. તેમજ કૃત્યાકૃત્ય વિવેક પરાહુસ્ત થઈ પરજીવને આઠ ચઢાવેછે. પરજડવસ્તુમાં મમત્ત્વથીવંધાઈ અનેક પ્રકારના પાપારંભ કરેછે. ક્રોધથી પરને ગાલી દેછે, અજ્ઞાની જીવ પાપ પુણ્યમાં સમજતો નથી.

परमात्मदर्शन.

(३५७)

तेमजमोहांधवनवाथीसद्गुरूनो उपदेश श्रवण करतो नथी.सद्गुरूपदेश श्रवण करनारने श्रेष्ठ मानतो नथी, मिथ्यात्वमां अंध थएला जीवो आत्मानी शोध करी शकता नथी. नास्तिकवादी एकान्तमत धारण करेछे. एगंतो होइ मिळत्तं, एकांतपणाथी मिथ्यात्वछे. मिथ्यात्वी (अज्ञानी) मिथ्यात्वना योगे भवमां परिभ्रमग करेछे, सम्यग्दृष्टि थया विना सम्यक्चारित्रमार्ग प्राप्त थतो नथी. सम्यग्दृष्टिजीव सम्यक् चारित्र पामी शिवसुख संपत्ति प्राप्त करेछे. मिथ्यात्वीजीव वस्तुने यथार्थपणे जाणतो नथी. ईश्वरने मानेछे तोपण ते विपरीत पणे जाणीने मानेछे ते प्रसंगतः जणावेछे, तेमां कोइक तो ईश्वर जगत्तनो बनावनार मानेछे तेनो मत प्रथम दर्शावेछे.

॥ दुहा. ॥

कर्ता ईश्वर मानता, जगमां केइक लोक;

सुखदुःख इश्वर आपतो, ए पण वाणी फोक ?६७

भावार्थ—जगत्तमां केटलाक मनुष्यो जगत्तनो बनावनार ईश्वर मानेछे, केटलाक मनुष्यो खुदाने जगत्तनो बनावनार मालीक माने छे, त्यारे स्त्रीस्तियो ते खुदानी मान्यता नहीं स्वीकारतां इथुनो परमेश्वर जगत्तनो बनावनारछे एम स्वीकारेछे. स्त्रीस्तिलोकोनी आवी मान्यताथी विरुद्ध पडी केटलाक हिंदुस्थानना हिंदुओ ब्रह्माने जगत्तनो बनावनार मानेछे त्यारे केटलाक ते पक्षथी विरुद्ध विष्णुभगवान् जगत्तनो बनावनारछे एम मानेछे. त्यारे केटलाक ते पक्षथी विरुद्ध पडी महादेवने जगत्तनो रचनार स्वीकारेछे. त्यारे केचित् शक्तिथी जगत्त बन्नुंछे एवं स्वीकारेछे. स्त्रीस्तियो दुनिया सातहजार वर्ष लगभगनी बनेली मानेछे. त्यारे मुसल्मानो तेथी विशेषवर्ष कहेछे. ब्रह्मा जगत्कर्तावादी तेथी भिन्न रीते कहेछे. शक्तिपंथवाला तेथी भिन्नपणुं स्वीकारेछे. आर्यसमाजीओ जगत्त अनादिछे एम

(૩૫૦)

કર્તૃત્વવાદ.

માનીને પુનઃ જગત્નો બનાવનાર ईश्वर સર્વથી ભિન્નરીત્યા કયેછે, સ્ત્રીસ્તિ મુસલ્માન અને હિંદુઓ જગત્નો બનાવનાર ભિન્ન ભિન્ન સ્ત્રી-કારેછે, સર્વ પોતપોતાવા પક્ષને સત્ય માની અન્યપક્ષનું સ્વંડન કરેછે. મુસલ્માનો પૂનર્જન્મ સ્વીકારતા નથી. પશુપંચીમાં સુદાનીરુ (જીવ) છે એમ માનેછે ત્યારે સ્ત્રીસ્તિધર્મવાળાઓ તો પુનર્જન્મ માનતા નથી. તેમજ પશુપંચીમાં આત્મા નથી એમ માનેછે. પશુપંચીને માર્યામાં સ્ત્રીસ્તિયો દોષ માનતા નથી. હિંદુધર્મ પાઠનારાઓ પુનર્જન્મ માનેછે તેમજ પશુપંચીમાં આત્મા માનેછે અને પશુપંચી માર્યામાં પાપ ગણેછે, જૈનધર્મ પાઠનારાઓ પુનર્જન્મ માનેછે અને એવેન્દ્રિયાદિક સર્વ જીવોની દયા પાઠવી તેને મુખ્ય ધર્મ સ્વીકારેછે. હિંદુઓમાં વેટલાક વેદનો બનાવનાર ईश्वર છે એમ માનેછે. ત્યારે વેટલાક કહેછેકે વેદનો બનાવનાર કોઈ નથી એમ પૌરુષેય અને અપૌરુષેયનો વિવાદ ચાલી રહ્યોછે. વેટલાક હિંદુઓ કર્મકાળને મુખ્યધર્મ તરીકે ગણેછે. ત્યારે વેટલાક જ્ઞાનકાળને મુખ્ય ગણેછે. વેદમાનનારાઓ પૈકી વેટલાક જગત્ સ્વપ્ન સમાન ભ્રાંતિરૂપ માની તેનો કર્તા ईश्वર છે એમ માનતા નથી. ત્યારે વેટલાક જગત્નો કર્તા ईश्वર છે એમ માનેછે. જ્ઞાનકાળમાં પણ અદ્વૈતવાદ માનનારાઓ જગત્ અનાદિ માનેછે. અર્થાત્ તેનો બનાવનાર કોઈ માનતા નથી. જે વસ્તુની આદિ નથી અર્થાત્ અનાદિ છે તેનો બનાવનાર કોઈ નથી. જેનો કોઈ બનાવનાર છે તે વસ્તુ અનાદિ કહેવાતી નથી. ડ્યારે જગત્ અનાદિકાલથી છે એમ માન્યું તો ईश्वર કર્તૃત્વવાદ રહેતો નથી. વેદ પશ્ચાત્ ઉપનિષદો બની એમ માનવામાં આવેછે. પશ્ચાત્ વ્યાસઋષિ તેમણે તથા ભગવદ્ગીતા તથા અષ્ટાદશ પુરાણ બનાવ્યાં એવં કેંચિત્ માનેછે. આર્ય-સમાજીઓ અઠાર પુરાણ વ્યાસજીનાં બનાવેલાં માનતા નથી. આધુનિક બનેલાં માનેછે. એમ પુરાણો સંબંધી ચર્ચા ચાલી રહીછે. સના-

परमात्मदर्शन

(१५९)

तनपक्षवाळा तथा आर्यसमाजीओने भगवद्गीता मान्यछे. तेमां पण केटलाक श्लोको प्रक्षिप्त भगवद्गीतामांछे एम आर्यसमाजीओ मानेछे. भगवद्गीतामां पण ईश्वर जीवोने सुखदुःखनो न्याय आपतो नथी. एवं मान्युछे. तथा जगत्कर्तापणुं ईश्वरमां नथी एतुं स्वीकार्युंछे. शिष्य-हे सद्गुरो भगवद्गीताना कया अध्यायमां तेम दर्शाव्युंछे

ते जणावशो-

सद्गुरु-स्वच्छ चित्तथी श्रवण कर.

भगवद्गीता अध्याय पंचम १४ चर्तुदश श्लोक ॥

श्लोक.

न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः

न कर्मफल संयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

नादत्ते कस्यचित् पापं, नचैव सुकृतं विभुः

अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जंतवः ॥ १५ ॥

प्रभु, ईश्वर परमात्मा लोकनां कर्मोने बनावता नथी तथा लोकनुं (जगत्नुं) कर्तृत्व पण ईश्वरमां नथी. अर्थात् दुनियाने ईश्वर परमात्मा रचता नथी. तेमज जीवोने पुण्य पापनो संयोग करावनार ईश्वर नथी. तेमज पुण्यपापनुं फल आपनार पण ईश्वर नथी त्यारे जगत् कर्म विगेरेनुं शुं समजवुं तेना प्रत्युत्तरमां जणावेछे के जीवोने कर्मना स्वभावथी सुखदुःख थया करेछे. जगत् अनाइकालथी छे एम तेनो स्वभावछे. जेवां जीवो कर्म करेछे तेवां फल स्वभाव प्रमाणे भोगवेछे. ईश्वरने तेमां लेवा देवा नथी. तेम छतां जीवो ईश्वरने कर्ता मानी मुंझायछे. पन्नरमा श्लोकमां स्पष्ट जणावे छेके. ईश्वर कोइनां पाप पुण्य ग्रहण करतो नथी कोइ जीवे पाप कर्तुं होयतो ते टाळवा समर्थ नथी. उपनिषद्मां कहुंछे के-

(૩૬૦)

કર્તૃત્વવાદ નિરાકરણ.

શ્લોક.

કૃત કર્મક્ષયો નાસ્તિ, કલ્પકોટીશતૈરપિ;
 અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં, કૃતં કર્મ શુભાશુભં. ॥ ૧ ॥

કોટી કલ્પસતે પણ પુણ્ય પાપરૂપ જે કર્મ વચીએ તે ભોગ-
 ગવ્યા વિના છુટકો નથી. ત્યારે ઈશ્વર જીવોનું પાપ પોતે શી રીતે
 ગ્રહણ કરે, ઈશ્વર જીવોના પાપપુણ્ય લેતો નથી. જીવો શુભ કર્મ
 અને અશુભ કર્મ કરી સ્વયં કર્મના ઉદયથી તેનું ફલ ભોગવે છે,
 ઈશ્વર પેદા કરે છે. ઈશ્વર સંહરે છે એમ અજ્ઞાનથી આચ્છાદિત દૃષ્ટિવા-
 લા જીવો માનીને યુગ્માય છે, જગત્ કર્તા ઈશ્વર આ પ્રમાણે જોતાં
 સિદ્ધ થતો નથી. અન્યત્ર પણ ભગવદ્ગીતામાં ઈશ્વર અને પ્રકૃતિ
 (જગત્) અનાદિકાલથી છે એમ કહું છે જ્યારે બે અનાદિકાલથી
 છે ત્યારે પ્રકૃતિનો કર્તા ઈશ્વર શી રીતે સિદ્ધ ઠરે: અર્થાત્ સિદ્ધ ઠ-
 રતો નથી. તત્ પાઠ: ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૩ ત્રયોદશ—

શ્લોક.

પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ, વિદ્ધ્યનાદી ઉભાવપિ;
 વિકાશંશ્રયુણાંશ્ચૈવ, વિદ્ધિ પ્રકૃતિસંભવાન્ ॥ ૧૯ ॥

પુરુષ (પરમાત્મા) પ્રકૃતિ (જગત્ આબે અનાદિકાલથી છે
 એમ જાણ. સત્ત્વ રજો અને તમોગુણ તથા વિકારો પ્રકૃતિજ છે એમ
 જાણ આ ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે અનાદિકાલથી આત્મા
 અને કર્મ છે. તેમ જગત્ પણ અનાદિકાલથી છે. અદ્વૈતવાદી બ્રહ્મસત્યં
 જગત્ મિથ્યા એક અદ્વિતીય બ્રહ્મજ માને છે. તે જમત્નો કર્તા ઈશ્વર
 અન્ય માનતો નથી આ જગત્ દેખાય છે તે ધ્રાંતિ માત્ર છે. ત્યારે તેનો
 બનાવનાર ઈશ્વર કેમ કહેવાય: એમ અદ્વૈતવાદિયો માને છે. જૈનદર્શન
 જગત્ને જગત્ સ્વરૂપે સત્ માને છે. પણ જગત્ અનાદિથી છે, સત્ત્વાત્

परमात्मदर्शन.

(३५६)

सत्पणाथी जे वस्तु सत् होयछै ते अनादिथी छै. जेम षड्द्रव्य. जिनदर्शनमां षड्द्रव्य सत्छै. हवे मूल विषय जगत् कर्ता ईश्वर संबन्धी निराकरणनोछै. वेदांत ग्रंथाधारे जोतां पण केटलेक स्थाने ईश्वर कर्तृत्व स्वीकार्युछै. अने केटलेक ठेकाणे जगत्नो बनावनार ईश्वर नथी एम स्वीकार्युछै. अन्य दर्शनपण जिन दर्शनना सिद्धांतनो केटलाक अंशे अनुसरेछै. हवे जिनदर्शनमां जगत्कर्तृत्व ईश्वर संबन्धी केवी मान्यता छै ते बतावेछै.

“ दुहा. ”

ईश्वरना बे भेदछै, जीव सिद्ध बे जाण;
कर्ता निज निज कर्मना, जीवो मनमां आण ॥१६८॥
निजने सुखदुःख आपतो, जीवज करी नवकर्म;
कर्ता भोक्ता जीवछै, ईश्वर कर्ता मर्म. ॥१६९॥
चेतन ईश्वर जाणीए, नय व्यवहार प्रमाण
अशुद्ध नय ईश्वर कथ्यो, सापेक्षा मन आण. ॥१७०॥
कर्ता परपरिणामथी, चेतन ईश्वर जोय;
शुद्ध निश्चय नयथकी, कर्म करे नहि सोय. ॥१७१॥
सुख कर्ता निज भावथी, दुःख कर्ता परभाव;
परपरिणतिना नाशथी, कर्ता निजगुण दाव. ॥१७२॥
सापेक्षा समजे नहीं, पक्ष ग्रहे एकात;
ईश्वर कर्ता मानता, निरपेक्षाथी भ्रान्त, ॥१७३॥
कर्म मेल जेने नहीं, निराकार भगवान्;
कयुं प्रयोजन इशने, कर निश्चयथी ज्ञान. ॥१७४॥

(६९९)

सापेक्षाय ईश्वर कर्तृत्व.

पस्मप्रभु शिव सिद्धमां, इच्छा नहीं अभिमान;
 शुं तै कर्ता सृष्टिनो, माने भूली भान. ॥१७५॥
 उपादान जेवुं अहो, तादृश कार्य कहाय;
 निसकार ईश्वरथकी, जडसृष्टि न रचाय. ॥१७६॥
 उपादान कारणथकी, जाणो कार्य अभेद;
 उपादान ईश्वर कहो, सृष्टिरूप ते खेद. ॥१७७॥
 निमित्त हेतु इसजो, उत्पत्तिमां होय;
 ईश्वरशक्ति नित्यके, अनित्यते अवलोय. ॥१७८॥
 उपादान कारण विना, निमित्तथी शुं थाय;
 उपादान कोने कहो, ज्ञाने सत्य जणाय. ॥१७९॥
 कार्य पूर्व तो होयछे, कारणनो सदभाव;
 उपादान कारण विना, बने न एह बनाव. ॥१८०॥
 उपादानथी भिन्नछे, निमित्त कारण भाइ;
 भिन्न भिन्न शक्तितणी, क्यांथी एक सगाइ. ॥१८१॥
 सृष्टिनुं कारण कदा, ईश्वर नहीं कल्पाय;
 नाहि तो रासभ षण कहो, सदयुक्तिधर न्याय ॥१८२॥
 पृथ्व्यादिक परमाणुओ, ग्रही सृष्टि निर्माय;
 ईश्वरमां यदि मानीए, चेतन क्यांथी आय. ॥१८३॥
 परमाणु समुदायथी, जडनुं कार्यज थाय;
 चेतन तेथी भिन्नछे, अरणि वन्हि न्याय, ॥१८४॥

परमात्मवृत्तं.

(६५२)

पुञ्जल द्रव्य अनादिछे, तथा जीव पण जाण;
 निश्चयथी बे भिन्नछे, भिन्नशक्ति पण आण ॥१८५॥
 जडमां चेतन परिणमे, जाणो नय व्यवहार;
 अवेकान्तमत ज्ञान वण, लहो न सम्यक्सार. ॥१८६॥
 काल अनादि द्रव्य षट्, कर्ता ईश्वर केम;
 ईश्वरशक्ति नित्यवा, अनित्य शुं त्यां एम. ॥१८७॥
 कर्तृत्वशक्ति नित्य तो, नित्य जगत् निर्माय,
 कर्ता शक्ति अनित्य तो, क्षणमां विणशी जाय ॥१८८॥
 कर्तृत्वशक्ति यादृशी, तादृश कार्यज थाय;
 चित्यानित्य विकल्पथी, बे पक्षे दूषाय. ॥१८९॥
 ईश्वर साकारी कहो, तोपण दोषित थाय,
 पूर्वापर विचारतां, दोषो बहुला आय. ॥१९०॥
 नैयायिकवादी कहे, कर्ता ईश्वर सत्य;
 पण शुक्तिथी लेखतां, लागे तेह असत्य. ॥१९१॥
 ईश्वर इच्छाथी कदा, सृष्टि नहीं निर्माय;
 निमित्त इच्छा जो कहो, केम स्वभाव न थाय. ॥१९२॥
 का विनिश्चयना त्यां लहो, करो कदाग्रह दूर;
 स्वभावशुक्तिथी ग्रहो, तो नहिं दोष जरूर ॥१९३॥
 उपादान मध्ये रही, तिरोभाव जे शक्ति,
 तेनी भाविर्भावता, परिपूर्ण निजव्यक्ति. ॥१९४॥

(३९९)

ईश्वरजगत्कर्मत्वमिराकरण,

शुद्धशक्तिछे वस्तुमां, वर्ते काल अनादि;
 आविर्भाव कराववा, निमित्तहेतु उपाधि. ॥१९५॥
 आविर्भाव जे धर्मनो, कार्यरूप ते थाय;
 घटनुं कारण मृत्तिका, अनन्य कार्य कहाय. ॥१९६॥
 घटनो नाश कर्याथकी, होय न कारण नाश;
 कारण नित्यपणे रहे, मृत्तिकारूप खास. ॥१९७॥
 काल स्वभावने नियति, कर्म उद्यम ए पञ्च;
 कार्य प्रति कारण सदा, धरो न मनमां खंच. ॥१९८॥
 राग दोष जेने नथी, ते ईश्वर कहेवाय;
 तेने इच्छा जो कहो, तो ईश्वरता जाय. ॥१९९॥
 कृत्य कृत्य ईश्वर थया, तेथी शुं इच्छाय;
 इच्छा ज्यां त्यां रागद्वेष, रागदोष दुःख पाय. ॥२००॥
 रागदोष सहचारिणी, इच्छा भवनुं मल;
 ईश्वरने इच्छा कहो, दहा मोह प्रतिकूल. ॥२०१॥
 इच्छा नहीं त्यां सुखशुं, कहेशे जन जो कोय;
 शर्म अनंतु समाधिमां, इच्छा त्यां नहि होय. ॥२०२॥
 जडवस्तुज ईश्वरस्थकी, बने नहि कोइ काल;
 जड स्वभाव न इशमां, धर मनमांहि ख्याल. ॥२०३॥
 ईश्वर शक्ति अनन्तछे, जडनी शक्तिज लेश;
 सृष्टि बनेछे इशथी, युक्ति लहो ए बेश. ॥२०४॥

परमात्मदर्शन.

(११५)

ईश्वर कर्त्ता वादिनुं, वदवुं युक्ति हीन;
 जड ईश्वरना धर्म वे, बर्ते निशदिन भिन्न. ॥२०५॥
 भिन्न धर्म बेना सदा, भिन्नधर्मी पण दोय;
 निराकार साकार एक, रूपी अरूपी जोय. ॥२०६॥
 चेतन शक्ति अनन्त छे, पुद्गलशक्ति अनन्त;
 चेतनशक्ति ज्ञातृता, जडता पुद्गलतंत. ॥२०७॥
 निजस्वभावे शक्ति त्यां, कोइ नही परतंत्र;
 निश्चयनयथी जाणीए, ज्ञानी एम वदंत. ॥२०८॥
 अनन्त शक्ति अस्तिता, निज द्रव्ये वर्ताय;
 पर अपेक्षाए ग्रही, नास्तिता एम थाय. ॥२०९॥
 अनन्त शक्ति अस्तिता, नास्तिताज अवलोय;
 षडद्रव्ये व्यापी सदा, निश्चयथी ए जोय. ॥२१०॥
 चेतनथी जड जो बने, तो खरशृंग जणाय;
 स्वप्न सुखलडी सत्यरूप, सत्य विचारो न्याय. ॥२११॥
 अनन्त शक्ति इशनी, ईश्वरमांहि समाय;
 कूपनी छाया कूपमां, तद्वत् जाणो न्याय. ॥२१२॥
 जडनी शक्ति अनन्त छे, पुद्गल धर्मे जोय;
 वर्णादिक तेमां रह्या, अन्य न कर्त्ता कोय. ॥२१३॥
 आत्मापेक्षार्थी अहो, जडनी शक्तिज लेश;
 सापेक्षा अवबोधीने, लहो न मनमां क्लेश. ॥२१४॥

(३२९)

ईश्वरकृतुवर्णितकरण.

तालपूट विष लेश्या, हस्ती प्राण हणाय;
 निजमिजना धर्मे वहुं, अनेकान्तमतन्याय. ॥२१५॥
 ईश्वर्या सृष्टि बने, कदी नहीं कहेवाय;
 समजु समजे सानमां, सदयुक्ति मन लाय. ॥२१६॥
 जीव कहो चेतन कहो, अर्थ एकनो एक;
 ईश्वरसम छे आतमा, कर्ता इश न टेक ॥२१७॥
 लक्ष चौराशी योनिमां, अटता जीव अनन्त;
 कर्माष्टकना योग्या, पामे दुःख अनन्त. ॥२१८॥
 काल अनादिथी ग्रही, जीवे कर्मनी राख;
 बांधे छोडे कर्मने, करतो परनी आख. ॥२१९॥
 भवितव्यतायोग्या, थावे कर्म विनाश.
 अबिचल आत्मस्वरूपनो, सहेजे थाय विकास. ॥२२०॥
 इशु विभु परब्रह्म छे, परमेश्वर सुखधाम;
 सोऽहं सोऽहं पद लखुं, तेने करुं प्रणाम. ॥२२१॥
 जीवो कर्म क्षणथकी, अनन्त ईश्वर थाय;
 एकाऽनेक सिद्धात्मनी, ज्ञानी कुंची पाय; ॥२२२॥
 कर्म स्वप्न्याथी सारिखा, समजे ज्ञानी विवेक;
 व्यक्ति स्वरूपे भिन्नता, गुणव्यपेक्षा एक. ॥२२३॥
 रागदांष जेने नथी, नहि स्मता परभाव;
 अनन्त आत्मस्वरूपमा, स्मता शुद्ध स्वभाव ॥२२४॥

परमात्मज्ञान.

(६६)

परम प्रभुसम ध्यानथी, स्वकीय चेतन धारः
 ध्याता ध्याने ध्येयरूप, सिद्ध बुद्ध निर्धार. ॥१२५॥
 तादृक् ईश्वर सिद्धने, वन्दु वार हजारः
 तेना सम्बग् ज्ञानथी, लहिये भवजलपार ॥१२६॥
 सम्यग् ज्ञानक्रियाथकी, मोक्ष न होय परोक्षः
 आत्मज्ञान ध्यानादिथी, त्वरित पामो मोक्ष. ॥१२७॥

पारमार्थ-ईश्वरना वे भेदछे. अष्टकर्मसहित संसारि जीव ते वज्र
 अपेक्षाए ईश्वरछे, अष्टकर्मनो संपूर्ण नाश करी जे मुक्ति पाम्का ते
 सिद्ध परमात्म ईश्वर कहेवायछे, जीवो कर्मरूप सृष्टिना कर्ता पर-
 परिणतियोगे जाणवा, शाता अने अशाता वेदनीच कर्म ब्रह्मि आ-
 त्मान पेताने सुख दुःख आपेछे. कर्मसृष्टिनो कर्ता तथा तेनो
 मोक्षा बीबरूप ईश्वर जाणवो. जीवरूप ईश्वर संसारिक अवस्थामां
 कर्मसृष्टिनो कर्ता जाणवो. सृष्टिकर्तृत्व जीवरूप ईश्वरवे परभाव
 रमणत्वानी अपेक्षाए छेछे एव रहस्य अनुभेक्षा करवा योग्यछे.
 जीवरूप ईश्वर, कर्मरूप सृष्टिनो कर्ता व्यवहारनयथी जाणवो.
 अशुद्धनयथी जीवरूप ईश्वर परवस्तुनो कर्ता निमित्तघणे जाणवो.
 हे भव्य आवी अपेक्षाथी ईश्वर कर्तृत्व रहस्य हृदयमां धारण कर.
 शुद्ध निश्चयनयथी कर्मरूप सृष्टिनो कर्ता ईश्वर नथी. अस्मिक
 सहज सुखनो कर्ता अशुद्ध स्वभावथी आत्माछे. दुःखनो कर्ता
 परस्वभावथी आत्माछे. ज्यारे संपूर्ण अशुद्ध परिणति (परपरिणति)
 नो आत्मज्ञानथी नाश थायछे त्यारे आत्माना अनंतगुणनो आ-
 त्मा स्वर्ग कर्ता थायछे.

जे भग्वो साधेक्षता समजता नथी. अने एकांत वध ग्रहण

(૩૬૪)

ईश्वर जगत् कर्तृत्व निराकरण.

करेछे ते शुद्ध परमात्मारूप ईश्वरने जडवस्तुनो कर्ता मानी भ्रांतिभां पढेछे. कर्मरूप मलिनता जेनामां नथी एवा सिद्धबुद्ध परमात्माने शुं प्रयोजनछे के सृष्टिनी रचना करे. हे भव्य पक्षपात त्यंजी माध्यस्थ दृष्टिथी अवबोध.

परमप्रभु, परमब्रह्मरूप ईश्वरमां रजोगुण, तपो गुणादि नथी. इच्छा नथी, अभिमान नथी, वेदांतमा पण कबुंठे के-न च स पुनरावर्तते मुक्तिमां गएछा आत्माओ शुद्धबुद्ध थइ पश्चात् संसारमां जन्म लेता नथी. रागद्वेषरहित सिद्ध (ईश्वर) जडसृष्टिनो कर्ता कदा बनी सकतो नथी. जडसृष्टि रचवानो सिद्धबुद्धमां स्वभाव नथी ते माटे.

प्रश्न-सिद्ध परमात्मा जडसृष्टिना कर्ता नथी मानता तयारे अन्य कोइ सृष्टिना कर्ता छे के नहीं.

उत्तर-सिद्ध परमात्मा-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख आदि आत्माना अनंत शुद्ध गुणरूप सृष्टिना कर्ताछे. क्षायिकभावे आत्माना शुद्धरूप सृष्टिना कर्ता सादि अनंतमा भंगेछे. परमाणु आदि जडसृष्टित्व स्वभावना बीलकुल कर्ता नथी. जे आत्माना शुद्ध क्षायिक धर्मना कर्ता थया ते कर्मरूप सृष्टिना कर्ता कर्दा थता नथी.

माटे विवेकदृष्टिथी भव्यात्मन् सत्यतत्त्व विचार,

यादृक् उपादान कारण होयछे तादृक् कार्यनी उत्पात्ति थायछे, जेम मृत्तिकारूप उपादान कारण जेवुं होयछे तेवुं घटरूप कार्य बनेछे. उपादान कारण कार्यरूप बनेछे. घटकार्यमां कुंभकार निमित्त कारणछे. घटरूप कार्यमां उपादानकारण मृत्तिकारूप. अने निमित्तकारण कुंभकार. दंडचक्र वगेरेछे. तेम जो कर्मरहित परमात्माए जगत् बनाव्युं एम कोइ माने तो तेमां उपादान अने निमित्त

परमात्मदर्शन.

(३६९)

कारण कोण ? निराकार ईश्वरने जगतनुं उपादान कारण मानतां जगतरूप ईश्वर बन्यो. ए पण महादूषण आवेछे. सिध्दान्त एवो छे के निराकारथी साकारनी उत्पत्ति थती नथी. माटे निराकारथी जडसृष्टि रचाती नथी एम सिध्ध ठरेछे.

बळी नियम एवोछे के उपादान कारणथी कार्यनो अभेदछे, जेम मृत्तिकारूप उपादानथी घटरूप कार्यनो अभेदछे. मृत्तिकाथी घट भिन्न नथी. तेवीज रीतिथी निराकार ईश्वरथी जड सृष्टि मानवामां आवे तो जगतरूपज ईश्वर बन्यो, सृष्टिरूप कार्यथी ईश्वरनो अभेद थयो माटे जडसृष्टिरूप ईश्वर मानवामां आवे तो अनेक दूषणरूप खेदनी प्राप्ति थायछे,

सृष्टिकार्यमां ईश्वरने निमित्त हेतु मानतां वे किकल्प उत्पन्न थायछे, ईश्वरनी शक्ति नित्यछे के अनित्यछे ? उपादान कारणविना फक्त निमित्तकारणथी कोइ कार्य बनतुं नथी. कार्यनी पूर्वे उपादान तथा निमित्तनो सद्भावछे. उपादान विना निमित्तभूत ईश्वरथी सृष्टिरूप कार्य बनी शके नहीं, ईश्वरनी इच्छा निमित्त हेतु कोइ माने तो ते पण योग्य नथी, कारण के ईश्वरनेइच्छा होती नथी. अपूर्णने इच्छा होयछे. कृतकृत्य परमात्माने अंशमात्र पण इच्छा होती नथी. प्रमाण युक्ति अनुभवथी विरुद्ध सृष्टिहेतु ईश्वर कल्पातो नथी. तेम छतां यदि ईश्वर मानवामां आवे तो रासभने केम मानवामां न आवे ? पृथिवीआदि परमाणुओनुं ग्रहण करीने ईश्वर सृष्टि रवेछे एम जो मानवामां आवे तो जीवो क्यांथी आव्या. जीवो अनादिकालनाछे एम कहेवामां आवे तो सृष्टिपण अनादिकालथीछे एवं केम मानता नथी. अनादिकालना जीवो सृष्टि विना अन्यत्र रही शकता नथी माटे सृष्टि पण अनादिकालथी छे एम स्पष्ट भासेछे. परमाणुओना कार्यथी चेतन (आत्मा) भिन्नछे माटे अरणिमां बन्दि रहेछे तेवी रीते आत्मा

(૩૭૦)

ईश्वर कर्तृत्ववाद निराकरणे.

પણ દેહમાં રહે છે પણ પંચભૂતથી ભિન્ન છે. જડ અને ચેતન એ બે વસ્તુ આ પ્રમાણે વિચારતાં અનાદિકાલથી છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જીવ અને જડની પરસ્પર શક્તિયો પણ ભિન્ન છે. જડવસ્તુમાં ચેતન કર્મનાવશે પરિણમે છે તે વ્યવહારનયથી જાણવું. નિશ્ચયથી જડમાં ચેતન પરિણમતો નથી, આ પ્રમાણે અનેકાન્તનયજ્ઞાન થયા વિના તત્ત્વનું ચથાર્થ માસન થતું નથી.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાલ અને જીવ એમ ષડ્દ્રવ્યથી જગત્ કહેવાય છે. અનાદિકાલથી ષડ્દ્રવ્ય છે. તે ષડ્દ્રવ્ય, દ્રવ્યાર્થિકનયથી નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિકનયથી અનિત્ય છે. તે ષડ્દ્રવ્યથી ભિન્ન કોઈ વસ્તુ નથી. તો ષડ્દ્રવ્યનો કર્તા ઈશ્વર કેમ માની શકાય. અર્થાત્ ન માની શકાય. હવે બે વિકલ્પ કરવામાં આવે છે. જગત્કર્તૃત્વ શક્તિ ઈશ્વરમાં નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? જગત્કર્તૃત્વ શક્તિ નિત્ય માનવામાં આવે તો ઈશ્વર સદાકાલ જગત્ બનાવ્યા કરશે. એવં મહાદોષ આવે છે, તેમજ જગત્કર્તૃત્વ શક્તિ અનિત્ય માનવામાં આવે તો જગત્કર્તૃત્વ શક્તિ ક્ષણમાં અનિત્ય હોવાથી વિગણી જતાં સૃષ્ટિ પણ ક્ષણમાં નાશ પામી જાય. પણ તેમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ વિરુદ્ધ છે માટે બે પક્ષથી ઈશ્વરશક્તિ જગત્ કર્તૃત્વમાં સિદ્ધ થતી નથી. એમ નિત્યાનિત્ય પક્ષથી ઈશ્વરશક્તિ દૂર થાય છે.

જગત્ કર્તા ઈશ્વરને સાકારી માનવામાં આવે તો અનેકદોષો ઉત્પન્ન થાય છે. સાકાર ઈશ્વર એકદેશાવસ્થિત હોવાથી સર્વત્ર સૃષ્ટિ બનાવી શકે નહીં સાકારકુંભકારવત્ સાકારકુંભકારની પેઠે કર્મ વિના દેહ હોય નહીં. અને દેહવડે ઈશ્વર સાકાર દેવતાની પેઠે કહેવાય તો કર્મ સહિત ઠર્યો. સર્કર્માઈશ્વર ઠરવાથી અન્ય જીવોની પેઠે કર્મના પરતંત્ર રહ્યો, અને સ્વતંત્ર થયો નહીં. ત્યારે તે જગત્ બનાવ-

परमात्मदर्शन.

(१७१)

वामां कथं समर्थं वाय.

नैयायिक कहेछे के सृष्टिनो कर्ता ईश्वर सत्य छे पण ते पूर्वोक्त युक्तिथी विचारतां सत्य नथी. ईश्वरनी इच्छाथी जगत् उत्पन्न ययुं एम मानवामां आवे तो अनादिकाली जड अने चेतन बे पदार्थ छे. एम अनादिस्वभाव केम न मानवामां आवे, अर्थात् त्यां एकत्र पक्षपातिनी युक्ति कइ छे के अनादिकालनो स्वभाव न मानवामां आवे अने इच्छाज मानवामां आवे. इच्छा मोहरूप छे. ईश्वरने इच्छा कहोतो साधारण मनुष्यनी पेटे ईश्वर पण मोही ठयो त्यारे तेनुं ईश्वरपणुं रहेतुं नथी. माटे ईश्वरनामां इच्छा मानवी ते शसशृंगवत् असत्य छे. आत्मानी परमात्मदशामां ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुखादि गुणो उपादान कारणछे. तेनो परिपूर्ण आविर्भाव तेज परमात्मपणुं जाणवुं. अनन्तधर्मनी शुद्धि प्रगटाववा निमित्त हेतुनी जरूरछे, आत्माना धर्मनो आविर्भाव तेज कार्य जाणवुं. घटनुं कारण जेम मृत्तिका अनन्य कारण कहेवायछे तेम परमात्म दशारूप कार्यमां ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप अनन्य कारण उपादानछे. घटनो नाश थवाथी मृत्तिकानो नाश थतो नथी. अर्थात् कारण सदाकाल वर्तेछे. अत्र काल, स्वभाव, नियति, कर्म, अने उद्यम पंच कारणथी कार्योत्पत्ति थायछे. पंच कारणमांथी एक कारणनी उत्थापना करतां मिथ्यात्व प्राप्त थायछे. आ वावतमां लेशमात्र पण शंका करवी योग्य नथी.

राग अने द्वेषनो सर्वथा जेणे क्षय कर्योछे ते ईश्वर परमात्मा कहेवायछे. एवा शुद्ध परमात्माने जो इच्छा कहेवामां आवे तो ईश्वरतानो नाश थायछे. सर्व प्रकारनी इच्छानो जेणे नाश कर्योछे एवा ईश्वरने जगत् करवानी इच्छा क्यांथी होय. अलबत कदी होय नहीं, रामद्वेषसहचारिणी इच्छाज संसारनुं मूलछे. अने तेकी इच्छा

(३७२)

ईश्वर. कर्तृत्व निराकरण.

ईश्वरने कहेवी ते मोहवेष्टित जाणवुं. अहो अज्ञाननी केटली शक्ति.

कोइ एम कहे के—ज्यां इच्छा नथी त्यां शुं सुख ? अलबत कइ नही. आवी रीते बोलनारे समजवुं के योगीन्द्रमहात्मा समाधिमां अनन्त सुख वेदेछे, पण ते समये तेने इच्छा नथी माटे इच्छा होय त्यां सुख एवी व्याप्ति घटती नथी.

दस्यजडवस्तु कदापि ईश्वरथी बनी शके नहीं. ईश्वरमां जडस्व-भाव नथी. जडवस्तुनो कर्ता वान्याय आपनार ईश्वर नथी. हे भव्य हृदयमां अवधार.

कोइ एम कहेसे के—ईश्वरनी शक्ति अनन्तछे अने जडपदार्थनी शक्ति अल्पछे माटे ईश्वरथी सृष्टि बनेछे. आ युक्ति पण बेश नथी ते जणावेछे. ईश्वरनी शक्ति चैतन्यभावे अनन्तछे तेम जडनी शक्ति जडभावे अनन्तछे. ईश्वरना धर्म अनन्तछे जेम जडतत्त्वना धर्म पण अनन्तछे. आत्मा अने जड बे तत्त्व भिन्नधर्मीछे. जडपुद्गल द्रव्य साकारछे अने आत्मतत्त्व निराकारछे. प्रत्येक तत्त्व स्वस्व-भावे स्वतंत्रछे. वस्तुतः कोइ द्रव्य परतंत्र नथी. प्रत्येक द्रव्यमां अनन्त अस्तित्त्व अने परनी अपेक्षाए अनन्तनास्तित्त्व रह्योछे. अस्तित्त्व अने नास्तित्त्वधर्मनी अनन्तता षड्द्रव्यमां व्यापी रहीछे. अन्य द्रव्यनो कर्ता अन्यद्रव्य वस्तुतः नथी.

चेतनथी जो जडनी उत्पत्ति उपादानपणे थाय तो खरशृंगनी पण उत्पत्ति थाय. पण खरने शृंग थतांज नथी ते प्रमाणे ईश्वररूप चैतन्य मूर्तिमांथी जडवस्तु थती नथी. त्यारे ईश्वरमांथी जगत् थयुं एवं प्रलाप करवो ते अंधश्रद्धानी बुद्धि विना अन्य समजातुं नथी. स्वप्न सुखहीथी पेट भराय तो ईश्वरमांथी जडनी उत्पत्ति थाय.

आ प्रमाणे सिद्धांत वदवाथी प्रश्न थसे के अहो ज्यारे परमा-त्माथी जगत्नी उत्पत्ति थती नथी, त्यारे तेमनी अनन्त शक्ति शा

परमात्मदर्शन.

(३७३)

कामनी ? तेना प्रत्युत्तरमां जणावेछे के—ईश्वरनी ज्ञानादिक अनन्त शक्तियो ईश्वरमांज समायछे. रूपनी छाया रूपमां समायछे ते प्रमाणे अत्र न्याय समजवो. जडद्रव्योनी अनन्त शक्ति जडमां व्यापी रहीछे. पुद्गलद्रव्यना वर्णादिकनी शक्ति पुद्गलद्रव्यने त्यजी अन्यत्र जती नथी. पुद्गलद्रव्यनो निश्चयथी अन्यद्रव्य कर्ता शीरीते होइ शके,

आत्मद्रव्यनी अपेक्षाए पुद्गलद्रव्यनी शक्ति अल्प गणायछे. पण वस्तुतः जेम आत्मद्रव्यनी आत्मस्वरूपे अनन्ति शक्तिछे तथा पुद्गलद्रव्यनी शक्ति पण तेना स्वरूपे अनन्तछे. सापेक्षा अवबोधतां कोइपण प्रकारनी हानि आवती नथी. तालपुटविषलेशथी हस्तिना प्राणनो नाश थायछे, एक लेशमात्र तालपुटविषथी हस्तिनो प्राण नाश थाय त्यारे कहोके पुद्गलनी शक्ति वेटलीछे: आत्मानी शक्ति अपेक्षाए मोटीछे तेमज पुद्गलनी शक्ति पुद्गलनी अपेक्षाए मोटीछे. आ उपरथी सिद्ध थायछे के शुद्धबुद्धपरमात्माथी सृष्टि बनी शके नहीं, माध्यस्थदृष्टिवाळा पुरुषो सहजमां तत्त्व अवबोधी शकेछे. ईश्वर सर्वज्ञ परभावरूप सृष्टिनो कर्ता नथी. एवी प्रतिज्ञा युक्तिमतीछे.

चोराशीलक्षजीवयोनिमां जीवो परिभ्रमण करेछे. अज्ञान राग द्वेष प्रयोगे जीव संसारमां परिभ्रमण करेछे. कर्मथीज संसारमां परिभ्रमण थायछे. कर्मां कर्म प्रमाणे सुख दुःख थायछे त्यारे शामाटे हे ईश्वर तें मने दुःख आप्युं एम असत् वदवुं जोइए. अनादिकालथी जीवनी साये कर्मनो संबंधछे. भावकर्म रागद्वेषयोगे जीव द्रव्यकर्मने ग्रहण करेछे. तेने भोगवी विखेरेछे. पञ्चकारणनी सामग्री मळे त्यारे कर्मनो नाश थायछे. कर्म नाश थतां अविचल आत्म स्वरूपनो सहेजे विकाश थायछे.

इशु, विभु, परमब्रह्म, परमेश्वर, सुखधाम ब्रह्मनी स्थिति शुद्ध

(૩૭૪)

ईश्वर.

ભાવમાં વર્તે છે. પરભાવમાં ન્યાય માટે પણ વર્તેતી નથી. સોડહં સોડહં પદ પ્રાપ્ત કર્યું તેને હું પ્રણામ કરું. પરમાત્મપદને સોડહંપદ કહે છે. સોડહંપદનું ધ્યાન ધર્યાથી પરમાત્મપદ મળે છે. જે જે જીવો કર્મનો નાશ કરે છે તે તે જીવો પરમાત્માઓ થાય છે. સિદ્ધસ્થાનમાં એક સિદ્ધ છે તેમ અનેક સિદ્ધ પરમાત્માઓ છે. સંપૂર્ણ કર્મક્ષયથી મુક્તિસ્થાનમાં સર્વે સિદ્ધાત્માઓ સમાન છે. જ્ઞાનની અપેક્ષા વ્યાપક છે અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ વ્યક્તિની અપેક્ષા વ્યાપ્ય છે. શંકરાચાર્ય તથા ઉપનિષદાની વેટલીક અપેક્ષા આત્માનું વ્યાપકપણું જૈનમત અંગીકાર કરે છે. તેમજ રામાનુજમતાપેક્ષા આત્માનું વ્યાપ્યપણું પણ જૈનમતમાં સમાઈ જાય છે. વ્યક્તિની અપેક્ષા સિદ્ધાત્માઓ ભિન્નભિન્ન છે અને જ્ઞાનાદિક ગુણની અપેક્ષા એકરૂપ (એક) છે.

જે સિદ્ધ પરમાત્માઓને રાગદ્વેષ નથી. પરભાવમાં રમણ કરતા નથી. આત્માના જ્ઞાનાદિક અનન્ત ગુણમાં જે સમયે સમયે રમ્યા કરે છે. એવા પરમપ્રભુના ધ્યાનથી આત્મા પણ પરમાત્મા થાય છે. ધ્યાતા ધ્યેયના ધ્યાને સ્વશુદ્ધ ધ્યેયરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. પરમશુદ્ધ પરમાત્માને વારંવાર નમસ્કાર કરું. પરમાત્માના સમ્યગ્જ્ઞાનથી અજ્ઞાનાદિ દુઃખનો નાશ થાય છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનથી સહજ શુદ્ધ સ્વરૂપ મય ચિદાનન્દ સમુદ્રની લહેરો પ્રગટે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન ક્રિયાથી મુક્તિ પોક્ષ નથી. અર્થાત્ મુક્તિ પ્રત્યક્ષ છે. મુક્તદશા જે જે અંશે થાય છે તે તે અંશે મુક્તિનાં સુખ પ્રગટે છે. વેટલાક અદ્વૈતવાદિયો અદ્વૈતવાદનું ગુરુગમ યથાર્થ સ્વરૂપ ન સમજવાથી બ્રહ્મમાંથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે અને બ્રહ્મમાં સમાઈ જાય છે. ઇત્યાદિ એકાંતવાદ સ્વીકારીને ભૂલ કરે છે. જૈનદર્શન અપેક્ષા અદ્વૈતબ્રહ્મવાદ સ્વીકારે છે પણ જે નયોની સાપેક્ષા વિના બ્રહ્મ માની ભૂલો સાચે કરે છે તે સંબંધી કંઈક કહેવામાં આવે છે.

परमात्मदर्शन

(३७५)

“ दोहा. ”

ब्रह्मथकी सृष्टि बनी, सहु छ ब्रह्म स्वरूप;	
व्यापक ते सर्वत्र छे, त्रिदानन्द गुणरूप.	२२८
मायाना बहु जोरथी, भूल्यो ब्रह्मनुं भान;	
एकरूप सर्वत्र छुं, अद्वैतवादि ज्ञान.	२२९
शुद्ध ब्रह्मना अंश छे, जीव अनन्ता लेख;	
परमात्ममांहि ते भळे, द्वैतपणे नवि देख.	२३०
अद्वैतवादि वचन छे, माने ब्रह्मनुंज्ञान;	
द्वैतपणुं माने नहीं, ब्रह्मध्यान मस्तान.	२३१
नहि सत्यने ढांकीये, सत्य न ढांकथुं जाय;	
छाबडीए रवि ढांकतां, कदी नहीं ढकाय.	२३२
जड चेतनता भेदथी, द्वैतपणुं प्रगटाय;	
कथं एक हि आतमा, सुख दुःख विघटाय.	२३३
जडतारूपे जड अहो, जडनो कदा न नाश;	
असत् कहो शा कारण, ज्ञानी बहु शाबाश.	२३४
जीवाजीव बे तत्त्व छे, ज्ञाने दोय जणाय;	
मिथ्या एक ग्रहे मुधा, सम्यक् धर्म न थाय.	२३५
ज्ञानी ज्ञानथकी ग्रहे, वस्तु सत्य स्वरूप;	
द्वैतपणुं अंगीकरे, पडे न भवजल कूप.	२३६
एक एव हि आतमा, भूते तेह जणाय;	
जले प्रतिबिम्ब चन्द्रनुं, तद्वत् जाणो न्याय.	२३७

(३७६)

ब्रह्मवाद निराकरण.

सत्ताने अंगीकरी, माने अद्वैत एम;	
संग्रहनय एकान्तथी, तरे भवोदधि केम.	२३८
प्रथम विषम दृष्टान्तथी, साध्यसिद्धि शुं थाय;	
प्रतिबिम्बरूपितणुं, अरूपि शुं ते पाय.	२३९
प्रतिबिम्ब पुद्गलतणुं, जल चन्द्रे दृष्टान्त;	
जीव अरूपी वस्तुमां, प्रतिबिम्ब नहि भ्रान्त.	२४०
प्रतिबिंबथी जाणशो, प्रतिबिंबक छे भिन्न;	
प्रतिबिंबकना भावथी, प्रतिबिंब छे खिन्न.	२४१
प्रतिबिंबित चन्द्रनुं, भिन्नपणुं त्यां लेक;	
कथं साध्यनी सिद्धि छे, छे नहीं चेतन एक.	२४२
व्यापक आतम एकनुं, अंशपणुं नहीं होय;	
भिन्न भिन्न जीवांशथी, आतम एक न जोय.	२४३
आतम एकथी सर्वने, शर्म दुःख समकाल;	
सुख दुःख आच्छादक कहो, द्वैतपणुं त्यां भाळ.	२४४
घटाकाश उपाधिथी, ग्रहो गगननो भेद;	
तेवी उपाधि अत्र नहीं, सुख दुःख वारक वेद.	२४५
समकाले सुख दुःखनो, जीवोने प्रतिभास;	
अधिक न्यून प्राप्तितणो, मळे नहीं अवकाश.	२४६
मळे नहीं अवकाश तो, तेनुं कारण कोण;	
भिन्न भिन्न चेतन विना, घटे नहि कंड और.	२४७

व्यक्तिथी सहु भिन्न छे, सत्ता ए सहु एक;	
आत्मतत्त्व अवबोधथी, मानो एकाऽनेक.	२४८
सर्वत्रज व्यापक कहो, युक्ति घटे नहि कोइ;	
सम्मतितर्के जाणशो, कखुं विचारी जोइ.	२४९
सर्वत्रज व्यापक कहो, पिण्डे किम बंधाय;	
देहे व्यापी जो कहो, अव्यापक पद पाय.	२५०
व्यापक नहि बंधाय छे, गगन पङ्कनी पेर;	
सर्वत्र सुख दुःखनी, प्राप्तितणुं छे झेर.	२५१
सर्वत्र व्यापक कहो, कदा नहीं बंधाय;	
मानो तो छे अज्ञता, सदयुक्ति न जणाय.	२५२
अव्यापक छे आतमा, तेमां नहीं संदेह;	
व्याप्यने व्यापक बोधथी, थाशो निःसंदेह.	२५३
शैलेशीकरणे करी, व्यापक आतम लोक;	
असंख्य शुद्ध प्रदेशथी, जाणो भविजन थोक.	२५४
अव्यापक व्यापक लहो, चेतन गुणनी खाण;	
अनेकान्त अवबोधथी, पामो शिवपुर ठाण.	२५५
सादि आदि भंगे करी, व्यापक चेतन जाण;	
स्याद्वाद दृष्टि थकी, साचुं मनमां आण.	२५६

(१७८)

ब्रह्मवाद निराकरण.

केवलज्ञाने आत्मा, व्यापक सद्गुमां जोय;	
स्वपर प्रकाशक आत्मा, प्रदीप पेठे होय.	१५७
तिमिरारि प्रगटे तदा, तमनो शो छे भार;	
ज्ञानदीपक उद्योतथी, रहे नहि अंधकार.	१५८
अद्वैत स्वरूपी आत्मा, जडथी भिन्न विचार;	
द्वैतपणुं पण तेहमां, एक अनेकाधार.	१५९
अक्षररूपे आत्मा, अनक्षर गुणवानु;	
आत्माऽऽह्वय प्रदेशमां, स्थिरता शुद्ध वखाण.	१६०
भास्यो आपोआपमां, टळ्युं महा अज्ञान;	
अपूर्व वीर्यज उल्लस्युं, यदा थयुं निज भान.	१६१
जड इन्द्रियो शुं करे, तेनाथी हुं भिन्न;	
जडस्वरूपे तेह छे, क्षणिक नाशी दीन.	१६२
मन वाणी मारां नहीं, जडनुं छे ते काज;	
तेनी संगे राचतां, नहीं रहे मुज लाज.	१६३
हसुं रसुं कोनाथकी, कोनापर ममभाव;	
मृगजलोपम वस्तुमां, शो ममतानो दाव.	१६४
नहीं मारु जड वस्तुमां, राचुं शुं संसार;	
शाथी शाने माटे में, लीधो मही अवतार.	१६५

परमात्मदर्शन.

(१०९)

- फोगट फंदामां पडयो, जरा न शर्म जणाय;
सवळे पन्थे चालतां, मनमां श्रुं खमचाय. १६६
- नथी तनु ते तुं सदा, शरीर माटीघाट;
पींपळपानपरे खरे, चेत चेत ते माट. १६७
- सहुने देखुं ज्ञानथी, सहु म्हाराथी दूर;
प्रतिबंध कोनो नहीं, सिंह इव हुं शूर. १६८
- रागदोष निन्दा कथा, तेनुं भाग्युं जोर;
स्वाभिमुख थइ चेतना, प्रगटयो अनुभव तोर. १६९
- शत्रुथी छेदाउ नहीं, नहि शस्त्रे भेदाउ ?
शत्रुमित्र सम भावना, भ्रमणा क्यांथी पाउ ? १७०
- कर्मवशे सहु प्राणिया, भ्रमण करे निर्धार;
पुत्र मित्र ललनापणे, सगपणनो आचार. १७१
- सगपण साचुं नहि कदी, स्वारथियो संसार;
जगमां को केनुं नहीं, संवेगे मनधार. १७२
- सर्व जीव छे सिद्ध सम, निर्मल अविचल देव;
त्रिकरण योगे तेहनी, मित्रभावना सेष. १७३
- द्रव्यार्थिकथी नित्य छे, कदी न होवे नाश;
असंख्यप्रदेशिव्यक्तिथी, ध्रुव स्वरूपी खास. १७४

(३८०)

क्षणिकचेतनवाद निराकरण.

पूर्वजन्म अभ्यासथी, जीव नित्यता सिद्ध;	
बाल युवा वृद्धा विषे, ज्ञाता एक प्रसिद्ध.	२७५
क्षणे क्षणे बदलायतो, चेतन होय अनेक;	
पाप पुण्य कोने घटे, तेनो करो विवेक.	२७६
क्षणिक वस्तुना ज्ञानथी, क्षणिक वाद सुजाण;	
वक्ता क्षणिक नहीं थयो, नित्यरूप मन आण	२७७
कोइक वस्तुनो कदी, केवल नाश न होय.	
चेतन नाश कह्या थकी, अन्यावस्था जोय.	२७८
अन्यावस्था को नहीं, माटे चेतन नित्य.	
प्रत्यभिज्ञा सुहेतुथी, नित्यज जाणो चित्त.	२७९
पर्याये पलटाय छे, आतमना पर्याय.	
अनित्य माटे आतमा, अनेकान्तमतन्याय.	२८०
शुभाशुभ आश्रव ग्रही, धरतो नाना देह.	
शाताशाता भोगवे, नय व्यवहारे एह.	२८१
पुण्य पापना नाशथी, प्रगटे निजगुण भोग.	
सूर्याच्छादक अभ्रनो, टळे महासंयोग.	२८२
कर्मसंग टळ्या थकी, पामे जीव शिवठाण.	
पुरुषोत्तम परमातमा, सिद्ध बुद्ध भगवान्	२८३

परमात्मदर्शन.

(३८१)

अगम्य आत्मस्वभावनुं, अवलम्बन करनार.	
आश्रव त्यागी संवरी, भवोदधि तरनार.	२८४
जेने इच्छे योगिजन, अनन्यसुखनुं धाम.	
नमुं नमुं ते आतमा, अनन्तगुण विश्राम.	२८५
अवलम्बन शुभ आत्मनुं, करतां नाशे दोष,	
प्रगटे अनुभव ज्योति त्यां, चेतन वीर्ये पोष.	२८६
निजपद जिनपद साम्यता, भेदभावनो नाश.	
पूर्ण व्यक्तिमय आतमा, राजाने कुण दास.	२८७
सर्व सिद्धनी तुल्यता, जीव अनन्ता माय.	
कोकोने नडता नही, अरूपपद महिमाय.	२८८
विषमज्वरना जोरथी, होय अरुचि अन्न.	
अभव्य आदि जीवने, आत्मरुचि नहिमन.	२८९
सम्यग् ज्ञान प्रभावथी, बहिरातम पद नाश.	
अन्तरात्मगुण भावना, प्रगटे शिवपुर वास.	२९०
परप्रवृत्ति हेतुओ, समूल त्यां छेदाय.	
अन्तर परमप्रभुपणुं, सहजे उदये आय.	२९१
हुं कर्ता परभावनो, बुद्धि भवनुं मूल.	
अन्तरात्मपद योगथी, थाय तेह निर्मल.	२९२

(३८३)

आत्मतत्त्वसाध्यछे.

कोटिवर्षनुं स्वप्नपण, जागंतां लय थाय.	
आत्मज्ञान उद्योतथी, सहजरूप प्रगटाय.	२९३
चेतनबुद्धि देहमां, जाणो देहाध्यास.	
छूटे देहाध्यासतो, कर्म कलंक विनाश.	२९४
कर्त्ता नहि हुं कर्मनो, भोक्ता नहि हुं तास.	
शुद्धदशा प्रगट्याथकी, विघटे भवभयवास.	२९५
चेतनधर्मे मोक्ष छे, तुंछे मोक्षस्वरूप;	
भोगी रत्नत्रयितणो, क्षायिकशिवसुखभूप.	२९६
सागरमांहि ल्हेरियो, उपजेने विणशाय;	
चेतनगुण जे ज्ञान छे, ज्ञेयपणे पलटाय.	२९७
शुद्ध बुद्ध निर्मल प्रभु, स्वयंज्योति गुणधाम;	
चिदानन्द चेतन विभु, अनन्तगुणनुं ठाम.	२९८
निश्चय अत्रज आवतां, साक्षर एक स्वरूप.	
योगत्रिकने संवरी, शिवनगरीःथा भूप.	२९९
रागादिक महावैरियो, ज्यां तेनो नहि गन्ध;	
आत्मलक्ष्यवृत्ति थतां, परपरिणति थइ बंध.	३००
देहनिष्ठ पण ध्यानथी, वर्ते देहातीत;	
वंदन वारंवार तास, त्रियोगे हो नित्य.	३०१

परमात्मदर्शन.

(३८३)

- पुद्गल सुख ते ऐंठवत्, दुनिया स्वप्न समान;
शुद्धज्ञान ते आत्मतुं, बाकी वाचा ज्ञान. ३०२
- जेनुं ज्ञान थया थकी, शान्तदशा प्रगटाय;
धर्म रक्षो त्या जाणीए, निश्चयथी सुखदाय. ३०३
- नैगम संग्रह नय कह्या, त्रीजो नय व्यवहार;
ऋजुसूत्र चोथो कह्यो, पञ्चमशब्द विचार. ३०४
- समभिरूढ छठो गणो, सप्तम एवंभूत;
सप्तनयोथी धर्मरूप, सत्यज प्रगटे युक्त. ३०५
- सातनयोथी वस्तरूप, परिपूर्ण परस्काय;
नय एकान्तकदाग्रहे, मिथ्यात्वी कहेवाय. ३०६
- सातनयोना बोधथी, सम्यक् अनुभव साथ;
आत्मतत्त्वने पारखी तरशे भवजल पाथ. ३०७
- ऋजुसूत्र आवेशथी, प्रगटयुं दर्शन बुद्ध;
ग्रहे एकान्त एकनय, थाय नहि ते शुद्ध. ३०८
- जीवादिक नवतत्वपर, नय साते योजाय;
सद्गुरु सेवा योगथी, सहजे ते बोधाय. ३०९
- स्यादस्ति भंगज कह्यो, अनेकान्त मत कंद;
अस्तित्व सह्य वस्तुमां, ज्ञानी एम वदन्त. ३१०

(३८४)

अस्तिनारितस्वरूप.

- स्वद्रव्य स्वक्षेत्रधी, निजकाले निजभाव;
 अस्तितत्व बहु भंगधी, निजद्रव्ये चित्त लाव. ३११
- जीवादिक नवतत्वमां, प्रथमज अस्तिहिभंग;
 कदी नहि जे वस्तु जग, प्रगटे नहि धरि अंग. ३१२
- धर्माधर्माकाशकाल, पुद्गल पंचम जोय;
 जीवद्रव्य छटुं कह्युं, अस्ति भंग अवलोय. ३१३
- भूत भविष्यत् संप्रति, त्रिकाले वर्ताय;
 षड्द्रव्योमां जाणिये, अस्तिभंग स्थिरताय. ३१४
- समये समये अस्तित्ता, अनंतगुणनी जाण;
 चेतनद्रव्ये वर्तती, सिद्धान्ते व्याख्यान. ३१५
- द्रव्ये द्रव्ये अस्तित्ता, भिन्न भिन्न कहेवाय;
 द्रव्यज गुण पर्यायनी, अस्तित्ताज निजमांय. ३१६
- पुद्गलना पर्याय जे, घटपटरूपे लेख;
 तदाकारछे अस्तित्ता, सादि सान्तधी देख. ३१७
- द्रव्यार्थिक नय जाणिये, अनाद्यनंतज भंग;
 पुद्गलमां व्यापी रह्यो, सादिसान्त गुण चंग. ३१८
- स्यान्नास्ति बीजो कह्युं, भंग अति सुखकार;
 षड्द्रव्योमां व्यापियो, सापेक्षाय धार. ३१९

परमात्मदर्शन.

(३८५)

परद्रव्य परक्षेत्रथी, परकालज परभाव;	
नास्तिता तेनी सदा, निजमां वर्ते दाव.	३२०
ग्रही अपेक्षा परतणी, घटे नास्तिता आय;	
परभावे षड्द्रव्यमां, नास्तित्व स्थिरताय.	३२१
परद्रव्योनी अस्तिता, तेज नास्तिता रूप;	
प्रणमे निजनिज द्रव्यमां, सापेक्षाए अनुप.	३२२
पूछे पृच्छक अत्र एम, घटे न वे एक ठाम;	
तमः तेज प्रतिपक्षितुं, घटे न एकज धाम	३२३
नैकस्मिन् ए सूत्रथी, रहे न वे एकत्र;	
अस्ति नास्ति एकत्र नहि, भाखो सदगुरु अत्र	३२४
सापेक्षाए सहु घटे, तथा सर्व समजाय;	
पिता पुत्रत्व एकमां, बन्ने धर्म सुहाय.	३२५
चेतननुं अस्तित्वते, परमां नास्ति स्वरूप;	
परमां नास्ति नहीं रहे, विघटे वस्तु अनूप	३२६
विना अपेक्षा अस्तिता, नास्तिता नहीं जोय;	
नैकस्मिन् ए सूत्रतो, स्याद्वादे अवलोय	३२७
जे समयेछे अस्तिता, नास्तिपणुं ते काल;	
एकसमयमां वर्तना, षड्द्रव्योमां भाल.	३२८
अस्ति नास्ति त्रीजो कद्यो, भंग समय सिरताज	
षड्द्रव्योमां व्यापियो, जिनदर्शन साम्राज्य	३२९

(३८१)

सप्तमंश्री.

अस्ति शब्द उच्चारतां, समयो बहे असंख्य;	
नास्ति शब्दोच्चारतां, तथा कहे भगवंत.	३३०
एकज समये अवाच्यछे, कदी न कोइ कहंत;	
अवक्तव्यज भंगछे, चोथो सूत्रे लहंत	३३१
अस्तिधर्म अनन्तछेज, वाणी अगोचर थाय;	
षष्ठमभंग ते उपजे, अनेकान्त शोभाय.	३३२
नास्तिधर्म अनन्तता, वस्तुमध्ये रहंत;	
अवाच्य वाणीथी कह्यो, छठो भंग कहंत.	३३३
अस्तिनास्ति बे छे सदा, अवक्तव्य ते होय;	
सप्तमभंगज सर्वमां, समय समय अवलोय.	३३४
गुरुगमज्ञानअवाप्तिथी, भंगज सप्त स्वरूप;	
जाणी आत्मस्वभावमां, अपहरीए भवधूप.	३३५
अतिगहनछे तत्त्वबोध, विरलाजन समजंत;	
सज्जन भवसागर तरे, करी कर्मनो अन्त.	३३६
सप्तभंगीछे सिद्धमां, अनन्तगुणमां जाय;	
अनेकान्तनय जाणतां, शुद्धं समकित होय.	३३७
नवतत्त्व षड्द्रव्यनुं, सत्यज्ञान जो थाय;	
तो जाणो ज्ञानिपणुं, सहेजे शिवपद पाय.	३३८
समकितादि मोहिनी, तेनो उपशम भाव;	
क्षयोपशम क्षायिकपणे, प्रगटे समकितदाव.	३३९

परमात्मवर्षीम.

(३४७)

निजगुण स्थिरता चरणथी, थाता गुण उद्योत;
 स्वर्षंशुद्ध परमात्मा, प्रगटे निर्मल ज्योत. ३४७
 गुणस्थानक स्पर्शन थतां, सहजे गुण प्रगटाय.
 परिपूर्ण निजव्यक्तिथी, अविचलपदवी पाय. ३४९
 षट्स्थानक अवबोधथी, समकित प्रगटे चंग;
 षट्स्थानक धारो सदा, गुण प्रगटे निज अंम. ३४२
 अस्ति चेतनद्रव्यनी, चेतनद्रव्य अनन्त
 संसारीने सिद्ध दोय, ज्ञानी एम वदन्त. ३४३
 नित्यज चेतन द्रव्यछे. कर्ता हर्ता जोय;
 कर्मथकी मूकाय शिव, तेनां कारण होय. ३४४

शिष्य उवाच

नथी दृश्य ते दृष्टिथी, स्पर्शे ग्रहो न जाय;
 आत्मद्रव्यनी अस्तित्ता, अनुभवे न जणाय. ३४५
 मानो देहज आत्मा, अथवा श्वासोश्वास.
 पंचतत्त्वनुं पूतळुं, अन्य कयो आभास ? ३४६
 घटपट यथा जणायछे. तथा न चेतनद्रव्य;
 मोटे चेतन नास्तित्ता, मिथ्या माने भव्य. ३४७
 यदि नथीजो आत्मा, तपजप संयम फोक;
 पुण्यषापनी कल्पना, भूले भोळा लोक. ३४८

(३८८)

भास्मत्तरवसाधये.

शंका मोटी जीवनी, टाळो सदगुरुदेव;
मतिहीन हूं जीवछुं, कापो कुमति टेव. ३४९

सद्गुरुः उवाच

उत्शंगुलवृत्ति त्यजी, ग्रहो सुयुक्ति दीप;
समजो चेतन अस्तित्ता, यथाऽस्ति मौक्तिक छीप. ३५०
पञ्चभूतथी भिन्नछे, अरूप निर्मल शुद्ध
देहे व्याप्यो जीवछे. मळ्युं उदकमां दुध. ३५१
हूं सुखी हूं दुःखी एम, बुद्धि देहनी नांय;
मृत कलेवरमां कदी, जरा न चेष्टा त्यांय. ३५२
कठीन शीतत्वादि गुण, पंचभूतना जोय;
चैतन्यादि त्यां नहीं, सूक्ष्मपणे अवलोय. ३५३
अरूप चेतन चक्षुथी, ग्रह्यो कदा नहि जाय;
पुद्गलस्कंधो स्पर्शथी, ग्रह्या सदा जोवाय. ३५४
श्वासोश्वास ते स्पर्शथी, सदा अहो ग्रहवाय;
बाहिर जातो आवतो, ते चेतन शुं थाय. ३५५
ज्ञातृताश्रय जीव छे, पुद्गल नहीं कदाय;
नहीं तो घटपट वस्तुमां, ज्ञातृशक्ति ग्रहाय. ३५६
मद्यांगे मदशक्तिवत्, पञ्चभूत संयोग;
चैतन्यशक्ति उद्भवे, ते युक्ति पण फोक. ३५७

परमात्मदर्शन

(३८९)

भिन्न भिन्न मद्यांगमां, मदशक्ति अवभास;	
भूत भूत प्रत्येकमां, ज्ञानतणो नहि वास.	३५८
बुद्ध्यादिक आधार जे, तेहिज चेतन पेख;	
आदि शब्दथकी ग्रहो, सुख दुःख कार्योल्लेख.	३५९
बुद्ध्यादिक आश्रित जिहां, त्यां गुणपात्र जणाय;	
रूपादिवत् जाणीए, चेतन सिद्धि उपाय.	३६०
गुण निराश्रय नहीं कदा, आश्रय छे घटरूप;	
बुद्ध्यादिक आश्रय तथा, आनन्दघन चिद्रूप.	३६१

शिष्य उवाच.

बुद्ध्यादिक आधार तो, इन्द्रियो कहेवाय;	
चेतननी शी कल्पना, करवी सदगुरुराय.	३६२

गुरुः उवाच.

उपहत इन्द्रियो थकी, विषयस्मृति न घटाय;	
आश्रयनाशे स्मृतितणी, उत्पत्ति केम थाय?	३६३
कर्णेन्द्रियना नाशथी, स्मरणतणो नहि क्षोद;	
स्मृत्याश्रय ते आतमा, मानो सत्यज बोध.	३६४
अनुभव्युं जे इन्द्रिये, तेनो थातां नाश;	
स्मृति इन्द्रियो अन्यमां, ते पण मिथ्याभास.	३६५
थातां एमज चैत्रने, थया अनुभव जेह;	
स्मृत्युत्पत्ति मैत्रन, घटे न युक्तिज तेह,	३६६

(३९०)

शास्त्रसिद्धि-चन्द्रिका.

शिष्य उवाच.

भले न थावो इन्द्रियो, बुद्धि आश्रय कौइ;
 बुद्धि आश्रय देह छे, कहुं विचारी जोइ. ३६७
 शरीरनाशे बुद्धिनो, नाशज थातां दीठ;
 भस्मीभूत शरीर तो, चेतन थाय अदीठ. ३६८

सद्गुरु उवाच.

बाल युवादिक भेद त्रण, तनुना एह प्रसिद्ध;
 बालदेहर्था भोगव्युं, स्मृति ते तेणे लीध. ३६९
 तरुण तनुमां तेहनी, स्मृति कदा नहि थाय;
 बालशरीरे भोगव्युं, कथं युवान जणाय. ३७०
 मृतक शरीरे बुद्धिनी, स्फूर्ति कथं न थाय;
 माटे बुद्ध्याश्रय कहो, चेतन स्मर्ता आय. ३७१

शिष्य उवाच.

बुद्ध्याश्रय नहि देह तो, श्वासोश्वास जणाय;
 श्वास नहीं त्यां सुख दुःख. कदा न निरख्युं जाय. ३७२
 श्वासोश्वासे भिन्नता, नहि ते एक स्वरूप;
 बुद्ध्याश्रय तेने कहो, ए पण जडता कूप. ३७३
 एकज श्वासोश्वासर्था, कीधो अनुभव जेइ;
 अणुश्वास स्मर्ता नहीं, बुद्ध्याश्रय नहि एह. ३७४

परमात्मदर्शन.

(३९१)

बुद्ध्याश्रय जो श्वासतो, त्वक्थी ते स्पर्शाय;
 त्वच्चा ग्रहेछे श्वासने, केम न बुद्धि ग्रहाय. ३७५
 सोऽयं प्रतीतियोगथी, बुद्ध्याश्रय जे होय;
 आश्मतत्त्व ते जाणीए, नहि त्यां:शंका कोय. ३७६
 शिष्य उवाच.

देहादिकथी भिन्न जो, मानो चेतनराय;
 भिन्न करी देखाडीए, असिम्यानने न्याय. ३७७
 गुरु: उवाच.

वायुरूपी पण नेत्रथी, निरख्यो कदा न जाय;
 जीव अरूपी चक्षुथी, कथं अहो निरखाय. ३७८
 बौद्ध उवाच.

क्षणिकसंतति ज्ञाननी, तेतो चेतन मान;
 प्रवृत्तिरूप विज्ञाननो, आलय उपादान. ३७९
 एकरूप नहीं ज्ञाननुं, क्षणे क्षणे बदलाय;
 ज्ञानसन्तति आतमा, मानो सवळो न्याय. ३८०
 क्षणिक सन्तति ज्ञाननी, मानंतां नहि दोष;
 क्षणिक उत्तर ज्ञानमां, पूर्व ज्ञाननो पोष. ३८१
 गुरु: उवाच.

ज्ञान क्षणिकनी सन्तति, चेतन नहि कहवाय;
 क्षणिक सन्तति मानतां, पुण्य पाप कुण पाय ? ३८२

(३९२)

आत्मसिद्धि-षट्स्थानक.

- उपादान कारणतणो, कदा विनाश न थाय,
 आलयनो जो नाशतो, वृत्ति क्यां प्रगटाय. ३८३
- आलयने ध्रुव मानीए, तो ते चेतनरूप;
 मानंतां दोषज नथी, करवी समर्जा चूप. ३८४
- आलयने प्रवृत्तिमां, मानो जो यदि भेद;
 उपादान, कारणतणो, थाशे त्यां:विच्छेद. ३८५
- बने नहीं घट वस्तुथी, सूत्रतणो समुदाय;
 कारण कार्यज भिन्नता, त्यां शुं कार्यज थाय. ३८६
- चैत्रमैत्र इव, भेद त्यां, कारण कार्यज भाव;
 स्मृतिभंग त्यां होयछे, घटे शुं युक्ति दाव? ३८७
- क्षणिक सन्तति ज्ञानमां, कारणकार्याभेद;
 मानो तो क्षणवादनो, थाशे निश्चय छेद. ३८८
- उत्तरज्ञानदशा विषे, पूर्व ज्ञान जो होय.
 स्थिरबुद्धि तेथी थइ, बुद्धि नाश क्यां जाय. ३८८
- आलयनी जे स्थिरता, तेतो आतम मान;
 बन्धमोक्ष सहू तो घटे, चेतन गुणछे ज्ञान. ३८९
- पूर्वजन्मना स्मरणथी, पुनर्जन्मता सिद्ध;
 पुण्य पाप फल भोगवे, चेतन नित्य प्रसिद्ध. ३९१
- चेतन नित्यज होय तो, कर्म न लागे कोय;
 अनित्य माटे आतमा, क्षण क्षण नाशी होय. ३९२

परमात्मदर्शन.

(३९६)

आ क्षणमां जे आतमा, ते क्षण विणशी जाय;	
पुण्य पाप सुख दुःखनी, घटना कहो शी थाय. ३९३.	
अन्य करेने अन्यने, पुण्य पापनो बन्ध;	
अन्यतणो जो मोक्षतो, ए सहु मिथ्याधंध. ३९४	
को कर्त्ता भोक्ता अहो, सहुथी अवळो न्याय;	
नित्य आतमा मानतां, कर्त्ता भोक्ता थाय. ३९५	
अभ्रसंग दरे थतां, निर्मलरवि प्रकाश;	
नित्य आतमा मानतां, होवे दोष विनाश. ३९६	
जेनी संयोगे करी, उत्पत्ति नहीं थाय;	
नाश होय नहि तेहनो, माटे नित्य सदाय. ३९७	
अहंकृतिने क्रोधनी, केशरी फणिधरमांय;	
भासे तस्तमता घणी, पूर्ववासना त्यांय. ३९८	
पूर्ववासना योगथी, नित्य आतमा सिद्ध;	
क्षणिकचेतन बुद्धिने, देशवटो एम दीध. ३९९	

आशंका शिष्य उवाच.

जीव न कर्त्ता कर्मनो, कर्मज कर्त्ता कर्म;	
चेतन कर्त्ता कर्मनो, धर्म जीवनों मर्म. ४००	
सदा असंगी आतमा, जलपंकजनी पर.	
कर्त्ताने भोक्तापणुं, भासे प्रकृति घेर. ४०१	

(११७)

आत्मसिद्धि-घटस्थानक.

- ईश्वर इच्छा योगथी, कर्मतणोछे धंध;
सुख दुःख तेथी संपजे, मोटे जीव अबंध. ४०२
- सद्गुरुः उवाच—समाधान.
- काल अनादि परिणम्यां, चेतन पुद्गल दोय;
अशुद्धपरिणतियोगथी, कर्ता कर्मनो होय. ४०३
- जीवप्रेरणा जो नहि, तर्हि ग्रहे को कर्म;
जडमां कदी न प्रेरणा, भिन्नपणे बे धर्म. ४०४
- मोटे चेतनप्रेरणा, यातां कर्म ग्रहाय;
परभाविक ते प्रेरणा, ग्रहीलत्रेष्टान्याय. ४०५
- कर्ता कर्म न कर्मनो, जुओ विचारी चित्त;
घटपट करे शुं प्रेरणा, समजो न्याय पवित्र. ४०६
- मोटे कर्ता कर्मनो, चेतनछे व्यवहार;
शुद्धस्वभाविक धर्मनो, कर्ता चेतन धार; ४०७
- मूलधर्म त्यागे नहीं, एवो जीव स्वभाव;
अशुद्धपरिणतियोगथी, कर्ता कर्म विभाव. ४०८
- परिणम्यां पयनीरवे, भिन्न करेछे हंस;
निजगुण रमतो हंस त्या, करे कर्मनो ध्वंस. ४०९
- चेतननो नहीं जाणीए, जेह विभाविक धर्म;
स्वाभाविक निजधर्मछे, जाणो अनुभव मर्म. ४१०

परमात्मदर्शन.

(१९५७)

अशुद्धपरिणतिंथी कर्या, कर्मतणोछे अन्तः	
सहजशुद्धनिजधर्मथी, भाखेछे भगवन्त.	४११
सदा असंगी आतमा, निश्चयसत्ता धार;	
कर्त्ता भोक्ताःकर्मनो, वर्ते ते व्यवहार.	४१२
जन्मजराने मृत्युनां, दुःखनुं कारण कर्म;	
शाताऽशाता कर्मथी, कर्मजालनो मर्म.	४१३
रंग्युं बीज कपासनुं, लाक्षारस संयोग;	
रूमां लागी रक्तता, कर्मफलो नो भोग.	३१४
कर्माष्टक नाशे यदा, तो चेतननी शुद्धि;	
आत्मस्वभावे आत्मनी, पामे तात्त्विकरुद्धि.	४१५

शिष्य उवाच, शंकां

अनादिकालथी संगति, कर्म जीवनी जोय;	
नाश कहो शुं कर्मनो, कारण त्यांशुं होय.	४१६

सद्गुरुः उवाच—समाधान.

कालअनादि परिणम्यो, चेतन मिथ्या भ्रान्तः	
छूटे चेतन खाणमां, रजः कनक दृष्टान्त.	४१७
ईश्वर इच्छायोगथी, सुख दुःख क्यांथी होय.	
ईश्वरनी जो प्रेरणा, दोषी ईश्वर जोय;	४१८

(३९६)

पटस्थानक.

शाथी ईश्वर प्रेरणा, ईश्वरनो अन्याय;
न्यायी अपराधी सद्गुरु, ईश्वर पोते थाय. ४१९

शिष्य उवाच शंका

कर्म करेछे प्राणिया, सामग्री अनुसार;
सुख दुःख ईश्वर आपतो, जीव अकर्ताधार. ४२०

गुरुः उवाच.

कृत्य करे ते भोगवे, पोते सुखने दुःख;
खावे तेहं धरायछे. प्रभु न भागे भूख. ४२१

क्षेपे निजकर वन्दिमां, ज्वलतो देखे हाथ.
स्वयंहि कर्ता जीवछे, कथं प्रेरणा नाथ; ४२२

अवळी बुद्धियोगथी, विषभक्षणथी नाश;
प्राणोनो जाणो अहो, ईश्वर न्याय न खास. ४२३

स्वयमेव ज्यां सुख दुःख, चेतन कर्म पाय;
ईश्वर प्रेरण कल्पना, सुख दुःख कर्म थाय. ४२४

सदा असंगी आतमा, निश्चय सत्ता लेख;
व्यवहारे सुख दुःखनो, कर्ता चेतन देख. ४२५

जीव अकर्ता कर्मना, नाशे सत्य जणाय;
चेतन जाणो नयथकी, शुद्धधर्म प्रगटाय. ४२६

परमात्मद्वेषेन.

(३९७)

शिष्य उवाच.

न्याययुक्ति दृष्टान्तथी, कर्त्ता कर्मनो जोय;
समजे जड शुं कर्मके, फलपरिणामी होय. ४१७

उवाच गुरुः.

कर्त्ता भोक्ता जीवछे, पण तेनो नहि मोक्ष;
ब्रित्यो काल अनन्त पण, हजु न मुक्ति पोष. ४२९

पुण्यतणुं फल भोगवे, मानव स्वर्ग मझार;
घापतणुं फल भोगवे, दुर्गतिमां अवतार. ४३०

पापपुण्य फल भोगवे, चतुर्गतिमां जाय;
समये समये कर्मसंच, कर्मरहित नहि क्यांय. ४३१

उवाच समाधानं सद्गुरुः

अशुद्धपरिणतियोगथी, फलदं कर्म प्रमाण;
तथा निवृत्ति धर्मथी, सिद्ध ठरे निर्वाण. ४३२

काल अनंतो वितीयो, जीवतणो परभाव,
आत्मरमणता योगथी, प्रगटे मुक्ति प्रभाव. ४३३

संयोगे वियोगछेज, देहादिक दृष्टान्त;
कर्मवियोगे आत्मनी, मुक्ति सुखालय कान्त. ४३४

(१९८)

आत्मसिद्धि-चट्टस्थानक.

शिष्य शंका.

मोक्षतणी जे आस्तिता, तेतो समजी जाय;
अनन्तभवनां कर्मनो, ध्वंस न क्यारे थाय. ४३५

भिन्न भिन्न दर्शन कथे, मुक्ति अनेक उपाय;
सत्य असत्य तेमां कयुं, निर्णय वित्त न थाय. ४३६

को वेषे कइ जातिमां, कया पन्थमां मोक्ष;
निश्चय तेनो नहि बने, तो शी करवी होंश. ४३७

भव प्रथम के मुक्तिवा, प्रथम जीव के सिद्ध;
इत्यादिक मन चिंतता, मोक्ष न होय प्रसिद्ध. ४३८

उवाच सद्गुरुः

चोपाइ.

ज्ञानक्रियाछे मोक्षोपाय, सूत्रे भाखे श्री जिनराय;
अग्निकणाथी, गंजीबुळे, तथा ध्यानथी कल्मष टळे. ४३९
जेने लाग्यो जन्मथी रोग, औषधयोगे थाय निरोग;
कीधां अनन्तभवनां कर्म, नष्ट थतां प्रगटे शिवशर्म. ४४०
अंधारु जग व्यापी जाय, थातां सूर्योदय विणसाय;
सत्य ज्ञान त्यां शेछे भार, कर्मतणो तुं हृदये धार. ४४१
ज्ञानावरणीयादिक आठ, कर्मतणोछे सूत्रे पाठ;
मुख्य मोहिनी सहुमां होय, यथा प्रजामां नृपति जोय.

षट्स्थानक.

(१९९)

मोहिनी नाशे सर्व हणाय, नृप हार्याथी प्रजा पलाय;
 कर्म टळयाथी शिवसुख गेह, सत्यपंथमां शो संदेह. ४४३
 मतदर्शनना असत्यराग, अंधा श्रद्धा ज्ञाने त्याग.
 जातिलिंगमां माने मोक्ष, तेथीज मुक्ति होयं परोक्ष. ४४४
 सत्यतत्त्वनी श्रद्धा थाय, समवायिपंचज प्रगटाय;
 अरूप चेतन जागे ज्योत, त्रिभुवनमां ज्ञाने उद्योत. ४४५
 भवमुक्तिनी नहींछे आदि, प्रवाहथी ते दोय अनादि;
 अनेकान्त पन्थज समजाय, श्रद्धाथी सहू मळे उपाय. ४४६
 केवलज्ञानी वाणी ग्रंथ, गुरुगम समजी ल्यो शिवपंथ;
 एकशब्दनो भावज साच, एम कहे तीर्थकर वाच. ४४७
 जीव मोक्षादि शब्दज एक, साचो मोट करो विवेक;
 जेनो बंधहि तेनो मोक्ष, जरा नहि त्यां लागे दोष. ४४८

शिष्य उवाच.

“ दुहा. ”

आपे षट्स्थानक कक्षां, करुणार्थी गुरुदेव;
 श्रद्धाथी में सहक्षां, टळी अनादि कुटेव. ४४९
 आज लगी अज्ञानथी, थइ न तत्त्व प्रतीत;
 नमन करुश्री सद्गुरु, कीधो शिष्य पवित्र. ४५०

(४००)

परमात्मदर्शन.

धर्मरत्न आजे ग्रह्यं, देख्युं परमनिधान;
 शरण शरण त्हारुःप्रभु, कोई न तुज समान. ४५१
 काल अनादिथी भम्यो, पण आव्यो नहीं अन्त;
 सम्यक्तत्त्व जणावियुं, नमुं प्रभो गुणवन्त. ४५२

शिष्य उवाच शंकां.

अनन्तजीवो सिद्धता, शिवमां केम समाय;
 निराकरण तेनुं करो, जेथी शङ्का जाय. ४५३

उवाच गुरुः

सिद्धशिलानी उपरे, शाश्वतछे शिवठाण;
 कर्म खप्याथी जीव त्यां, थावे श्री भगवान्. ४५४
 एकदीपकनी ज्योतिमां, अनेकदीपकज्योत;
 सिद्धअरूपी मावता, दोष न किञ्चित् द्योत. ४५५

चोपाइ.

विषयवासना विषसम खास, त्यागो बहिरातमपदवास;
 शाश्वतपदनी वाञ्छा होय, तो अधिकारी धर्मे जोय. ४५६
 दुःखनो आत्यंतिकविनाश, मुक्ति वैशेषिकनी खास;
 मनने नित्यज माने तेह, मुक्तिमां जीव साथे तेह. ४५७
 बुद्ध्यादिक नवनो ज्यां नाश, मुक्तिज एवी त्यांशुंआश;
 वृन्दावन जंबुक अवतार, तेथी सारो मानव धार. ४५८

परमात्मदर्शन.

(४६१)

वदे वेदान्ती मुक्ति स्वरूप, जाणो जग व्यापक चिद्रूप;
 घटन व्यापक चैतनराय, त्यां शुं शिवनी आश रखाय ४५९
 माने मुक्तिज आर्य समाज, भाडे पाभ्यो जीवजराज;
 मुक्तिथी जीव पाछो फरे, मुक्ति एवी शुं दुःख हरे. ४६०
 कर्म खप्यार्थी नहि संसार, कथं जीव पामे अवतार;
 जन्म मरण ज्यां वारंवार, शान्ति तेनी नहीं लगार. ४६१
 एक कहे छे मुक्ति स्वरूप, मोटो अंधारानो कूप;
 जाबुं जे ईश्वरनी पास, चित्त धरो ईश्वर विश्वास. ४६२
 विश्वासी ईश्वरना दास, मुक्तिफोजमां भळतां खास;
 इशु भलो ईश्वरनो पुत्र, ते चलवे छे जगनुं सूत्र. ४६३
 शरीरधारी मुक्तिज ज्यांय, जन्म मरणना फेरा त्यांय;
 मुक्ति तेवीज कदीन होय, साक्षरवादी ग्रहे न कोय. ४६४
 अंधो वनमां फरतो फरे, पण चाली पहोंचे नहि घरे;
 ज्ञानचक्षु हृदये प्रगटाय, मुक्ति पन्थ त्यारे देखाय. ४६५
 कोइक राता छे व्यवहार, ज्ञाने राता कोइकधार;
 एकएकनुं खंडन करे, पक्षापक्षेज लडी मरे. ४६६
 एकान्तनयोर्था पक्षापक्ष, सत्यज माने बे नय दक्ष;
 नय एकेके दर्शन थयां, सापेक्षे ज्ञानिए ग्रह्यां. ४६७

(४०३)

षष्ठ्यांशः

सरिताओ सागरमां भळे, जिन दर्शनमां सर्वे मळे;
 दर्शनमांभजनाजिनवाच,अनेकान्त वाणी जगसाच४६८
 कर्माष्टकनो थावे नाश, आविर्भावे गुणनो भास;
 जन्म मरणना फेरा टळे, चेतन क्षायिक धर्मे मळे.४६९
 समये समये सिद्ध अनन्त, सुख सहेजे विलसे शिवकंत;
 पूर्वप्रयोगे उंचा जाय, शाश्वत शिवपुरमां विरमाय. ४७०
 उर्ध्व अधःतिब्छा नहि जाय,क्रिया रहित मोटे स्थिर थाय;
 ताडक् विभुने करु प्रणाम, क्यारे पासुं सुखसुं धाम. ४७१
 सादि अनंतिज स्थिति वरी, सिद्धनसुं ते भावज धरी;
 केवलज्ञाने जाणे सहु, तेबुं पद प्रेमे हुं चहुं. ४७२
 चेतन परमात्ममां भेद, व्यवहारे जोतां ए खेद;
 भेदभावनो ज्यां नहि लेश,निश्चयनयथी जोतां वेश.४७३
 उत्तमदृष्टि आत्मस्वरूप, वहेतां प्रगटे सुखचिद्रूप;
 भणोंगणो वांचो सहु ग्रन्थ, चेतनदृष्टि शिवपुर पन्थ.४७४
 उत्तम दृष्टि कोइक लहे, शिवपुरमांहि सिद्धो वहे;
 ज्ञानादिक गुण लेखे होय, समभावे निरखे सहु कोय४७५
 शत्रुमित्रमां समता भाव, शुद्धधर्मनो प्रगटे दाव;
 देह छसां पण देहातीत, दशा तादृशी त्यां शुं भीत. ४७६

परमात्मदर्शन.

(४०३)

नमुं नमुं ते वरनिर्ग्रथ, जेनी दृष्टि शिवपुर पन्थ;
 पामुं एवो सदगुरु संग, तो पामुं निजगुणनो रंग४७७
 तादज जावे तपतां ताप, साधु संगे दहीए पाप;
 माटे मानो सदगुरु आण, पामो शाश्वतपद निर्वाण.४७८
 धन्य धन्य म्हारो अवतार, ज्यारे लहिशुं शिवपुर सार;
 दावानळ छे आ संसार, पामुं क्यारे तेनो पार. ४७९
 चिंतन एवुं चित्ते थशे, दोषो त्यारे अळगा थशे;
 आत्मध्यानमां जे क्षण जाय, क्षण ते भवमां लेखे थाय४८०
 देहे देहे व्यापी रब्यो, महिमा जेनो जाय न कब्यो;
 नामी अनामी जेने कहुं, तेने ते देखे छे लहुं. ४८१
 नहि ज्यां शब्दअने ज्यां गंध देखे नहि नास्तिकजनअन्ध
 लीधां छोडयां केइक देह, पण पोते तो नित्यज तेह ४८२
 जेनी आदि नहीं ने नाश, अजरामर माटे ते खास;
 योगी पण भोगी कहेवाय, नमुं नमुं ते चेतनराय.४८३
 जेनुं ध्यान धरतां सुख, जन्म मृत्युनां जावे दुःख;
 जेना गुण छे अपरंपार, नहि ज्यां जाति लिंग प्रकार.४८४
 गुण पर्यायतणो आधार, एकरूप त्रिकाले धार;
 ऋमवर्ति जाणो पर्याय, सहभावी ते गुण ग्रहाय,४८५

(४०४)

आत्मसिद्धि-पटस्थानक.

पड् द्रव्योमां वर्तन एम, चिंतन करतां लहिये क्षेम;
शुक्लध्यान पण तेथी होय, निश्चय शास्त्रे भाख्युं जोय ४८६

षड् द्रव्योमां सर्व समाय, भास्त्रे सूत्रे श्री जिनराय;
सूक्ष्मपणे जो थावे ज्ञान, स्वल्पभवे पामे शिव स्थान. ४८७

निश्चयदृष्टि चित्ते वहे, व्यवहारे वर्ती गुण लहे;
एकान्ते चाले व्यवहार, पामे नहीं ते भवनो पार. ४८८

सर्वज्ञे भाख्या नय दोय, होय न जूठो तेमां कोय;
निश्चयनो हेतु व्यवहार, कारण कार्यपणुं त्यां धार. ४८९

आवश्यादिक जे व्यवहार, करीये लहिये भवजल पार;
जन मन रंजन किरिया करे, भाव विना ते भवमां फरे. ४९०

भाव विना किरिया छे फोक, करीए समजी हरिये शोक;
आडुं अवळुं मनडुं फरे, धर्मक्रिया ते शानी करे. ४९१

चित्त न ठरतुं एकज ठाम, माटे किरियानुं शुं काम;
निश्चय एमन करशो कोय, उद्यम अवलंबो सुख होय ४९२

निज गुण रक्षण साचो धर्म, निजगुण विश्वंसनज अधर्म;
आत्म प्रवृत्ति धर्मे वळे, निज ऋद्धि तो निजने मळे. ४९३

क्रिया बाह्यनी चेतन करे, कर्म ग्रही भव फरतो फरे;
प्राप क्रियाछे भव जंजाळ, क्रिया धर्मनी मंगलमाळ ४९४

परमात्मदर्शन

(३०५)

आर्त्त रौद्र किरियानो त्याग, तेथी नहि शिवसुखनो लाग;
मुक्तिप्रापक मनमा जाण, तद्धेतु अमृत सुख खाण. ४९५

आत्मज्ञानथी छे नहि देह, चेतनधर्मी गुणगणगेह;
अरिहंतादिक पदवी जेह, तेनो धर्ता चेतन एह. ४९६

जेजे इच्छे रुचि अनुसार, तेते फळ पामे निर्धार;
भवाभिनेंदी भवमां फरे, आत्मानंदी शर्मज बरे. ४९७

अव्यय निर्मळ चेतनगति, अनुपम मुक्ति स्त्रीनो पति;
कर तुं तारो स्वयंप्रकाश, पोतानो धर तुं विश्वास. ४९८

तहारावण सारो जग कयो, तहारावण निर्मळ को भयो;
नहि नहि तहारा कोय समान, धर निर्मळ पोतानुं ध्यान. ९९

तहारा निर्मळगुणनो लेश, पामंतां नाशेछे क्लेश;
योगीजन तो देखे त्हेने, मोह न आवे तेनी कने. ५००

योगी देखे आपोआप, तेने क्यांथी लागे पाप;
ध्यानगुफामां योगी वास, कर्म न आवे तेनी पास. ५०१

सौथी न्यारो योगी योग, नहि पामे ते मोही लोक;
जागे योगीज उंधे सहु, शुं योगीनी वातज कहुं. ५०२

योगी सोहं चेतनराय, बाले देखे ते कहेवाय;
परमात्मने जीवनो भेद, भागे नाशे भवनो खेद. ५०३

(४०६)

षट्स्थानक.

धन्य धन्य मानुं अवतार, स्वरूप किंचित् भास्युं सार;
 अकलगति तुं चेतनदेव, कर पोतानी पोते सेव. ५०४
 दानी दे तुं निजगुणदान, भानी तुं दे निजगुणभान;
 त्हारुं सुख छे अव्याबाध, साधनथी तुं तेने साध्य. ५०५
 समतारसनो तुं भण्डार, आत्म धर्मने तुं धरनार;
 नाहं नाहं तृष्णादास, नाहं नाहं पुद्गलवास. ५०६
 श्री जिनवरभाषित बे धर्म, हेतु ते छे शाश्वतशर्म;
 यथाशक्ति तेनो स्वीकार, करिये समजी धर्मप्रकार. ५०७
 निंदो धर्मीने मा कोय, निंदानां कडवां फल होय;
 श्रावक थइने तपजप करे, निंदा करतो भवमां फरे. ५०८
 समजे नहि अंतरनो मर्म, टीलां टपके शानो धर्म;
 शुद्धस्वरूपे निश्चय धार, धन्य धन्य तेनो अवतार. ५०९
 कुलमां उपन्यो श्रावक नाम, तेथी शुं थावे निजकाम;
 नाममात्रथी कार्यज सरे, धनपति भिक्षा खातो फरे. ५१०
 श्रावकव्रत नहि पोते धरे, दे शीखामण साधुघरे;
 गुरुनो प्रत्यनीक चंडाल, तेथी जन्म भलो गृगाल. ५११
 अहो विषम कलिकाले जोय, श्रावकना गुणधारी कोय;
 निंदक मानी मुनिथी क्लेश, तेने शुं लागे उपदेश. ५१२

परमात्मदर्शन.

(४०७)

भणयोगण्यो पण श्रावक कोय, गुरुथी अधिको नहि तेहोय;
मेरु सरसव समछे फेर, अंतर अजवाळुं अंधेर. ५१३

उत्तरस्त्रयणे तेनी साख, गुणना मटे कर अभिलाष;
दृष्टिरामे शानोज धर्म, द्वेषे वाह्यो बांधे कर्म. ५१४

धर्मगुरुनीज आज्ञा धार, तरवानुं ते तीर्थ विचार;
तेथी पामो भवनो पार, सार सार तेछे सुखकार. ५१५

साधुव्रतनोछे अभिलाष, माने सद्गुरुनो हुं दास;
अशुद्रादिक गुणनुं नाम, साचुं तेनुं श्रावक नाम. ५१६

पंचमहाव्रत पंचाचार, धर्मध्यानमां वर्ते सार;
भवभ्रमणभय आज्ञा जिन, वर्ते मन जेनुं निशदीन. ५१७

बाह्योपाधि विषवत् त्यजी, सहजसमाधि ज्ञाने भजी;
जेने बोध्युं आत्मस्वरूप, नमुं नमुं प्रभु गुरु श्री अनुप. ५१८

पार्श्वमणि संयोगे लोह, भजे कनकता तेह अबोह;
जेना बोधे टळे सदाय, गुरुनी गुरुता प्राप्तिथाय. ५१९

एवा गुरुने सेवो भाइ, तीर्थ तीर्थ ते जग सुखदाइ;
वाणी जेनी बहु गंभीर, चेतन योगी ध्यानी धीर. ५२०

धर्मगुरु मुज प्राणाधार, सदा शुद्ध तेनो उपकार;
गुरुनी सेवा भक्ति मळे, तो भव कल्मकष सहेजे टळे. ५२१

(४०८)

आत्मसिद्धि-वटस्थानक.

गुरुए कीधो जे उपदेश, पामीने तेनो लवलेश;
 गुरुनी भक्ति वर्णन करी, लागी गुरुभक्ति मुज खरी. ५२१
 धर्मगुरुओज थया करो, ज्ञानामृतनो बहो झरो;
 श्रीसंखेश्वर पार्श्वकृपाळ, निशदीन करशो मंगळमाल. ५२३
 धरणेन्द्र पद्मावती सहाय, पामी पूरो ग्रंथ कराय;
 परमात्मदर्शन निर्मळ ग्रंथ, पंचशती जाणो शिवपंथ. ५२४
 गाम लोदराए करी मास, मतिस्फूर्तिथी कर्यो प्रयास;
 म्हेसाणामां पूरो थयो, शुद्धस्वभावे चेतन रह्यो. ५२५

“ दुहा. ”

धर्मचन्द सुत जीवणलाल, सुस्तवासी जीवदयाल;
 सकल संघना माटे कर्यो, ज्ञाताभवपाथोधि तयो. ५२६
 श्री सुखसागर गुरुजी बेश, पामी आनन्द होय हमेश;
 बुद्धिसागर रचना सार, मंगल सिद्धि जयजयकार. ५२७
 संवत ओगणीश उपरे, साठतणी शुभसाल;
 अषाढ शुक्ला पंचमी, रचतां मंगलमाल. ५२८

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

परमात्मदर्शन.

अशुद्धि शुद्धि पत्रक.

पृष्ठ	लीटी	अशुद्धि	शुद्धि
३	१२	भव्यत्मा	भव्यात्मा
४	२३	अवबोध	अवबोध.
६	२४	सुखन	सुखने
७	१३	समयसूचक	समयसूचक
१३	४	साभ्यता	साम्यता
१५	३	षष्ठं	षष्ठ
१५	१५	निद्राधीन	निद्राधिन
१५	२१	अने	० नथी
१५	२२	तेने	तेणे
१६	७	रुषिसभा	ऋषिसभा
१६	२२	त्वाय	त्वाच
१७	९	संसय	संज्ञय
१७	२१	तीर्थर्न	तीर्थनी
१७	२२	सद्गुरू	सद्गुरू
१८	१६	य ॥	यथा
१८	१८	ताहक	ताहक
२०	१४	भे ऽं	भेगुं
२०	१८	बच्चु	बच्चु
२१	७	स्थिति	स्थिति
२४	७	बृद्धि	बुद्धि
२४	१८	अनादिकु पीर	अनादि कुपीर
३१	५	कर्म किया	कर्म क्रिया

(१)

शुद्ध	कीटी	भङ्गुदि	शुद्धि
३१	१०	क्रिका	क्रिया
३२	१७	पुण्य	पुण्य
३६	१३	केवलज्ञान	केवलज्ञान
३८	१६	नाग	नाम
४०	२१	थाय छे	थवाय छे
४२	२	आग्नि	आग्नि
४२	१७	वे	के
४३	५	जेणे	जेणे
४३	१४	तारण	तरण
४५	५	तत्त्व	तत्त्व
४५	१५	सुशोभीत	सुशोभित
४६	२४	शुद्धान्तःकरण	शुद्धान्तःकरण
५४	८	पकडी	पकडी
५५	११	पेटी:	पेटी
६०	१९	गुरु	गुरु
६२	२४	सद्गुरु	सद्गुरु
६४	१६	अन्तःकरण	अन्तःकरण
६५	१४	धर्मप्राप्ति	धर्मप्राप्ति
६९	१४	द्रव्य	द्रव्य
६९	१९	स-मय	समय
७०	१	द्रव्यार्थिक	द्रव्यार्थिक
७०	१३	सरस्वा	सरस्वा
७६	३	जोरि	जोर
८०	१५	शुद्दगल	शुद्दगल
८१	३	द्रव्ये गुणोपचर	द्रव्ये पर्यायोपचर

(३)

शुद्ध	कीर्ति	अशुद्धि	शुद्धि
८२	१४	दृष्टाः	दृष्टा
८३	१०	पेटें	पेटे
८५	१	व्याधि	व्याधि
८५	६	स्याद्वाद	स्याद्वाद
८५	७	रागद्वेष	रागद्वेष
९४	१२	लंघ्ये	लंघ्य
९५	६	सेय	सेय
९५	८	दुःख	दुःख
९५	९	आत्म	आत्मा
९५	१३	पांचे	पांचे
९९	५	ते	ता
९९	१४	श्रौ	श्री
१००	११	वस्त्र	वस्त्र
१०२	१२	जी तोना	जीवोना
१०३	५	मूर्क	मूर्की
१०४	१९	स्त्री	स्त्री
१०५	९	चितवनाथ	चितवनाथी
१०५	१७	परिपक्वता	परिपक्वता
१०५	१९	ध्यान	ध्यान
१०५	१९	भ्रान्ति	भ्राति
१०५	२१	निधान	निधान
१०६	१२	ते	तेथी
१०९	१३	ए-न	एम
११०	९	हेतुता	हेतुस्ता
११७	१८	गतकन्तु	गतकन्तु

(४)

पृष्ठ	कीटी	अशुद्धि	शुद्धि
१२०	१	अधगता	धिगता
१२०	१०	सर्वत्रा	सर्वत्र
१२५	८	बिचार	विचारे
१२५	८	तारा	तारो
१२५	१०	रा वीश	राखीश
१२६	३	किंचित्ति	किंचिन्नि
१२७	१०	तिष्ठंति	तिष्ठंति
१२७	१४	तिष्ठंति	तिष्ठंति
१२८	१७	पृ वी	पृथ्वी
१२९	५	देश	देशो
११९	९	शुं	शुं
१२९	१३	सर्व	सर्व
१३१	११	मनुष्यो	मनुष्यो
१३१	१८	होतु	होतुं
१३३	३	स्वरूप	स्वरूप
१३७	८	कश	केश
१४०	५	मुस्कल	मुश्कल
१४०	१२	औदारिका	औदारिक
१४०	१२	तेजस	तैजस
१४०	१५	चाल्या	चाल्यो
१४१	३	शुद्धा	शुद्धा
१४१	५	विणु	वण
१४१	७	वृत्तिमं	वृत्तिमां
१४१	१६	जेनु	जेनुं मन
१४१	१७	ननी	नयी

(५)

वृष्ठ	लीटो	भशुद्धि	शुद्धि
१४१	१७	भाक्ता	भोक्ता
१४२	२२	मुनिश्वर	मुनीश्वर
१४३	३	शरीरीनु	शरीरीनुं
१४३	६	सधा	सुधा
१४४	८	सुभटो	सुभटो
१४४	९	पारो	पासे
१४४	९	हायछे	होयछे
१४४	१३	ता	तो
१४४	२२	ता	तो
१४५	२४	अनुष्ठान	अनुष्ठान
१४६	१०	५	केवलज्ञान
१५३	८	आही	ओही
१५३	२०	अंगुलन	अंगुलना
१५७	३	आत्मत्व	आत्मतत्त्व
१५७	२२	अुंड	अुंड
१६०	१८	आत्तध्यान	आर्त्तध्यान
१६१	१	वा	वो
१६१	१०	करीन	करीने
१६२	७	०	तो
१६२	८	रंग	रंग
१६२	२४	सुरव	सुख
१६६	४	योग	योग
१६७	६	अभिलाषि	अभिलाषि
१६८	१०	कबुछे	कबुछे
१६८	११	विषयाणा	विषयाणां

(६)

पृष्ठ	लीटी	अक्षुब्धि	शुद्धि
१६९	११	षाष्ट	बाष्ट
१७०	१०	विसाजगि	विराजित
१७१	१८	लोक	लोक
१७१	१८	रु।	रूप
१७३	१७	हे	छे
१७३	१७	कुं	न
१७४	१०	करं	करं
१७४	१९	व्याधि	व्याधि
१७४	२१	याज्य	त्याज्य
१७५	३	हे	छे
१७५	३	कुं	न
१७६	३	वा	वा
१७६	३	कुं	०
१७८	११	श्राद्ध	श्रद्धा
१८१	७	अत्म	आत्म
१८५	१२	ध्याए	ध्यान
१८७	९	आत्म	आत्मा
१८७	१०	निष्क्रिय	निष्क्रिय
१८७	१६	”	”
१८७	१९	स्वरूप -।	स्वरूप
१८७	२३	निदृष्टि	निश्चयदृष्टि
१९१	१८	तृषा	तृषा
१९४	१५	दुष्प्राप्य	दुष्प्राप्य
१९५	२२	त गिर	तवंगर
१९८	६	धर्मी	धर्मी

(७)

पृष्ठ	छोटी	अष्टादि	शुद्धि
१९८	१०	सिंहलद्वीप	सिंहलद्वीप
१९९	१६	पण	पण
२००	११	जुं	जुं
२०५	२५	गत	०
२०७	६	चारित्र	चारित्र
२०७	२०	कृत्यमां	कृत्य
२०९	७	राकाइ	रोकाइ
२१०	३	राग	राग
२१०	१८	०	छे
२११	२५	शु	०
२१२	१	०	शु
२१३	१५	गिहेसु	गिहेसु
२१४	५	प्रमा -ा	प्रमाण
२१६	१६	सद्भाव	सद्भाव
२१८	४	दर्शनापयोग	दर्शनोपयोग
२१८	१६	नाणवा	जाणवा
२२१	१	व्यक्ति	व्यक्ति
२२२	०	प्रायश्चित लेवुं	अभ्यमतनो जैनदर्शनां समावेश
२२३	१	नारितत्व	नास्तित्व
२२४	२५	एकेकवी	एकेकथी
२२९	९	बलवत्तर	बलवत्तर
२३०	१६	का	कारण
२३१	१९	देवनी	देवनी
२३२	२५	जन	जिन
२३२	११	सामिले	सोमिले

(८)

वृह	खीटी	अशुद्धि	शुद्धि
२३६	११	भावने	भाव ते
२३६	१९	कारण	कारण
२३८	१	उत्पत्तौ	उत्पत्तौ
२४१	४	तिक्ष्ण	तीक्ष्ण
२५३	१५	बेना	बेनना
२५९	५	कवलाहर	कवलाहार
२६२	१६	द्वेषो	द्वेषने
२६३	३	स य	सत्य
२६३	७	नयी	नथी
२६३	१९	आयुष्य कर्म	आयुष्य कर्म
२६३	२४	तारतम्य	तारतम्यता
२६४	१	माहनीय	मोहनीय
२६४	१७	आत्मनी	आत्मानी
२७६	१०	प्रधान	प्रधाने
२७६	२५	जोद्धाओ	योद्धाओ
२७७	११	नगर	नगर
२७७	१४	जीवोनो	जीवोने
२७८	०	धम	धर्म
२७८	४	आ	आ
२७८	८	चतुरिन्द्रि	चतुरिन्द्रिय
२७८	११	दशा	दशा
२७८	१४	मोहना	मोह
२७८	१७	पास	पास
२७९	१	रोवरवुं छुं	रोवरवुं छुं
२७९	१७	कूाी	कूतरी
२८०	१	मोहे	मोहे
२८०	५	रजा	राजा
२८०	१५	जीव	जीव

(९)

दृष्ट	लीटी	कञ्जादि	शुद्धि
२८०	२३	दृढ	दृद्धि
२८१	२५	विष्टा	विष्टा
२८२	१५	कृसंप	कुसंप
२८४	२१	मुख	मुख
२८४	२२	तेओ	तेमां
२८४	२२	भ्रभावेछे	भभावेछे
२८४	२५	बौध	बौद्ध
२८६	४	संसार	संसार
२८७	१	जावो	जीवो
२८७	२०	लाग्या	लाग्यो
२८८	१२	थाडी	थोडी
२८८	१३	न	ने
२८८	१४	दयाना	दयानां
२८८	१५	वर्षावतां	वर्षावतो
२८८	२४	जीवोने	जीवोने
२८८	२४	खेचुछुं	खेचुछुं
२८९	१	०	के
२९०	१०	सम्यक्	सम्यग्
२९१	१५	नाश	नाश
२९२	७	प्रतिष्टा	प्रतिष्टा
२९३	२१	स्माद्वाद	स्याद्वाद
२९३	२४	मारा ।	मारायी
२९५	६	वांइ	कांइ
२९८	१०	तरीक	तरीके
२९८	१२	वरणोय	वरणीय
३०३	१२	—	प्रसव
३०५	२	पचम	पञ्चम
३०५	४	खापी-	स्वामी.

(१०)

शुद्ध	लींठी	अशुद्धि	शुद्धि
३०५	१३	योगे-	योगे
३०५	१५	सिद्धात-	सिद्धान्त
३०६	१६	वस्तु	वस्तु
३०८	९	-	ठर्यो
३११	१०	-	स्वरूप
३१६	१०	ब्रह्मचर्य	ब्रह्मचर्य
३१७	१७	तत्ज्ञानं	तत्ज्ञानं
३१८	७	सु द्वे	सुद्धे
३३५	९	कारणक	कारणके
३३६	१५	सिद्धत्मा	सिद्धात्मा
३५४	४	कवी	केवी
३५५	१	आविर्भाव	आविर्भावे
३६१	१८	एकात	एकान्त
३६४	१३	मल	मूल
३६३	२०	स्वरूपमा	स्वरूपमां
३६९	१३	निमित्त	निमित्त
३७२	६	दृश्य	दृश्य
३७४	८	उपनिषदा	उपनिषदो
३७५	१	सहु छ	सहु छे.
३८३	४	त्या	त्यां
३८८	३	उत्सांगल	उत्सृंगल
३९४	१३		मूल धर्म
३९४	१६	त्या	त्यां
३९१	११	अना।दि	अनादि
३९८	८	चितता	चिततां

ज्यां ईश्वरमां इहस्व छपाइ होय त्यां दीर्घ वांचवी.

बीजी जे अशुद्धि छत्रस्थ दृष्टिथी सुधारतां रही गइ होय ते सुधारीने वांचवी.

योगनिष्ठ मुनि बुद्धिसागरजी कृत ग्रन्थोनी यादी.

अने ते मळवानां ठेकाणां—

पुस्तकतुं नाम.

मळवानां ठेकाणुं.

१ जैन धर्म अने श्रीस्ति } धी जैन केरली सोसायटी-मुम्बय.
धर्मना मुकायलो.

२-३ श्री रविसागर } पादरा भाभानी पोण शा केशवलाल
अने शोडविनाशक. } लालचंदने त्या.

४ पद्मव्य विचार. } पादरा शा. मोहनलाललाठ हीमचंद
५ वचनाभृत. } वडील.

६ अध्यात्म शांति.—शा. रतनचंद लाधाल कावीठा प्यारसद पासे.

७ शिंताभशि. } जैनोदय बुद्धिसागर सभाज.
८ कन्याविक्रय निषेध. } साशुंद.
९ पूज संत्रह.

१० बुद्धिप्रकाश गायन संत्रह.—शा. भणिलाल वाडीलाल साशुंद.

११ बुद्धिप्रकाश गायन संत्रह } अभदावाद संभव जिनमंडल.
भाग भीजे. }

१२ सभाधिशतक—शेठ. जगलाल दलपतलाठ, मु. अभदावाद.

१३ तत्त्वविचार. } ज्ञान प्रसारक मंडल. मुंभाईअपेरी पणजर.
१४ सत्यस्वरूप. }

१५ आत्म प्रकाश. } शा. वीरचंद कृष्णाल. मु. भाणसा.
पुना-वैतालपेठ.

१६ लज्ज संत्रह भाग पहिलो. } अभदावाद.
१७ लज्ज संत्रह भाग भीजे. }
१८ लज्ज संत्रह भाग त्रीजे.
१९ लज्ज संत्रह भाग शेधा. } जैन पेरुईंग नागोरीसंत्रह.
२० अध्यात्मज्ञान व्याख्यानभाण.

(૧૨)

૨૧ આત્મપ્રદીપ.
 ૨૨ અધ્યાત્મગીતા.
 ૨૩ આત્મસ્વરૂપ.
 ૨૪ અનુભવ પરચ્છીશી.
 ૨૫ પરમાત્મ દર્શન.
 ૨૬ પરમાત્મ જ્યોતિ.
 ૨૭ ગુરુબોધ.

અમદાવાદ જૈનચેતાંબર ઝોડીંગ

નાગોરીશરાહ-

૨૮ પ્રાચીન ન્યાય ગ્રંથ ઉદ્ધાર. } ઝવેરી ભોગીલાલ તારાચંદ.
 સંસ્કૃત સ્યાદ્રાહ સુક્તાવલી. } અમદાવાદ રાશીવાડાનીપોળ.

૨૯ તત્ત્વખિંડુ (યાને સંક્ષિપ્ત) } જૈન ઝોડીંગ
 સિદ્ધાંત રતન. } નાગોરીશરાહ અમદાવાદ.

૩૦ ચેતનશક્તિ ગ્રંથ-(ભજન સંગ્રહ ત્રીજા ભાગમાં)

૩૧ વર્તમાનકાલ સુધાર્થ:- (ભ. ત્રીજા ભાગમાં)

૩૨ પરમબ્રહ્મ નિરાકરણ-(ભજન સં. ૪ ચોથામાં)

૩૩ અધ્યાત્મ વચનામૃત ગ્રંથ (ભજન સંગ્રહ ભાગ ચોથો)

નહીં છપાવેલા ગ્રંથોની યાદી.

૩૪ તત્ત્વ પરીક્ષા વિચાર

૩૫ ધ્યાન વિચાર

૩૬ સુખસાગર

૩૭ ગુરુમાહાત્મ્ય.

૩૮ શ્રીમંત સરકારગાયકવાડ સયાજીરાવની આગળ આપેલું ભાષણ

૩૯ પત્ર સદુપદેશ.

